

REPORT

ON A SEARCH FOR

SANSKRIT AND TAMIL MANUSCRIPTS

FOR THE YEAR

1893-94.

BY

M. SESHAGIRI SASTRI, M.A.,

CURATOR, GOVERNMENT ORIENTAL MSS. LIBRARY, AND PROFESSOR OF SANSKRIT AND
COMPARATIVE PHILOLOGY, PRESIDENCY COLLEGE, ETC., ETC.

PREPARED UNDER THE ORDERS OF THE GOVT. OF MADRAS.


No. 2.

MADRAS:

PRINTED BY THE SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PRESS.


1899.

6605
S3 S4
V.2



CONTENTS.

	PAGE
Preface	v
List of manuscripts acquired in 1893-94, arranged according to subject-matter	vii
Notices of Sanskrit Manuscripts	1
Notices of Tamil Manuscripts	104
Extracts from Sanskrit Manuscripts	141
Extracts from Tamil Manuscripts	263
Notes	335
Index	227



P R E F A C E.

I BEGAN to prepare this volume in 1894 and intended to include in it notices of the manuscripts which were rare and important among those collected in the course of the three years, 1893-94, 1894-95 and 1895-96 and any new facts discovered or taken from the Reports of others. But in accordance with a Government order which called upon me to bring out a catalogue of this kind every year, the book was brought to a close; and the Report for the year 1896-97, though prepared later, was printed as the first volume of the series. The printing of this book was undertaken after the first volume was brought out of the press; and the book is, therefore, designated second volume.

As I had to prepare and publish a Report of this kind every year for the manuscripts collected during that year, the preparation and printing of this book were hastened in the same way as was the case with the first volume. I have, therefore, to crave the indulgence of the readers for the errors which may be found in this book. I have to apologize also for the bulkiness of the book, which might be avoided by a careful and leisurely revision, and which, however, I was tempted not to interfere with in view of the useful matters contained in the book.

For the description of the Manuscripts noticed in the Report see the list which follows the preface.

M. S.

August 1899.



LIST OF MANUSCRIPTS ACQUIRED IN 1898-94, ARRANGED ACCORDING TO SUBJECT-MATTER.

SANSKRIT MANUSCRIPTS ACQUIRED.

vii

No.	Name of the manuscript.	Name of the Author.	Substance.	Character.	Pages.	Lines.	Remarks.
I.—SANSKRIT.							
i.—VEDAS.							
(a) <i>Samhitā</i> .							
1	Ēkāznikāṇḍavyākhyā	Haradatta	Kadjan	Grantha	64	10	Much injured.
2	Namakabhāṣyam	Bhaṭṭabhāskara	Do.	Do.	62	8	Complete, good order.
3	Yajussamhitā	Do.	Do.	200	8	6th and 7th Kapṭhas only.
4	Yajussamhitābhāṣyam	Bhaṭṭabhāskara	Paper	Grantha	477.	20	Complete.
5	Prathamakāṇḍam	Do.	Do.	Do.	215	20	Do.
6	Pañcamakāṇḍam	Do.	Do.	Do.	208	20	Do.
7	Ṣaṣṭhakāṇḍam	Do.	Kadjan	Do.	200	2	Complete, injured.
8	Saptamakāṇḍam	Do.	Paper	Do.	210	20	13 Anuvākas of the 5th Prasna.
(b) <i>Brāhmaṇa</i> .							
9	Kṛṣṇayajurvedabrāhmaṇam	Kadjan	Telugu	52	5	Incomplete, injured.
10	Prathamāṣṭakam	Do.	Grantha	200	7	Wanting beginning and end.
11	Do.	Do.	Do.	158	6	Complete, good order.

List of Manuscripts acquired in 1893-94, arranged according to subject-matter—continued.

No.	Name of the manuscript.	Name of the Author.	Substance.	Character.	Pages.	Lines.	Remarks.
12	Atharvasikhōpaniṣad	Kādjan ..	Telugu ..	2	6	Complete, good order.
13	Atharvasira Upaniṣad	Do. ..	Do. ..	8	6	Complete, good order, 3 copies.
14	Amṛtabindūpaniṣad	Do. ..	Grantha ..	2	6	Do. do.
15	Amṛtōpaniṣad	Do. ..	Do. ..	6	6	Do. do.
16	Ātma-bōdhōpaniṣad	Do. ..	Telugu ..	12	6	Do. do.
17	Ārunikōpaniṣad	Do. ..	Grantha ..	2	6	Do. do.
18	Īśāvāsyoṣpaniṣad	Do. ..	Telugu ..	2	6	Do. do. 2 copies.
19	Īśāvāsyoṣpaniṣadbhāṣyam	Śāṅkarācārya ..	Do. ..	Grantha ..	14	8	Do. do.
20	Āitarēyoṣpaniṣadbhāṣyam	Do. ..	Do. ..	Telugu ..	116	6	Incomplete.
21	Kāṭhavallyupaniṣad	Do. ..	Do. ..	14	6	Complete, good order.
22	Kāṭhavallyupaniṣadbhāṣyam.	Śāṅkarācārya ..	Do. ..	Grantha ..	50	8	Do. do.
23	Kāṭhāgnirudrōpaniṣad	Do. ..	Do. ..	2	7	Do. do. 2 copies.
24	Kēnōpaniṣad	Do. ..	Do. ..	3	7	Do. do.
25	Kēnōpāniṣadbhāṣyam	Śāṅkarācārya ..	Do. ..	Do. ..	48	8	Do. do.

i.—VEDAS—cont.

(c) Upaniṣad.

26	Kaivalyōpaniṣad	Do. ..	Telugu ..	2	6	Do. do. 2 copies.
27	Kṣurikōpaniṣad	Do. ..	Do. ..	2	6	Do. do.
28	Ganapatyōpaniṣad	Do. ..	Do. ..	2	13	Do. do.
29	Garuḍōpaniṣad	Do. ..	Grantha ..	2	6	Do. do.
30	Garbhōpaniṣad	Do. ..	Telugu ..	2	6	Do. do.
31	Chāndōgyōpaniṣad	Do. ..	Do. ..	54	6	Complete, injured.
32	Chāndōgyōpaniṣadbhāṣyam. Śaṅkarācārya	Do. ..	Do. ..	202	7	Complete, good order.
33	Do.	Do. ..	Grantha ..	72	6	Incomplete, good order.
34	Jābālōpaniṣad	Do. ..	Telugu ..	60	10
35	Taittirīyōpaniṣadbhāṣyam. Śaṅkarācārya	Do. ..	Grantha ..	44	10	Incomplete, injured.
36	Do.	Do. ..	Telugu ..	60	10
37	Nācikētōpaniṣad	Do. ..	Grantha ..	20	8
38	Nārāyaṇōpaniṣad	Do. ..	Telugu ..	2	6	Complete, good order.
39	Paramahamsōpaniṣad	Do. ..	Do. ..	2	6	Do. do.
40	Prasūōpaniṣad	Do. ..	Do. ..	10	7	Do. do.
41	Prasūōpaniṣadbhāṣyam. Śaṅkarācārya	Do. ..	Grantha ..	32	9	2 copies.
42	Bṛhadāranyōpaniṣad	Do. ..	Telugu ..	18	6	6 adhyāyas complete, much injured.
43	Brahmōpaniṣad	Do. ..	Do. ..	2	6	Complete, injured.
44	Bhāvanōpaniṣad	Do. ..	Grantha ..	8	11	Complete, good order
45	Bhikṣūpaniṣad	Do. ..	Do. ..	1	6	Do. do.
46	Māṇḍūkyaōpaniṣad	Do. ..	Do. ..	4	6	Do. do. 2 copies.

X

SANSKRIT MANUSCRIPTS ACQUIRED.

List of Manuscripts acquired in 1893-94, arranged according to subject-matter — continued.

No.	Name of the manuscript.	Name of the Author.	Substance.	Character.	Pages.	Lines.	Remarks.
i.—VEDAS—cont.							
(c) Upaniṣad—cont.							
47	Māṇḍūkyaṅgīrasādhāśyaṃ.	Śaṅkarācārya...	Kadjan ..	Grantha ..	30	9	Complete, good order.
48	Muṇḍakōpaniṣad	Do. ..	Telugu ..	8	6	Do. do.
49	Rahasyōpaniṣad	Do. ..	Do. ..	6	6	Do. do.
50	Rāmōttarātāpīnī	Do. ..	Grantha ..	20	7	Do. do.
51	Vāsudēvōpaniṣad	Do. ..	Telugu ..	2	6	Do. do.
52	Śār-kōpaniṣad	Do. ..	Do. ..	2	7	Do. do.
53	Svētāśvatarōpaniṣad	Do. ..	Do. ..	8	6	Do. do.
54	Sarvasā-ōpaniṣad	Do. ..	Do. ..	2	6	Do. do.
55	Skāṇḍōpaniṣad	Do. ..	Do. ..	2	6	Do. do.
56	Hamsōpaniṣad	Do. ..	Do. ..	1	6	Do. do.
(d) Śrautasūtra.							
57	Ādhānaprayōgagrāh	Kadjan ..	Telugu ..	14	11	Complete, good order.
58	Āpastambopavarabhāṣyam	Kapardisvāmin	Paper ..	Telugu ..	80	9	Complete.
59	Dhūrtaśvāmibhāṣyavṛttih..	Kauṣikārāma ..	Do. ..	Do. ..	176	20	Incomplete.
60	Yājñikaśarvasvam ..	Ahōbīlasūri ..	Kadjan ..	Grantha ..	226	9	Up to Darśapūrṇa, complete.

61	Śrautasūtram (Agniśtoma- paśubandhaḥ).	Do. ..	Do.	..	242	8	Good order.	
62	Sōmaprayōgaḥ	Do. ..	Do.	..	240	6	Complete, good order.	
(e) <i>Gr̥hasūtra</i> .									
63	Kapardikārikā	Kapardisvāmin	..	Paper	..	80	9	Complete.	
64	Gr̥hyatāparyadaśanam ..	Sudarsanācārya	..	Kadjan	..	140	10	Injured.	
65	Jaiminisūtravākhyā ..	Śrinivāsādihvari	..	Paper	..	100	20	Complete.	
66	Bōdhāyanaśūtram	Bōdhāyana	..	Do.	..	54	40	In good order.	
67	Vaikhānasasūtram	Vaikhānasa	..	Do.	..	281	12	Complete.	
(r) <i>Dharmasūtra</i> .									
68	Ujjvalā (Āpastambadharmavākhyā).	Haradatta	240	8	Injured, no beginning and end.	
69	Gautamadharmah	Gautama	20	7	Incomplete, good order.	
70	Vaikhānasadharmaprasnāḥ.	Vaikhānasa	19	13	Complete.	
ii.—GRAMMAR.									
71	Amōghavṛttih	Śrutakōvalidēśiyācārya	..	Paper	..	270	20	Latter part incomplete.	
72	Ākhyātacandrikā	Bhaṭṭamalla	108	21	Complete.	

List of Manuscripts acquired in 1893-94, arranged according to subject-matter—continued.

No.	Name of the manuscript.	Name of the Author.	Substance.	Character.	Pages.	Lines.	Remarks.
ii.—GRAMMAR—cont.							
73	Āndhraśabdacintāmaṇi- vyākhyānam.	Kadjan ..	Telugu ..	66	6	Good order, incom- plete.
74	Tattvabōdhinī	Jñānēndrasarasvatī ..	Do. ..	Grantha ..	116	9	Incomplete.
75	Padamanjarī	Haradatta	Paper ..	Telugu ..	460	20	Up to second pada of second adhyāya.
76	Paribhāṣārthasaṅgrahaḥ ..	Vaidyanātha	Kadjan ..	Grantha ..	28	8	Incomplete.
77	Śabdēndusēkharah	Nāgēsabhaṭṭa	Do. ..	Telugu ..	64	7	Kāraka only.
78	Samāsvyrtih	Do. ..	Grantha ..	6	7	Incomplete, injured.
79	Siddhāntakaumudī	Bhaṭṭōjīdikṣita	Do. ..	Do. ..	294	8	Incomplete, 3 copies.
iii.—LEXICON.							
80	Abhidhānaratnamālā ..	Halāyudha	Kadjan ..	Telugu ..	84	12	Complete, good order.
81	Amarakōśavyākhyā (Guru- bālaprabōdhikā).	Do. ..	Do. ..	200	7	Incomplete, injured.
82	Amarakōśavyākhyā (Tika- sarvasvam).	Sarvānanda	Do. ..	Grantha ..	244	9	Incomplete, good order.
83	Do. do. ..	Do.	Do. ..	Telugu ..	70	7	Do. do.

84	Do. (Lingā- bhāṭṭiyam).	Lingābhāṭṭa ..	Do. ..	Do. ..	132	7	3rd kanda only.
85	Trikaṇḍasēṣaḥ ..	Puruṣōttama ..	Do. ..	Do. ..	18	6	Do.
86	Nānārtiharatanamālā ..	Iṛugapadaṇḍādhinātha ..	Do. ..	Do. ..	20	6	Incomplete.
87	Nāmalingānūsāsanam ..	Amarasīnha ..	Do. ..	Grantha ..	128	5	Complete, good order.
88	Nāmalingānūsāsanam (with Telugu notes).	Do. ..	Do. ..	Do. ..	112	7	Second kanda only.
89	Mēdinīkōśaḥ ..	Mēdinīkura ..	Do. ..	Telugu ..	52	7	Incomplete, injured.
90	Vīśvaprakāśaḥ ..	Maḥēśvarakavi ..	Do. ..	Grantha ..	215	11	Complete, good order.
91	Śābdaabhēdaprakāśaḥ ..	Śrīharaṣa ..	Paper ..	Telugu ..	17	16	Injured, complete.
92	Śōṣanaram	Do. ..	Dēvanāgarī.	30	20	Complete.

iv.—KĀVYA.

(a) Poetry.

93	Anarukavyākhyā (Śrīgā- radīpikā).	Vēnabhūpāla ..	Kadjan ..	Grantha ..	100	9	Complete, injured.
94	K apphanābhūdayaḥ ..	Kāśmīrabhāṭṭasīvasvā- mib.	Paper ..	Telugu ..	58	7	Complete.
95	Kumārasambhāvavyākhyā.	Mallinātha ..	Kadjan ..	Grantha ..	116	7	5 to 8 sargas, com-
96	Kṛṣṇakarmānṛtam ..	Līlāsuka ..	} Do. ..	Telugu ..	128	5	One śataka only.
97	Kṛṣṇakarmānṛtavākhyā- nam.	Pāpayallayasūri ..		Grantha ..	30	7	Incomplete, good order.
98	Gītagōvīndam ..	Jayadēva ..	Do. ..	Grantha ..	30	7	Incomplete, good order.

List of Manuscripts acquired in 1893-94, arranged according to subject-matter—continued.

No.	Name of the manuscript.	Name of the Author.	Substance.	Character.	Pages.	Lines.	Remarks.
99	Gītagōvīndavyākhyā (Śruti-rañjanī).	Lakṣmīdhara ..	Kadjan ..	Telugu ..	264	7	Good order, 10 sargas, 2 copies.
100	Cātusīlokaḥ..	Do. ..	Do. ..	1	7	Injured.
101	Nalodayavivaraṇam	Do. ..	Grantha ..	96	8	Complete, good order.
102	Nārāyaṇīyam	Nārāyaṇakavi	Do. ..	Malayālam.	209	8	Do. do.
103	Naiṣadhavyākhyā ..	Mallinātha ..	Do. ..	Grantha ..	120	9	Incomplete, injured.
104	Bilhanīyam	Bilhana ..	Do. ..	Telugu ..	20	7	Complete, good order.
105	Bhartṛhariḥ (Savyākhyā) ..	Bhartṛhari ..	Do. ..	Do. ..	52	7	Niśātaka only, good order.
106	Bhāravivvyākhyā	Do. ..	Do. ..	8	9	5th sarga only.
107	Māghavyākhyā (Sarvanka- ṣā).	Mallinātha ..	Do. ..	Grantha ..	265	7	1, 2, 4, 5, sargas.
108	Mēghasandēsavyākhyā (Saijvinī).	Do. ..	Do. ..	Telugu ..	85	6	Injured.
109	Vāsavadattā ..	Subandhukavi	Do. ..	Do. ..	37	9	Complete, good order.

iv.—KĀVYA.—cont.

(a) Poetry—cont.

(d) Campukāyā.

110	Campubhāratam	Anantabhāṭṭa	Kadjan	Grantha	48	6	Only the first 2 stabs. Only 3 stabs.
111	Campubhāratavākyāḥ (Sarasvatīlāsa).	Nṛsimhārya	Do.	Do.	136	8	Only 3 stabs.
112	Campurāṇāyanam	Bhōja and Lakṣmaṇa. Rāmacandraśūri	Do.	Do.	154	7	Complete, injured, 2 copies.
113	Campurāṇāyanavākyāḥ	Nīlakaṇṭhaviṇayaḥ	Do.	Telugu	102	13	Up to Aranyakāṇḍa. 4 stabs.
114	Nīlakaṇṭhaviṇayaḥ	Lakṣmaṇakavi	Do.	Grantha	90	8	Complete.
115	Lakṣmaṇacampuh	Do.	Telugu	48	6	Complete.

(e) Drama.

116	Anargharāghavam	Murārikavi	Kadjan	Grantha	146	9	Complete.
117	Anargharāghavavākyāḥ (Iśārthakulpatarū).	Rāmānandāśrama	Do.	Do.	358	8	Complete, good order.
118	Prabōdhucandrodayah	Kṛṣṇamīśra	Do.	Telugu	108	6	Do. do.
119	Prasannarāghavam	Jayadēva	Do.	Grantha	100	5	Incomplete, good order.
120	Mātaṁdhavavākyāḥ	Tripurāri	Do.	Do.	130	8	4 acts, good order, 2 copies.
121	Śakuntalam	Kālidāsa	Do.	Do.	160	7	Complete, good order.
122	Śakuntalam	Do.	} Do.	Telugu	114	7	Do. do.
123	Śakuntalavākyāḥ	Sūnivāsacārya					

List of Manuscripts acquired in 1893-94, arranged according to subject-matter—continued.

No.	Name of the manuscript.	Name of the Author.	Substance.	Character.	Pages.	Lines.	Remarks.
iv. — KĀVYA—cont.							
(d) Anthology.							
124	Subhāṣitasudhānidhiḥ ..	Sāyaṇācārya ..	Paper ..	Telugu ..	50	18	Defective.
v. — POETICS.							
125	Alaṅkāra-kaustubhaḥ (Savyākyah).	Subrahmaṇyaśūri ..	Kadjan ..	Grantha ..	122	8	Complete, good order.
126	Kavikalpalatā ..	Dēvēśvara ..	Do. ..	Telugu ..	94	7	Injured, incomplete.
127	Kuvalayānandah ..	Appayadrkṣita ..	Do. ..	Do. ..	92	8	Complete, good order.
128	Cītramīmāṃsā ..	Do. ..	Do. ..	Do. ..	118	8	Injured, incomplete.
129	Pratāparudriyam ..	Vidyānātha ..	Do. ..	Do. ..	190	6	Injured.
130	Śṅgāra-māñjarī ..	Ajitasēna ..	Paper ..	Telugu ..	28	16	Complete.
131	Sarasvatīkaṇṭhābharaṇam.	Bhōjarāja ..	Do. ..	Do. ..	59	28	Latter part.
vi. — DARŚANAS.							
(a) Pūrvamīmāṃsā or Vedic Theology.							
132	Jaiminiyanyāyamālāvistarah	Mādhavācārya ..	Kadjan ..	Grantha ..	27	8	Incomplete.
133	Bhāttadīpikā ..	Khaṇḍadēva ..	Do. ..	Telugu ..	14	8	Do.

134	Bhāṭṭarāhasyam	Do.	Do.	Do.	14	7	Do.
135	Sūtrādikāvyaśūkyā (Māyākhamaṅkā)	Sōmanātha	Do.	Do.	360	6	Good order; 4, 5, 6 adhyāyas complete.
136	Sēsvaramimānsā	Vēdāntadēśika	Paper	Telugu	73	38	Incomplete.

(b) *Uttaramimānsā or Vēdānta.*

137	Brahmasūtram	Vyāsa	Kadjan	Grantha	44	7	Complete, good order.
138	Bhagavadgītā	Do.	Do.	Do.	88	7	Do.

1. *ADVĀITAVĒDĀNTA.*

139	Advaitarasamañjarī	Nallapaṇḍita	Kadjan.	Grantha	21	7	Complete, good order.
140	Advaitasiddhivyākhyānam (Brahmānaudyam)	Brahmānanda	Do.	Telugu	150	8	Incomplete, good order.
141	Adhyārōpaprakaraṇaḥ	Do.	Grantha	16	7	Complete, good order.
142	Avadhūtagranthaḥ	Dattatṛya	Do.	Telugu	100	5	Injured.
143	Ātmaśōdhaḥ	Saṅkarācārya	Do.	Grantha	16	6	Incomplete, good order.
144	Uttaragītā	Do.	Do.	24	7	Complete, good order.
145	Uttaragītāvyaśūkyā	Gauḍapādācārya	Do.	Do.	28	14	Injured.
146	Kapilagītā	Kapila	Do.	Do.	42	8	Good order.

List of Manuscripts acquired in 1893-94, arranged according to subject-matter—continued.

No.	Name of the manuscript.	Name of the Author.	Substance.	Character.	Pages.	Lines.	Remarks.
1. ADVAITAVĒDĀNTA — cont.							
147	Gītābhāṣyaṭikā	Kadjan ..	Grantha ..	256	10	Good order, incomplete, 3 adhyāyas.
148	Citrādrīpavyākhyā (Tātparyabodhinī).	Rāmakṛṣṇadīkṣita ..	Do. ..	Do. ..	36	10	Incomplete.
149	Jñānavāsīṣṭha (Savyākhyānam).	Do. ..	Do. ..	176	13	Incomplete; only 44 sargas.
150	Jñānavāsīṣṭhasarasamuccayaḥ.	Do. ..	Do. ..	210	4	4 prakaraṇas, complete.
151	Daśāślōkī	Śaṅkarācārya ..	Do. ..	Do. ..	2	5	Complete, good order.
152	Pāncadaśaprakaranavyākhyā.	Rāmakṛṣṇadīkṣita ..	Do. ..	Do. ..	232	10	Incomplete, good order.
153	Brahmagūṭavyākhyā ..	Mādhavācārya ..	Do. ..	Do. ..	88	12	Incomplete.
154	Brahmasūtrabhāṣyam ..	Śaṅkarācārya ..	Do. ..	Do. ..	80	8	First pāda of the first adhyāya; much injured.
155	Bhagavadgūṭavyākhyā (Padayōjanā).	Rāmacandraṇanda-sarasvatī.	Do. ..	Telugu ..	384	7	Complete, good order, 2 copies.
156	Do. do.	Do.	Do. ..	Do. ..	216	7	Complete, injured.
157	Bhagavadgūṭā (with Kanarese notes).	Do. ..	Kanarese ..	748	5	Complete, good order.

158	Do. (with Telugu notes).	Do.	Telugu	400	7	Much injured.
159	Bhāskaraśūtraśāstravṛttī	Do.	Do.	335	20	Complete.
160	Do.	Paper	Do.	164	20	Do.
161	Bhōdadhikkārah	Kadjan	Dēvanāgarī Telugu	30	7	Incomplete, good order.
162	Bhōdadhikkārasatkriyā	Do.	Do.	138	7	Incomplete, injured.
163	Laukikanyāratnākaraḥ	Paper	Dēvanāgarī.	712	20	Incomplete.
164	Do.	Kadjan	Telugu	24	16	Incomplete.
165	Śārirakasūtrabhāṣyavyākhyā.	Do.	Do.	108	6	Do.
166	Siddhāntabinduḥ	Do.	Do.	22	10	Do.
167	Siddhāntalāsanaṅgrahaḥ	Do.	Do.	128	7	Complete, injured.
168	Sūtagtāvvyākhyā	Do.	Grantha	20	7	Incomplete, injured.
169	Svātmnaprakāśikā	Do.	Do.	9	7	Complete, good order.
170	Hastūmalakavyākhyā	Do.	Telugu	9	10	Incomplete.

2. VIŚIṢṬĀDVĀITA VĒDĀNTA.

171	Rāmānujasiddhāntavijayah.	Paper	Telugu	56	20	Incomplete.
172	Puruṣārtharatnākaraḥ	Kadjan	Grantha	408	9	Complete, good order.

3. ŚĪVĀDVĀITA VĒDĀNTA.

173	Śivajñānabōdhalaḥḥṛīkā.	Kadjan	Grantha	12	12	Complete, good order.
-----	-------------------------	--------	---------	----	----	-----------------------

List of Manuscripts acquired in 1893-94, arranged according to subject-matter — continued.

No.	Name of the manuscript.	Name of the Author.	Substance.	Character.	Pages.	Lines.	Remarks.
4. BHAKTI VĒDĀNTA.							
174	Śaṅḡilyasūtravyākhyā ..	Svapnēśvarācārya ..	Kadjan ..	Telugu ..	30	10	
		(c) <i>Sāṅkhyā.</i> (d) <i>Yōga.</i> (e) <i>Nyāya.</i>					
175	Nyāyasiddhāntamañjarī ..	Śrīkaṅṭha ..	Kadjan ..	Grantha ..	54	6	Incomplete, injured.
vii.—DHARMAŚĀSTRA. (a) <i>Smṛti.</i>							
176	Parāśarasmr̥tiḥ ..	Parāśara ..	Kadjan ..	Grantha ..	110	9	11 adhyāyas, complete.
177	Yājñavalkyasmṛtiḥ ..	Yājñavalkya ..	Do. ..	Do. ..	46	9	Incomplete, good order.
(b) <i>Nibandhana or Digests.</i>							
178	Vivāhānukūlyam	Kadjan ..	Grantha ..	12	7	Incomplete, good order.

(c) *Ahnika.*

179	Ahnikam	Kadjan ..	Grantha ..	10	7	Incomplete.
180	Ahnikasāgrahaḥ	Do. ..	Do. ..	92	8	Complete, injured.
181	Sandhyāvandanabhāṣyam.	Paper ..	Do. ..	33	18	Complete, good order.

(d) *Prayōga.*

182	Pūrvaprayōgaḥ	Kadjan ..	Grantha ..	30	8	Incomplete, good order, 2 copies.
183	Pūrvaprayōgasaraṇi	Do. ..	Telugu ..	52	5	Incomplete.
184	Śrāddhaprayōgaḥ	Do. ..	Grantha ..	18	6	Injured.

viii.—ASTROLOGY.

185	Aganītacārah	Kadjan ..	Telugu ..	18	8	Injured, incomplete
186	Kālamādahaviyam	Mādhavācārya ..	Do. ..	Do. ..	248	7
187	Jyauṣadarpāṇaḥ	Kaṇṭhalayallārya ..	Do. ..	Grantha ..	32	7	Incomplete, only Vāstuprakaraṇa.
188	Narapatijyacaryā	Kulapadmādityadēva.	Do. ..	Telugu ..	90	7	Injured, incomplete.
189	Nārādīyasaṁhitā	Nārada ..	Do. ..	Do. ..	170	7	Incomplete.
190	Bṛhājātakavyākhyā (Jagaccandrikā)	Bhaṭṭōtpala ..	Do. ..	Do. ..	280	7	Complete, good order.
191	Vārṣaphaṇī	Do. ..	Do. ..	14	6
192	Vāñchānāthiyam	Vāñchānātha ..	Do. ..	Do. ..	8	8	Incomplete.

List of Manuscripts acquired in 1893-94, arranged according to subject-matter—continued.

No.	Name of the manuscript.	Name of the Author.	Substance.	Character.	Pages.	Lines.	Remarks.
193	Kāmakalāsūtram ..	Puṇyānanda ..	Kaḍjan ..	Grantha ..	5	8	Complete, good order.
194	Čandrajñānāgamasaṅgrahaḥ.	Do. ..	Do. ..	100	12	Complete, good order; 2 copies.
195	Dvātrimśaddīksūkramah	Do. ..	Do. ..	34	11	Incomplete, good order.
196	Parānandanātram	Do. ..	Do. ..	102	8	Complete, slightly injured.
197	Parāniṣkalā	Do. ..	Do. ..	1	7	Complete, good order.
198	Punāscarāṇaprayōgaḥ	Do. ..	Do. ..	20	0	Injured, incomplete.
199	Bahirmātrkā	Do. ..	Do. ..	1	9	Complete, good order.
200	Mudrāprakaraṇam	Do. ..	Do. ..	22	5	Do. do.
201	Mēdhādīksāprakaraṇam (Jñānārṇavaḥ).	Do. ..	Do. ..	14	6	Do. do.
202	Yōgapīṭhanyāsaḥ	Do. ..	Do. ..	4	7	Do. do.
203	Śāktayōgaḥ	Do. ..	Do. ..	1	7	Do. do.
204	Sisyalakṣaṇam	Do. ..	Do. ..	6	9	Do. do.
205	Śōḍhānyāsaḥ	Do. ..	Do. ..	25	7	Do. do.

ix (a).—ĀGAMA AND TANTRA.

206	Siddhāntasāraṅgaliḥ	..	Trilōcanaśivācārya	..	Paper	Grantha	460	20	Incomplete.
207	Siddhārikōṣṭhāprakārah	Kadjan	Do.	6	8	Complete, good order.
208	Subhagōdayaḥ	..	Gauḍapādācārya	..	Paper	Telugu	11	20	Do. do.
(b) Mantra.									
209	Ajapāgāyatrī	Kadjan	Grantha	20	8	Complete; good order.
210	Ajapāvidhiḥ	Do.	Do.	2	7	Do. do.
211	Gāyātrīkavacaḥ	Do.	Do.	6	4	Do. do.
212	Gāyātrīhṛdayam	Do.	Do.	18	11	Do. do.
213	Gītāsārah	Do.	Grantha and Telugu.	18	11	Do. do.
214	Caṅḍikāhṛdayam	Do.	Grantha	1	10	Do. do.
215	Tripurasundarikavacaḥ	Do.	Do.	12	11	Do. do.
216	Dūtiyajananamantraḥ	Do.	Do.	66	6	Do. do.
217	Dēvikavacaḥ	Do.	Do.	5	10	Do. do.
218	Dēvidalam	Do.	Do.	2	9	Do. do.
219	Dēvidhyānam	Do.	Do.	2	10	Do. do.
220	Dēvinyāsaḥ	Do.	Do.	1	9	Do. do.
221	Navagrahaḥ	Do.	Do.	9	8	Do. do.
222	Prapañcasūrasaṅgrahaḥ	..	Gīrvāṇendra	..	Do.	Do.	180	9	Good order, incomplete.
223	Prayōgaratnākaraḥ	Paper	Telugu	10	20	2nd and 3rd paṭalas, complete.
224	Balakavacaḥ	Kadjan	Kanarese	10	5	Complete, good order.

List of Manuscripts acquired in 1893-94, arranged according to subject-matter—continued.

No.	Name of the manuscript.	Name of the Author.	Substance.	Character.	Pages.	Lines.	Remarks.
225	Bālaparamēśvarīmālā- mantraḥ	Kadjan ..	Grantha ..	5	5	Complete, good order.
226	Mantrayōgaḥ	Do. ..	Do. ..	1	7	Do. do.
227	Mantrāvalī	Do. ..	Do. ..	66	8	Do. do.
228	Mahāvākya mahāmantraḥ	Do. ..	Do. ..	8	9	Do. do.
229	Mahāsōdhanīyasaḥ	Do. ..	Do. ..	23	7	Do. do.
230	Rāmakaṇṭhakaḥ	Do. ..	Do. ..	2	5	Do. do.
(b) Mantra—cont.							
I (a)—STÖTRA.							
231	Annapūrnāstavaḥ	Kadjan ..	Grantha ..	2	7	Complete, good order.
232	Annabhīrikāstavaḥ	Do. ..	Do. ..	1	4	Do. do.
233	Aparādhadasakam..	Śaṅkaraśārya..	Do. ..	Telugu ..	3	7	Complete, injured.
234	Argalāstavaḥ	Do. ..	Grantha ..	2	10	Complete, good order.
235	Āmnāyastōtram	Paper ..	Telugu ..	4	20	Do. do.
236	Kūlakastōtram	Kadjan ..	Grantha ..	1	10	Do. do.
237	Gurvasṭakam	Paper ..	Do. ..	1	20	Do. do.
238	Gopikāgītā	Kadjan ..	Do. ..	6	6	Do. do.

239	Odambaranatanam	..	Do.	..	3	7	Do.	do.
240	Tripurasundarisahasra- nāma.	..	Do.	..	37	7	Do.	do.
241	Dēvināma	Do.	..	1	9	Do.	do.
242	Dēvipañcavināsināma	..	Do.	..	1	6	Do.	do.
243	Dēvistōtram	..	Do.	..	3	11	Do.	do.
244	Navaratnamālā	Do.	..	2	7	Do.	do.
245	Nirvāṇadāsakam	Do.	..	2	6	Do.	do.
246	Nṛsinhadāsakam	Do.	..	2	7	Do.	do.
247	Paradēvatīstōtram	..	Do.	..	2	7	Do.	do.
248	Puṣpavīṇījahīstōtram	..	Do.	..	6	7	Do.	do.
249	Prāsaṣtōtram	..	Do.	..	1	7	Do.	do.
250	Bālātripurasundarīśahas- ranāma.	..	Do.	..	50	6	Do.	do.]
251	Bālāṣṭakam	..	Do.	..	4	5	Do.	do.
252	Bālāstōttarasatanāma	..	Do.	..	9	5	Do.	do.
253	Bālāstavarañjah	..	Do.	..	22	5	Do.	do.
254	Bālāhṛdayam	..	Do.	..	8	5	Do.	do.
255	Bhavanībhujaṅgaḥ	..	Do.	..	2	6	Do.	do.
256	Makarandaśavah	..	Do.	..	8	7	Do.	do.
257	Maniṣāpañcakam	..	Do.	..	2	7	Do.	do.
258	Rajasvalāstōtram	..	Do.	..	5	6	Do.	do.
259	Rāmasahasranāma..	..	Do.	..	16	4	Do.	do.
260	Lalitātrisatī	..	Do.	..	6	10	Do.	do.
261	Lalitāsahasranāma	..	Do.	..	24	0	Do.	do.
262	Śankarāstōttarasatanāma	..	Paper	..	6	15	Do.	do.
263	Sivabhujaṅgastōtram	..	Do.	..	4	6	Complete.	Complete,
264	Sivastōtram..	..	Kadjan	..	10	6	order.	good

List of Manuscripts acquired in 1893-94, arranged according to subject-matter—continued.

No.	Name of the manuscript.	Name of the Author.	Substance.	Character.	Pages.	Lines.	Remarks.
x (a)—STÖTRA—cont.							
265	Śivānandalaharī ..	Śaṅkarācārya ..	Kaḍjan ..	Grantha ..	15	7	Complete, good order.
266	Saṭpadi ..	Do. ..	Do. ..	Telugu ..	1	10	Do. do.
267	Sānbaśivastōtram	Do. ..	Grantha ..	1	7	Do. do.
268	Sundarēśvarastuṭiḥ ..	Paṭāñjali ..	Do. ..	Telugu ..	3	7	Injured.
269	Subrahmaṇyaabhujāṅgaḥ ..	Śaṅkarācārya ..	Do. ..	Grantha ..	12	6	Complete, good order.
270	Saundaryalaharī ..	Do. ..	Do. ..	Do. ..	36	10	Do. do.
271	Saundaryalaharivyākhyā ..	Lakṣmīdhara ..	Do. ..	Telugu ..	30	9	Good order, incomplete.
(b) Pūja.							
272	Gurumānasapūjā	Kaḍjān ..	Grantha ..	3	7	Complete, good order.
273	Pūjāvīdhānam	Do. ..	Do. ..	2	6	Do. do.
274	Śivayōgaprakāśikā	Do. ..	Do. ..	30	6	Complete, injured.
275	Śivārcanacandrikā ..	Śrīnivāsa ..	Do. ..	Do. ..	128	8	Injured.
276	Śivārcanaśīrōmaniḥ ..	Brahmaṇandanātha ..	Do. ..	Do. ..	346	8	20 ullāsas, imperfect.
277	Śālagrāmalakṣaṇam	Do. ..	Telugu ..	28	8	Good order, incomplete.
278	Sūryanamaskāravidhiḥ	Do. ..	Grantha ..	6	8	Complete, good order.
279	Svātmamānasikapūjā ..	Śaṅkarācārya ..	Do. ..	Do. ..	4	5	Do. do.

xi.—ITIHĀSA.

		Vālmīki	Paper Kādjan	Dēvanāgarī. Grantha	1,220 600	8 8	Complete, good order Complete.
280	Adhyātmarāmāyana	1,220	8	Complete, good order
281	Aranya Kiṣkindhā Yudha- kāṇḍāḥ.	600	8	Complete.
282	Rāmāyaṇa.	Do.	Do.	Do.	850	8	Complete, good order.
283	Uttarakāṇḍāḥ	Do.	Do.	Do.	187	9	Complete, 6 kāṇḍas, injured.
284	Rāmāyaṇavyākhyā (Rāma- nujya.	Do.	Do.	56	10	Complete.
	Aranyakōṇḍavyākhyā (Kataka).	Do.	Do.	56	10	Complete.

xii.—PURĀNA.

		Vyāsa	Kādjan	Grantha	272 74 372 400 116	10 6 10 9 10	Complete, good order. Incomplete, injured. 1 to 5 skandhas. 6 to 8 skandhas. 10th skandha incom- plete, 39 adhyayas. 21 adhyayas of the 10th skandha com- plete.
285	Tulākāvērīmāhātmyam	Grantha	272	10	Complete, good order.
286	Brahmōtitarakhaṇḍah	Do.	Do.	Do.	74	6	Incomplete, injured.
287	Bhāgavatam	Do.	Do.	Do.	372	10	1 to 5 skandhas.
288	Do.	Do.	Do.	Do.	400	9	6 to 8 skandhas.
289	Do.	Do.	Do.	Do.	116	10	10th skandha incom- plete, 39 adhyayas.
290	Bhāgavatam (Savyākha- yanam).	Do.	Do.	Do.	230	16	21 adhyayas of the 10th skandha com- plete.
291	Bhāgavatavyākhyā (Bhāvārthadīpikā).	Srīdharasvāmin	Do.	Do.	400	10	First 11 skandhas complete, much injured.
292	Māghanāhātmyam	Vyāsa	Do.	Do.	150	8	22 adhyayas, good order.

List of Manuscripts acquired in 1893-94, arranged according to subject-matter—continued.

No.	Name of the manuscript.	Name of the Author.	Substance.	Character.	Pages.	Lines.	Remarks.
xii.—PURĀṆA—cont.							
293	Lalitpākhyanam	Vyāsa	Kadjan ..	Grantha ..	242	7	Incomplete, good order.
294	Saptasatī (Dēvimāhātmyam)	Do. ..	Do. ..	Do.	54	9	16 adhyāyas.
295	Sētumāhātmyam (Skāndam)	Do. ..	Do. ..	Telugu ..	354	6	36 adhyāyas.
296	Do.	Jaimini ..	Do. ..	Grantha ..	38	7	4 adhyāyas complete.
297	Sōmavāravratamāhātmyam.	Vyāsa ..	Do. ..	Do.	20	8	19th and 20th adhyāyas.
298	Saurasamhitā	Do. ..	Do. ..	Dēvanāgarī	66	10	Complete, 13 adhyāyas.
299	Haridrānadīprasamsā (Skāndam).	Do. ..	Do. ..	Grantha ..	20	7	Incomplete.
xiii.—VRATAKALPA.							
xiv.—(a) CARITRA.							
300	Śankaravijayah	Anantānandagiri ..	Kadjan ..	Telugu ..	8	13	Incomplete.
301	Śankarācāryacaritam ..	Gōvindanātha ..	Do. ..	Grantha ..	60	7	8 adhyāyas complete, injured.
302	Śrīngagiri guruparamparā	Paper ..	Do. ..	16	20	Complete (Advaita.)

(b) STORY.

303	Śukasaptatikathā	Kadjan ..	Telugu ..	274	10	Complete, good order.
xv.—MUSIC.							
304	Abhinayadarpanah ..	Nandikēśvara ..	Kadjan ..	Telugu ..	58	6	Complete, good order.
xvi.—KĀMASĀSTRA.							
305	Vātsyāyanasūtram ..	Vātsyāyana ..	Kadjan ..	Telugu ..	14	7	
xvii.—MEDICINE.							
306	Cāruccaryā ..	Bhōjarāju ..	Kadjan ..	Grantha ..	52	7	Complete, injured.
II.—TAMIL.							
i.—GRAMMAR.							
1	Tolgāppiyam ..	Tolgāppiyar ..	Paper ..	Tamil ..	508	21	Etymology complete.
2	Do. Kāṇḍigaiyurai ..	Naccinārkkiniyar ..	} Do. ..	Do. ..	280	25	Incomplete.
3	Do. Virutthiyurai ..	Kallaḍar ..					

List of Manuscripts acquired in 1893-94, arranged according to subject-matter—continued.

No.	Name of the manuscript.	Name of the Author.	Substance.	Character.	Pages.	Lines.	Remarks.
ii.—LEXICON.							
4	Piṅgalandai	Piṅgalandar	Paper ..	Tamil ..	152	32	Complete.
iii.—PROSODY.							
5	Yāpparuṅgalaccūtiravirutti.	Amṛtasāgaran	Paper ..	Tamil ..	102	32	Incomplete.
iv.—POETRY.							
6	Aganānūru	Many authors ..	Paper ..	Tamil ..	251	25	Complete.
7	Aranericcāraṇu	Mūnaippāḍiyār ..	Do. ..	Do. ..	46	20	Do.
8	Innānārpadu (with commentary).	Kapiladēvar	Do. ..	Do. ..	41	9	Do.
9	Aingurunūru	Many authors ..	Do. ..	Do. ..	71	18	Incomplete.
10	Aindināiyēḷupadu	Mūvadiyār	Do. ..	Do. ..	11	38	Complete.
11	Kallāḍam	Kallāḍar	Do. ..	Do.
12	Do. commentary	Mayilērumperumāḷ-pillai	Do. ..	Do. ..	340	16	Incomplete.

		Madurai-kannāṅgūt- tanār.	Do. ..	Do. ..	40	8	Complete.
13	Kārnāpadu (with com- mentary).		Do. ..	Do.	Complete.
14	Kuṇḍāṅgai ..	Many authors	Do. ..	Do. ..	100	36	Do.
15	Silappadikāram ..	Ilāṅgōvaḍigai	Kadjan ..	Do. ..	360	9	Incomplete.
16	Do. Viruttiyurai ..	Adiyārku-nallār
17	Do. Arumpadavurai	Kadjan ..	Tamil ..	130	6	Complete
18	Tinainālaiṅṅrainbadu ..	Kaṇimēdvaiyar	Paper ..	Do. ..	8	20	Incomplete.
19	Tinainoḷiyaimbadu ..	Kaṇṇāṅḍandanār	Do. ..	Do. ..	25	20	Do.
20	Nārīṇai	Do. ..	Do. ..	91	10	Incomplete.
21	Paḷamoli (with comment- ary).	Mūṅṅurayar ..	Do. ..	Do. ..	400	24	Complete.
22	Māvarulā	Do. ..	Do. ..	17	20	Incomplete.


III.—TELUGU.

i.—KĀVYA.

1	Kṛṣṇābhūdayamu ..	Subbarāya ..	Paper ..	Telugu ..	96	17	Complete.
2	Rātāraḷiparīṇayamu ..	Vēṅkatarāya ..	Do. ..	Do. ..	110	9	Do.

ii.—PURĀṆA.

3	Bṛhannārādayamu ..	Mṛtyuṅḷayakavi ..	Paper ..	Telugu ..	192	20	Incomplete.
---	--------------------	-------------------	----------	-----------	-----	----	-------------



NOTICES OF SANSKRIT MANUSCRIPTS.

1893-94.

CLASS I (a).—VĒDAS (SAMHITAS).

1. तैत्तिरीयसंहिता—भट्टभास्करभाष्यसंहिता.

Taittirīyasamhitā with the commentary of Bhaṭṭabhāskara.

THIS is a commentary on the Black Yajur Vēda written by Bhaṭṭabhāskara prior to that written by Vidyāranya in the fourteenth century A.C. He is also called Kauśika Bhaṭṭabhāskara Miśra. Bhaṭṭabhāskara writes a long preface in which he speaks of the necessity of studying the Vēda with its meaning. Mere recitation of the mantra is useless, as it does not enable a person to know what he ought to do. A person who reads the Vēdas without knowing the meaning is a carrier of burden; but if he knows the meaning, he obtains all benefit and, having been freed from his sins, goes to heaven. Mantras recited with the knowledge of their meanings become more efficacious and useful. A person who studies the meaning of the Vēdas and performs the ceremonies prescribed in them with the knowledge of the texts, obtains the fruit of the ceremonies. But every person is not allowed to study the Vēdas, but only those who are acquainted with the Itihāsas and Purānas.

Every hymn has a Ṛṣi, a Chandas, a Dēvata and a Brāhmaṇa; the Ṛṣi is the person who sees the Mantras; the Chandas is the metre or a particular combination of letters; the Devata is the deity to whom the mantra refers; and the Brāhmaṇa is the passage in which the application of the mantra is given. There is one Supreme Being only, who is contemplated as different deities, such as Agni, Sūrya, Vāyu; and the deities presiding over the earth,

the sky, and the heaven are his manifestations. This view, though not original, is the result of the pantheism into which the ancient polytheistic creed of the Vēdas culminated at an advanced stage of the intellect of the Brahmans and other classes of the Āryans who had the privilege of studying the Vēdas.

The Black Yajur Vēda text is divided with regard to the subject-matter into three kinds—Vidhi 'prescription,' Arthavāda 'eulogium' and Mantra 'hymn.' It is again divided by the nature of the arrangement of the letters into Ṛk 'verse' and Yajus 'prose.'

The Black Yajur Vēda was in a different form originally and, in the present redaction, the arrangement of the kāṇḍas is not according to the authors. In spite of this circumstance, the text is to be studied as it is, for it was the text which the goddess of speech adopted and taught to her son named Sārasvata and which the latter who was acquainted with all kinds of learning, followed. The holy Vyāsa divided the Vēdas which were not arranged into different Śākhās, and appointed Vaiśampāyana as the lord of the Black Yajus. He communicated this text to Yaska; he, to Tittiri*; he, to Ukha; and he, to Ātrēya. Ātrēya prepared the pada text of the Black Yajus. This Yajus Śākhā is therefore designated Ātrēya Śākhā.

Bhaṭṭabhāskara mentions the names of the various Ṛṣis † who composed the black Yajur Vēda and are called Kāṇḍarṣis such as Prajāpati, Sōma, Agni, Viśvē Dēvas, Sāmhita Upaniṣads, Yājñika Upaniṣads and Vāruṇa Upaniṣads, Havyavāha, Svayambhu Brahma. Tarpaṇas, 'offerings of water,' and hōmas, 'throwing fuel, rice cakes and the like into the fire' are made to honor them;

* This Tittiri must have been a teacher of the Black Yajur Vēda; and the epithet of Taittiriya applied to it must be derived from the name of the teacher and has no connection with the Tittiri birds. The story of the birds eating the Yajur Vēda vomited by Yajñavalkya must be a pure fiction.

† Their names are given in the following mantras repeated at the Śrāvana ceremony :—

प्रजापति काण्डकृषिं तर्पयामि ॥ सोमं काण्डकृषिं तर्पयामि ॥ अग्निं काण्डकृषिं तर्पयामि ॥ विश्वान्देवान् काण्डकृषिन् तर्पयामि * * * * ॥

and their names are thus preserved. With regard to the fifth, sixth and seventh R̥sis, I have to observe the so-called names are not the names of the R̥sis who composed the Upaniṣads, but the Upaniṣads themselves. Perhaps the Upaniṣads were composed by certain R̥sis whose names are not known and, owing to this circumstance, the very Upaniṣads are treated as their own R̥sis.

According to tradition the author of the commentary on the Yajur Vēda is said to have lived about 950 A.C. I hear that he has written commentaries on R̥gvēda and Sāmavēda. Dr. Burnell quotes in his Catalogue of Tanjore Library the following stanza * from which he infers that Bhaṭṭabhāskara was a Telugu man :—

एष निष्पावके शाके कौशिकान्वयजन्मना ।

भट्टभास्करमिश्रेण ज्ञानयज्ञः प्रकीर्तितः ॥

The words निष्पावके शाके added to his name will make it Anumula Bhaṭṭabhāskara, Anumula † meaning in Telugu “ of the plant *Phaseolus radiatus*,” a family name in the Telugu country added to many proper names. Some pandits suspect that the stanza gives the date of the composition of the Bhāṣya of Bhaṭṭabhāskara and interpret निष्पावके शाके as ‘ in the Śāka year 1410,’ which is equal to 1489 A.D. This date is inconsistent as Bhaṭṭabhāskara is quoted by Mād̥hava, who flourished about the middle of the fourteenth century. I would suggest the following correction which will make the verse yield a proper meaning consistent with the known chronological datum. If we change व into प, the word will read as निष्पापक whose arithmetical value will be 1110 and निष्पापके शाके will mean “ in the Śāka year 1110,” that is, 1189 A.D. This date roughly approaches the age which is already assigned to Bhaṭṭabhāskara by tradition, viz., 950 A.D. Unless such a correction is made, the stanza becomes unmeaning ; for what is meant by saying that Bhaṭṭabhāskara composed the Bhāṣya ‘ in the plant *Phaseolus radiatus* ’? This is the literal meaning and

* The same stanza occurs at the end of the commentary on the second Kāṇḍa.

† Anumula = anumulu ‘ the plant ’ and ‘ a ’ a genitive suffix.

cannot indicate that Bhaṭṭabhāskara was surnamed Anumula. What is gained by adding the information that the family name of Bhaṭṭabhāskara was Anumula? While the word निष्पावक is sufficient to indicate "Phaseolus radiatus," why should the word शाक be added? Dr. Burnell's meaning is far fetched and unwarranted by the syntactical position and construction of the words निष्पावके शाके. The only possible and consistent meaning seems to be what I have suggested.

In every Vēda, there are passages, expressions and words which have remained unintelligible, notwithstanding the existence of Sāyana's commentary and other helps for interpretation, and the attempts of European Vedic scholars who have done much by their critical and comparative study. The commentary of Bhaṭṭabhāskara, if published and made accessible to Sanskrit scholars, will be of much use in throwing light on such passages, expressions and words. This work has been undertaken by A. Mahādēva Śāstriyar, B.A., Curator, Government Oriental Library, Mysore, and three volumes have been issued containing the commentary of the first two Kāṇḍas.*

(d).—ŚRAUTASŪTRA.

2. आपस्तम्बप्रवरसूत्रं—कर्पदिभाष्यसहितम्.

Āpastambapraravasūtra with Kapardibhāṣya.

The Āpastambaśrautasūtra consists of thirty praśnas of which the first twenty-five have been commented upon by Dhūrtasvāmi according to Dr. Burnell, and of the portion commented upon by Kapardisvāmi we have only fragments, such as the commentary of the Śulbasūtra, Pravara and Paribhāṣāsūtras. According to *Caundappa*, the author of *Prayōgaratnamālā*,† the number of praśnas of the Śrautasūtra are thirty only, and he excludes the

* Subsequently three more volumes have been published.

† Dr. Burnell's "Catalogue of the Tanjore Library," p. 17.

two praśnas on Pitṛmēdha which are added by some to the sūtras and the number of praśnas thus becomes thirty-two. Dhūrtasvāmi and Kapardisvāmi may have been contemporaries, or the latter, posterior by some years. They lived in the early part of the eighth century A.C. Kapardi has been regarded as a great authority with regard to the interpretation of the Śrautasūtra, as can be seen from the way in which he is mentioned by Rāmānujācārya in his Vedārthasangraha and by Sudarśanācārya.* The Pravarasūtra is a portion of the twenty-fourth praśna and the Paribhāṣāsūtra also occurs in the same praśna.

3. आपस्तम्बसूत्रस्य धूर्त्स्वामिभाष्यस्य कौशिकरामकृता वृत्तिः.

Kauśika Rāma's glossary on the commentary of the Āpastambasūtra by Dhūrtasvāmi.—Nothing is known about the author except that he belonged to the Kauśika gōtra, and was an agnicit (a person who performed a sacrifice). There is a copy of the work in the library of the India Office written about the beginning of the 17th century. *Vide* Eggeling's Catalogue, Vol. I, page 56. The manuscript under notice ends with a portion of the first paṭala of the fourth praśna.

(e).—GRHYA AND DHARMA SŪTRAS.

4. जैमिनिगृह्यसूत्रव्याख्या सुबोधिनी.

Jaiminigrhyasūtravyākhyā Subōdhinī is a commentary on the Jaimini Gr̥hyasūtra which belongs to the Sāma Vēda and is mentioned in a list of the Gr̥hyasūtras given by Āpastamba in his Smṛti and quoted on p. 7. The Jaiminiya is one of the three schools of the Sāma Vēda, the other two being the Rāṇāyanīya and the Kanthuma. The adherents of the Jaiminiya are very few and their mode of chanting the Ṛk is very peculiar. I have not seen any manuscript of the Gr̥hya; and a careful search must be made

* यत्कृतं वेदवद्भाष्यमाद्रियन्ते विपश्चितः ।

स कपर्दी चिरं जीयाद्वेदवेदार्थतत्त्ववित् ॥

to bring it to light.* As every Gṛhya presupposes the existence of a Śrautasūtra, there should be a Śrautasūtra connected with the Jaiminiyagr̥hyasutra, and this inference is supported by the fact that Dhanvin, who has written a commentary on the Drāhyāyaṇa or Khādirasūtra of Rāṇāyaniya Śākha, has also quoted the opinion of Jaimini in the commentary.

The work under notice was written by Śrīnivāsa who says that he composed the commentary after consulting the previous Kārikās, Vṛttis and the works of Manu and others, and after taking into consideration the usages of great men and *a priori* reasonings. He quotes all the important mantras to be repeated at the performances of the Gṛhya ceremonies and the reader is saved the trouble of referring to the Mantrasamhita. In the eighteenth Khaṇḍa Jaimini refers to Audgāhamāni in the passage सर्वाणि लोमनखानि वापयेत् शिखावर्जमित्यौद्राहमानिः ॥ and the commentator observes समिदाधानानन्तरमुदकादानाद्यावपने त्वयं विशेषः औद्राह मानिराचार्यः आचार्यग्रहणं पूजार्थम् ॥

The first praśna † treats of the gṛhya ceremonies such as the marriage, the upanayana, &c., and contains twenty-four Khaṇḍas and the second praśna treats of funeral ceremonies and seems to contain five Khaṇḍas. At the end of the fourth Khaṇḍa there is the concluding passage चतुर्थः खण्डः समाप्तः ॥; but, at the end of the book there is no reference to the end of the fifth Khaṇḍa; and the book ends with the following, हरिः आँ ॥ समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥

5. वैखानससूत्रम्.

Vaikhānasasūtra.—This sūtra is the last of the Gṛhyasūtras. Just as every Gṛhyasūtra has a Śrautasūtra; this also has one. ‡

* A manuscript of the work was subsequently discovered near Trichinopoly and a transcript of it was made for the Library in 1896-97.

† According to the manuscript of Gṛhyasūtra collected in 1896-97, the first praśna contains 25 Khaṇḍas and the second 9 Khaṇḍas.

‡ *Vide Ind. Stud.* IX, 1875.

It is included by Āpastamba in his Smṛti* in a list of eighteen grhyasūtras whose names are as follow :—

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Bōdhāyanam. | 10. Agnivēśyam. |
| 2. Āpastambam. | 11. Jaiminīyam. |
| 3. Satyāśāḍham. | 12. Vādhūlam. |
| 4. Drāhyāyaṇam. | 13. Vaikhānasam. |
| 5. Agastyam. | 14. Śaunakiyam. |
| 6. Śākalyam. | 15. Bhāradvājam. |
| 7. Āśvalāyanam. | 16. Mādhyandinam. |
| 8. Śāmbhaviyam. | 17. Kauṇḍinyam. |
| 9. Kātyāyanam. | 18. Kauṣītakam. |

In Vaidyanātha Dikṣita's Smṛtimuktāphala the following passage occurs :—

“ ऊर्ध्वपुण्ड्रन्तु विप्रस्य सततं श्रुतिचोदितम् ।

श्रुतिस्मृत्युक्तमार्गेण मृदो धारणमुच्यते ” ॥

इति वैखानसप्रोक्तमिति च वासिष्ठवामनपाद्मपुराणादिषु तदुप-
बृंहणात् ॥

The first two lines which are quoted from a work written by Vaikhānasa do not occur in the manuscript under notice and must be referred to a Vaikhānasa Smṛti or Agama which treats of the worship in the Vaiṣṇava temples like the Nārada-pāñcarātrāgama.

- * आदौ बोधायनं प्रोक्तमापस्तम्बं ततः परम् ।
सत्याषाढं तृतीयं तु द्राह्यायणमतः परम् ॥
अगस्त्यं चैव शाकल्यमाश्वलायनमेव च ।
अष्टमं शाम्भवीयं तु कात्यायनमतः परम् ॥
अग्निवेश्यं जैमिनीयं वाधूलं च ततः परम् ।
वैखानसं शौनकीयं भारद्वाजमतः परम् ॥
माध्यान्दिनं च कौण्डिन्यं कौषीतकमतः परम् ।
नवान्यपरसूत्राणि पूर्वसूत्राणि वै तथा ॥

The author of this sūtra is referred to in Manusmṛti in the following stanza :—

पुष्पमूलफलैर्वापि केवलैर्वर्तयेत्सदा ।

कालपकैः स्वयं शीर्णैः वैखानसमते स्थितः ॥

Kullūkabhaṭṭa, a commentator of the Smṛti, explains वैखानसमतम् as विखनस प्रोक्तं सूत्रं वैखानसं मतं तत्र हि वानप्रस्थस्य धर्मस्य पूर्ण उपदेशः । In the Śākuntala nāṭaka there is a reference to the usage of Vānaprastha's abstaining from sexual intercourse. A commentator of the Śākuntalā called Śrīnivāsa who belonged to the Vaikhānasasūtra has added some interesting notes on the word Vaikhānasa,* which are quoted below. The followers of this sūtra are very few and in fact, as far as my enquiry goes, are found only as the arcaakās or priests of the Vaiṣṇava temples. The word Vaikhānasa comes from Vikhanas which originally means a person who digs up the roots of trees and plants from वि + खन् 'to dig up' and was applied to a person, either a Brahmin, a Kṣatriya or a Vaiśya who, having become old, made over all his property to his son and retired to forest with or without his wife. He lived on the fruits and roots of trees, remained in forests and avoided going to towns and villages. He wore matted hair and clothes prepared out of the bark of trees. He took only one meal a day or two and spent his time in performing many religious ceremonies and reading the Upaniṣads and other works which treat of Brahma, the Supreme being.

* वैखानसः विखनसो मतं वैखानसं तत्र परिनिष्ठिताः वानप्रस्थाश्रमिण इति यावत् । तदुक्तं मनुना । पुष्पमूलफलैर्वापि केवलैर्वर्तयेत्सदा । कालपकैः स्वयं शीर्णैः वैखानसमते स्थितः ॥ विखना इति सकारान्तोऽप्यस्ति । तथा च श्रुतिः । “धेनुर्वहाणामादितिस्सुराणां ब्रह्मा ऋभूणां विखना मुनिनामिति” वैखानससूत्र एव वानप्रस्थाश्रमस्योक्तत्वात् तदाश्रमवर्तिनां वैखानसत्वव्यपदेश इति भावः । यद्वा श्रीमन्नामसहस्राध्याये वैखानस्तामगायन इति भगवतो, नारायणस्य वैखानसशब्दाभिधेयत्वात् तन्नामीनलिनसंजातचतुर्मुखस्यापि वैखानसाभिधेयत्वात् । यथा भागवते “विखनसार्थितो विश्वगुप्तये” इति । अत्रकार्यकारणयोरभेदोपचारस्य दृष्टत्वात् तन्मानसादिपुत्रसमस्तकाश्यपादिऋषीणामपि वैखानसशब्दव्यपदेशसंगच्छते ॥ शाकुन्तलव्याख्या.

Originally, Brahmins of different sūtras, such as, Āśvalāyana, Āpastamba, Bōdhāyana, &c., retired to forests and lived there together. In course of time, mendicants, who led the life of an householder (grhastha) and lived in forests either by the produce of the trees and vegetables there, or by the alms obtained in towns and villages, mixed with the Vānaprasthas and formed one community with them. Kālidāsa refers to the gathering of the Vaikhānasa girls in his Śākuntala, from which word we have to understand the unmarried daughters of those persons who lived in forests with their wives and children and were not Vānaprasthas.

The Vaikhānasasūtras were composed by a learned person of the community, whose proper name is not known and who is known by the common name of his community, viz., Vikhanas. The original rigid and stringent customs of the Vānaprastha stage of life have not been much affected by their adoption of a new sūtra called Vaikhānasa sūtra. The rise of a new sūtra among the Brahmins who had their own definite sūtras for the performance of the Vaitānika and grhya ceremonies is analogous to the rise of the Atharva Vēda as a separate Vēda among the Brahmins who originally belonged to the R̥g, Yajus and Sāma Vēdas.

The duties of a Vānaprastha are so difficult and infeasible, and the rules are so stringent that he is considered the best of all the sages and that, in course of time, the Vānaprasthāśrama, that is, the third Āśrama became extinct; and accordingly we have the passage quoted below * which says that the begetting of a child by the brother-in-law (husband's brother) and the life of a Vānaprastha are prohibited in the Kaliyuga. Owing to the modifications and changes of government, religion and society in ancient India, the Vānaprastha stage of life fell into disuse, and the few people who were known as Vaikhānasas were diverted into the services of the temples of Viṣṇu. The priest of most of the temples of Viṣṇu is a follower of the Vaikhānasa sūtra and generally retains his original custom of not being branded with the heated wheel and conch emblems of Viṣṇu. But, as a rule, all

* अयं च वानप्रस्थाश्रमः देवरेणसुतोत्पत्तिः वानप्रस्थाश्रमग्रह इति कलौ निबिद्धः॥

Vaiṣṇavas have the branded marks, and the absence of such emblems in the temple priests causes much annoyance to every pious Vaiṣṇava; and there have been, accordingly, attempts in many places to compel the priests or nambiyārs, as they are called, to adopt the universal custom of branding the body, which have, however, had a very limited success. In many of the temples, the priests have continued the old custom and have not been branded. It is said that the Vaikhānasas perform a ceremony which corresponds to the Cakrāṅkana or branding ceremony of the ordinary Vaiṣṇavas. While they perform the *pūṁsavāna* ceremony, an *āhuti* of *paramāṇna* or rice pudding is made into the fire, and the remainder is eaten by the pregnant woman after dipping the wheel and conch emblems of Viṣṇu into it. In this way, it is asserted, that the child in the womb receives the religious mark which among the other Vaiṣṇavas is impressed on the person of the child after it is born. But this way of impressing the mark is not prescribed in the Vaikhānasagr̥hya contained in the manuscript under notice (*vide* the Extracts).

The portion of the Vaikhānasa sūtra contained in the manuscript under notice is divided into three parts; the first, Gr̥hyasūtra, the second, Dharmasūtra, and the third, Pravarasūtra. The Gr̥hyasūtra is divided into seven praśnas:—

1st praśna	having	21	khaṇḍas.
2nd	do.	18	do.
3rd	do.	23	do.
4th	do.	14	do.
5th	do.	15	do.
6th	do.	20	do.
7th	do.	9	do.

The Dharmasūtra contains three praśnas.

1st praśna	having	11	khaṇḍas.
2nd	do.	15	do.
3rd	do.	15	do.

The Pravarasūtra contains one praśna of 8 khaṇḍas.

The Gr̥hyasūtra is long and contains about 1,250 granthas and the remaining four praśnas about 500.

6. कपर्दिकारिका.

Kapardikārikā, memorial verses on the Grihyasūtra of Āpastamba according to the Bhāṣya of Kapardi. The work is called *Kapardikārikā*, because it was believed to have been written by Kapardi. In two places Kapardi is referred to and there is also a reference to Śivasvāmi in the following passage:—

यज्ञोपवीतकालः स्याद्वाचने कृत आशिषः ।

पुरस्तात्समिदाधानात् शिवत्त्वामिमते न तु ॥

The work contains general rules and principles with reference to the Gr̥hya or household ceremonies and is divided into ten paṭalas and ends with the following colophon: कपर्दिऋषिणा उक्ताः कारिकाः समाप्ताः. Kapardi is referred to by Rāmānujacharyar.

CLASS II.—GRAMMAR.

7. अमोघवृत्तिः.

Amōghavṛtti is a commentary on the Vyākaraṇa of Śakāṭāyana called Śabdānuśāsana. This latter was printed in Madras three years ago by Dr. Oppert with a commentary called Prakriyāsaṅgraha which explains the sūtras of Śakāṭāyana in a synthetic order just as the Siddhāntakaumudī of Bhaṭṭōjīdikṣita does those of Pāṇini. The *Amōghavṛtti* comments on the aphorisms of Śakāṭāyana in their own order and bears the same relation to the original which the *Kāśikāvṛtti* does to the sūtras of Pāṇini. The grammar of Śakāṭāyana succeeded Pāṇini's Aṣṭādhyāyī and therefore is clearer and simpler and can be studied more easily than the imperfect and cumbersome sūtras of Pāṇini. Śakāṭāyana is a Jaina priest and is styled *Srutakēvalīdēśīyācārya*. He refers in his grammar to Indra, * *Siddhanandi* and *Āryavajra* who were also Jains; *Yakṣavarma*, who wrote a commentary named *Cintāmaṇi* on

* जरायाडसिन्द्रस्याच I, 2—37.

शेषात् सिद्धनन्दिनः II, 1—229.

ततः प्रागार्यवज्रस्य I, 1—13.

the grammar of Śākaṭāyana, speaking of the merit of the grammar, says that whatever is stated in the grammars of Indra, Candra and others are found in the grammar of Śākaṭāyana and whatever is not found in the latter are not found elsewhere.* There is no doubt that a certain Śākaṭāyana who was a great grammarian is quoted by Pāṇini, Patañjali and Yāska; and his grammar was lost long ago; but his namesake who wrote the existing grammar called Śabdānuśāsana was quite a different person from the older Śākaṭāyana. Professor Keilhorn says "The grammar of the old Śākaṭāyana must have been lost in very early times, for, so far as I know, there is no reference to it in any grammatical work later than Pāṇini." † There is a reference to a later Śākaṭāyana, and to his work Śabdānuśāsana in Durgadāsā's commentary on Kavikalpadruma; and this is the Śākaṭāyana, I think, who is referred to in Siddhāntakaumudī, Lingābhaṭṭīya, Tikāsarvasva, Mallinātha's commentaries, Praudhamaṇōramā, Vyākhyāsudhā of Bhānudikṣita and in Hēmacandra's commentary of his own lexicon Abhidhānaeintāmaṇi. ‡ Durgādāsa's mention of the Śabdānuśāsana as the work of Abhinavaśākaṭāyana justifies our identifying that author and his work with the present Śākaṭāyana and his work Śabdānuśāsana respectively.

The grammar of Śākaṭāyana is divided into four adhyāyas and each adhyāya into four pādas and the whole grammar contains three thousand two hundred and forty-three sūtras.

With regard to the date of Śabdānuśāsana the most ancient reference to it is found in the Kāśikāvṛtti of Jayāditya who flourished about the end of the eighth century A.C., under the sūtras अनुहीने च I, 4-86. and उपोऽधिके च I, 4-87, in the passages अनुशाकटायनं वैयाकरणाः ॥ उपशाकटायनं वैयाकरणाः ॥
 "Every grammarian is inferior to Śākaṭāyana."

* इन्द्रचन्द्रादिभिः शाब्दैर्यदुक्तं शब्दलक्षणम् ।

तदिहास्ति समस्तं च यन्नेहास्ति न तत् क्वचित् ॥

† "Ind. Ant." Vol. XVI, p. 102.

‡ Aufrecht's "Catalogus Codicum Sanscriticorum."

8. पदमञ्जरी.

Padamañjarī is a commentary on the *Kāśikāvṛtti* of Jayāditya and Vāmana who wrote the *vṛtti* on the *sūtras* of Pāṇini. It was written by Haradatta, who was the son of Rudrakumāra and younger brother of Agnikumāra. His preceptor was Aparājita. A Haradatta is quoted in the *Nakulīśapāśupatadarśana* of Sarva-darśanasāṅgraha of Mādhava. A portion of the *Bhaviṣyōttara Purāṇa* containing the history of Haradatta, who is considered an incarnation of god Śiva, has been printed in the south in the *Grantha* character; and consists of twelve chapters from the fifty-fourth to the sixty-fifth chapter. It ends with the following colophon :—

इति भविष्योत्तरपुराणे पूर्वभागे शिवभक्तमाहात्म्ये हरदत्ताचार्य-
चरिते आचार्यकथनं नाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥

Then follows a stanza which contains the date of Haradatta's death, occurring at the end of the book :—

कल्यादौ च चतुस्सहस्रसहिते यत्रैकविंशोनके
पुष्ये मासि विलंबिनामि खमगादष्टप्रजो मौद्रलः ।
पञ्चम्यां सितपक्षके भृगुदिने सहात्मजोदक्तटे
कंसग्रामनिवासिभिस्तुदर्शनः सार्धं विमानोज्ज्वलः ॥

The date referred to is 4,000 years past in the *Kaliyuga* minus 21, that is, 3979; and this date corresponds to 878 A.D.

In the same volume is printed, along with the portion of *Bhaviṣyōttara Purāṇa*, one chapter from *Śivarahasya*, the colophon of which is as follows :—

इति श्रीशिवरहस्ये नवमांशे गौरीहरसंवादे हरदत्तचरितो नाम-
सप्तदशोऽध्यायः ॥

In this work, there is a rough reference to the age of Haradatta in the passage पुनः कलौ सहस्राणां वितयानन्तरं शिवे "After 3,000 years in the *Kaliyuga*."

From the portions of the Bhaviṣyōttara Purāṇa and the Śivarahasya we learn the following facts of his life :—

In Kāmsapura now called Kāñjanūr in the Tanjore district, there was a Brahmin named Vāsudēva, who was a leader of the Vaiṣṇavas. He was devoted to the worship of Viṣṇu, studied the Pāñcarātrāgama and hated Śiva and his worshippers. Having had no issue, he made penance towards Viṣṇu who, being propitiated by his devotion and religious performances, appeared before him and promised him the boon of a son. Before this, Viṣṇu who had been cursed by Bhṛgu performed penance (for the removal of the curse) on the Mandara mountain towards Śiva who, being pleased, told Viṣṇu to go to Kāmsapura and perform a separate penance there, as that which was already performed could only atone for the sin committed against the god Śiva. Viṣṇu, therefore, went to Kāmsapura to make penance to atone for the displeasure of Bhṛgu and remove the evil effect of his curse. He was also told by Śiva to be born as a son to the Brahmin Vāsudēva who having no issue would perform penance towards Viṣṇu. To carry out the order of Śiva, Viṣṇu asked his wife Laksmī to be born as a daughter to a Brahmin named Supratika. Within a short time after Vāsudēva got the boon of Viṣṇu, his wife conceived and in due course, was delivered of a male child who was very beautiful and healthy, and caused infinite joy to his parents. The child was named Sudarśana and was brought up by the parents very carefully. When he grew three years' old, the father decked him with bright jewels and put on his forehead the trident mark and allowed him to walk in the street. But the boy, having met Śaiva devotees in the street, asked them vibhūti (ashes) and rudrākṣa beads which were worn by them as the emblems of Śaivism. They wondered at the piety, intelligence and brilliancy of the young boy and gave him ashes and rudrākṣa rosaries and necklaces, which he wore after rubbing away the Vaiṣṇava marks on his forehead. He then went to the temple of Śiva and worshipped him in the midst of other devotees. This extraordinary conduct of the boy attracted the notice of the inhabitants of the town and reached the ears of the boy's father who,

much enraged at the sacrilegious conduct of the boy, punished him severely. He obeyed the father by wearing Vaiṣṇava marks in his presence, and the moment he was away, the boy, resuming his Śaiva habits, went to the Śaiva temple of Kāmsapura to worship the god Agnīśvara. When he was five years' old, his father performed to him the Upanayana ceremony and told him not to go to Śiva's temple nor wear ashes and rudrākṣa beads. But he disregarded his father's commands, went to the temple of Śiva and worshipped him. The father, having known this, told his wife not to admit the son into the house nor give him food. In despair, the boy went to the temple and prostrating himself before the god, praised him in such a way that the god appeared before him and converted him into a great scholar acquainted with Vēdas, Śāstras and every other branch of literature and gave him the name of Haradatta. With these gifts, the boy returned home and challenged his father to a public debate on the comparative greatness of Śiva and Viṣṇu. All the Vaiṣṇavas of the town sided with the father, and all the Śaivas with the son. It was stipulated that, if the father succeeded in establishing the superiority of Viṣṇu, the son and all the Śaivas were to be converted to Vaiṣṇavism, and, if the son succeeded, the father and the Vaiṣṇavas should become Śaivas. Having heard of the great religious controversy, Śivaliṅgacōla, the king of the Chōla country, was also present at the debate. The son became victorious and all the Vaiṣṇavas of the town including the father of Haradatta embraced Śaivism. The king became a disciple of Haradatta and gave him rich presents. After some years, the king having expressed his desire that Haradatta should marry the daughter of Supratika, who was an incarnation of the goddess of fortune, the father offered her to Haradatta in marriage which was solemnized with great pomp and grandeur.

From this legendary story, we can at least sift this much truth, viz., that Haradatta was a Vaiṣṇava by birth and subsequently became a Śaiva and that he was called Sudarśana when he was a Vaiṣṇava. If Haradatta was identical with Sudarśana, does this identity involve the identity of the authors of the commentaries

of the Gr̥hyasūtra of Āpastamba who are known by the same names? But it is not likely that Haradatta, the Śaiva Brahmin of Kamsapura, should have written Gr̥hyatātparyadarśana, when he was five years' old and was known by the name of Sudarśana, and should have written again another commentary on the same Gr̥hyasutra after he became a Śaivite. We have moreover to take into consideration the fact that Gr̥hyatātparyadarśana of Sudarśana is a later work as it quotes Haradatta. According to Bühler, Haradatta who wrote the commentary on the Āpastambasūtra, lived between 1300 and 1450 and, if the date assigned to Haradatta in Bhaviṣyōttarapurāṇa be correct, he must be a quite different person from the other.

There is a word used in Padamanjari which very clearly indicates that the author of the work belonged to the Telugu country and was quite a different person from the Śaiva devotee. Speaking of what are the right words in Sanskrit which form the subject-matter of Paṇini and the wrong words which should be excluded from it, Haradatta writes याः पुनर्देशभाषाभिः संज्ञाः कूचिमञ्चीत्यादयो न तासां साधुत्वम् which means, "words such as Kūcimañci which are used in the vernaculars of the country, are not right words." Kūcimañci is a Telugu word and occurs as parts of proper names such as Kūcimañci Thimmanna, a well-known Telugu poet.* If he had been born in the Tamil country as the Śaiva devotee and philosopher was, he would have quoted a Tamil word in illustration of what he wanted to explain. On the strength of this argument, which, though simple, is yet conclusive, we can say that the author of Padamanjari is quite a different person. There is no variety in reading and the word Kūcimañci is seen in the fragmentary edition of the work in "The Pandit" of Benares and in the manuscripts of Southern India which I consulted. The person of whom Bhaviṣyōttarapurāṇa speaks and who was born in Kamsapura as the son of Vāsudēva must be the author who wrote the

* He wrote Rasikajanamanōbhirāmanu, Aḥcātenugurāmāyaṇamu and other works.

Hariharaṭarātamyastuti, the Suktimāla and a work on the Śaiva religion, which is quoted by Mādhava in his Sarvadarśanasāṅgraha.

The following stanzas occur in the portion of Padamañjarī contained in the manuscript copy under notice, in which the author speaks of himself.

एवं प्रकटितो ऽस्माभिः भाष्ये परिचयः परः ।

तस्य निशेषतो मन्ये प्रतिपत्तापि दुर्लभः ॥ I, 1—3.

“ Thus we have shown our great acquaintance with the Bhāṣya of Patañjali ; I think that we cannot find a person who knows the whole work.”

प्रक्रियातर्कगहनप्रविष्टो हृष्टमानसः ।

हरदत्तहंरिः स्वैरं विहरन् केन वार्यते ॥ I, 1—4.

“ Who will oppose the lion of Haradatta who has entered the wilderness of the discussion of grammatical processes and who is joyful and walks about freely ?”

From this we have to infer that Haradatta was well-versed in Pāṇini's grammar and was very proud of his scholarship.

He refers to Jayāditya and Vāmana respectively in the following passages :—

प्रयोगाणां तु निर्वाहो णिचश्चेत्यात्मनेपदात् ।

जयादित्यस्य हृदयं गूढमेतत्प्रकाशितम् ॥ I, 3—67.

वामनस्त्वकै जीविकार्थ * इत्यत्राक इति किं रमणायकतेति जीविकायां तृचं प्रत्युदाहरिष्यति ॥ II, 2—17.

He quotes Amarasimha, Gaṇakāra, Piṅgalanāga, Bhaṭṭi, Kalidāsa and Bhāravi and refers to Kuṣi in the following passage :—

तत्र सूत्रार्थप्रधानो ग्रन्थो ऋत्तिः । सा चेह पाणिनिप्रणीतानां सूत्राणां कुणिप्रभृतिभिराचार्यैर्विरचितं विवरणम् ॥ कुणिना तु प्राचां ग्रहणं

* VI, 2-73. The above passage is important as showing that Haradatta believed that Vāmana was the author of the commentary of the sixth Adhyāya.

आचार्यनिर्देशार्थं व्याख्यातम् । भाष्यकारोऽपि तथैवाशिश्रयत् ॥ I,
1—75.

From this passage, we have to infer that Kuṇi wrote a Vṛtti on Pāṇini which was consulted by Haradatta.

The following stanza is quoted:—

अपनय पादसरोजमङ्कतः
शिथिलय बाहुलतां गलाद्वताम् ।
क्व च वदनेऽशुकमाकुलीकृतम् (पूर्वपादाः)
वरतनु सप्रवदन्ति कुक्कुटा (इति) ॥ I, 3—48.

The fourth line of the stanza is quoted in the Bhaṣya of Patañjali as well as in the Kāśikāvṛtti, and Haradatta has added the remaining three lines.

The stanza is attributed to Kumāradāsa by Kṣēmendra in his Aucityavicāracarcā and reads there as follows:—

अयि विजहीहि दृढोपगूहनं
त्यज नवसङ्गमभीरु वल्लभे ।
अरुणकरोद्गम एष वर्तते
वरतनु संप्रवदन्ति कुक्कुटाः ॥

Kumāradāsa and his work are referred to in the following verse by Jalhana in his Sūktimuktāvali:—

जानकीहरणं कर्तुं रघुवंशे स्थिते सति ।
कविः कुमारदासश्च रावणश्च यदि क्षमः ॥

“ If, when the dynasty of Raghu is in a flourishing condition, there is any one to carry away Jānaki, the wife of Rāma, it is Rāvaṇa; so, if, when the poem Raghuvamśa of Kālidāsa is in existence, there is any one to compose the poem of Jānakīharaṇa it is Kumāradāsa.” It is supposed, on the authority of Kṣēmendra, that the verse quoted in the Mahābhāṣya was taken from the Jānakīharaṇa of Kumāradāsa. Now this poem, which seemed to have been lost altogether, was published by Professor Dharmārāmasthavira, Principal of the Vidyālaṅkāra College of Ceylon,

who, in the preface to his edition, says that the poem was reconstructed from a Siṅgalese paraphrase of it. Notwithstanding this circumstance, it seems to be identical in form with that of the original, as some of the passages which I found quoted in other works are found in this book in the same form in which they are quoted. The following episode is given in the preface to the edition of Jānakiharāṇa.

Kumārādāsa, who was the author of Jānakiharāṇa and was king of Ceylon, had a concubine to whose house he frequently went. He had a hemistich in Sanskrit which none of the poets of his court were able to fill up, and it ran as follows :—

कमलात्कमलोत्पत्तिः श्रूयते न च दृश्यते ।

“It is not heard nor seen that a lotus springs from a lotus.”

In one of his visits to her house, he wrote the hemistich on a wall of her house. A notice was given that any poet who would complete the verse would receive a rich reward. Kālidāsa who was then on a visit to the royal bard whose poem he had seen in India, took lodgings in the house of the woman and happened to see the hemistich on the wall. He completed it in the following way :—

वाले तव मुखाम्भोजे कथमिन्दीवरद्वयम् ॥

“Young damsel ! in the lotus of thy face, how two blue lotus flowers ?”

The woman to whom the poet probably meant the lines to be a compliment, influenced by the hope of obtaining the promised reward, murdered Kālidāsa that very night and concealed his body. When the king visited her on the following day, she demanded the reward promised for filling up the latter part of the verse. But Kumārādāsa, detecting the genius of a great poet in the new lines added, did not believe her and, insisting on her disclosing the real author, came to know that it was Kālidāsa whom she murdered. When the corpse of Kālidāsa was brought out, the sorrow and consternation of the king was very great. He ordered a grand funeral in honor of the poet and, when the pile was lighted, the monarch overwhelmed with grief, jumped

into the fire and died. On referring to a history of Ceylon named "Ceylon, Ancient and Modern," by an Officer late of the Ceylon Rifles, I found a list of the ancient kings of Ceylon in which the name of Kumāradāsa occurs and the time of his reign is mentioned as 513 A.C. He is said to be a king of great learning. The author of the work adds the following remarks. "A poet named Kālidāsa having been murdered by a courtesan whose house the king frequented, he sacrificed himself on the funeral pile of the poet." If this account of Kālidāsa be true, there must have been a Kālidāsa in the sixth century who was a contemporary of Kumāradāsa, King of Ceylon, who flourished in the early part of the sixth century A.C. According to Professor Max-Müller, there was a Kālidāsa who was a contemporary of a Buddhist named Dinnāga who is referred to in the well-known poem Mēghadūta and was a pupil of Asaṅga and that Asaṅga flourished in the time of Vikramāditya in the sixth century. This Kālidāsa must be a person who was a contemporary of Kumāradāsa, king of Ceylon. If so, the above quotation in Mahābhāṣya from Jānakiharāṇa must be a later interpolation, because we cannot bring the date of the composition of Mahābhāṣya so late as the sixth century. This view is supported by the fact that the verse is not found in the present edition of Jānakiharāṇa and that the full stanza which is quoted by Kṣēmendra in his Aucityavicārcā is quite different from that which is quoted in the Padamañjarī except the last lines which are indetical.

9. आख्यातचन्द्रिका.

Ākhyātacandrikā is a short treatise on verbs written by Bhaṭṭamalla. I have not seen the work noticed in any of the catalogues of Sanskrit manuscripts published in India or elsewhere. The date of the composition of the work is not known; but it is quoted by Mallināthasūri, Kumārasvāmīsōmapīthi, son of Mallinātha, Rāmacandra, the commentator of Campurāmāyaṇa, and by Durgādāsa. Of the above authors who quote the *Ākhyātacandrikā*, Mallinātha is the oldest and flourished in the fourteenth century. The work must, therefore, be referred to the thirteenth

century or to an earlier period. It was recast under the name of Kriyākōśa by one Rāmacandra who retained the greater portion of the original and removed those verbs which are Vēdic, or are not used commonly. This rescension has been printed in Bombay with other similar and shorter treatises. The author of this abridgment was the son of Viśvanātha and was the disciple of Krishna paṇḍita as can be seen from the following extract :—

प्रणम्य पितरौ भक्त्या कृष्णपण्डितशर्मणः ।
 गुरुंश्चापि क्रियाकोशं ब्रुवे व्युत्पित्सुसिद्धये ॥
 क्रियाकोशं भट्टमल्लो यद्यपीदं व्यधात्पुरा ।
 तथापि तेषु सञ्चित्य क्रिया भूरिप्रयोगिणीः ॥
 कोशोऽयमतिसंक्षिप्तो व्यदधां बालबुद्धये ।
 भूयाद्भगवतो वासुदेवस्य प्रीतये चिरम् ॥
 समाप्तोऽयं क्रियाकोशः ॥

इति विश्वनाथसूनुरामचन्द्रविरचिते क्रियाकोशे द्वितीयकाण्डः
 समाप्तः ॥

The Ākhyātacandrikā was recast by another author named Kavisāraṅga under the title of Prayuktākhyātamañjarī. It follows closely the arrangement and the outline of the original as can be seen from the following extract :—

भट्टमल्लैर्विरचिता याद्गुताख्यातचन्द्रिका ।
 ततः संगृह्यते प्रायः प्रयुक्तो धातुसञ्चयः ॥
 सत्तायामस्ति भवति विद्यते चाथ जन्मनि ।
 व्युत्पद्यते जायते च सम्भवत्युद्भवत्यपि ॥

* * *

इति प्रयुक्ताख्यातमञ्जर्यां प्रथमः काण्डः ॥
 अथोच्यन्ते नृविप्रादिचेष्टावर्गैः समासतः ।
 प्रसङ्गतोऽन्याः पर्यायैः क्रमात्पादपदात्मकैः ॥

आरम्भे तु प्रक्रमते प्रस्तौतीत्यात्मनेऽपि च ।
तथैवारभते चोपक्रमतेऽत्र चतुष्टयम् ॥

* * *

इति प्रयुक्ताख्यातमञ्जर्यां द्वितीयः काण्डः ॥

प्रकीर्णकसनाद्यन्तनानार्थीस्तु तृतीयके ।

अकर्मकाश्च काण्डेऽस्मिन्वर्गाश्चत्वार ईरिताः ॥

यानि पूर्वमसङ्ख्या नैवाख्यातपदानि ह ।

आख्यातानि प्रवक्ष्यन्ते तानि वर्गेऽत्र कानिचित् ॥

* * *

इति प्रयुक्तख्यातमञ्जर्यां तृतीयः काण्डः ॥

The Ākhyāta-candrikā consists of three cantos. The first is subdivided into 1. भावविकारवर्ग, 2. बुद्धिवर्ग, 3. अन्तःकरणवर्ग, and 4. वचनक्रियावर्ग, 5. ध्वनिक्रियावर्ग; the second into 1. ब्रह्म-क्रियावर्ग, 2. क्षत्रक्रियावर्ग, 3. वैश्यक्रियावर्ग, and 4. शूद्रक्रिया-वर्ग; and the third into 1. प्रकीर्णकवर्ग, 2. सनादिवर्ग, 3. नानार्थवर्ग, and 4. आत्मनेपदपरस्मैपदविवेकवर्ग.

The work occupies the same position towards verbs in the Sanskrit language as the Nāmalingānūsāsana of Amarasinha does towards nouns, adjectives and adverbs.

It mentions all the most commonly used roots in the third person singular, indicative mood, present tense (लृट्) grouped into synonyms, and gives the most important causal, nominal, and desiderative forms. Then follow homonymous verbs occurring in the ten conjugations. The work also mentions the verbs which are found only in the Vēdas and not used in the classical Sanskrit as can be seen from the following passage:—

जिरिणोति रिणोत्येव क्षिरिणोति क्षिणोति च ।

दाशनाति च दणात्याहुः पदानि छान्दसानि षट् ॥

From the above description, it will be clearly seen that the work will be a very useful guide to the students learning Sanskrit

and has a high educational value, in consideration of which I intend editing it with notes and making it accessible to students studying Sanskrit in schools and colleges in this Presidency.

CLASS III.—LEXICON.

10. अभिधानरत्नमाला.

Abhidhānaratnamālā was written by Halāyudha and is often quoted. It was printed by Aufrecht. The author mentions the following lexicographers from whose works he compiled his lexicon : Amaraḍatta, Vararuci, Bhāguri, Vōpālita. The work is divided like the Nāmaliṅgānuśāsana of Amarasimha into three kāṇḍas. But the defect of the work is that it does not treat of the genders of words so minutely as Amarasimha does. The author of the Kavirahasya, a lexicon of Sanskrit verbs, is also called Halāyudha, and he refers to Kṛṣṇa, a king of the Rāṣṭrakūṭa family who reigned in the beginning of the ninth century and was his patron. Professor Bhandarkar says that the two Halāyudhas were probably the same and gives his reasons for the identity.* I would agree with him and assign the composition of the Abhidhānaratnamālā to the author of the Kavirahasya.

11. टीकासर्वस्वम् नामलिङ्गानुशासनव्याख्यानम्.

Tīkāsarvasva is a commentary on the celebrated Nāmaliṅgānuśāsana of Amarasimha by Sarvānanda. His family name seems to have been Vandyaghaṭīya or Vandighaṭīya as can be seen from a passage which has different readings :—

वन्दिघटीयार्तिहरपुत्रः ॥ Two manuscripts of the Library obtained from the Salem District.

वन्चघटीयार्तिहरपुत्रः ॥ Another manuscript of the Library written in the Malayālam character and obtained from Malabar.

वन्दिघटीमातुरार्तिहापुत्रः ॥ In a manuscript of the Palace Library of Tanjore noticed in Dr. Burnell's Catalogue.

* Vide his report on the search for Sanskrit Manuscripts, 1883-84.

From the first two readings which agree very closely, I should infer that the author's family name was वन्दिघटीय; and my friend Mahāmahōpādhyāya Haraprasada Sastri of Calcutta informs me that the term is connected with the family name Bannerji.—*Vide* the Notes.

The author says that he was acquainted with ten commentaries written by previous authors, but he does not give their names.

According to the Report* of Dr. Bhandarkar on the search of Sanskrit Manuscripts for the year 1883-84, he is quoted in the *Padacandrikā*, a commentary of the *Nāmaliṅgānuśāsana* by Rāyamakuṭa who composed the work in 1431 A.D., and the work under review must have been composed before that time. From the list of works and authors quoted in the work we learn that Sarvānanda quotes *Subhāṣitāvali* of Kāśmīravallabha. This work was printed by Professor † Peterson who says that Vallabhadeva cannot have flourished before Jainōlābhadin whose date is given as 1417-1467 A.D. But as Sarvānanda is quoted by Rāyamakuṭa which, as aforesaid, was composed in 1431, we may infer that the *Ṭikāsarvasva* must have been composed between 1417 and 1431 A.D.

Index of Authors and Works quoted in the Ṭikāsarvasva

[N.B.—The numbers refer to pages of manuscripts; up to 160, reference is to a paper manuscript; over 160, reference is to a palm-leaf manuscript.]

1	अजय	14, 101, 105, 108, 111, 119, 123, 125, 131, 137, 138, 143, 151, 191, 299, 300, 331, 370, 412, 436, 437, 441, 446, 448, 448, 455, 456, 456, 457, 459, 459, 461, 463, 465, 465, 465, 467, 469, 470, 470.
2	अभिज्ञानशाकुन्तल	241.
3	अभिधानमाला	255.
4	अभिनन्दन	17, 28.
5	अमरकोश	102, 187, 287.

* Page 64.

† Introduction to 'Subhāṣitāvali' edited by him, page 112.

Index of Authors and Works quoted in the Tikāsarvasa—cont.

6	अमरमाला	5, 63, 81, 92, 95, 101, 102, 106, 112, 114, 120, 125, 141, 145, 147, 159, 164, 166, 171, 213, 221, 230, 231, 231, 241, 242, 246, 249, 256, 299, 300, 313, 354, 360, 365, 372, 383, 428, 445, 448, 458, 465, 466.
7	अरण्यपर्व	24.
8	अरुणदत्त	119, 492.
9	अर्थशास्त्र	118, 277.
10	अर्धनारीश्वर	174.
11	आगम	23, 34, 91.
12	आथर्वणादि	191.
13	आश्चर्यमञ्जरी	55, 98, 335.
14	उणादि	8, 228, 236, 405.
15	उत्पलिनी	2.
16	उपाध्यायसर्वस्व	279.
17	ओष्ठयाकारिका	5.
18	औणादिकसूत्र	24.
19	कपिल	71.
20	कप्फणाभ्युदय	11, 24, 35, 73, 107, 121, 179, 248, 335, 446, 473, 484.
21	कलिसंवत्सरनिर्णय	52.
22	कविरहस्य	75.
23	कात्यायन	61.
24	कादम्बरी	174, 174.
25	कामन्दक	306.
26	कामन्दकीनीति	60.
27	कामशास्त्र	187.
28	कालिदास	115, 176, 189, 201, 253, 428, 478.
29	काव्यपरिच्छेद	438.
30	काव्यादर्श	61, 124.

Index of Authors and Works quoted in the Tikāsarvasva—cont.

31	काश्मीरवल्लभदेवरचितसुभाषित- वैली.	14.
32	किरातार्जुनीय	56, 135, 243, 482.
33	कीचकवधयमक	19, 130, 151, 197, 419.
34	कीर्तिमातलङ्कार	96.
35	कुमारचरित	163.
36	कुमारसंभव	233, 243.
37	केशव	11.
38	केसरमाल	201.
39	कोशान्तर	39, 123, 142, 149.
40	कोहलक	22, 68.
41	गणित	356.
42	गारुडक	92.
43	गोपदत्त	221.
44	गोवर्धन	88, 193, 209, 242, 334, 357, 412, 460.
45	गोवर्धनीयोपादिवृत्ति	28, 209, 362.
46	घटकर्पर	48, 94, 102, 179.
47	चण्डिपाठ	6.
48	चन्द्र	89, 185.
49	चन्द्रगोमि	75, 94, 96, 127, 228, 269, 482.
50	चन्द्रलिङ्गवृत्ति	494.
51	चन्द्रलिङ्गानुशासन	219, 493.
52	चन्द्रसूत्र	490.
53	चम्पू	67.
54	चरक	49.
55	चाणक्य	66.
56	चाणक्यटीकाकृत	161, 354.
57	चान्द्र	41, 93, 227.
58	चार्वाकशास्त्र	491.

Index of Authors and Works quoted in the Tikāsarvasa—cont.

59	जयकोश	1.
60	जयादित्य	75, 194, 392, 429.
61	जानकाहरण	43.
62	ज्योतिष	19, 219.
63	तन्त्रान्तर	137.
64	तण्ड्यमुनि	76.
65	तारपाल	51, 101, 142, 175, 360, 373.
66	तुम्बुरु	22.
67	त्रिकाण्डशेष	2, 11, 22, 33, 43, 50, 150, 143, 182, 182, 216, 227, 235, 266, 308, 309, 310, 317, 329, 365, 376, 404, 424, 428, 429, 439, 454, 458, 461.
68	दण्डी	2, 6, 42, 317, 404.
69	दत्तिल	78.
70	देवीमाहात्म्य	307.
71	देवीशतक	54.
72	द्वारपाल	115, 160.
73	द्विरूपकोश	78, 160, 329.
74	धन्वन्तरि	440.
75	घरणि	50, 87, 102, 108, 109, 141, 207, 275, 276, 281, 328, 450, 481.
76	धर्मदास	87.
77	धातुपारायण (पूर्णचन्द्रकृत)	21, 93, 157, 423, 499.
78	धातुप्रदीप	37, 85, 96, 123, 127, 143, 162, 193, 209, 251, 310, 329, 331, 340, 357, 407.
79	नाममाला	17, 48, 50, 117, 118, 127, 134, 134, 224, 230, 266, 292, 293, 311, 323, 359, 359, 365, 379, 382, 397, 406.
80	नामानुशासन	83, 111, 346.
81	नारद	73.

Index of Authors and Works quoted in the Tikāsarvasva—cont.

82	निगम	323.
83	न्यास	187, 322, 371.
84	न्यासकार	310.
85	न्यासकृतानुशासन...	83.
86	पुरुषोत्तम	28, 69, 87, 93, 98, 144, 164, 261, 390.
87	पूर्णचन्द्र	21.
88	प्राणेश्वर	115.
89	बद्धचन्द्र	224.
90	बालरामायण	295.
91	बाहट	141.
92	बुद्धचरित	7, 436.
93	बृन्दावनयमक	37, 176, 188, 314.
94	बृहत्कथा	6, 7.
95	भगवद्गीता	12, 57, 57, 57, 59.
96	भट्टचन्द्र	119, 135, 248, 292, 337, 377.
97	भट्टमल्ल	419.
98	भट्टवामन	64.
99	भट्टी	22, 24, 45, 47, 71, 94, 129, 134, 149, 170, 199, 209, 427, 430, 454, 454.
100	भरत	22, 112.
101	भरताचार्य	78, 79, 79, 79, 81, 81, 81, 82, 82, 85, 86, 86, 87, 87, 256, 398.
102	भवभूति	9, 144, 174, 406.
103	भागवृत्ति	34, 114, 213.
104	भारत	11, 25, 66, 104, 167.
105	भारतीय	187, 311.
106	भारवि	18, 45, 56, 84, 86, 88, 220, 242, 257, 437.
107	भाषावृत्ति	281.

Index of Authors and Works quoted in the Tikāsarvasva—cont.

108	भाष्य	168, 194, 234, 490.
109	भासकीव	209.
110	भिक्षुदेव	122, 142.
111	भामसेन	6.
112	मनु	7, 10, 67, 98, 113, 204, 214, 241, 256, 264, 355.
113	महाभाष्य	82, 481.
114	महिम्नस्तोत्र	11, 167.
115	माघ	11, 25, 50, 51, 56, 63, 63, 68, 84, 89, 95, 104, 111, 118, 122, 129, 131, 131, 133, 134, 134, 141, 168, 174, 220, 232, 236, 243, 278, 291, 295, 310, 317, 359, 403, 406.
116	मातृगुप्त	79, 79, 81, 81, 86.
117	माधव	137, 139, 301, 362, 363, 382.
118	मानस	93.
119	मायूरराज	213.
120	मार्कण्डेयपुराण	26, 35.
121	मुरारि	35, 222, 398.
122	मैत्रेय	15.
123	मोक्षधर्म	24.
124	योगयात्रा	126.
125	रक्षितः	329, 374.
126	रघुवंश	29, 36, 104, 119, 120, 143, 185, 239, 271, 286, 424.
127	रत्नकोश	33, 69, 79, 84, 111, 118, 119, 136, 157, 158, 207, 228, 296, 327, 332, 332, 340, 366, 376, 383, 405, 408, 438, 472, 481.
128	रत्नपारायण	128.
129	रत्नमाला	63, 63, 99, 107, 119, 129, 136, 142, 143, 146, 150, 152, 339, 361, 368.

Index of Authors and Works quoted in the Tikāsarvasva—cont.

130	रभस	14, 14, 23, 24, 31, 43, 47, 50, 83, 98, 99, 100, 103, 106, 115, 116, 117, 124, 133, 137, 137, 138, 138, 139, 139, 139, 141, 142, 142, 144, 145, 145, 145, 145, 148, 149, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 157, 159, 163, 166, 168, 169, 179, 192, 197, 204, 206, 208, 210, 216, 219, 220, 221, 224, 226, 231, 237, 238, 240, 241, 242, 244, 244, 245, 249, 249, 250, 252, 252, 254, 256, 258, 263, 284, 291, 294, 310, 312, 322, 328, 328, 331, 333, 335, 337, 341, 361, 363, 382, 399, 403, 407, 436, 437, 439, 440, 441, 448, 450, 451, 451, 452, 453, 453, 454, 455, 457, 463, 464, 465, 466, 466, 481, 482, 482.
131	राजशेखर	90, 132, 216.
132	रामदास	25, 92, 110, 110, 120, 235.
133	रामायण	6, 6, 41.
134	राहुल	85.
135	रुद्र	33, 43, 56, 62, 63, 92, 93, 94, 99, 107, 108, 112, 123, 137, 137, 143, 146, 151, 153, 159, 184, 231, 248, 249, 251, 525, 289, 292, 297, 329, 354, 362, 423, 427, 427, 436, 437, 439, 439, 442, 443, 444, 445, 448, 451, 459, 460, 461, 461, 462, 463, 463, 463, 464, 465, 466, 466, 466, 467, 473, 474, 474.
136	रूपरत्नाकर	362
137	लिङ्गाकारिका	150.
138	लिङ्गानुशासन	116.
139	वररुचि	2, 2, 134, 201, 202, 234, 244, 253, 310.
140	वराह	40, 43, 121, 126, 201, 240.
141	वसन्तराजीय	235.
142	वागुरि	34, 35, 62, 70, 105, 168, 218, 225, 300, 327, 423, 430.

Index of Authors and Works quoted in the Tikisarrasva—cont.

143	वात्स्यायन	186, 379.
144	वामन	1, 22, 51, 62, 95, 96, 124, 134, 351, 447.
145	वायुपुराण	20, 29, 31, 359.
146	वासनामञ्जरी	14.
147	वासवदत्ता	23, 41, 42, 67, 71, 91, 101, 108, 109, 160, 161, 173, 223.
148	विदग्धमुखमण्डन	20, 46, 67, 341.
149	विभाकरवर्मा	61, 174.
150	विशाखदत्त	84, 295.
151	विश्वप्रकाश	16, 37, 46, 87, 122, 122, 139, 151, 151, 375, 472.
152	विष्णुपुराण	10, 12, 112.
153	वृत्त	5, 51, 130.
154	वृद्धामरकोश	14.
155	वैष्णोसंहार	44.
156	वैद्यक	142, 142, 149, 150, 152, 175, 176, 212.
157	वैशेषिकपरिभाषा	56.
158	वोपालित	99, 109, 168, 274, 275, 292, 300, 318, 318, 327, 337, 352, 353, 355, 427, 474, 492.
159	व्याडि	1, 2, 2, 128, 133, 146, 170, 180, 250, 360, 362, 438, 447, 447, 463.
160	व्यास	24.
161	शबरस्वामी	235.
162	शब्दानुशासन	65, 65.
163	शब्दानेव	10, 25, 43, 46, 49, 50, 78, 106, 117, 145, 147, 155, 167, 174, 197, 221, 222, 248, 343, 360, 486.
164	शाकटायन	208, 347.
165	शाकटायनसूत्र	208.
166	शाक्य	9.
167	शालिहोत्र	26, 187.
168	शाश्वत	224, 231, 458.
169	शिष्टप्रयोग	203.

Index of Authors and Works quoted in the Tikāsarvasva—cont.

170	शृङ्गारप्रकाश	33, 55, 61, 137, 243, 473.
171	श्रीकण्ठसोम	22, 183.
172	श्रुति	9, 26.
173	सङ्क्षिप्तभारत	10.
174	सनातन	4.
175	संसारवर्त	10, 17, 29, 222, 341.
176	सरस्वतीकण्ठाभरण	2, 33, 51, 71, 82.
177	सर्वानन्द	1.
178	साङ्ख्यशास्त्र	57.
179	साम्बपुराण	10, 13, 28, 42.
180	साहित्यकल्पतरु	14.
181	सुन्दरानन्दचरित	9.
182	सुरजातकमाला	92.
183	सुश्रुत	225.
184	सूर्यशतक	45, 53.
185	सोमनन्दी	187.
186	स्कान्दपुराण	19, 22.
187	स्मृति	258.
188	हरदत्तादि	67.
189	हरिप्रबोधयमक	20, 33, 93, 96, 465.
190	हरि	10.
191	हरिवंश	11, 12, 13, 24, 136, 156, 348.
192	हर्षचरित	66, 187, 366.
193	हलायुध	118, 124, 129, 167, 174, 207, 360.
194	हारावलि	28, 78, 93.

12. लिङ्गाभट्टयाम्.

Liṅgābhaṭṭīya is a commentary on the *Nāmaliṅgānuśāsana* of Amara by Liṅgābhaṭṭa and his name is variously spelt. It is the latest of the commentaries on the lexicon and is most copious and useful. Our manuscript contains the commentary only for the third kāṇḍa, and it is highly desirable that the remaining portion of the work should be obtained and copied. The commentator has fully consulted the *Tikāsarvasva* of Sarvānanda, who says that he studied ten commentaries before composing his commentary.

*List of the Names of Authors and Works quoted in
the Liṅgābhāṣṭya.*

No.	Names of authors or works.	Pages in which they occur.
1	अजय	66, 142, 150, 183, 192, 206, 242, 250, 265, 269, 270, 276, 315.
2	अमरकोश	169.
3	अमरमाला	253, 301, 307, 311, 316.
4	अमरसिंह	143.
5	आगम	174.
6	आथर्वणिकाः	131.
7	आपस्तंबीयसूत्र	195.
8	आयुर्वेद	305.
9	आयुर्वेदनिघण्टु	280.
10	आलङ्कारिक	20, 35.
11	उदयनप्रयोग	6.
12	औपगवक्	128.
13	कणाद	182.
14	कणादतन्त्र	279.
15	कपिल	182.
16	कप्फणाभ्युदय	188.
17	कल्प	309.
18	कालाप	26.
19	कालिदास	31, 101, 126, 131, 144, 179, 198, 209, 257, 258, 275, 305.
20	काव्य	299.
21	काव्यप्रकाश	226.
22	काव्यप्रकाशिका	117.
23	काशिका	7, 12, 13, 13, 14 20, 76, 101, 101, 106, 127, 177, 193, 206, 208, 252, 273, 317, 319.
24	काशिकाकार	8, 61, 88, 94, 118, 144, 206.

*List of the Names of Authors and Works quoted in
the Līṅgabhāṣya—cont.*

No.	Names of authors or works.	Pages in which they occur.
25	काशिकावृत्ति	189.
26	किरणावलिकार	303.
27	कुमारसंभव	176, 293.
28	कुमारसंभवव्याख्या	143.
29	कूर्मपुराण	263.
30	कोचित् (unnamed authors) ...	4, 102.
31	केशवस्वामी	252, 279, 292.
32	कोहलक	28.
33	कौटिल्य	158, 210, 259.
34	क्षीरस्वामी	26, 311.
35	गणरत्नमहोदधि	270, 277.
36	गणित	275.
37	गणितशास्त्र	70.
38	गुरुसङ्गीतशास्त्र	290.
39	गोपालक	136.
40	गोपाल	305.
41	गोवर्धन	67, 270.
42	चन्द्र	201, 228, 260.
43	चान्द्रधातु	268.
44	ज्योतिषशास्त्र	153, 155.
45	ज्यौतिषिक	318.
46	टीका	142.
47	तदुक्तं (Quotation without the name of the author or the work).	4, 20.
48	तार्किक	254.
49	त्रिकाण्ड	39.
50	त्रिकाण्डशेष	46, 155, 313.

*List of the Names of Authors and Works quoted in
the Līngābhāṣṭīya—cont.*

No.	Names of authors or works.	Pages in which they occur.
51	दक्षिणावर्तनाथ ...	143 293, 306.
52	दण्डी ...	298.
53	दम्भ ...	145.
54	दशटीकासर्वस्वकार ...	30, 93, 108.
55	दुर्गाचार्य ...	313.
56	देवीमाहात्म्य ...	44.
57	द्रोणपर्व ...	244.
58	द्वादशलक्षणीमीमांसा ...	228.
59	धर्माभ्युदय ...	203.
60	धातुपारायण ...	185.
61	धातुप्रदीपिका ...	51.
62	धातुवृत्ति ...	13, 17, 49, 61, 68, 68, 71, 164, 165, 166, 222, 278, 297, 317.
63	नागानन्द ...	173.
64	नानार्थसङ्ग्रह ...	143, 157, 159, 161, 162, 226, 234, 29.
65	नाममाला ...	46.
66	नामावलि ...	142.
67	निघण्टु ...	234.
68	नीति ...	226.
69	नैयायिकाः ...	175.
70	नैषध ...	87, 227.
71	न्यास ...	208.
72	न्यासकार ...	5, 8, 23, 34, 279, 304.
73	पदकारवाक्य ...	26.
74	पदमञ्जरी ...	199.
75	पाञ्चरात्र ...	287.
76	पाणिनि ...	263.

*List of the Names of Authors and Works quoted in
the Liṅgābhāṣya—cont.*

No.	Names of authors or works.	Pages in which they occur.
77	पालकाव्य	249.
78	पुराण	164, 216, 217, 227, 281.
79	पूर्णचन्द्र	95.
80	प्रताप	150, 150, 151, 172, 205, 216, 223, 227, 260, 262, 275, 275, 276, 289.
81	प्राकृतसप्तति	306.
82	बालभारत	74.
83	बुद्धचरित	138.
84	बौद्धाः	211.
85	भट्टि	74.
86	भट्टिकाव्य	95, 108, 234.
87	भवभूति	51, 70, 251, 254.
88	भागवत	211.
89	भारवि	9, 13, 31, 113, 115, 143, 188, 238, 258, 276, 294, 318.
90	भोजदेव	302.
91	भोजराज	8, 182, 189, 199.
92	मनु	176.
93	महाकविप्रयोग	46, 110.
94	महाभारत	263.
95	महाभाष्य	146, 219, 225.
96	महाभाष्यकार	166, 1891.
97	महावीरचरित	98.
98	माघकाव्य	19, 51, 51, 61, 65, 66, 66, 120, 120, 128, 153, 160, 169, 183, 194, 200, 201, 211, 226, 246, 248, 259, 274, 280, 297, 299, 313, 315, 316.

*List of the Names of Authors and Works quoted in
the Liṅgabhāṭṭīya—cont.*

No.	Names of authors or works.	Pages in which they occur.
99	मार्कण्डेयपुराण	208.
100	मार्ताण्ड	42.
101	मालतीमाधव	185.
102	मीमांसाशास्त्र	252.
103	मीमांसक	280.
104	मुरारिनाटक	97, 231, 297, 312.
105	मेघसन्देश	271.
106	यमककाव्य	38.
107	ययातिचरितनाटक	108.
108	याज्ञवल्क्य	181.
109	यादवप्रकाश	244.
110	रघुकार	115.
111	रघुवंश	9, 101, 135, 143, 150, 157, 188, 204, 213, 238, 244, 251, 256, 295, 313, 315.
112	रङ्गराज (माघव्याख्याकृत)	192.
113	रतिकञ्चुक	306.
114	रत्नकोश	19, 148, 243, 299.
115	रभस	53, 55, 156, 156, 163, 175, 184, 220, 234, 237, 242, 243, 309, 314, 314, 316.
116	रामाभिषेक	253.
117	रामाभ्युदय	264.
118	रामायण	169.
119	रुद्र	109, 145, 154, 157, 166, 174, 181, 186, 191, 195, 204, 212, 230, 234, 284, 293, 310, 315.
120	रुद्राभिधान	108.
121	लघुवृत्ति	189.
122	लिङ्गानुशासन	152.

*List of the Names of Authors and Works quoted in
the Liṅgābhāṣya—cont.*

No.	Names of authors or works.	Pages in which they occur.
123	लीलावती	121.
124	ब्रह्मभाचार्य (माघव्याख्याकृत्).	96.
125	वागुरे	95, 111, 231, 313.
126	वाग्भट	149, 304.
127	वामनव्रत	165.
128	वामनसूत्र	254.
129	वामनीयलिङ्गानुशासन	181.
130	वाररुचवार्तिक	261.
131	वार्तिककार	8, 96, 166.
132	विक्रमोर्वशीय	315.
133	विज्ञानेश्वर	144, 241, 253.
134	विष्णुपुराण	275.
135	विश्वप्रकाश	115, 117, 136, 137, 137, 137, 138, 139, 140, 141, 154, 160, 164, 168, 172, 178, 181, 212, 220, 221, 223, 256, 260, 267, 277, 277, 278, 284, 285, 286, 287, 286, 291, 292, 295, 298, 299, 301, 302, 302, 303, 308, 320, 321.
136	वृत्तरत्नाकर	173.
137	वृत्ति	254, 262.
138	वृत्तिकार	48, 130, 219, 256, 283.
139	वैजयन्ती	142, 144, 156, 160, 218, 253, 267, 269, 280, 282, 304.
140	वैजयन्तीव्याख्यान	42.
141	वैजयन्तीसंवाद	27.
142	वैदेशिककोश	306.
143	वैद्यक	183.

*List of the Names of Authors and Works quoted in
the Līṅgābhāṣya—cont.*

No.	Names of authors or works.	Pages in which they occur.
144	व्याडे	192, 288.
145	शब्दप्रकाश	199.
146	शब्दभेदप्रकाश	140, 316.
147	शर्वधर	295.
148	शाकटायन	265.
149	शाङ्करभाष्य	275.
150	शाबरभाष्य	147.
151	शाश्वतकोश	6, 18, 137, 181, 190, 206.
152	शिवधर्म	263.
153	शेष	118, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 141, 142, 143, 144, 147, 147, 151, 151, 153, 154, 154, 161, 163, 170, 171, 172, 173, 176, 180, 180, 181, 184, 184, 185, 190, 191, 194, 201, 202, 202, 203, 204, 207, 209, 210, 211, 211, 211, 212, 212, 212, 215, 216, 217, 218, 220, 220, 221, 222, 222, 223, 223, 224, 224, 226, 227, 228, 229, 229, 230, 233, 235, 236, 237, 237, 237, 238, 238, 238, 239, 239, 240, 241, 242, 242, 242, 243, 244, 245, 245, 247, 247, 249, 249, 250, 251, 253, 253, 254, 254, 256, 256, 258, 258, 259, 260, 261, 261, 261, 263, 264, 264, 264, 265, 266, 266, 267, 267, 268, 270, 271, 271, 271, 272, 272, 272, 273, 274, 274, 274, 276, 276, 277, 277, 277, 278, 278, 278, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 285, 286, 286, 286, 287, 287, 288, 289, 289, 289, 291, 291, 292, 292, 294, 295, 295, 298, 299, 300, 300, 300, 302, 303, 303, 304, 304, 304, 304, 305, 308, 309, 310, 310, 310, 311, 311, 311, 311, 312, 312, 313, 314, 315, 315, 316, 317, 317, 317, 317, 319, 319, 320, 320, 321, 322.

*List of the Names of Authors and Works quoted in
the Lingābhāṭṭīya—cont.*

No.	Names of authors or works.	Pages in which they occur.
154	शेषकार	109, 126, 135, 141.
155	श्रुति	141, 142, 195, 244, 265, 315.
156	सङ्क्षेपरामायण	74.
157	सङ्गीतसार	176, 189.
158	सङ्ग्रह	160.
159	सर्वानन्द	26, 27, 29, 30, 30, 32, 34, 38, 41, 47, 50, 51, 51, 68, 99, 108, 112, 116, 127, 144, 149, 155, 165, 246, 270.
160	सहस्रनामभाष्य	162.
161	साङ्ख्य	156, 174.
162	साहित्यविद्या	293.
163	सुबोधिनी	30, 107, 107, 117, 159, 238, 268, 302, 302, 312, 321.
164	सुबोधिनीकार	11, 15, 27, 29, 50, 51, 65, 75, 98, 112, 127, 138, 145, 149, 169, 203, 218, 225, 240, 244, 247, 276, 280, 293, 299, 307, 309, 311, 313.
165	सुभूतिचन्द्र	6, 11, 26, 26, 29, 30, 30, 32, 34, 36, 41, 53, 56, 71, 79, 94, 95, 98, 102, 104, 107, 107, 115, 127, 137, 138, 142, 148, 149, 155, 164, 166, 178, 223, 243, 281, 293, 299, 302, 307, 308, 316, 320.
166	सूत्र	321.
167	स्कान्द	162.
168	स्मृति	11, 37, 109, 115, 118, 131, 146, 159.
169	स्वच्छन्दभैरव	279.
170	स्वामी	140, 145, 162, 200, 218, 227, 230, 241, 288, 309.
171	हलायुध	218, 253.

13. त्रिकाण्डशेषः

Trikāṇḍaśeṣa is a lexicon composed by Puruṣōttama as a supplement to the Nāmaliṅgānuśāsana of Amarasimha containing the words which do not occur in the latter. It is divided into three parts corresponding to the three parts of the original and every part is again divided into as many vargas as in the original. The present manuscript contains the third kāṇḍa only. According to Colebrooke, Puruṣōttama is the author of the Hārāvali also in which he says that the work was shown to the pandit Janamējaya, and Dhṛtisinha who seems to have been the author's patron.

The colophons of both the works agree and run as follow:—

“इति श्रीपुरुषोत्तमदेवरचितः त्रिकाण्डशेषाभिधानकोशः समाप्तः” ॥

“इति श्रीमहामहोपाध्यायपुरुषोत्तमदेवप्रणीता हारावली पर्यवसिता” ॥

The title of the Mahāmahōpādhyāya might have been conferred on him after he came under the patronage of the king Dhṛtisinha, and the Hārāvali, composed after he got the title.

He mentions in the Hārāvali the following lexicons:—the Śabdārṇava, Utpalinī and Samsārāvarta; and the stanza in which they are referred to, seems to contain the names of the authors of those lexicons.

शब्दार्णव उत्पलिनी संसारावर्त इत्यपि ।

कोशा वाचस्पतिव्याडिविक्रमादित्यनिर्मिताः ॥

“Śabdārṇava, Utpalinī and Samsārāvarta are lexicons composed by Vācaspati, Vyāḍi and Vikramāditya respectively.”

14. नानार्थरत्नमाला.

Nānārtharatnamālā.—This is a lexicon of homonymous words composed by Irugapadaṇḍadhīnātha, who was the general of the king Harihara who flourished in the fourteenth century. In the

Ulvar catalogue the author is wrongly termed Mirugapadaṇḍadhīnātha. The name Bhāskara is added in the colophon which is given under extracts printed at the end of that catalogue.

ग्रथनाति रम्यां नानार्थरत्नमालां गुणोज्ज्वलाम् ।

भास्करः कृतिनां मान्यो नात्यल्पां नातिविस्तराम् ॥

इति जगद्गुणकारिण्यां मिरुगपदण्डाधिनाथविरचितायां ।

अव्ययपदकाण्डोऽयं संपूर्णो नानार्थरत्नमालायाम् ॥

(In the last line one long syllable is redundant ; and the error may be rectified by the omission of सम्).

From the mention of the name of Bhāskara, it would appear that a pandit of the name of Bhāskara composed the lexicon under the patronage of the army-leader named Irugapa who flourished under the king Harihara ; and the name of the author might have been omitted owing to the mistake of the scribes who at different times made transcripts of the work. I must also state here that the king Harihara had a brother named Bhāskara, who did not succeed to the throne, as it passed to his elder brother and from him to his son Deva Raya I. Was the work fathered on Bhāskara by the author as a mark of honour? It often happens that when one of the sons of a king succeeds to the throne of his father, the other sons devote themselves to learning and patronage of learned men. Inscriptions issued by Bhāskara are mentioned in Sewell's "List of Antiq.," Vol. II.

The lexicon is divided into six kāṇḍās :—(1) Ekākṣarakāṇḍa, (2) Dvyākṣarakāṇḍa, (3) Tryākṣarakāṇḍa, (4) Caturākṣarakāṇḍa, (5) Saṅkirṇakāṇḍa and (6) Avyayakāṇḍa.

It is an excellent work and is more useful and complete than the Viśvaprakāśa and many other similar works, excepting Mēdinīkarakōśa. It has been printed in Madras several times.

15. मेदिनीकोशः.

Mēdinīkōśa.—This is a lexicon of homonymous words, written by Mēdinīkara, son of Prāṇakara. It is very copious containing

all the words arranged according to their final letters as Kānta, Khānta, &c.; and each of these groups is arranged according to the number of syllables, as monosyllables, dissyllables, trisyllables, &c.; and again according to the order of the initial letters. Of all the works of the kind I have seen, this is the best. The author gives a list of lexicographers* and other authors, whom he has consulted, and very rightly condemns the Viśvaprakāśa of Mahēśvara which he includes in the list, as a work of many defects in the following passage :—अपि बहुदोषं विश्वप्रकाशकोषं च सुविचार्य ।

From the passage quoted in the foot-note we learn that the author was Medinikara who was the son of Prāṇakara and that he was celebrated for his षट्शतगाथाकोष, which seems to be a work like Hāla's Saptasatī which originally contained 700 Prākṛit verses and subsequently augmented to contain between 1,000 and 1,200 verses. It is, however, very curious that the author of the lexicon under report who gives a comprehensive list of lexicographers and also other works he consulted should omit the name of Vaijayantī composed by Yādavaprakāśa which is a well-known lexicon and quoted in many works.

* Following is the list :—

उत्पलिनी शब्दार्णव संसारावर्त नाममालाख्यान् ।

भागुरि वररुचि शाश्वत वोपालित रन्तिदेव हर कोशान् ॥

अमर शुभाङ्ग हलायुध गोवर्धन रभसपालकृतकोषान् ।

रुद्रामरदत्ताजय गङ्गाधर धरणि कोषाश्च ॥

हारावल्यभिधानं त्रिकाण्डशेषं च रत्नमालां च ।

अपि बहुदोषं विश्वप्रकाशकोषं च सुविचार्य ॥

वामट माधव वाचस्पति धर्म व्याडि तारपालख्यान् ।

अपि विश्वरूप विक्रमादित्य नामलिङ्गानि सुविचार्य ॥

कात्यायन वामन चन्द्रगोमि रचितानि लिङ्गशास्त्राणि :

पाणिनिपदानुशासनपुराणकाव्यादिकांश्च सुनिर्हस्य ॥

षट्शतगाथाकोषप्रणयनविख्यातकौशलेनायम् ।

मेदिनिकरेण केशः प्राणकरसूनुना रचितः ॥

The stanzas are quoted fully by Śrī Ramanātha Vidyāvācaspati in the *Trikāṇḍa Vivēka*, a commentary on the *Nāmaṅgānuśāsana* and appear in the extracts made by Professor Eggeling in his *Catalogue of the Sanskrit Manuscripts of the Library of the India office, Part II*. In these extracts, the name, **वाभट** represents the fuller form **वाग्भट** of which it is a vernacular corruption. Compare the form **वाभट** with **वाग्द** another corruption of the word **वाग्भट** given in the notice under *Kavikalpalatā*.

16. विश्वप्रकाशो विश्वो वा.

Viśvaprakāśa or Viśva.—This is a lexicon written by Mahēśvara who calls himself the most excellent of medical doctors, the abode of the knowledge of the whole literature. There is another copy in the library which was purchased by me in 1872; and, in the beginning of this manuscript, some stanzas occur which are found also in the extracts given in the *Catalogue of Prof. Aufrecht*; and they are quoted here on account of the information they give about the author's ancestry.

स्तुवीमाहि महामोहक्लेशातङ्गभिषग्वरम् ।

त्रैधातुकनिदानज्ञं सर्वज्ञं दुःखहानये ॥ (1)

कलाविलासान्मकरन्दविन्दुमुद्राविनिद्रे हृदयारविन्दे ।

या कल्पयन्ती रमते कवीनां देवीं नमस्यामि सरस्वतीं ताम् ॥ (2)

कवीन्द्रकुमुदानन्दकन्दोद्गमसुधाकरम् ।

वाचस्पतिमतिस्पर्धिशेमुषीचन्द्रिकोज्वलम् ॥ (3)

क्षुभ्यत्क्षीराब्धिकल्लोलमालोल्लासियशश्रियम् ।

गुरुं वन्दे जगद्वन्द्यं गुणरत्नैकरोहिणम् ॥ (4)

श्रीसाहसाङ्गनृपतेरनवद्यविद्य

वैद्यान्तरङ्गपदपद्धतिमेव विभ्रत् ।

यश्चन्द्रचारुचरितो हरिचन्द्रनामा

स व्याख्यया चरकतन्त्रमलञ्चकार ॥ (5)

आसीदसीमवसुधाधिपवन्दनीये
 तस्यान्वये सकलवैद्यकुलावतंसः ।
 शक्रस्य दस्र इव गाधिपुराधिपस्य
 श्रीकृष्ण इत्यमलकीर्तिलतावितानः ॥ (6)

सङ्कल्पसम्मिलदनल्पविकल्पजल्प
 कल्पानलाकुलितवादिसहस्रसिन्धुः ।
 तर्कत्रयत्रिनयनस्तनयस्तदीयो
 दामोदरस्समभवद्विषजां वरेण्यः ॥ (7)

तस्याभवत्सुनुरुदारवाचो वाचस्पतिः श्रीललनाविलासी ।
 सद्द्वैद्यविद्यानलिनीदलेनः श्रीमल्हणः सत्कुमुदाकरेन्दुः ॥ (8)

यद्भातृजः सकलवैद्यकतन्वरत्न-
 रत्नाकरश्रियमवाप्य च केशवोऽभूत् ।
 कीर्तेर्निकेतनमनिन्द्यपदप्रमाण-
 वाक्यप्रपञ्चरचनाचतुराननश्रीः ॥ (9)

कृष्णस्य तस्य च सुतास्तितपुण्डरीक—
 दण्डातपत्रपरभागयशःपताकः ।
 श्रीब्रह्म इत्यविकलात्ममुखारविन्द—
 सोल्लासलास्यरतसान्द्रसरस्वतीकः ॥ (10)

तस्यात्मजः सरसकैरवकान्तकीर्तिः
 श्रीमान् महेश्वर इति प्रथितः कवीन्द्रः ।
 निश्लेषवाङ्मयमहार्णवपारदृश्वा
 शब्दागमाम्बुरुहषण्डराविर्बभूव ॥ (11)

यस्साहसाङ्कचरितादिमहाप्रबन्ध-
 निर्माणनैपुणगुणागणगौरवश्रीः ।
 यो वैद्यकत्रयसरोजसरोजबन्धु
 बन्धुस्सतां च कविकैरवकुञ्जलेन्दुः ॥ (12)

इयं कृतिस्तस्य महेश्वरस्य वैदग्ध्यसिन्धोः पुरुषोत्तमानाम् ।
देदीप्यतां हतकमलेषु नित्यमाकल्पमाकल्पितकौस्तुभश्रीः॥ (13)

लब्धः कथंचिदभिजातसुवर्णकार—

लीलेन कोशशतरत्नविशब्दरत्नैः ।

विश्वप्रकाश इति काञ्चनबन्धशोभां

त्रिभ्रन्मयात्र घटितो मुखस्वण्ड एषः ॥ (14)

फणीश्वरोदीरितशब्दकोशरत्नाकरालोडनलालितानाम् ।

सेव्यः कथं नैव सुवर्णशैलो विश्वप्रकाशो विबुधाधिपानाम् ॥ (15)

भोगीन्द्रकात्यायनसाहसङ्गवाचस्पतिव्याडिपुरस्तराणाम् ।

सविश्वरूपामरमङ्गलानां शुभाङ्गोपालितभागुरीणाम् ॥ (16)

कोशावकाशात्प्रकटप्रभावसम्भावितानर्धगुणः स एषः ।

From the above stanzas, we learn the following :—There was a person named Haricandra who was the confidential doctor at the court of the king Sāhasānka and wrote a commentary on Caraka. In the family was born a famous doctor named Śrīkṛṣṇa who was the best of all the doctors and who was under the king of Gādhipura as the Aśvins were under Indra. His son was Dāmōdara who conquered all his opponents in debate, was well versed in the three-fold dialectics and was the best of doctors. His son was Malhana who was a great scholar. His nephew was Kēśava who mastered all the books on medicine and wrote works on many branches of literature. His son was Śrībrahma who was very learned. His son was Mahēśvara who was prosperous and was known as a great poet. He was well acquainted with all branches of literature and was particularly versed in grammar. He composed Sāhasānkaacaritra and other great poems ; and was proficient in the three branches of the medical science. The following writers on grammar and lexicography are referred to in the beginning of the Viśvaprakāśa : Bhōgīndra, Kātyāyana, Sāhasānka, Vācaspati, Vyādi, Viśvarūpa, Amara, Maṅgala, Śubhāṅga, Vōpālita, Bhāguri.

The following stanza occurs in a lithograph edition of the work which is in my possession :—

रामानलव्योमरूपैः शककालेऽभिलक्षिते ।

कोशं विश्वप्रकाशाख्यं निरमाच्छ्रीमहेश्वरः ॥

and is given also in the Catalogue of Sanskrit Manuscripts edited by Dr. Eggeling, Part II, page 282, in the Cat. Cod. From the stanza we learn that the work was written in Śaka 1133.

Whatever may be the boast of the author about the merit of the lexicon, the work has one defect, namely, that the genders of the words whose meanings are given are not mentioned, and the words are not properly arranged. These are the defects which were carefully avoided in the *Mēdinīkōśa*; and the author of that work very fitly condemns the *Viśvaprakāśa* (*vide* the notice on *Mēdinīkōśa*).

CLASS IV (a).—POETRY (KĀVYA).

17. अमरुशतकम्.

Amaruśataka.—A centum of verses attributed to a person named Amaru, which word seems to be a contraction of a fuller name. There is a tradition known to all the pandits of Southern India from which we learn the following. Śaṅkarācārya, the celebrated commentator of the Śārīrakasūtra, in the course of his victorious march through the country, went to Benares and vanquished Maṇḍanamīśra who was maintaining the necessity of performing the Vedic ceremonies throughout the life of a Brahmin. He and his wife were considered to be the incarnations of the creator Brahma and his wife Sarasvatī, the goddess of speech. After the defeat of her husband, the goddess of speech challenged Śaṅkarācārya to a debate, and, when she found the opponent superior to her in every branch of knowledge, she thought she could win him in the art of love, as he became a recluse without marrying and leading the life of a householder. But Śaṅkarācārya asked permission to enter upon the debate after some time; and the goddess of speech consented. He returned home and asked his disciples to guard his body for some time during which, he said,

it would remain lifeless. He then separated himself from the body and entered the dead body of a king named Amaru who had just then died and whose body had not yet been burnt. The friends and relatives of the king seeing that the dead body became alive again, rejoiced very much and returned home with the king. The wife and women of his harem were much pleased with the event and thought the king himself was resuscitated by divine power. Śaṅkarācārya lived in the new body for about a year during which he acquired great proficiency in the art of love. He suddenly quit the body of Amaru and entered again his lifeless body carefully guarded by his disciples. He then went to Sarasvatī and began a debate with her on a most abstruse point of the art of love and thoroughly vanquished her. The work under report is said to have been composed by Śaṅkarācārya, when he lived in the body of Amaru; and hence it is attributed to the latter. The story is too childish and ridiculous to be believed and, if it can prove anything at all, it may at most show that the author of the poem and the celebrated philosopher might be contemporaries. The śataka of Amaru is quoted by Ānandavardhana who flourished under the reign of Avantivarma of Kāshmere (855-884 A.D.); hence the author must have lived before that period. As Śaṅkarācārya's date is fixed about the end of the eighth century A.D., the poet might have been a contemporary of the philosopher or might have flourished a little before him. Dr. Peterson quotes the following passage from a commentary of the śataka :—

विश्वप्रख्यातनाडिन्धमकुलतिलको विश्वकर्मा द्वितीयः ॥ from

which we understand that the author belonged to the goldsmith's class.

18. अमरुशतकव्याख्या.

Amaruśatakavyākhyā, called Śṛṅgāradīpikā, a commentary written by a king of the Telugu country named Vērabhūpāla, who, according to the colophon, had the title of Vīranārāyaṇa and was well versed in all the branches of learning.

19. कप्फणाभ्युदयम्.

Kapphaṇābhyaudaya.—This is a very rare poem not mentioned in any of the catalogues I have seen. It is written in the Uriya character and is not mentioned in the manuscript catalogue of the Library. Its existence was not known; and it was considered an Uriya work. When the Alphabetical Index of the Government Oriental Manuscripts Library was prepared, all the Sanscrit manuscripts in the Uriya character were examined by an Uriya pandit who found out the real name of the work and entered it in the catalogue. Soon after I took charge of the Curatorship of the Library, I found the name of the manuscript in the Alphabetical Index; and as I had already been familiar with the name of the book from the quotations from it found in some commentaries on the *Nāmaliṅgānuśāsana* of Amarasimha, I thought that the work should be a great poem much appreciated in ancient times. I engaged an Uriya man to copy the poem in Telugu character; but, owing to his ignorance of Sanskrit, the transcript is very imperfect and requires a careful collation and correction. The author calls himself *Bhattaśivasvāmi* and is identical with the poet who is quoted in *Subhāṣitāvali* of *Vallabhadēva* published by Dr. Peterson.

He was one of the poets of the court of *Avantivarma Mahārāja* of Kashmere who reigned (855–884 A.D.).

The poem is a mahākāvya like the *Raghuvamśa*, the *Kirātārjuniya*, the *Śisupālavadhā* and others; and, in its diction, description and style, it is like the *Śisupālavadhā* and contains twenty sargas or chapters. The following are their contents:—

- 1st Sarga. Description of the town *Lilāvati* and its king *Kapphaṇa*.
 2nd „ Account given by the king's spy of the countries visited by him.
 3rd „ Agitation of the kings of the court.
 4th „ A council of war.
 5th „ Sending of a messenger.
 6th „ Expedition of the king and description of the *Malaya* mountain.

- 7th Sarga. Encampment of the army.
 8th ,, Description of the different seasons in the mountain.
 9th ,, Bathing amusement of the king and his courtiers and officers.
 10th ,, Culling flowers in gardens.
 11th ,, Description of the setting of the sun.
 12th ,, Description of the rising of the moon.
 13th ,, Drinking.
 14th ,, Union of lovers.
 15th ,, Description of the last part of the night and the daybreak.
 16th ,, March of the army.
 17th }
 18th } ,, Description of the battle.
 19th }
 20th ,, Conclusion.

The following is a short account of the story of the Kapphaṇābhyudaya as can be gathered from the manuscript which is imperfect and full of errors. Kapphaṇa was a great king, ruling over the Dakṣiṇāpātha, conquered all his enemies and governed his kingdom powerfully. He had sent to foreign countries many spies to watch the proceedings of his vassal kings and enemies. One of those spies returned from the northern countries whither he had been sent. The spy informed the king that he had visited many countries, that their rulers were very loyal to the king, and that Prasēnajit, king of Kōsaladēśa, who was well versed in politics, governed his people with kindness and justice, routed his enemies and reduced them to subjection and thus became very proud, disrespected the king Kapphaṇa. The spy requested the king to invade the enemy's capital Śrāvasti and to put down his pride. (2nd sarga.) When the news was communicated to the court, great indignation was felt by the whole audience; and the vassal kings assembled there, on hearing the news, were much enraged at the disobedience of Prasēnajit. The following are the names of the kings who attended the court of Kapphaṇa:—Jiṣṇu, Suśarma, Vidāma, Pāṇḍya, Surāṣṭra, Sukētu, Bhiṣma, Kirmīra, Āndhrabbīma, Samudrāṅga, Ambarīṣa, Jambha, Ugrasēna, Rukmi, Sauvalka, Kauravya, Duṣṣēṇa. (3rd sarga.)

Then the members of the court waited for the orders of the king. The king gave an account of his army and its various divisions, the chariots, the elephants, the horses, &c., and described the plan of the offensive operations against the enemy. Having heard the intention of the king, Jambha, Ambarīṣa, Pradyōta, Prōta, Pāṇḍya and other kings expressed their desire of the war with a loud shout (4th sarga). Subāhu, one of the vassals, expressed his opinion as to what ought to be done and enlarged upon the duties of the king. The proposal of the king was highly approved by Śatadhvaja, Bhīmadhanva, Rukmi, Bhīma and others who expressed very vehemently their love of war. Bhīṣmaka, another vassal, gave an estimate of the force of his enemy and of the king and his party and showed the possibility of putting down the power of the enemy. After hearing the speeches, the king sent a messenger, named Dharmaka to inform Prasēnajit of the intended invasion of his country. A Vidyādhara, named Vicitrabāhu, who was a friend of the king and was living in the western ghats went to the king and, informing him of the hostile attitude of his enemy, promised to help him. He invited the king to go to the Malaya mountain with him, and to concert the plan of the expedition. The king consented to his proposal and followed him with his wife, children and army to the Malaya mountain. (5th sarga.)

His friend described the beauty of the mountain and showed many interesting scenes and at last led him to the sea-coast and the neighbouring islands covered with heaps of bones of the Nāgas eaten by Garuḍa. The poet here introduces all sorts of verbal ornaments (शब्दालङ्कार) as are seen in the fourth chapter of Śīsupālavadhā and the fifth chapter of Kirātārjuniya. The description of the bones of the Nāgas heaped in the sea-shore beyond the Malaya mountain resembles that given in the Nāgānanda Nāṭaka. (6th sarga.)

The whole army was encamped on a tableland on the summit of the mountain. The king's family, the soldiers, the horses, the elephants and other divisions of the army were lodged in different places according to their comforts and conveniences. (7th sarga.)

All the seasons appeared on the mountain simultaneously,* the climate becoming very pleasant and enjoyable. The king with his retinue stayed there and spent some time happily. (8th sarga.)

The king accompanied by his wives, courtiers, leaders of armies and other noblemen with their followers amused themselves with culling flowers and other pastimes. (9th sarga.)

They bathed to remove the fatigue of gathering flowers and garden excursions. (10th sarga.)

After the king and his followers had finished their bath, the sun began to set. Then follows a description of the sunset and the rise of the moon. (11th sarga.)

After the rising of the moon, every woman dressed and adorned herself suitably, and sent for her maid servants, with whom she held an erotic conversation. Messengers were sent by women to their consorts. The lovers were united and spent the night pleasantly. (12th, 13th and 14th sargas)

In the fifteenth sarga, the poet describes the latter part of the night and the daybreak. In the sixteenth the kings, after some negotiation and counsel, prepare for the battle. In the seventeenth, eighteenth and the nineteenth sargas, the battle is described by the poet who introduces a variety of verbal beauties such as yamakas and bandhas. In the last sarga, Kapphaṇa, acquiring a religious turn of mind becomes a pious follower of Buddha.

As the transcript of the original Uriya manuscript is, as I stated already, full of errors, I have not attempted to give a more detailed account of the story of Kapphaṇābhyudaya. At the end of the manuscript, there are three stanzas in which the author mentions his own name and refers to a Buddhistic teacher named Candramitra whose disciple he was. There is no doubt that the author was a Buddhist. He prays to Buddha under the name Daśabala in the very first invocatory stanza and treats of the hero of the poem as a Buddhistic king. He selects for the hero Kapphaṇa the king of Dakṣiṇāpatha, that is, the country lying to the south of the Narmada referred to in the Periplus under the name of

* Vide the first stanza of the sixth chapter of the Māgha.

Dakhinabades and known to the Chinese under the name of Ta-Tshin and seems to have included a good deal of the Bombay and the Mahratta countries and the northern Konkan. It did not comprise the countries of the Pallava, Chera, Chōla and Pāṇḍya kings, the last of whom however is mentioned as a vassal of Kapphaṇa. His enemy was Prasēnajit, king of the Kōsala country whose capital was Śrāvasti. These kings are referred to in the Buddhistic legends and were not historical personages. The following stories are given in Dr. R. Mitra's "Nepalese Buddhistic Literature" on page 38 from the Avadānaśataka.

"Kapphiṇa, the young king of Dakṣiṇāpatha, had 18,000 young courtiers. Proud of this strong body of supporters, he insolently commanded the lords of the six cities, Śrāvasti, &c., to appear before him. They, in alarm, took refuge with the lord. The lord, in the following terms, challenged Kapphiṇa to come and fight. 'If you are standing, do not sit; come with as much speed as you can.' By wafting his magic wand aloft, he suddenly brought into existence an innumerable array of veterans of which he took the lead in royal robes. But when Kapphiṇa was about to engage, a voice from heaven declared 'Obey the command of Buddha,' and he changed his mind. The lord instructed him in the Bōdhi knowledge and raised him to the rank of an Arhat when he departed from this world."

"The lord said, 'a merchant of Bandhumati feasted lord Vipasyi and founded a vihāra for him in the 71st mundane period. This very man in his other existence as Brahmadata, king of Benares, gave a wholesome diet to a Pratyaka Buddha who was ill, and raised a stūpa to his honor. For these merits, he obtained Arhatship when living as Kapphiṇa, king of Dakṣiṇāpatha.'"

Prasēnajit, king of the Kōsala country, had Śrāvasti for his capital and is referred to in many of the stories in the "Nepalese Buddhistic Literature" above referred to. But in none of them he is mentioned as the enemy of Kapphaṇa. In all the stories he is represented as a pious Buddhist; and this accounts for the favourable accounts given by Dharmaka the spy to the king Kapphaṇa and the good opinion entertained by the spy regarding the king of

Śrāvasti. The name of Prasēnajit is mentioned also in a short list of kings beginning with Bimbisara as the ninth lineal descendant just preceding Nanda.

The following stanzas which are quoted in Vallabhadēva's Subhāsitāvali and Śāringadharapaddhati have been verified in the Kapphaṇābhyudaya :—

वदनशशिनः स्पर्शे शीतादिवागतवेपथुः
स्तनयुगलके भ्रान्त्वा तुङ्गे निलीन इव श्रमात् ।
ज्वलितमदनाङ्गारे तन्व्यास्ततो जघनस्थले
सुफलकजलः पत्युः पाणिर्विलीन इवाभवत् ॥

No. 2098 in Peterson's edition and 15th stanza in the 14th sarga.

किमु परिगता भर्त्रा तप्तद्विलोहवदेकता-
मुत रमयितुः स्यूताङ्गेऽङ्गे शितैः स्मरसायकैः ।
विलयनमथ प्राप्ता रागोष्मभिर्मुहुरित्यहो
* पतति भुजयोरन्त (.) न दीयते ॥

No. 2099 in Peterson's edition and 29th stanza in the 14th sarga.

In the above stanza, there is a gap left in the fourth line, but it can be filled up from the reading of manuscript given below.

वदननिहिते ताम्बूलंशे श्रिते रतिबीजतां
कुवलयदृशः प्रत्याजज्ञे स रागतरुस्तदा ।
किसलयरुचो यस्य छायामुपाश्रितयोस्तयोः
विषमविषमः कात्स्न्येनास्तङ्गतो विरहक्लमः ॥

No. 2100 in Peterson's edition and 14th stanza in the 14th sarga.

व्यसनमचलं यत्राचार्यो व्रतं विषयाद्रता
सुहृद्विनयो दासः प्रेयान् † प्रभुर्भकरध्वजः ।

* न पतिभुजयोर्निष्फुल्लाङ्गी प्रिया निरचियत is the reading in the manuscript.
† दासः प्रेम for दासः प्रेयान् in the manuscript.

गृहमशितिलाश्लेषा शय्या स्वरूपमभेदिता
रमणमिथुनान्वव्याख्येयां दशां विजगाहिरे ॥

No. 2101 in Peterson's edition and 32nd stanza in the 14th sarga.

* उल्लापयन्त्या दयितस्य दूर्ती
वध्वा विभूषां च निवेशयन्त्याः ।
प्रसन्नता कापि मुखस्य जज्ञे
वेषश्रिया नु प्रियवार्तया नु ॥

No. 3511 in Śārṅgadharapaddhati and 1416 in Subhāṣitāvali and 27th stanza of the 12th sarga.

समजनि न तत्प्रेम त्यक्तं यदीषदपीर्ष्या
स्मरसुखसखी नासावीर्ष्या विना कलहेन या ।
न खलु कलहः सोऽन्योऽन्यं यः प्रसादनवर्जितः
प्रसदनविधिर्नासौ बाला न येन विलिल्यिरे ॥

No. 2062 in Subhāṣitāvali and 7th stanza in the 14th sarga.

गुणमयोऽपि सदोष इव क्वचित्
भवति यत्कमलाकरसारसाः ।
समुदयेऽम्बुमुचामभवञ्जगत्
† क्लमनुदामपिममनो भ्रमः ॥

No. 1756 in Subhāṣitāvali and 30th stanza in the 8th sarga.

The following stanzas quoted in the Subhāṣitāvali of Vallabhadeva and attributed to Śivasvāmi, are not found in the Kapphaṇābhyudaya and this fact leads us to infer that the author of the work under report wrote other works also.

* संलापयन्त्या is the reading in the manuscript.

† क्लमनुदामनुदारमनोमुदः in the manuscript.

- No. 710, Śārdūlavikrīditavṛtta, bearing on the Hamsānyōkti.
 „ 810, in the same vṛtta, bearing on the Vṛkṣānyōkti.
 „ 1140, Śikhariṇīvṛtta.
 „ 1051, Śārdūlavikrīditavṛtta.
 „ 1826, Sragdharā.
 „ 438, Vasantatilaka.

The following passages are quoted in the Tikāsarvasva, a commentary on Nāmalingānuśāsana by Sarvānanda, a manuscript of which also has been noticed in this report; and they have been verified in the present manuscript.

मानिनः कुलवधूरिव रागादप्सरा व्यधित पार्श्वमशून्यम् ॥ XVII
 --26.

. शोभतः शतशोभतः ।

सव्यासन्धाम्नि सव्यासं मानशेवधिमानशे ॥ XIX--58.

नवनमेरुफलावलिरावभौ

सुकपिशा च पिशाचमुखादपि ॥ VIII--53.

कालेयकीयं तिलकं ललाटे

निमग्ननिश्शेषमिव स्मरेषुम् ।

स्वर्णज्वलत्पुङ्खमुखाङ्कितेव ॥ XII--29.

तच्चे सच्चे नवादक्षा ॥ XVIII--35.

सकलशेकलशेवलमालिके ॥ VIII--43.

निमाष्टर्चसौ नितिमयेन हेतिना ॥ II--38.

प्रेर्यन्तेऽमी परमरयो हर्म्यवातायनानाम् ॥ XV--13.

आक्रीडभूमिं च दुरापरागो धुरापरागोऽपि रतिं दधाना. VI--6.

The following line has not been verified in the manuscript :

दशकाश्मकभूपालौ विष्वगारभ्य रोषितौ ॥

20. कृष्णकर्णामृतम्.

Kṛṣṇakarnāmṛta.—The work was written by Vilvamaṅgala who was latterly called also Lilāśuka, and contains three parts, each consisting of one hundred and odd stanzas. The work is written in praise of god Kṛṣṇa whose devotee the author was. There is a tradition among the Sanskrit pandits which runs to the following effect: Lilāśuka had a concubine, named Cintāmaṇi, of whom he was very fond. One day, after making the annual ceremony of his deceased father, he took some cakes prepared for the ceremony and went to the house of his paramour. But, as she knew that he had performed the annual ceremony of his father, she thought that he should not pollute himself by coming to her house and associating with her. She, therefore, did not open the door to him. But the Brahmin went to the backyard and, ascending the wall, jumped into the house and approached her. But the virtuous Cintāmaṇi pitied her lover and, having disfigured her person with ashes and mud to make it look horrible, appeared before him and said to him: "If you love your god Kṛṣṇa as much as you love me, you will be liberated from all the troubles of this world and will attain salvation." When he saw her, he was much disgusted with the ugly appearance of her person, and at once gave up all his passion for her and became a recluse by her advice. He prostrated himself at her feet and said; "you are my first preceptor. I shall henceforth be devoted to the worship of Kṛṣṇa." He then went to a Yati (ascetic) named Sōmagiri whose disciple he became and who taught him a mantra of the god Kṛṣṇa. He worshipped the god with such piety that the god appeared before him and promised him the boon he wanted. The god also informed the devotee that, notwithstanding his goodness and piety, he will attain salvation not in that birth but in a third birth. Accordingly he was, after his death, born as Jayadēvakavi and, having been devoted to the worship of the same god, composed the Gītagōvinda and, in the third birth, he was born as Nārāyaṇatīrtha who was attached to the same god Kṛṣṇa and composed a work called Kṛṣṇalīlā-taraṅgiṇī. In this birth, he obtained the heavenly bliss from

the god. The whole story is purely legendary ; and the only truth it may embody, may be that Lilāśuka lived before Jayadēva and the latter before Nārāyanatīrtha. Prof. Aufrecht quotes a long passage from a commentary on the *Karṇāmṛta* which corroborates the above account of the events of the life of Lilāśuka.

21. कृष्णकर्णामृतव्याख्या.

Kṛṣṇakarnāmṛtavākyā is a commentary on the above by Pāpayallayasūri who was born in the family of Pusupāṭi. He refers to a hermit named Yajñēśa who performed the sacrifice called Vājapēya and also to an ascetic named Mukunda who seems to have been his preceptor. He says that the commentary written by him should be perused by those who are well versed in the *Mantraśāstra*, *Mahābhāṣya*, *Maṇi* (sc. ?), the *Pūrvamīmāṃsa* and the *Uttaramīmāṃsa*. He does not aspire, he says, to such a fame as was acquired by Peddibhaṭṭa, that is Mallinātha, who wrote commentaries on many poems. He wrote the commentary simply with a view to get opportunities of thinking of the god Kṛṣṇa. He is not certain about the meanings of the words *Cintāmaṇi* and *Sōmagiri* which occur in the first stanza. He says that *Cintāmaṇi* may be a mantra and quotes a passage from the *Naiṣadhīyacarita*, तच्चिन्तामणिमन्त्रचिन्तनफले, where the word *Cintāmaṇi* is used in the sense of a mantra. He then proposes another meaning and says that the word may refer to a sage who was of that name and who was the preceptor of Lilāśuka. A third meaning is given in its reference to a woman called *Cintāmaṇi* whose heart was pure owing to the favour of the god Śiva who was worshipped at Chicacole (श्रीकाकुलेश्वर). If this be true, it will lead to the inference that Lilāśuka was a native of Chicacole. The commentator goes on with his further conjectural meanings as follows : The word may be taken in the sense of the all-giving philosopher's stone and the other word *Sōmagiri* may refer to the woman whom he loved. If *Cintāmaṇi* be taken as an epithet to *Sōmagiri*, it would mean that she gave everything the poet wanted, that is, she became the source of the spiritual advantage which the poet

secured in after-life ; or the word Sōmagiri may refer to the poet's preceptor and, as he gave to his disciple everything he wanted spiritually, he was compared to the philosopher's stone. The commentator first started with a conjecture with regard to the word Sōmagiri which was supported by tradition and other sources and he may stop there ; but when he goes further and says that Sōmagiri may also be taken to refer to the poet's paramour, we should think he is running amuck with the meaning of the word. As the commentator speaks of Mallinātha who flourished in the fourteenth century, he must have lived in a later age.

22. गीतगोविन्दम् व्याख्यानसहितम्.

Gītagōvinda with Commentary.—The original was written by Jayadēva, one of the court poets of Lakṣmaṇasēna, a king of Bengal, who issued an inscription in A.D. 1116. The other poets were Gōvardhana, Umāpati and Śaraṇa. In the following verse which occurs in the work under notice, the author alludes to his contemporary poets :—

वाचः पञ्चवयत्युमापतिधरः सन्दर्भशुद्धिं गिरां
जानीते जयदेव एव शरणः श्लाघ्यो दुरूहादृते ।
शृङ्गारोत्तरसत्प्रमेयरचनैराचार्यगोवर्धन-
स्पर्धिकोऽपि न विश्रुतः श्रुतधरो धोयी कविश्मापतिः ॥

“ Umāpatidhara causes his speech to shoot out like the leaves of a tree ; only Jayadēva knows the purity of composition ; Śaraṇa is commendable and is free from bad thoughts. There are none to compete with Gōvardhana in composing excellent works abounding in the sentiment of love ; Śrutadhara is well known ; Dhōyī is the prince of poets.”

The poets Dhōyī and Gōvardhana are referred to by extracts made from their works in the Śarṅgadharapaddhati.

Jayadēva was the son of Bhōjadēva and Vāmādēvī. His wife was Padmāvati. He was native of a village called Tindubilva*

* तिन्दुबिल्वसमुद्ररोहिणीसंभव, the moon of the ocean of the village of Tindubilva. 7th Aṣṭapadi.

which was situated on the river Ajaya in the Vīrabhūmi district of Bengal. The commentator, however, says that the poet belonged to Ghūrjara (Guzerat), in the following passage, but we have no authority for this statement:—

गुज्जरीरागेण गीयते तस्यायमभिप्रायः । जयदेवकवेर्धूर्जरदेशत्वा-
त्तद्देशस्थानां तस्याः प्रियत्वात् पुनरपिगुज्जरीराग उपक्षिप्त इति अवग-
न्तव्यम् ॥

“It is to be sung in the Gujjari melody, and the author’s intention is the following: As Jayadēvakavi belonged to the country of Guzerat and the people of that country are fond of that melody, it is introduced again.”

He was a devotee of Kṛṣṇa whom he worshipped by singing the god’s praise before an idol of the god and allowing his wife to dance in accompaniment of the songs.

The work is divided into twelve sargas, and each contains twenty-four aṣṭapadis or songs of eight feet each. Each aṣṭapadi begins with a chorus followed by eight feet at the end of each of which the chorus is repeated. It is sung in a particular melody and time, which are mentioned in the beginning. The following are the melodies:—

1. Mālava.
2. Ghūrjari.
3. Vasanta.*
4. Rāmakriyā.
5. Dēśākṣari.
6. Guṇḍakriyā.
7. Gujjari.
8. Karnāṭagaṇa.
9. Dēśākṣari.
10. Varāli. This name is not given in the beginning, but is found in the end and no tāla is mentioned.
11. Gujjari.

* अत्र हिन्दोलवसन्तो ग्राह्यः न तु शुद्धवसन्तः। हिन्दोलवसन्तस्यैव वसन्तोपयोग-
त्वेन परिगणनात् ॥ Commentator.

12. Guṇḍakriyā. गौलीरागस्य गुण्डक्रिया सपत्नीत्वात् तदनन्तरं
तस्याः उपस्थानम् ॥
13. Mālavī.
14. Vasanta.
15. Ghūrjarī. Not given in the manuscript.
16. Varālī. Not given in the manuscript.
17. Bhairavī.
18. Ghujjarī. Not given in the manuscript.
19. Dēśavarālī, Deśī (देशी च ललिता तोडी पदपञ्जरयोपितः ।
20. Vasanta. कथोपयोगित्वात् कवेः प्रियत्वात् पुनरुपादानं
तस्य ।
21. Varālī. रामक्रिया वराली च गौली वासन्तयोपितः ।
22. Mālava.
23. Nādanāmakriyā.
24. Rāmakriyā.

The tālas (times) are also mentioned with melodies; but the commentator says that they are not fixed.*

1st	Aṣṭapadī	Aṭatāla.
2nd	„	Do.
3rd	„	Do.
4th	„	Ēkatāla.
5th	„	Rṅpakatāla.
6th	„	Ēkatāla.
7th	„	Do.
8th	„	Do.
9th	„	Rṅpakatāla.

* अत्र गीतगोविन्द गीतानि सूत्रादितालैरेव प्रायशो गीयन्ते ॥ 126 ॥ अत्र यद्यपि वाग्गेयकारचातुर्यात् गीतगोविन्दे तालनियतिर्नास्ति तथापि येन तालेन गीयमाने श्रोतृचित्तानुरञ्जनातिशयो भवति तेन तालेन गेयम् ॥

“The songs in the *Gitāgovinda* are often sung with the tālas (times) such as the *Sūla*, and, though there is no particular specification of them, the singer may adopt any tāla which makes the song pleasing to the audience.”

10th Aṣṭapadi	No tāla is mentioned in the manuscript ; the omission is probably owing to the oversight of the copyist.
11th	„ Ekatāla.
12th	„ Aṭatāla.
13th	„ Do.
14th	„ Do.
15th	„ Not given in the manuscript.
16th	„ Aṭatāla.
17th	„ Rūpakatāla.
18th	„ Not given in the manuscript.
19th	„ Tripuṭatāla.
20th	„ Do.
21st	„ Jhampatāla.

The manuscript is incomplete and ends with the greater part of the 22nd aṣṭapadi.

The Gītagōvinda is one of the few works* which have come down to us from a remote antiquity and give us some insight into the music of ancient India. The knowledge that we may obtain from it cannot, however, be much, owing to the absence of a thorough system of notation, as is the case with the modern western music. The reference to the melody and time to be used in singing each passage, gives us some knowledge of the mode of singing it. The songs are sung differently in different countries, but originally the poet must have sung them in particular ways and taught them to others; and, as usual, he inserted in the beginning of each song the names of particular melodies and times with which the songs must be sung. When the manuscript of the book was transmitted to other countries, the modes of singing those melodies which the author adopted were forgotten; and new modes were used in their places. In some countries, even these melodies are forgotten and are again changed. In manuscripts, however, they

* Gītarāghava was written by Prabhākara, son of Bhūdhara, in 1674 A.D. Bhandarkar's Report for 1882-83, p. 9. Gītagaṅgādharāṃ written by Kalyāṇa; and Gītagīrtīṣaṃ by Rāma. Aufrecht, "Cat. Cod." p. 129.

are fixed, and this is owing to the existence of a commentary in which they are mentioned and explained. The melody gives the key-note and the other notes in the gamut, which are used in the song. Thus, for instance, the melody for the first aṣṭapadī is Māḷava the notes of which are C, D, flat, E, F, G, A, flat, and B, with C as the key-note.

The commentary under notice was written by Lakṣmaṇa or Lakṣmīdhara, son of Yajñeśvara, who married two wives, Sarvāmbā and Ambikāmbā, and had four sons of whom the eldest was Koṇḍubhaṭṭōpādhyāya, and the second, Lakṣmīdhara, the author of the work under notice. His grandfather was Timmayasōmayāji. He was a native of the Telugu country in the Krishna district and belonged to the Cherukūru family and was of the Kāśyapagōtra. The members of the family were rich and learned for seven generations. He wrote, besides the commentary of the Śrutirāñjanī which is under notice, the Ṣaḍbhāṣicandrikā, Svaramaṅjarī, Prasannarāghavavyākhyā, to which last he refers in the present work in the following passage :—

“ उदात्तादिलक्षणं तु अस्मत्कृतप्रसन्नराघवव्याख्याने उपपा-
दितम् ” ॥

The drama Prasannarāghava was composed in the early part of the 16th century and the commentator Lakṣmīdhara must belong to a later period.

He refers to a poem of his in his commentary and quotes a verse from it. He says :— “ उक्तं च ममैव काव्ये ।

किं मण्डनैः किं रमणीयवस्त्रैः

किं माल्यतांबूलसुगन्धभूषणैः ।

विना प्रियामात्ममनोऽनुकूलां

पुंभोगसारा हि मृगायताक्षयः ॥

There were many other commentaries written on the Gītagōvinda, one of which is named Śaśilēkha, and was written by

Maithila Kṛṣṇadatta. A very peculiar feature of this commentary is the attempt of the author to make the meaning of each passage refer to Śiva. (*Vide* page 37, Ulvar Catalogue, of Dr. Peterson.)

The following books and authors are quoted in the work :—

Abhinavaguptapāda	46, 50
Amaraśēṣa	67
Kavikaṇṭhapāśa	2
Kāmadēvīya	12
Kāvya prakāśa	9, 40, 94
Kālidāsa	46, 50
Kramadīpikā	7
Gitāratnamālā	13
Tilaka	51
Tālakalāvilāsa	11
Dhanañjaya	35
Dasāmsa	124

वाम-

भागश्चनारीणां श्रेष्ठः पुंसां च दक्षिणः ॥

Nānārthadīpikā	2
Pratāpamārtāṇḍa	36
Bhāgīrathīstava	18
Bhāvaprakāśa	26
Bhāsyakāra	88
Bāhaṭa	31, 60
Mahābhārata	76
Māgha	26
Mālatīmādhava	56, 100
Mṛdukriḍāvivēka	28
Murāri	80
Ratirahasya	37, 38, 49, 92, 190
Rasakalikā	26
Rāgavivēka	13
Rāmadēvīya	7
Lakṣmaṇa, the commentator himself	55
Vāmana	28, 36, 44, 47, 67, 87, 98
Saṅgītacūdāmaṇi	7
Saṅgītaratnākara	8
Sāmudrika	31, 99
Sāhityacintāmaṇi	84

He was the same person who wrote the commentary of the *Anargharāghava* as can be seen from the passage which appears in the extract under the *Anargharāghava* and of which the second, third, fourth, fifth and sixth stanzas occur also in the extracts made under the name of the commentary of the work under notice.

Dr. Burnell notices two works named *Alaṅkārārāghava* and *Alaṅkārasūryōdaya* by *Yajñēśvaradikṣita*, son of *Cherukūri Koṇḍubhaṭṭōpādhyāya*. This *Yajñēśvaradikṣita* must have been the nephew of the author of the *Śrutirāñjanī*, of whom I am now writing as the *Koṇḍubhaṭṭōpādhyāya* of the same family is referred to by Dr. Burnell as the father of the author.

(b) CAMPUKĀVYA.

23. नीलकण्ठविजयम्.

Nilakaṇṭhavijaya.—A campukāvya written by *Nilakaṇṭhadikṣita*. He was the son of *Nārāyaṇadikṣita*, grandson of *Ācchādikṣita*, the brother of the celebrated *Appayyadikṣita* who wrote one hundred and four works and was the teacher who established the *Śrikanṭha* religion and was born in the *gōtra* of *Bhāradvāja*.* The following stanza, giving the date of the composition of the work, occurs in the extract made out of it, according to which *Nilakaṇṭhavijaya* was composed in 1637 A.D.

अष्टत्रिंशदुपस्कृतसप्तशताधिकचतुस्सहस्रेषु ।

कालिवर्षेषु गतेषु ग्रथितः किल नीलकण्ठविजयोऽयम् ॥

(c) DRAMA.

24. अनर्घराघवम्.

Anargharāghava.—A drama in seven acts composed by *Murāri* who, according to a passage occurring in the beginning of the work, was the son of *Bhaṭṭa Vardhamāna* and *Tantumatiḍevī* and was

* Vide the Extracts.

of the Maudgalyagōtra. He is quoted by Ratnākara in his Hari-vijaya, and the latter poet, according to Rājatarāṅgiṇī, flourished at the court of Avantivarma (855–884 A.D.). Murāri is also known by the title of Bālavālmiki (young Vālmiki). In the introduction it is said that the audience were terrified by the representation of a play which was full of the sentiments of anger, disgust and terror, and that Anargharāghava was to be acted to remove the unpleasant feelings of the audience. Bhavabhūti lived in the first half of the eighth century, and Ratnākara who was a later poet than Murāri, in the latter half of the ninth century; and, if Murāri lived in the latter half of the eighth century, he might be later than Bhavabhūti. If this supposition be true, the above reference to a bad play abounding with sentiments of anger, disgust and terror might be very likely to Bhavabhūti's Mālatīmādhava in which such horrible characters as Aghōraghaṇṭa, Kapālakuṇḍalā and the most disgusting and frightful scenes are frequently introduced.

There is a well-known stanza in which it is said that, while other poets acquired the art of poetry by the favour of the goddess of speech, Murāri learnt everything from his teacher with great pains and industry. The stanza occurs in the Alaṅkārasarvasva of Maṅkhuka and also in the Kuvalayananda of Appayadikṣita. It is as follows:—

देवीं वाचमुपासते हि बहवः सारं तु सारस्वतं
जानीते नितरामसौ गुरुकुलच्छिष्टो मुरारिः कविः ।
अब्धिर्लङ्घित एव वानरर्भटैः किन्त्वस्य गम्भीरता—
मापातालनिमग्नपीवरतनुर्जानाति मन्थाचलः ॥

“Many, indeed, worship the goddess of speech; but Murāri who served hard in his teacher's house knows the essence of learning. The monkey warriors jumped over the sea indeed; but only the Mandara mountain, whose gigantic body is buried in the sea up to the nether-world, knows the depth of the sea.”

25. अनर्घराघवव्याख्या.

Anargharāghavavyākhyā.—A commentary on the drama *Anargharāghava* of Murāri written by Lakṣmīdhara who wrote also the commentary of *Gitagōvinda* which was already noticed. The extract quoted from the colophon of the latter contains the same historical matter which is given in the passages extracted from the commentary of the *Anargharāghava*. It is also said in these extracts that Lakṣmīdhara, after leading a married life for a long time, travelled to different countries, conquered his opponents and, having resigned all the cares of the world, became a Yati with the name of Rāmānanda under a preceptor called Kriṣṇāśrama. He wrote the commentary on the *Anargharāghava* to please the pandits, and, from this, we may infer that he was a devotee of Rāma even in the last stage of his life. (*Vide Extract.*)

26. प्रबोधचन्द्रोदयम्.

Prabōdhacandrōdaya.—A philosophical drama in six acts, treating of the different sects of religions and showing the Advaita philosophy as the best and the most successful. According to Goldstücker, the author flourished about the end of the twelfth century. There is a commentary on it named *Candrikā* the author of which flourished in the reign of Kṛṣṇadēvarāya 1508 to 1530 A.D. The author of the *Prabōdhacandrōdaya* refers to a king Gōpāla whose friend Kīrtivarman was another king. The former was very powerful and strong, and attacked and defeated his enemies with sword in his hand and reinstated his friend Kīrtivarman in his sovereignty. According to the Mahoba inscription, the king Kīrtivarman here referred to was a Chaṇḍella king who with his general Gōpāla defeated Karṇa, king of Cēdi. There is, however, some difference between the accounts given in the prologue of the drama and that given in the inscription. Kīrtivarman is mentioned as the friend of Gōpāla in the drama, whereas in the inscription, the latter is said to have been the general of Kīrtivarman. In imitation of this drama, Vēṅkaṭanātha wrote a philosophical drama in ten acts, called *Saṅkalpasūryōdaya* establishing the Viśiṣṭādvaita.

27. प्रसन्नराघवम्.

Prasannurāghava.—A drama in seven acts composed by Jayadēva who was the son of Mahādēva and Sumitra and belonged to the Kauṇḍinya gōtra. He was a devotee of Rāma and was deeply versed in the Śrautas and the Śāstras and had the titles of Piyūṣavarṣa in reference to his sweet poetical composition, and Pakṣadhara in reference to the fact of his having studied logic, once in each fortnight. He was the pupil of Harimiśra and was also known by the long name of Jayadēvatarkālāṅkāramiśra Mahāmahōpādhyāya. He seems to have been a native of Northern India, and, according to Dr. Peterson, lived in Vidarbha. He calls himself a great logician and, from this fact it is generally understood that he was the same as the author of a work called Maṇyālōka. He also wrote the Candrālōka, a treatise on poetics, the fifth chapter of which treating of the figures of speech was slightly modified and was commented upon by Appayyadikṣita in a work called Kuvalayānanda which is well known in Southern India. According to Dr. Peterson, he also wrote a work called Śīlāvihāra. He refers to the following poets, Cōra, *that is*, Bilhaṇa, Mayūra, Bhāsa, Kālidāsa, Harṣa and Bāṇa.

In the introduction, it is said that the manager had a brother named Guṇārāma; that he objected to being called भरताधिराज 'prince of players' owing to the fact that his elder brother was living; that the title should be conferred on the latter; that he wrote a drama called Haracāpārōpaṇa which was acted at the court of a king called Ratijanaka and obtained a great fame as an actor. A contemptible player stealthily assumed the title of Guṇārāma and misappropriated the fame to himself. Having heard this, the real Guṇārāma went to the south and secured the alliance of a singer named Sukaṅṭha and began to fight against his enemy at the courts of the kings of Southern India.

While we can clearly see in the above statements, an allusion to the story of Rāvaṇa carrying Sitā, the wife of Rāma, and the latter allying himself with the monkey leader, Sugrīvā and fighting with Rāvaṇa to recover his wife, we cannot help thinking of the

probability of a reference to Appayyadiṣita's modification of the Candrālōka and commenting upon the work. Jayadēva might have considered this to be a plagiarism and resorted perhaps to the courts of a king of Southern India where Appayyadiṣita was living to expose the plagiarism before the king and the people assembled.

Lakṣmīdhara who wrote commentaries on the Gītagōvinda and the Anargharāghava wrote one also on the Prasannarāghava, according to his own statement in his commentary on the Gītagōvinda, उदात्तादिलक्षणं तु अस्मत्कृतप्रसन्नराघवव्याख्याने द्रष्टव्यम् ॥

28. मालतीमाधवम्.

Mālatīmādhava.—This is a well-known drama of Bhavabhūti who flourished in the first half of the eighth century. It consists of ten acts. It is the longest of the works written by the author and is the most difficult of his three dramas. The author, who was a great scholar, well versed in many branches of learning, shows his knowledge in this work. It is said, in the beginning, that the drama was represented at the festivities of Kālapriyanātha of Ujjain. His own relatives and friends who admired his great learning and devotion to the Vēdas and the performance of Yagas and other ceremonies prescribed in the Vēdas, seemed not to have liked his dramatic authorship and his association with singers, dancers and players. The same opinion is even now entertained by the Vaidika Brahmins about such men; and this must have been the attitude of the pious and religiously disposed Brahmins in all ages as can be seen from the following passage of Manu काव्यालापांश्च वर्जयेत्, "the study of poetry should be avoided." The poet did not secure among his own people that amount of sympathy and admiration which he expected, and he gives vent to his disappointment in the following words:—

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां

जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नैष यत्नः ।

उत्पत्स्यते मम हि कोऽपि समानधर्मा
कालोऽह्यं निरवधिर्विपुलां च पृथ्वी ॥

“Some people who spread reproach of us, know very little ; and this attempt of mine is not for them ; some person like me will be born, for time is unlimited and the earth is extensive.”

The poet is quite right in his prediction ; and the posterity has recognized the merits of his work as can be seen from the great popularity which the work enjoys.

The subject of the drama is a pure fiction created by the poet to illustrate certain typical ideas and duties of lovers enjoined in the Vātsyāyanasūtra from which our author has quoted passages in some places. In the beginning, he speaks of the adventures of his principal characters as conforming to the rules of Kāmasūtra in the following passage : औद्धत्यमायोजितकामसूत्रम् । Kāmandakī speaking of the fitness of the persons to be married, says :

इतरेतरानुरागो हि विवाहकर्मणि परार्थं मङ्गलम् । गीतश्रायमर्थोऽ
ङ्गिरसा यस्यां मनश्चक्षुषोर्निबन्धः तस्यामृदिः ॥

The last sentence in the above passage occurs in Vātsyāyanasūtra and was borrowed by the author of the sūtra from the Gṛhyasūtra of Āpastamba.

Again, when Mālatī was promised to Nandana even in spite of her hatred of him, and when no other course was left for Mālatī except to cast off her obedience to her father and to meet her lover to be married to him, Kāmandakī, seeing the situation of Mālatī, gives her a hint about the course of action to be determined upon, by referring to the instances of Śakuntalā who loved Duṣyanta and married him, to Urvaśī who loved Purūravas and became his wife, and to Vāsavadattā, who was betrothed by her father to Sañjaya, but, disregarding her father's promise, offered herself in marriage to Udayana, and observed, outwardly, that such examples should not be followed. Her instigation is quite in accordance with the rule given in the Kāmasūtra.

याश्चान्या अपि समानजातीयाः कन्याः स्वरुच्या
भर्तारं प्राप्य मोदन्ते स्म ताश्चास्याः प्रदर्शयेत् ॥

Again, Kāmandaki says that, as Mālati is a very noble-minded girl, she should play towards her the part of a full-powered messenger (निसृष्टार्था दूती). The following is the passage of Vātsyāyana referring to that subject :—

नायकस्य नायिकायाश्च यथामनीषितमर्थमुपलभ्य स्वदुद्रया कार्य-
संपादनी निसृष्टार्थदूती ॥

Again, Buddharakṣitā, who was talking to Mādyantikā and Lavaṅgikā, says something, the purport of which is that Nandana to whom Mālati was offered in marriage and who roughly dealt with her, was repulsed by her and quotes the following passage from the Kāmasutra of Vātsyāyana in defence of the conduct of Mālati :—

कुसुमसधर्माणो योषितः सुकृमारोपक्रमाः । तास्त्वनाधिगतविश्वासैः
प्रसभमुपक्रम्यमाणाः संप्रयोगविद्वेषिण्यो भवन्ति ॥
and adds एवं किल कामसुत्तआरा मन्तेन्ति ॥

Besides this, there is a special feature in the fictitious story of the play under notice which throws light on an important social custom which has now fallen into desuetude. It is the custom now obtaining in all parts of India among the Brahmins to marry their daughters before the age of puberty, and this was not the custom in ancient times as can be seen from the grhyasūtras, mantras used on the occasion and the rituals performed. The girl was allowed to remain unmarried till the attainment of puberty and was married afterwards. The selection of the bridegroom was made by the parents and sometimes by the girls themselves. The same custom has been in existence in all classes below the Brahmins. But the change took place among the Brahmins first and subsequently among other classes owing to the cruelty of the Muhammadan emperors and kings. Mālati and Mādhava were both born in Brahman families and Mālati married Mādhava after the age of puberty. Had not such a custom existed among the Brahmins, the

poet certainly could not have introduced it in his drama. When the custom changed, the pandits who never cared for the history of any institution, but only wanted to support the existing usages, interpolated, perverted and twisted the texts of the old Dharmaśāstras. Similarly, widow marriage, which was in vogue in ancient times, was subsequently given up and a rigid widowhood was enforced among the Brahmans and other castes. A very interesting instance of the prevalence of widow marriage has been pointed out by Professor Bhandarkar in his Report* on the search for Sanskrit manuscripts during the years 1884-85, 1885-86 and 1886-87.

“There was a recluse of the name of Maṇḍapa Kauśika. On one occasion, he sat down to dinner along with other recluses. Seeing him sitting in their company the recluses rose up, afraid to touch him as if he were a Chaṇḍāla. Maṇḍapa Kauśikā asked them why they rose up, as they should at the sight of a dog. They told him that he had become a recluse immediately after he had been a Brahmachārin, and without going through the intermediate order by marrying a wife and seeing the face of a son. A man without a son does not go to heaven; nor are religious mortifications successful if gone through by one in that condition. He then went away and asked men of his caste to give him a girl in marriage, but, as he had become an old man, nobody would give his daughter to him. Thereupon he went back to the recluses and told them of this, when they advised him to marry a widow and assume the life of a householder. By doing so, no sin was incurred by either party, as stated in the scriptures of the recluses (Tāpasāgama). For, they said :

पत्यो (पत्यौ) प्रव्रजिते ऋषिष्वे प्रनष्टे पतिते मृते ।

पञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥

“In these five distressful conditions, viz., when the husband has renounced the world, is an eunuch, is not found, has fallen away from caste, or is dead, another husband is allowed to women.”

.

“In connection with another story of a re-marriage, the Brahmans of Kusumapura are represented to have said to Manōvēga, who had on that occasion appeared there in the form of an ascetic, ‘even if a woman is married once, when through ill-luck the husband dies, it is fit that she should go through the ceremony (of marriage) again, provided there has been no cohabitation. When the husband has gone away from home, a good wife should wait for eight years, if she has already borne a child, and for four if she has not. If, under five such conditions and with reason, husbands are taken, the woman does not commit any sin. This is what Vyāsa and others say.’”*

“From all this, it follows that widow marriage was not a thing unheard of in 1014 A.D. and that the principal Smṛti texts were very well known at the time and quoted in support of it.”

29. मालतीमाधवव्याख्या.

Mālatīmādhavarvākhyā, a commentary on the above by Tripurārī, son of Parvatayajvan for the first seven aṅkas and by Nānyadēva son of Haricandra and disciple of Tripurārī for the remaining three acts. I acquired two manuscripts, one by purchase and the other by gift. The former written in Telugu is neat but somewhat imperfect. Tripurārī says there were several commentaries on the drama, but he does not name them. The latter manuscript contains the commentary only for the first four Aṅkas only. A passage in which the poet has referred to the Kāmasūtra of Vātsyāyana, viz., औद्रित्यमायोजितकामसूत्रम् is not

* एकदा परिणीतापि विपन्ने देवः (देव) योगतः । भर्तृक्षतयोनिः स्त्रीपुनः संस्कारमर्हति ॥

प्रतीक्षता(ते)ष्ट वर्षाणि प्रसूता वनिता (ता) सती । अप्रसूता च चत्वारि प्रोषिते सति भर्तृरि ॥

पञ्चस्त्रेषु गृह्णीतेषु कारणे सति भर्तृषु । न दोषो विद्यते स्त्रीणां व्यासादीनामिदं वचः ॥

The numeral “five” here must refer to the five cases mentioned in the text given above.

rightly interpreted by the commentator as can be seen from the following passage of the commentary :—

तथा औद्धत्यं शृङ्गारसप्रधानस्यापि नायकस्य तद्विरोधि वीभत्सा-
द्भुतरौद्ररसालम्बनत्वम् । तयायोजितमानुकूल्येन सङ्घटितं कामसूत्रं नायि-
कानायकयोरन्योन्यानुरागबीजम् येन तादृशम् । कामोऽनुरागः स एव
वर्तिष्यमाणसर्वकार्यबीजत्वात् सूत्रमिव सूत्रम् ॥

In the first act, there is a reference to a *निसृष्टार्थदूती*, a full-
power messenger and the idea of the messenger has been conceived
according to a passage of the *Kāmasūtra* of *Vātsyāyana* which
I have quoted under the *Mālatimādhava*; but the commentator
Tripurāri does not notice it.

Under the passage quoted in the second act of the *Mālatimā-*
dhava from the *Kāmasūtra*, viz. :—

गीतश्रायमर्थोऽङ्गिरसा यस्यां मनश्चक्षुषोर्निबन्धः तस्यामृद्धिरिति *
the commentator says nothing.

In the same act, *Kāmandakī* says that she gave an intimation
of what *Mālatī* ought to do, by citing the stories of *Śākuntalā*, *Ūr-*
vaśī and *Vāsavadattā*, and this conforms, as already noticed, to
a rule of the *Kāmasūtra*. But the commentator does not say
anything about the poet's reference to it.

In the sixth act, *Buddharakṣitā* says, referring to the conduct
of *Nandana* towards *Mālatī*, that women are like flowers and that
they should be dealt with gently, &c. In this passage, there is a
clear reference to aphorisms of *Vātsyāyana* already quoted.

* *Vātsyāyana* has quoted the following passages from the *Āpastambagṛhyasūtra*
in which the above sentence occurs.

दत्तां गुतां गोपां वृषभां शरभां विनतां विकटां मुण्डां मण्डूषिकां सांकारिकां रातां
पालीं मित्रां स्वनुजां वर्षकरीं च वर्जयेत् ॥

बन्धुशीललक्षणसंपन्नामरोगामुपयन्त्येत । बन्धुशीललक्षणसंपन्नः श्रुतवानरोग इति
वरसंपत् ॥ यस्यां मनश्चक्षुषोर्निबन्धस्तस्यामृद्धिः नेतरदाद्रियेत ॥

These facts must lead any reader of the *Mālatimādhava* to the inference that the poet has formed his hero and heroine and other important characters and shaped their courses of actions according to the rules given in the *Kāmasūtra*. It must be however stated that in the last stanza of the second Act, under the passage पुरावृत्तोद्धारैरपि च कथिता कथिपदवी ॥, the commentator quotes the following passage from the *Kāmasūtra* :—

(यच्च सूत्रम्) याश्चान्या अपि समानजातीयाः कन्याः शकुन्तुलाद्याः स्वरुच्या भर्तारं प्राप्य मोदन्ते स्म ताश्चास्याः प्रदर्शयेत् ॥

यदपि तस्याः स्वरुच्या नायकगुणान् भूयिष्ठान् परिवर्णयेत् ॥

Thus we see that this commentator, as well as Jagaddhara, failed to interpret the passage given above rightly and to see the author's reference to many of the passages in the *Kāmasūtra* of *Vātsyāyana*. Professor Peterson has discovered these allusions and has explained them in an interesting and learned lecture which was published in the journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society of the year 1890-94, p. 109.

(d) ANTHOLOGY.

30. सुभाषितसुधानिधिः.

Subhāṣitasudhānīdhi is an anthology compiled by *Śāyaṇa* who was the elder brother of *Mādhava* and the prime minister of the king *Kampa*. From the colophon, we learn that *Māyaṇa* was the name of the father and that *Śāyaṇa** was the brother of *Mādhava*. *Kampa* or *Kampamahīpati* was the elder brother of the king *Bukka*, but he did not inherit the sovereignty, and the younger brother succeeded his father. The elder brother and his

* The same honour was allowed to *Saṅgama*, son of *Kampa*, and *Śāyaṇa* was regarded as the minister of *Saṅgama* also, as can be seen from the colophons of the *Dhātuvṛtti* (Mysore edition).

इति पूर्वैर्दक्षिणपश्चिमसमुद्राधीश्वरकम्पराजसुतसङ्गमराजमहामन्त्रिणा मायणसुतेन माधवसहोदरेण सायणाचार्येण विरचितायां धातुवृत्तौ ॥

son, however, enjoyed all the honours of a king and were named also rajas. While Mādhava was called the prime minister of Bukka, the real king, his elder brother had the honour of being designated the minister of the nephew of the king. The anthologist eulogizes his patron, as if he were a real king, and compiled it to enlighten the latter. The manuscript is defective. The omissions made here and there would come up to about 30 stanzas.

The work is divided into eighty-four paddhatis, which are as follow:—

1. उपोद्घातपद्धतिः	1
2. प्ररोचनापद्धतिः	1
3. नमस्कारपद्धतिः	5
4. मङ्गलश्लोकपद्धतिः	”
5. ब्राह्मणपद्धतिः	”
6. राजचाटुपद्धतिः	9
7. पुरोहितपद्धतिः	61
8. दुष्पुरोहितपद्धतिः	62
9. द्वार्थपद्धतिः	62
10. वैद्यपद्धतिः	63
11. असद्वैद्यपद्धतिः	64
12. कविप्रशंसापद्धतिः	66
13. कुकविपद्धतिः	67
14. काव्यप्रशंसापद्धतिः	68
15. अन्तरङ्गनिन्दापद्धतिः	69
16. पुत्रपद्धतिः	71
17. असत्पुत्रपद्धतिः	72
18. सद्भ्रातृपद्धतिः	74
19. असद्भ्रातृपद्धतिः	75

20. भृत्यपद्धतिः	76
21. असदृश्यपद्धतिः	77
22. विश्वास्यपद्धतिः	„
23. अविश्वास्यपद्धतिः	78
24. सूदपद्धतिः	81
25. मन्त्रपद्धतिः	„
26. दुष्टमन्त्रपद्धतिः	85
27. बुद्धिप्रशंसापद्धतिः	87
28. दूतपद्धतिः	90
29. चारपद्धतिः	97
30. वरपद्धतिः	98
31. विग्रहपद्धतिः	„
32. यानपद्धतिः	„
33. दुर्निमित्तपद्धतिः	101
34. आसनपद्धतिः	102
35. अभियुक्तपद्धतिः	103
36. द्वैधीभावपद्धतिः	104
37. समाश्रयपद्धतिः	104
38. राजलेखकपद्धतिः	105
39. कायस्थनिन्दापद्धतिः	105
40. गायकनिन्दापद्धतिः	106
41. स्वर्णकृन्निन्दापद्धतिः	107
42. पिशुनपद्धतिः	107
43. अधिकारपद्धतिः	108
44. द्रष्टाधिकारपद्धतिः	109
45. मित्रपद्धतिः	109

46.	अमित्रपद्धतिः	113
47.	कोशपद्धतिः	114
48.	कोशहानिपद्धतिः	115
49.	अर्थप्रशंसापद्धतिः	116
50.	अर्थनिन्दापद्धतिः	117
51.	राष्ट्रप्रशंसापद्धतिः	118
52.	दुर्गपद्धतिः	119
53.	सेनापतिपद्धतिः	120
54.	दुष्टसेनापतिपद्धतिः	121
55.	रथपद्धतिः	„
56.	सारथिपद्धतिः	„
57.	गजपद्धतिः	„
58.	अश्वपद्धतिः	122
59.	पदातिपद्धतिः	124
60.	वीरपद्धतिः	125
61.	रणपद्धतिः	130
62.	कूटयुद्धपद्धतिः	134
63.	धीरपद्धतिः	136
64.	भीरुपद्धतिः	137
65.	मानिपद्धतिः	138
66.	मानहीनपद्धतिः	141
67.	वीरपत्नीप्रलापपद्धतिः	141
68.	अभयप्रशंसापद्धतिः	143
69.	महत्पद्धतिः	145
70.	लघुपद्धतिः	150
71.	कृतज्ञपद्धतिः	150

72. उदारपद्धतिः	151
73. कृपणपद्धतिः	154
74. लक्ष्मीप्रशंसापद्धतिः	157
75. लक्ष्मीनिन्दापद्धतिः	158
76. राजसेवापद्धतिः	162
77. राजसेवानिन्दापद्धतिः	175
78. दरिद्रनिन्दापद्धतिः	179
79. तृष्णायाचनापद्धतिः	185
80. संसर्गगुणपद्धतिः	189
81. संसर्गदोषपद्धतिः	191
82. सामान्यपद्धतिः*	193
83. अन्यापदेशपद्धतिः	206
84. सामान्यनीतिः	228

The manuscript ends with the following colophon :—

इति श्रीपूर्वपश्चिमसमुद्राधीश्वरारिशयविभालकम्पराजमहाप्रधान-
मायणरत्नाकरसुधाकरसङ्गमराजमहामन्त्रिणा मायणसुतमाधवसहोदर-
सायणाचार्यविरचिते सुभाषितसुधानिधौ अर्थपर्व सम्पूर्णम् ॥

A glance at the list of subjects will show that the compiler's object of the selection was to inculcate the duties of a king ; and that, to accomplish the object, he has selected passages treating of those duties and containing thoughts and ideas connected with them. He has, therefore, avoided the selection of passages which are not of any practical utility and are interesting only from a poetical point of view. The work is more valuable than the *Subhāṣitāvali* of Vallabhadēva and *Śārngadharapaddhati* which have been compiled to exhibit poetical beauties. Some of the stanzas quoted in this work appear also in *Subhāṣitāvali*.

In the Rājapaddhati, the author quotes many stanzas in which referenee is made to the following kings: Sundarapāṇḍya, Arjunabhūpāla, Cālukyaviṣṇudēva, Srikarṇa, Raghupati, Gaṇapatiṅpati, Manumanarapati, Tikkabhūpati, Rāmanātha Sāhasāṅka, Dēvaṇavibhu, Kampaṇa, Raṅgakṣitipati, Raṅgaṅātha, son of Nṛsimha, and Nṛsimha.

CLASS V.—POETICS.

31. अलङ्कारकौस्तुभःसव्याख्यः.

Alaṅkāra-kaustubha with Commentary.—The original work was written by Kalyāṇasubrahmaṇya, who was the son of Subrahmaṇya, the son of Gōpāla, and belonged to the family of Pērūru. The work was written in honour of Padmanābha, the god of the temple of Anantaśayana (Travancore), and of the king Sri Vanji Bālarāma Varma Kulaśekhara. The name of the commentator is not given. The work was composed in 1798 A.D., or a few years later, as the king of Travancore of the above name ruled in 1798–1810 A.D. There are other works of the same name on the same subject; one mentioned in Eggeling's Catalogue of the India Office Library, which was written by Viśveśvara; and another mentioned in Rajendra Lāla Mitra's Catalogue, IV, page 237, which was written by Kavikarṇapura, who was born in the year 1524 A.D.

32. कविकल्पलता.

Kavikalpalatā is a work on the art of poetical composition composed by Dēvēsvarakavi, son of Vāgbhaṭa, the prime minister of the king of Malva. In a stanza occurring at the end of the book which is called Ṣaḍārācakrabandha, the author gives his name and his father's name in the following words: वहदनन्दनः देवेशुरकविः which mean "Dēvēśurakavi, the son of Vahada." The first word is a corruption of the Sanskrit word वाग्भट which is the name of the father. The form वहद which is very like the word वाहट the name of the celebrated author of the medical

work Nidāna connects the latter वाहट with वाग्भट which, in Tamil, is changed into Vāgaḍa. From the corrupt form we are led to infer that similar names of Sanskrit authors, such as वज्रट, कैयट, मम्मठ must have been derived from compound words of which the latter word was भट or भट्ट such as वज्रभट, केशवभट and माधवभट.

The author of Kavikalpalatā also wrote a work called Candrakalāpa to which he refers the readers for information not given in the Kavikalpalatā.

यत्किञ्चिदत्र न मया कथितं ग्रन्थस्य गौरवत्रासात् ।

मत्कृतचन्द्रकलापे ऽमलमतिभिस्तद्बुधैर्ज्ञेयम् ॥

33. चन्द्रालोकः कुवलयानन्दाख्यव्याख्यासहितः.

Candrālōka and its commentary Kuvalayānanda.—This is a work on Alankāras or figures of speech composed by Appayya-dikṣita, son of Raṅgarāja. It is said that Appayya who wished to compose a work on Alankāras was sent by his father to go to the king Vēnkaṭādri. The king induced him to compose the work and settled on him an annual allowance in consideration of his scholarship. Appayyadikṣita returned with the boon and wrote the kārikās on the subject under the name of Candrālōka and wrote also a commentary called Kuvalayānanda, as can be seen from the following passage :—

किं च “काव्यं यशसेऽर्थकृते” इत्यादिकप्रामाणिकपण्डितोक्तं राजप्रसादादिकमभिहितम् । एवं हि श्रूयते । अप्पय्यदीक्षितो नाम चन्द्रालोकं नाम ग्रन्थं चिकीर्षुः पण्डितो रङ्गराजमनुः स पितुराज्ञया वेङ्कटाद्रिराजमुपजगाम । स च राज्ञाभ्यर्थितश्चन्द्रालोकं नाम ग्रन्थं चकार । राज्ञा वर्षाशनं दत्त्वा प्रहितो ऽलङ्कारविवेचनाय प्रार्थितश्चेमाः कारिकाः कुवलयानन्दं च कृत्वा वेङ्कटेशं प्रसादयामास ।

This passage is taken from a quotation given in Eggeling's catalogue of the Sanskrit manuscripts in the Library of the India

office from the Dipikā, a commentary on Kuvalayānanda, written by Āśādhara.

The name of the king who induced Appayyadikṣita to write the treatise on alaṅkāra is given at the end of the work.

अमुं कुवलयानन्दमकरोदप्पदीक्षितः ।

नियोगाद्रेङ्कटपतेनिरुपाधिकृपानिधेः ॥

“Appayyadikṣita composed the Kuvalayānanda by the command of Vēṅkaṭapati who was the mine of disinterested mercy.”

From the statement of Appayyadikṣita in the beginning of the work, it appears, however, that he did not compose the whole original work, but adopted the work of Jayadēva greatly and added definitions of new alaṅkāras and their illustrations. This perhaps roused the indignation of Jayadēva, the author of Candralōka, and was referred to by him in his drama of the Prasannarāghava as an unworthy plagiarism—*Vide* the Notice on the Prasannarāghava.

34. चित्रमीमांसा.

Citramīmāṃsā, a treatise written by Appayyadikṣita on alaṅkāras or figures of speech. The manuscript ends with the Atiśa-yōktyalaṅkāra. The work is supposed to have been left by the author unfinished and the following passage taken from Candrikā, a commentary on the Kuvalayānanda of Appayyadikṣita, written by Vaidyanātha, supports the general tradition :—उत्प्रेक्षाग्रन्थानन्तरं चित्रमीमांसा न क्वापि दृश्यते ॥ “*Citramīmāṃsā* is not seen anywhere beyond the *Utpreksālaṅkāra*.” *Citramīmāṃsā* has been printed in many places and is very popular in Southern India.

35. प्रतापरुद्रीयम् अथवा प्रतापरुद्रयशोभूषणम्.

Pratāparudrīya or *Pratāparudrayaśōbhūṣaṇa*.—A work on poetries written by Vidyānātha who was patronized by Pratāparudra, king of Ēkaśilā. This was the capital of his kingdom and the name is a Sanskrit rendering of the name of Oraṅgallu, the

modern Warangole, about 8 miles N.N.E. of Hyderabad. Prata-parudra ruled over the country from 1268 to 1319 A.D. for 50 years and was a great patron of learning. This work is very popular in Southern India and is studied by every Sanskrit student. The author mentions Bhāmah and other previous authors to whom he pays homage and whose he seems to have studied. The work is written in honor of the patron and, in every stanza illustrative of the rules, he is referred to. The book is divided into nine prakaraṇās, viz. :—

- (1) Nāyakaṇḍakaraṇa.
- (2) Kāvyaṇḍakaraṇa.
- (3) Nāṭakaṇḍakaraṇa.
- (4) Rasakaṇḍakaraṇa.
- (5) Dōṣakaṇḍakaraṇa.
- (6) Guṇakaṇḍakaraṇa.
- (7) Śabdālaṅkāraṇakaraṇa.
- (8) Arthālaṅkāraṇakaraṇa.
- (9) Miśrālaṅkāraṇakaraṇa.

36. शुङ्गारमञ्जरी.

Śṛṅgāramañjarī, a short work on poetics, written by Ajitasēna-dēvayatiśvara at the request of a Jaina king of the lunar race named Rāya (Kāmirāya), for his instruction. The work consists of 128 stanzas and is divided into three chapters. The author was a Jaina priest of Cāmuṇḍarāya who flourished in the latter part of the tenth century A.D. He was the minister of the Gaṅga king Rācamalla. Ajita was the teacher of Nāgavarma, a Kanarese poet, who flourished in the reign of Rakkasa Ganga, a younger brother of the above Rācamalla. Ajitasēna was the head of the mutt of Bankipore.

CLASS VI.—DARŚANAS—(b) THE ADVAITA VEDĀNTA.

37. भेदधिकारः भेदधिकारसत्क्रियाख्यव्याख्यया सहितः.

Bhēdadhikkāra with a commentary called Bhēdadhikkhārasat-kriyā.—The original is a work on the Advaita philosophy by Nṛsimhāśrama who was a pupil of Jaggannāthāśrama. It is similar,

in its treatment of the subject to the Advaitadīpikā composed by another Nṛsiṃhāśrama who was a pupil of Gīrvāṇēndrasarasvatī. Nārāyaṇāśrama who was a pupil of the author of this work wrote a commentary on it named Bhēdadhikkārasatkriyā, a copy of which also is found in our collection.

38. पञ्चदशीप्रकरणव्याख्या.

Pañcadaśīprakaraṇavyākhyā is a commentary on the Pañcadaśī or Pañcadaśīprakaraṇa, by Rāmakṛṣṇa who was a pupil of the authors of the text, Bhāratīrtha and Vidyāraṇya. The former wrote the Pañcadaśī up to the 10th chapter and the latter the remaining five chapters. They both were the pupils of Śaṅkarānanda. The original work is divided into fifteen chapters, which are named as follows :—

- (1) Pratyaktattvavivēka.
- (2) Bhūtapañcavivēka.
- (3) Pañcakōśavivēka.
- (4) Advaitavivēka.
- (5) Mahāvākyavivēka.

Brahmānanda which is sub-divided into the five following chapters :—

- (6) Yōgānanda.
- (7) Ātmānanda.
- (8) Advaitānanda.
- (9) Vidyānanda.
- (10) Viśayānanda.
- (11) Citradīpa.
- (12) Tr̥ptidīpa.
- (13) Kūtasthadīpa.
- (14) Dhyānadīpa.
- (15) Nāṭakadīpa.

The manuscript under notice ends with a portion of the Tr̥ptidīpa. In the Madras edition printed in Telugu the portion Brahmānanda with the five divisions is placed at the end and is shown as the work of Vidyāraṇya by the colophon. In these portions there is no reference to Śaṅkarānanda in the invocatory stanzas as in the remaining portions written by Bhāratīrtha ;

and in consequence they must have been written by Vidyāranya. Therefore, the arrangement of the chapters made in the manuscript which puts the five divisions of the Brahmananda written by Vidyāranya between the fifth chapter Mahāvākya-vivēka and the sixth chapter Yogānanda is wrong.

39. लौकिकन्यायरत्नाकरः.

Laukikanyāyaratnākara.—A collection of nyāyas or illustrations and analogies which are used in explanation of the theories and principles of the sciences. The work is divided into two portions, Pūrvārdha and Uttarārdha. The nyāyas are explained and their uses are illustrated by examples taken chiefly from the Vedānta philosophy and sometimes from the Pūrvamīmāṃsā. For instance, when it is said that a person who has known the Supreme Being is freed from sorrow, तरति शोकमात्मविद्, the knowledge of the whole sentence and of each word is understood simultaneously just as the birds, young and old, pounce upon a paddy field and pick up the seeds of grain scattered; and the illustration is called खले कपोतन्याय; 'the analogy of the pigeons in a paddy field;' and the following stanza is quoted:—

वृद्धाः युवानः शिशवः कपोताः खले यथामी युगपत्पतन्ति ।

तथैव सर्वे युगपत्पदार्थाः परस्परेणान्वयिनो भवन्ति ॥

Again, it is said in the Purāṇas that Śiva and Viṣṇu thought of each other in the beginning of creation and so became like each other. To illustrate this the *Bhramarakīṭanyāya* is cited. The words bhramara and kīṭa indicate 'a wasp' and 'a worm' respectively. The wasp, it is said, takes the worm to its nest and the latter, always thinking of his enemy through fear, is at last changed into the form of a wasp: thus is produced the young wasp which, when it grows sufficiently old, leaves the nest to live independently. No pandit in India questions the truth of the above statement. It is, however, a fiction, like many other things which are implicitly believed by the Hindus, as can be seen from the accounts of the habits of the mason wasp.

Similarly other analogies are explained ; such as,

चन्द्रमुखन्यायः

गोगवयन्यायः.

मार्जारव्याघ्रन्यायः.

श्वसिंहन्यायः.

यावत्तैलं तावद्वाचाख्यानमिति न्यायः.

भिक्षुः कौपीनलाभं बहुमन्यते°

दरिद्रः कन्यालाभं बहुमन्यते°.

यावत्स्नाता तावत्पुण्यम्°.

नहि सर्वः सर्वजानाति°.

सर्वसाध्यान्निवृत्तिर्नापवादाय°.

नाह सर्वत्रानीशशक्तिः.

Such analogies are frequently used in literary as well as in philosophical and argumentative works, for instance,

घुणाक्षरन्यायः in the Prasannarāghava and the Daśakumāracaritra.

काकतालीयन्यायः in the Candrālōka.

जामात्रर्थं श्रपितस्य सूपस्यातिथिभ्यः प्रथमपरिवेषणम् in the Kuvalayānanda.

जतुकाष्टन्यायः in the Kuvalayānanda.

आम्नाश्च सिक्ताः पितरश्च प्रीणिताः in the Mahābhāṣya of Patañjali.

गोमयपायसन्यायः Śaṅkara's commentary of the Śārīrakasūtra.

अर्धजरतीन्यायः Do.

काकाशिन्यायः Do.

भिक्षुपादप्रसरणन्यायः Do.

एकमनुसन्धिस्तितोऽपरं प्रच्यवति इति न्यायः Śaṅkara's commentary of the Śārīrakasūtra.

If any work containing all the well-known analogies and their explanations be published, it will no doubt be a very useful work of reference to students of Sanskrit literature. A collection of such nyāyas were published in the Pandit; and another work containing a large number of them were prepared by a pandit in Bombay. The Śābdakalpadruma gives under the word न्याय a list of thirty-two nyāyas with an explanation of each nyāya and the names of works in which they are referred to, and another list containing the mere names of 338 nyāyas which ends with the colophon: इति श्रीरामदयालुशिष्यरघुनाथविरचितो लौकिकन्यायसङ्ग्रहः.

All the above nyāyas and the colophon are taken from an abridgment of the Laukikanyāyaratnākara, which was written by the same author as shown below. The author of the work under report was named Raghunātha who was a Rajput. He was the son of Gulābrāya and belonged to the lunar race and the family of Vindarāya. The author calls himself उदासीनावस्थ 'of neutral position' from which we understand he was a recluse or a hermit. He was the disciple of Rāmadayālu. The smaller work written by the author called 'Laukikanyāyasaṅgraha' is a summary of the work under notice and begins as follows:—

नत्वा शंभुं हरिं गौरीं विधिं दुर्ण्ड च भारतीम् ।

क्रियते रघुनाथेन लौकिकन्यायसङ्ग्रहः ॥

लौकिकन्यायरत्नानामाकरे यत्प्रदर्शितम् ।

तस्य संक्षेप एवेह शीघ्रत्रोघाय दर्शयते ॥

This work is noticed by R. Mitra in his Notices of Sanskrit Manuscripts, Vol. IX, Part 1.*

CLASS VIII.—JYAUTIṢA.

40. नरपतिजयचर्या.

Narapatijayacaryā is a work on omens by Padmādityadēvakavi or Narapati who was born in the solar dynasty and became learned by a boon of the goddess of speech. The manuscript contains four

* Vide pages 216-18.

adhyāyas only. At the end of the first and the fourth adhyāya, the following colophons occur :—

इति श्रीमहाराजाधिराजश्रीसूर्यवंशान्वयश्रीसरस्वतीवरप्रसादकुल-
पद्मादित्यदेवकविविरचिते नरपतिजयचर्यास्वरोदये
अध्यायः ॥

In the beginning of the book, the author calls himself Nara-
pati and refers to many works which he consulted as the Brahma-
yāmala, the Viṣṇuyāmala, the Rudrayāmala, the Ādityayāmala,
the Skandayāmala, the Yuddhajayāmara, the Kaumārikauśala,
the Yoginījalasamhāra and others. According to Aufrecht, the
work is divided into seven chapters which are named —

Śāstrasamhāra.
Svarabalōdaya.
Caturaśiticakrabalōdaya.
Bhūbalākhyāna.
Bālasaṅgraha.
Tātkālikaśaśānkādinirṇaya.
Gṛhaśāntikavidhāna.

Professor Bhandarkar gives an extract from the end of a
complete copy of the work from which we learn the following.
The work was written at Anahilapattana in the reign of Ajayapāla
who occupied the Calukya throne between 1174–1177, A.D. His
father was Āmradeva and lived at Dhārā, the capital of Malva.
He also wrote another work on Jyautiṣa named Jyōtiṣkalpa.

41. नारदसंहिता.

Nāradasamhitā is a work on Astrology by Nārada. He divides
the whole Jyotiṣśāstra into three branches :—

- (1) Siddhānta, astronomy.
- (2) Hōra, astrology or horoscopy, and
- (3) Samhitā, science, astrology, alchemy, omens, &c.

The manuscript under notice contains a small portion of the
work and deals with the third subject. Having treated already
of the first two branches, he says, he will now treat of the third.

42. वास्तुप्रकरणम्.

Vāstuprakaraṇa is a portion of the *Jyautiṣadarpaṇa* by Kāñcanayallayya. It treats of the time for the building of a new house and for entering it after it is finished and the ceremonies to be performed on those occasions. He quotes Kāśyapa and other authors. The construction of a house should be commenced in the months Vaiśakha, Śrāvana, Kārtika, Māgha, Phālguna. In the month of Śrāvana, though god Viṣṇu is sleeping, houses should be built and entered when the sun is in the ninth or the fifth house from the sign of the zodiac in which the building is to be commenced or the entry into the house is to be made. When the house is finished, the houseowner should worship the presiding deity of the building, Vāstudēvatā, make hōmas or offerings in fire kindled in a pot with fuels, ghee and rice cakes ; and, accompanied by music, offer oblations to divine beings in the north-east, in the south-east, south-west, and north-west and distribute gifts of money among the Brahmins. After the performance of these ceremonies, he should enter into the house and not otherwise.

CLASS IX.—(a) ĀGAMA AND TANTRA.

43. कामकलासूत्रम् सव्याख्यानम्.

Kāmakalāsūtra with its commentary.—This is a work on the worship of Tripurasundarī, wife of god Śiva under the name of Kāmakalā. The supreme energy which emanated from Śiva and is named Tripurasundarī. Śiva * is called Kāma, as he is the supreme being desired by all the sages. The whole world is produced by the combination of Śiva and Śakti, the above energy. This union may be recognized in a gross and a subtle form and is to be worshipped in two forms, in the attributive form and the non-attributive form. The attributive consists in worshipping the diagram called Śricakra and the non-attributive, in worshipping

* काम्यते अभिलष्यते स्वात्मत्वेन परमार्थं महायोगिभिरिति कामः शिवः सर्वेश्वरः परब्रह्मशब्दवाच्यः अहं शब्दवाच्यश्च । Nāthānanda.

the combined god and goddess according to the method proscribed in the Upaniṣad called Bhāvanōpaniṣad.

The sūtras were written by Puṇyānandanātha and the commentary, by Nāthānanda.

The following authors and works are quoted in the commentary, and I have given references to the pages in which the quotations occur :—

	Page		Page
हृदयसूत्र	2	वामकेश्वरतन्त्र	10
ललितोपाख्यान	3	चिदानन्दवासना पुण्यानन्दकृता	11
चतुःशती	3	तापनीय	20
परापञ्चाशिका	3	रहस्याम्नाय	22
सुवालोपनिषद्	4	गीताभाष्य	21
अमृतानन्दयोगिनः	4	ईशावास्य	26
अनङ्गानन्द	4	ब्रह्मोपनिषत्	26
विरूपाक्षपञ्चाशिका	5	अथर्वशिरस्	27
स्वच्छन्दतन्त्र	5	विज्ञानभैरवभट्टारक	30
शिवानन्दस्वामिनः	5	बृहदारण्यक	31
रहस्यागम	5	अभिनवगुप्तपाद	32
सौभाग्यहृदय	5	लघुभट्टारक	34
चिद्विलास	7	कृष्णानन्दवर्य who wrote } another commentary } on the Kāmakalāsūtra. }	34
अभियुक्तोक्ति	7	प्राञ्चो गुरवः	35
भगवद्गीता	7	साङ्ख्यायनशाखा	36
वृत्तिकार	7	बृहदारण्यक	37
शिवसूत्र	8	श्रीसद्भावतन्त्रक्रोधभट्टारक	37
श्वेताश्वतरोपनिषद्	8	सुवालोपनिषत्	41
प्रामाणिकवचन	9	मन्त्रोपनिषत्	43
छान्दोग्य	10		

	Page		Page
सुभगोदयवासना ...	44	षडध्वशाम्भव ...	68
चिदम्बररहस्योपनिषत् ...	47	ललिताख्यान ...	69
रसनासंग्रह ...	49	श्रीनाथानन्द ...	71
हंसपरमेश्वर ...	49	रहस्यागम ...	72
त्रिंशिकाशास्त्र ...	54	रहस्योपनिषद् ...	72
प्रत्यभिज्ञा ...	54	नीलकण्ठ ...	73
परमहंसोपनिषत् ...	61	शिवानन्दाः ...	75
अमृतानन्दनाथ ...	60	आचार्याः ...	80, 12, 76

CLASS IX.—(a) MANTRA.

44. गीतासारः

Gītāsāra, is a chapter in the Bhīṣmaparva of the Mahābhārata according to the colophon.* It treats of the Gītāsārastōtramahāmantra, the ṛṣis of which are Brahma, Viṣṇu and Mahēśvara, and the deities are Agni, Vāyu and Sūrya, and which is used for the satisfaction of god Śiva. Arjuna asks Kṛṣṇa to tell him the efficacy of the syllable ओम्, its form and place. Kṛṣṇa replies that the earth, the fire, the Ṛg Vēda and the world of earth and the creator Brahma are absorbed in the letter अ a; that the heaven, Vāyu, the Yajur Vēda, the world called Bhuvar and the everlasting Viṣṇu in the letter उ u; and that the sky, the sun, the Sāma Vēda, the world Suvar and god Śiva in the letter म m. The Gītā is equal to all the Vēdas, just as the code of Manu, to all the śāstras, the Ganges, to all the holy waters, and Vishnu, to all the deities. Though the work is said in the colophon to be a portion of the Bhīṣmaparva of the Mahābhārata, it is not found there. Hall mentions a work of the same name by Kaivalyānanda Sarasvati, consisting of 174 stanzas, and giving the substance of the Bhagavadgītā.

* Vide the Extracts.

45. प्रपञ्चसारसंग्रहः.

Prapañcasārasaṅgraha.—This is an epitome by Ġirvāṇēndra of the Prapañcasāra written by Śaṅkarācārya. According to Hall and Professor Peterson * Ġirvāṇēndra was a pupil of Viśvēśvara Sarasvatī and had two disciples named Dēvēndra and Narasimha. But, in the copy of the work we have now before us, there is a reference to Amarēndrayatīśvara who was the preceptor of his preceptor Viśvēśvara Sarasvatī. He says that he gives a short substance of the Prapañcasāra, as the mantras, tantras and the yantras mentioned by Śaṅkarācārya in that work are too difficult to be understood and practised, and that he has made some additions from Mantrasāra, Kramadīpikā, Sanatkumārīya, Sāradātilaka and Mantradēvatāprakāśikā and others. In the treatment of the book, he follows the way adopted in a commentary called Satsampradāyapravartinī. The manuscript under notice contains the first seven paṭalas completely and is incomplete.

CLASS X.—(a) STOTRA OR PANEGYRIC ON THE DEITIES.

46. शिवभुजङ्गस्तोत्रम्.

Śivabhujāṅgastōtra.—This work consists of thirty-seven verses of the Bhujaṅgaprayāta metre composed by Śaṅkarācārya in praise of Śiva. This is as popular among the Śaivites as the Śivānandalahari and Soundaryalaharī noticed lower down and is daily recited. The authorship of the work by Śaṅkarācārya as that of the other two works depends upon the authenticity of a mere tradition. Reference is made to three of the sixty-three saints of the Śaiva religion in the following stanza :—

न शक्नोमि कर्तुं परद्रोह † लेशं
 कथं प्रीयसे त्वं न जाने गिरीश ।
 तथापि प्रसीदाशु कस्यापि कान्ता—
 सुनद्रोहिणो वा पितृद्रोहिणो वा ॥

* See Catalogue of Ulvar Sanskrit Library.

† Here the word “द्रोह” is used in the sense of “injury.”

“ I am unable to commit even a slight injury, and I do not know how you will be pleased with me. Be kind soon, however, to some person who has killed his wife, son or father.”

The allusion is here to Iyarpagaināyanār, Śiruttoṇḍanāyanār and Caṇḍēsanāyañar.

Iyarpagaināyanār was a staunch devotee of Śiva and worshipped him always. He had also undertaken a vow of granting everything that a Śaiva beggar asked. God Śiva, wishing to test the sincerity of his vow, assumed the form of a Śaiva Brahmin and asked him a gift. Iyarpagaināyanār promised to give it whatever it was. The god informed him that he was enamoured of his wife and requested him to fulfil his desire. The devotee complied with the request and, having communicated his promise to his wife, told her to go to the Śaiva Brahmin and to live with him. The wife thought it was her duty to obey her husband, left her home and followed the beggar. God Śiva informed the devotee that he would be attacked by his and his wife's relatives and that he should assist him while his wife was being taken away. Iyarpagaināyanār consented and followed the Brahmin with sword in hand, and killed many of those who objected to the Brahmin taking away his wife. The Brahmin accompanied by the devotee and his wife went out of the town and suddenly disappeared. God Śiva and his wife Pārvati appeared before them and said, “ you will live happily in this world and after death you will go to Kailāsa and live there in my presence in perfect beatitude.”

Śiruttoṇḍanāyanār was a Śaiva devotee. He lived in a town called Tiruceṅḡaḍu and was ordinarily known by the name of Paranjōtiyār. He was born in a minister's family and was employed by the king as a commander of the army. His wife was called Tiruveṅḡaṭṭunaṅgai. They had a son who was five years old and was fondly loved by them. God Śiva having assumed the form of a Śaiva devotee came to the house of Śiruttoṇḍanāyanār when he was away from his house. The wife having received the devotee piously requested him to remain in the house

for breakfast; and informed him that her husband who had gone in search of a Śaiva devotee would return soon. But he told her that he would not remain in the house when the master of the house was absent and that he would wait at a place called Gaṇapaticuram. After the return of the husband, he was informed of the arrival of a Śaiva devotee. He went to the devotee and requested him to honor the host with his company at breakfast; but the devotee accepted the invitation on condition of his cooking the flesh of a good looking and healthy boy five years old. The host could not get a boy of that description to be victimized for the palatal satisfaction of the carnivorous guest. The host found that his own son satisfied all the conditions laid down by the guest and persuaded his wife to kill her dear son and cook the meal with his flesh. The meal was accordingly prepared and the guest sat with the host for breakfast. The former asked the latter to bring his boy to be present at the meal and asked him to call the boy by his name. When the father obeyed the devotee and did, as was commanded to do, the boy came into the house and appeared before his parents and relatives to their great joy. The guest vanished, and God Śiva and his consort, having appeared before them, promised to the devotee and his wife the final heavenly bliss.

There was a Brahmin named Eccadattan at Śeyññālūr on the southern banks of the river Maṇṇiyār in the Chola country. He had a son named Vicāraśarma who, though young, studied the Vedās and Śāstras, became very learned and pious and devoted himself to the worship of Śiva. There was a cowherd to whom were entrusted the cows of all the inhabitants of the village. One day Vicāraśarma saw the cowherd ill-treating the cows in his charge and, having reported the matter to the owners of the cows, offered his own services to look after them. The owners of the cows entrusted their animals to Vicāraśarma and from that time he was tending them. Under his care, the animals became stout and strong and yielded much more milk than they used to do. Vicāraśarma made a *līṅga*, the emblem of god Siva, out of the sand in the bed of the river Maṇṇiyār, and poured a great

quantity of milk in worshipping the god; and yet there was no decrease in the quantity of milk produced by each cow. But a Brahmin saw the use made of a portion of the milk of the cows and reported the matter to the inhabitants who made a complaint to the father of the boy tending the cows. One day the father went to the scene of the boy's worship of Śiva and, having concealed himself amidst the branches of a lofty tree, watched what was done by his son. Much enraged at the conduct of his son, he descended from the tree and destroyed the *liṅga* with a stout stick and broke down the pots containing the milk. The son had his feelings wounded by the sacriligious action of his father, and, having killed him at once, finished his worship at the end of which God Śiva who was quite pleased with this sincere piety of the devotee, conferred on him all the boons asked, and resuscitated the deceased father of the devotee, who was also allowed to go to Kailāsa in virtue of the piety of his son.

Thus Śaṅkarācārya has referred to three saints in the Śivabhujāngastōtra. I shall now show that he has also referred to Kaṅṅappanāyanār and Tirujñānasambandhar in the Śivānandalaharī and the Saundaryalaharī respectively.

47. शिवानन्दलहरी.

Śivānandalaharī.—This is a collection of hundred verses, the composition of which is attributed to Śaṅkarācārya, the great founder of the Advaita philosophy. It contains encomiums on God Śiva and is committed to memory and recited by the Śaivites everywhere in Southern India. If the authorship of Śaṅkarācārya is true, the work acquires a very highly historical importance as it refers to Kaṅṅappanāyanār, one of the sixty-three saints of the Śaiva religion and allows us to infer the priority of the saint to Śaṅkarācārya. The reference occurs in the following stanza:—

मार्गवर्तितपादुका पशुपतेरङ्गस्य कूर्चयते
गण्डूपाञ्चुनिषेचनं पुररिपोर्दिव्याभिषेकायते ।

किञ्चिद्भक्षितमांसशेषकवलं नव्योपहारायते

भक्तिः किन्न करोत्यहो वनचरो भक्तावतंसायते ॥

“ A pair of wooden shoes used for walking on paths becomes a bunch of flowers to the person of Śiva ; the spitting of the waters rinsing the mouth, a holy bath ; pieces of flesh remaining after eating become fresh offerings of eatables ; and a forester, a great devotee ; for what is impossible for piety ? ”

In the town of Uduppūr, near Kālahasti, there was a huntsman named Nāgan who was the king of the wild country and governed the inhabitants. He had a wife named Taṭṭai by whom he got a son, by the favour of god Subrahmaṇya, named Tiṇṇan. The son was very strong and powerful and, though a mere boy, he attacked the wild beasts, such as lions and tigers and subdued them. The father became old and, when the inhabitants of the wild country governed by him were much harassed by wild beasts, they complained to him of the havoc committed by the beasts and requested him to destroy them. The old king deputed his son to the business, and the latter, having dressed and armed himself suitably, went to the forest accompanied by many followers. He destroyed many beasts of prey and, in the course of his hunting expedition, arrived at Kalahasti where he ascended the mountain to worship the god of the temple situated on its top. He became very pious and his heart melted with love for god. Having been informed of the worship of the god made by a Brahman, he bathed in the river and ate the flesh of a boar which had been cooked by his followers. After satisfying his hunger, he took the remaining flesh with him and put some water into his mouth and approached the god Śiva. He removed with his leg the flowers that had been thrown on the *liṅga*, spat the mouthful of water he brought and offered the flesh of the boar which he had partly eaten. This worship was heartily accepted by God Śiva and the devotee was admitted for ever among the favourites of the god.

48. सौन्दर्यलहरी.

Saundaryalaharī.—This is another work attributed to Śaṅkarācārya like the preceding and contains a centum of panegyric verses in honor of the goddess Pārvati who is the consort of the god Śiva and represents a personification of the divine power as exhibited in the creation, the sustenance and the destruction of the world. The work embodies all sorts of philosophical theories and religious and mystic cults and, on this account, it has acquired a great popularity. Its importance is enhanced considerably by the existence of many commentaries. It refers to Jñānasambandha who is the most eminent of the sixty-three saints of the Śaiva religion. If it be the work of Śaṅkarācārya, we should infer the priority of Jñānasambandhar to Śaṅkarācārya and attribute to the Śaiva religion a great antiquity. Jñānasambandhar is referred to in the following stanza of the *Saundaryalaharī*:—

तव स्तन्यं मन्ये धरणिधरकन्ये हृदयतः

पयःपारावारं परिवहति सारस्वतमिव ।

दयावत्या दत्तं द्रविडशिशुः तव यत्

कवीनां प्रौढानामजनि कमनीयः कवयिता ॥

“O, daughter of the Himālayas, I think that the milk of your breast causes to flow as it were a milky ocean of learning which you gave mercifully to the Tamil child and by drinking which the child became the most charming poet amidst great poets.” I consulted the commentary on the work written by Lolla Lakṣmīdhara, and, according to him द्रविडशिशुः “Tamil child” refers to Śaṅkarācārya himself, as shown in the following passage: द्रविडशिशुः द्रविडजातिसमुद्भवो बालः एतद्व्रन्थस्य कर्ता.

“The term द्रविडशिशुः means a child born in the Tamil class of people, that is, the author of the poem.” But a Tamil pandit named Virakavirāyar who flourished about two centuries ago takes the word to mean Jñānasambandhar. He has translated

the word **द्रविडशिशु** as *Varuṇanāṅgurukavuniyaṇ* * *Śirumadalai* which means “the little child born of the superior caste, that is, the Brahmin caste, and of the Kaundinyagōtra” and these words undoubtedly refer to Jñānasambandhar. But as the interpretations are conflicting, we are not in a position to determine which of them is true. In favour of the latter interpretation it may be alleged that, as Śaṅkarācārya alludes to *Iyarpagaināyanār*, *Sirutṭoṇḍanāyanār* and *Caṇḍēsanāyanār* in the *Śiva-bhujāṅgastōtra* and to *Kaṇṇappanāyanār* in the *Śivānandalaharī*, he may very likely have alluded to Jñānasambandhar also, who like the other saints is included among the sixty-three Śaiva saints. This argument cannot lead to any settled conclusion unless we are certain that *Saundaryalaharī* and other eulogistic poems are the works of Śaṅkarācārya. If this is granted, it will follow that *Tirujñānasambandhar* and the other saints who are mentioned by Śaṅkarācārya in his poems were either his contemporaries or lived before him. † As the age of Śaṅkarācārya is settled to be the latter part of the eighth century A.D., the Śaiva saints must be referred to the same period or to an earlier one. ‡

* The following is the full stanza :—

தருணமங்கலைபுனகு சிந்தை தழைந்தபாலமுதூநினால்
 அருணகொங்கையிலகு பெருங்கவியலைமெடுக்கடலாகுமே
 வருணநன்குறுகவுணியன் சிறுமதலையும் புகல் பருதியே
 பொருணயம்பெருகவிதையென்றொரு புனிதமாரிபொழிந்ததே.

† *Vide* my Essay on Tamil Literature, Part I, pp. 52, 53.

‡ The following passages are quoted from two other commentaries on the *Saundaryalaharī*, one of which takes the word **द्रविडशिशु**: as referring to Śaṅkarācārya and the other to Sambandha :—

दयावत्या दत्तं द्रविडशिशुः मङ्गलक्षणः आस्त्राय ययस्मात् कवीनां प्रौढानां मध्ये कमनीयः कवयिता अजति अत्र चिरन्तनाख्यायिका भगवतः शङ्करावतारस्य पिता सन्ततं परमेश्वरीभक्तः ग्रामाद्गृहिः परमेश्वर्या आयतनं गत्वा दुग्धेन परमेश्वरीं संलाप्य पूजां विधाय नमस्कृत्य अवशिष्टं किञ्चिद्दुग्धं सङ्गे गताय सूनवे शङ्कराचार्याय प्रयच्छति । बालकस्य मनसि प्रत्यहं परमेश्वरी स्वयं पिबति पीतशेषं मह्यं पिता ददातीति मातर्जागति । कदाचित् ग्रामान्तरं गच्छन् बालकस्य मातरं प्रत्युक्त्वा गतः प्रत्यहं सदागमनं

XIV (a).—CHARITRA OR HISTORY.

49. शृङ्गेरिगिरिगुरुपरम्परा.

Sr̥ngēri Śankarācāryars' List.—'This manuscript contains a list of the pontiffs who occupied the holy Mut of Śr̥ngēri from its original founder up to the present Śaṅkarācārya. They were all designated

यावत्तावत्त्वया दुग्धेन स्तपनीया भगवती पूजनीया सम्यगिति सा तथा कुर्वाणा कदा-
चित् प्रियधामिणि (स्त्रीधामिणी) जाता । गृहे कोऽपि नास्ति तदा पुत्रं प्रेषितवती । दुग्धेन
भगवतीं संस्तुप्य पूजां विधाय आगम्यताम् इति । बालको गत्वा पूजां विधाय दुग्धं
पुरतो निधाय परमेश्वरि पिबेति गदितवान् यदा विलम्बोज्ञातः भगवती च न पिबति
तदा रोदितुमारब्धवान् । तदा परमेश्वरि दयया आविर्भूय दुग्धं पीतवती । पुनः पात्रं
रिक्तं विलोक्य सर्वं त्वया पीतं मदर्थं न स्थापितं किमपीति रोदितुं प्रवृत्तः ततो विद्वस्य
बालकमङ्के समारोप्य तदा परमेश्वरी स्तन्यं दत्तवती जगदम्बिकास्तन्यपानेन सर्वविद्या
तदानीमेवपुरतः स्फूर्तिका जाता । कवयत्रेव गृहं गतः । एतस्मिन्नन्तरे पिता समागतः बाल-
कस्याकृतिं वाग्विजृम्भितं च विलोक्य साश्चर्योऽभूत् स्वप्ने आगत्य परमेश्वर्युक्तवती अयं
बालकश्शङ्करांशः अनेन लोकोद्धारो भविष्यतीति त्वया चिन्ता न कार्या ममबालकोऽयं
मिति ॥ इति

सौन्दर्यलहरीव्याख्या.

सौभाग्यवर्धन्याख्या.

दयावत्या करुणावत्या त्वया दत्तं प्रतिपादितं यदेव स्तन्यमास्वाद्य परिपीय द्रविड-
शिशुः संबन्धो नाम काञ्चीदेशोत्पन्नो महाकविः प्रसिद्धः तस्य खल्वेवं श्रूयते कांतिनेय
एव कुतश्चिन्मुनिशापान्मनुष्यजन्म गन्तुकामः कस्याश्चित् ब्राह्मण्या दरिद्राया उदरा-
ज्जातः स बालकः षण्मासान्तरे पितरि भिक्षार्थं बहिर्गते मातरि च पानीयहरणाय नदीप्रस्थि-
तायामतिदारिद्र्याद्दासदासीजनालोकाभावे एकाकी रुदन् कुत्रापि गन्तुमशक्तः क्षुधापी-
डितः क्रन्दनातुरो भवनाङ्गणे परिभ्रमन् यदृच्छया गगनमार्गेण भर्त्रा सह विहरन्त्या
पार्वत्या सकरुणं दृष्टः तथाच भूमाववतीत्यं स्नेहकरुणामिमं बालमुत्तोल्य धूलिं परिमृज्य
बाष्पमपनीय स्तन्यमम्बया तस्मै बालकाय प्रत्यपादि तं च भूमौ निक्षिप्य भगवत्यां
गतायां तत्क्षणादेवं संबन्धकवीश्वरस्य वदनारविन्दादनन्तकोटिदिव्यप्रवाहसंपन्ना इति
काञ्चीदेशे प्रामाणिकोयमाभाणकः प्रसिद्ध एव ॥ इति

सौन्दर्यलहरीव्याख्या.

डिण्डिमाख्या.

Śaṅkarācāryas, whatever were their personal names before their assumption of the holy dignity. There are ten names given before Śaṅkarācārya, beginning with the gods Śiva, Viṣṇu and Brahma. Each occupant of the seat selected from among his disciples a proper person who was to succeed him, and when the incumbent died, the heir-elect was installed in his stead. As this usage was invariably observed, we may fairly assume that the above relationship existed between each Śaṅkarācārya and his successor. The list was copied from a manuscript found in the Mut and may be held authentic and reliable. The list is traced downwards from Śaṅkarācārya to the god Śiva himself and becomes fictitious towards the beginning, but from Vyāsa upwards possesses a thorough historical value. The list is as follows :—

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. God Śiva. | 23. Candrasēkharabhārati. |
| 2. „ Viṣṇu. | 24. Narasimhabhārati. |
| 3. „ Brahma. | 25. Bhaktaśaṅkarabhārati. |
| 4. „ Vasiṣṭha. | 26. Puruṣōttamabhārati. |
| 5. Śakti. | 27. Candrasēkhara. |
| 6. Parāśara. | 28. Narasimhabhārati. |
| 7. Vyāsa. | 29. Puruṣōttamabhārati. |
| 8. Śuka. | 30. Rāmacandrabhārati. |
| 9. Gauḍīpādācārya. | 31. Narasimhabhārati. |
| 10. Gōvindabhagavatpāda. | 32. Narasimhabhārati. |
| 11. Śaṅkarācārya. | 33. Abhinava Narasimhabhārati. |
| 12. Viśvarūpācārya. | 34. Saccidānandabhārati. |
| 13. Nityabōdhāyanācārya. | 35. Śrīnarasimhabhārati. |
| 14. Jñānagaṇācārya. | 36. Saccidānandabhārati. |
| 15. Jñānōttamācārya. | 37. Abhinava Saccidānandabhārati. |
| 16. Jñānagiryācārya. | 38. Abhinava Narasimhabhārati. |
| 17. Simhagiriśivācārya. | 39. Śrī Saccidānandabhārati. |
| 18. Īśvaratīrtha. | 40. Abhinava Saccidānandabhārati. |
| 19. Narasimhatīrtha. | 41. Narasimhabhārati. |
| 20. Vidyāśaṅkaratīrtha. | |
| 21. Bhāratīkṛṣṇatīrtha. | |
| 22. Vidyārāṇyabhārati. | |

In the list, Vidyārāṇya is represented as the 22nd; and his assumption of the title of Śaṅkarācārya took place in 1331 A.D.

and he was followed up to the present time by nineteen priests. If we divide the period of time that passed from that date, we get an average duration of 29 years for each priest. But previous to Vidyāranya, we have ten names up to the first Śaṅkarācārya whose age varies from the middle of the seventh to the end of the eighth century. Taking the end of the seventh century for a rough calculation, we see that ten priests have occupied the holy seat of Śrngēri for 631 years and that we get an average of 60 years for each priest and the average is too long. We should, therefore, take the manuscript as defective, until the above discrepancy is satisfactorily explained away.

50. शङ्कराचार्यचरित्रम् .

Śaṅkarācāryacaritra—The work contains a short account of the life of Śaṅkarācārya who established the Advaita philosophy. It was written by Govindanātha and is divided into nine chapters, and the following are the contents of those chapters :—

1st Chapter	कथासंक्षेपः.
2nd ,,	आचार्यजननम् .
3rd ,,	व्याससंलापः.
4th ,,	सुरेश्वरशिष्योत्पत्तिः.
5th ,,	सुरेश्वरान्तेवासिनः संन्यासस्वीकारः.
6th ,,	हस्तामलकतोटकयोः संन्यासस्वीकारः.
7th ,,	काञ्चिक्षेत्रमाहात्म्यम् .
8th ,,	रामेश्वरप्रभावकथनम् .
9th ,,	सूर्यमण्डलप्रवेशः.

The following predecessors and disciples of Śaṅkara are mentioned in the book :—

Nārāyana.
Brahma.
Vasiṣṭha.
Śakti.
Parāśara.
Vyāsa.
Śuka.
Gauḍapāda.

Gōvindayogīndra.
Śaṅkara.
His disciples were—
Padmapāda.
Hastāmalaka.
Tōṭakācārya.
Surésvarūcārya.

The following stanza occurs in the ninth chapter of the book :—

अष्टवर्षे चतुर्वेदः द्वादशे सर्वशास्त्रवित् ।
षोडशे कृत्वान् भाष्यं द्वात्रिंशे मुनिरत्यगात् ॥

This same stanza occurs also in the *Maniṣāpāñcakavyākhyā*, *Ékaślōkivyākhyā* and the *Muṇḍakōpaniṣadvyākhyā*.

XVII.—MEDICINE.

51. चारुचर्या.

Cārucaryā is a work on the daily habits and duties of the Hindus, describing the various articles used in food and those which are to be used in different seasons for health and comfort. It is a very important work as it contains much information about the necessaries and luxuries of Indian life and the ordinary preventive and curative medicines almost known to every Hindu family. It is attributed to the king Bhōja, who ruled at Dhāra in the eleventh century. I have not seen the book mentioned in any of the printed catalogues of Sanskrit manuscripts except in Dr. Burnell's catalogue of the Tanjore palace library. The following stanzas are quoted from the book in the commentary of Bhartṛhari's *Subhāṣitatriṣati* by Rāmacandra :—

(तदुक्तं चारुचर्यायामृतुचर्याप्रस्तावे सर्वज्ञभोजराजेन):

त्रिषु च दधि निषेव्यं ग्रीष्मकाले वसन्ते
शरदि च परिवर्ज्यं वाञ्छता दीर्घमायुः ।

यदि खलु परिवाञ्छा सेव्यतां सर्वकालं
सहगुडमधुपात्रे शर्करामुद्गयूषैः ॥

(तदुक्तं चारुचर्यायाम्).

मनसो हर्षणं श्रेष्ठं रतिदं मदकारणम् ।

मुखरोगहरं हृद्यं दीपनं वस्तिशोधनम् ॥

मुखशुद्धिं क्रिमिहरं ताम्बूलं श्रीकरं परम् ॥

“Curd should be used thrice, that is, in the summer and spring seasons and during autumn, and should be avoided, by a person desirous of longevity. If a person likes to use it, in all seasons let him eat it with sugar, honey, peas and rice gruel. Betel gladdens the heart very well, produces sexual desire and cheerfulness, removes the diseases of the mouth, is pleasant, causes good appetite and clears the bowels; it purifies the mouth, destroys worms and gives beauty.”

The manuscript procured for the library during the year 1893-94 is imperfect; but a better manuscript was obtained in the year 1894-95 and copied.

NOTICES
OF
TAMIL MANUSCRIPTS.

CLASS I.—GRAMMAR.

1. தொல்காப்பியம் (எழுத்துஞ் சொல்லும்)
நச்சினூர்க்கினியருரை.

TOLGĀPPIYAM (ORTHOGRAPHY AND ETYMOLOGY) WITH THE
COMMENTARY OF NACCIṆĀRKKIṆIYAR.

THE first portion of the work, viz., Orthography, with the commentary of *Ilumbūraṇar*, has already been noticed on pp. 28–30, Report No. I; and some additional information regarding the work and its author is here given. The whole work of Tolgāppiyar consists of the following three parts, viz., Orthography, Etymology and Poetics, each part being subdivided into nine sections, which are as follow :—

1. Orthography (*Eḷuttadhikāram*).

- | | | |
|---|--|---|
| § (1) <i>Nūṇmarabu.</i>
(2) <i>Moḷimarabu.</i>
(3) <i>Pirappiyal.</i>
(4) <i>Puṇariyal.</i>
(5) <i>Togaimarabu.</i> | | (6) <i>Urubiyal.</i>
(7) <i>Uyirmayaṅḡiyal.</i>
(8) <i>Puḷlimayaṅḡiyal.</i>
(9) <i>Kurriyalugarappuṇa-riyal.</i> |
|---|--|---|

2. Etymology (*Ṣolladhikāram*).

- | | | |
|--|--|--|
| § (1) <i>Kiḷaviyākkam.</i>
(2) <i>Vērrumaiyiyal.</i>
(3) <i>Vērrumaimayaṅḡiyal.</i>
(4) <i>Viḷimarabu.</i>
(5) <i>Peyariyal.</i> | | (6) <i>Vinaiyiyal.</i>
(7) <i>Iḍaiḥcolliyal.</i>
(8) <i>Uriccolliyal.</i>
(9) <i>Eccaviyal.</i> |
|--|--|--|

3. Poetics (*Poruḷadhikāram*).

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| § (1) <i>Agattinaiyiyal.</i> | (6) <i>Meippāṭṭiyal.</i> |
| (2) <i>Purattinaiyiyal.</i> | (7) <i>Uvamaiyiyal.</i> |
| (3) <i>Kaḷaviyal.</i> | (8) <i>Ṣeyyuliyal.</i> |
| (4) <i>Karpiyal.</i> | (9) <i>Marabiyal.</i> |
| (5) <i>Poruliyal.</i> | |

The grammar of Tolgāppiyar has been commented upon by *Kallāḍar*, *Pērāsīriyar*, *Ḵampūraṇar*, *Ṣēnāvaraiyar* and *Naccinārkkiniyar*. The commentary of *Pērāsīriyar* is referred * to by *Naccinārkkiniyar*, but the work has not yet been discovered. *Kallāḍar's* commentary, of which a MS. has been secured, is only for the chapter on Etymology. It is said that *Ṣēnāvaraiyar* wrote his commentary only upon the chapter on Etymology, and the work has been printed. But *Naccinārkkiniyar* has commented upon the whole of the grammar of *Tolgāppiyar*; and the commentary has been printed.

The preface † to this work is attributed to *Panambāraṇār*, one of the twelve disciples of the sage *Agastya*. He speaks of the Tamil country as bounded on the north by *Vēṅkaṭam*, on the south

* இங்ஙனம் இதற்குப்பொருள் கூறல் ஆசிரியர் கருத்தாதல் “புகழ்க்கம்புரிதல்” என்னும் மெய்ப்பாட்டியற் சூத்திரத்தானுணர். அதற்குப் போசிரியர் கூறிய உரையானு முணர். —தொல். பொருள். p. 230.

† “வடவேங்கடநீ தென்குமரி

ஆயிடைத், தமிழ்கூறு நல்லுலகத்து
வழக்குஞ்செய்யுளு மாயிருமுதலின்
எழுத்துஞ்சொல்லும் பொருளுநாடிச்
செந்தமிழியற்கை சிவணிய நிலத்தொடு
முந்துநூல்கண்டு முறைப்படவெண்ணிப்
புலந்தொகுத்தோனே போக்கறுபனுவல்
நீலந்தருநீருவீர் பாண்டியனவையத்து
அறங்கரைநாவி னான்மறைமுற்றிய
அதங்கோட்டாசாங்கிரிபத்தெரிந்து
மயங்காமாபி னெழுத்துமுறைகாட்டி
மல்குநீர்வரைப்பி னைந்தீரநிறைந்த
தொல்காப்பியனே னத் தன்பெயர்தோற்றிப்
பல்புகழ்நிறுத்த படிமையோனே.”

by *Kumari*, and on the east and west by the ocean. In explanation of this, the commentator says : “ இவை (Vēṅkaṭam and Kumari) இரண்டும் அகப்பாட்டுவல்லையாயின; என்னை? குமரியாற்றின் தெற்கு நாற்பத்தொன்பதுநாடு கடல்கொண்டதாகலின். கிழக்கும் மேற்கும் கடவெல்லையாக முடிதலின் வேறெல்லை கூறராயினார்.” “ On the north *Vēṅkaṭam* (the Tripati hills), on the south by the river *Kumari*. These two boundaries form part of the country; for, forty-nine districts to the south of the river *Kumari* have been swept away by the ocean. As the country is bounded on the east and west by the ocean, no separate boundary is mentioned by the author.” As the same river *Kumari* is referred to in the *Śilappadhikāram* as a sea,* it is to be inferred that, when *Tolgāppiyar* wrote his grammar, Southern India had extended beyond the Cape Comorin, and that the extreme southern portion of the country included the river *Kumari* and forty-nine districts to the north of that river and to the south of the *Pahruli* river.† The tract of land which lay between the two rivers extended over 700 *kāvadams*, i.e., 7,000 miles, and it comprised the following districts: seven *Teṅganāḍus*, seven *Maduraināḍus*, seven *Munpālaināḍus*, seven *Piṅbālaināḍus*, seven *Kunranāḍus*, seven *Kuṇakāraināḍus*, seven *Kuṟuṁbaṅaināḍus*, these forty-nine districts, *Kumari*, *Kollam* and other *Panmalaināḍus*, forests, rivers, towns up to the great northern bank of the *Kumari* river.† If this distinction of the southern

* “ நெடியோன்குன்றமுந் தோடியோன் பெளவமும் : ” is ‘ The hill of Viṣṇu and the sea of *Kumari*. ’

† பாண்டியநீர் ஒருவன் சயமாகீர்த்தியனுசிய நிலத்தரு திருவிப்பாண்டியன் தோல்காப்பியம் புலப்படுத்தி இரீனாடு. அக்காலத்து அவர் நாட்டுத் தென்பாவி முகத்திற்கு வடவெல்லையாகிய பஃறுளியென்னுமாற்றித்தம் துமரியென்னுமாற்றித்தமிடையே எழுநூற்றுக்காவதவாறும் இவற்றின் நீர்மலிவானெனமலிந்த ஏழ்தெங்கநாடும் ஏழ் மதுரைநாடும் ஏழ் முன்பாலைநாடும் ஏழ் பின்பாலைநாடும் ஏழ் துன்றநாடும் ஏழ் குணகாரைநாடும் ஏழ் குறும்பனைநாடுமென்னும் இந்த நாற்பத்தொன்பது நாடும், துமரிகொல்லழலிய பன்மலைநாடும், காடும், நதியும், பதியும் சடநீர்க்குமரி வடபெருங்¹ கோட்டின் கா

¹ கோடு = கரை.

portion of the country be a real fact, we have to infer that the grammar of Tolgāppiyar must be very ancient.

The preface refers to a Pāṇḍya under the adjective தீவந்தரு திருவின் which means 'wealthy and bestowing lands.' But the commentary gives the name of the Pāṇḍya as *Mākīrti** (Sans. Mahākīrti) and says that he reigned for twenty-four thousand years.

The MS. under notice contains the commentary of Naccinārkiṇiyar, which is the best and the latest of all the existing commentaries on the grammar of Tolgāppiyar. He was a very learned Jaina Brahman and seems to have mastered Tamil and Sanskrit, and, by writing commentaries on many great and important Tamil works, has done a service to Tamil literature which Mādhavācārya and Mallināthasūri have done for Sanskrit. In the colophons to the commentary he is said to have been a native of Madura and born of the Bhāradvāja gōtra.† He has commented on the following other works :—

1. *Pattuppāṭṭu*, an anthology which includes the following ten works: (1) Tirumurugarruppaḍai, (2) Porunararruppaḍai, (3) Śirupāṇārruppaḍai, (4) Perumbāṇārruppaḍai, (5) Mullaippāṭṭu, (6) Maduraikkāñji, (7) Neḍunalvāḍai, (8) Kuriñjippāṭṭu, (9) Paṭṭiṇappālai, (10) Malaipaḍukaḍām or Kūttararruppaḍai.

2. *Kalittogai*.

3. *Jivakacintāmaṇi*.

4. *Kuruntogai* (20 verses).

5. *Tirukkural*.

ஹும் கடல்கொண்டொழிதலாம் குமரியாகிய பெளவமென்றரென்றுணர்க. இஃது என்னை பெறுமாறெனின், “வடிவேலெறிந்தவான்பகை பொருது, பஃறுளியாற்றுடன் பன்மலையடுக்கத்துக், குமரிக் கோடுகொடுங்கடல்கொள்ள” என்பதனானும், கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனாராத்த இறையனார் போருளுயையானும், உலையாசிரியராகிய இளம்பூணவடிகள் முகவுரையானும் பிறவாற்றானும் பெறுதும்.

* According to *Aḍiyārkkunallūr* the name is *Śayamākīrti* (Sans. Jayamahākīrti).

† சொல்லதிகாரத்திற்கு மதுரை ஆசிரியன் பாரதிவாசி நச்சினூர்க்கினியான் செய்த உலையிடையிட்ட காண்டிகை முடிந்தது.

Naccinārkkiniyār quotes the following works and authors in his commentary under notice :—

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Agattiyam. | 14. Nālaḍiyār. |
| 2. Aganānūru. | 15. Nānmaṇikkāḍigai. |
| 3. Ācārakkōvai. | 16. Neḍunalvāḍai. |
| 4. <i>Uraiyāsiriyar.</i> | 17. Paṭṭinappālai. |
| 5. Kalittogai. | 18. Paripāḍal. |
| 6. Kurundogai. | 19. Puranānūru. |
| 7. Silappadhikāram. | 20. Perumbānāruppaḍai. |
| 8. Jivakacintāmaṇi. | 21. Maṇimēkhalai. |
| 9. <i>Śēnavaraiyar.</i> | 22. Malaipadukaḍam. |
| 10. Tirikaḍugam. | 23. Māpurānam. |
| 11. Tirukkuṟaḷ. | 24. Mullaippaṭṭu. |
| 12. Tirumurugāruppaḍai. | 25. Veṇbāmālai. |
| 13. Narriṇai. | |

Naccinārkkiniyār is generally said to be a Śaiva ; but the statement which he makes at the beginning of his commentary in explanation of the passage அதங்கோட்டாசாற்கரிமபதெரிந்து,* leads

* அகத்தியனார் அதங்கோட்டாசிரியரை நோக்கி நீ தோல்காப்பியன் செய்த நூலைக்கேளற்க வென்று கூறுதலானும், தொல்காப்பியனரும் பல்காலஞ்சென்று யான் செய்த நூலை நீர் கேட்டல்வேண்டுமென்று கூறுதலானும், இவ்விருவரும் வெகுளாமல் இந்நூற்குக் குற்றங்கூறி விடுவலெனக்கருதி அவர் கூறிய கடாவிழ்கெல்லாம் விடைகூறுதலின் அரிபத்தெரிந்து என்றார். அவர் கேளன்மி நென்றற்குக் காரண மென்னையோவெனின், தேவரெல்லாருங்கூடி யாஞ்சேரவிருத்தலின் மேருத்தாழ்ந்து தென்றிசை உயர்ந்தது, இதற்கு அகத்தியனாரே ஆண்டிருத்தற்குரியரென்று அவரை வேண்டிக்கொள்ள, அவருந் தென்றிசைக்கட்போதுகின்றவர் கங்கையாருழைச்சென்று காவிரியாரை வாங்கிக்கொண்டு, பின்னர் யமதக்கினியாருழைச்சென்று அவர்மகனார் தீரணதூமாக்கினியாரைவாங்கிக்கொண்டு, புலத்தியனுந்ழைச்சென்று அவருடன் பிறந்த குமரியார் உலோபாழ்த்தீரையாரை அவர் கொடுப்பதீரேற்று இரீஇப் பெயர்ந்து துவராபதிபோந்து நிலங்கடந்த நெடுமுடியண்ணல் வழிக்கண் அரசர் பதினெண்மரையும் பதினெண்குடி வேளிநுள்ளிடாரையும் அருவாளையும்கொண்டுபோந்து, காடுகெடுத்த நாடாக்கிப் பொதியின்கணிநுந்து, இராவணனைக் கத்தருவத்தாம் பிணித்து, இராக்கதரை ஆண்டு இயங்காரை விலகித், தீரணதூமாக்கினியாராகிய தோல்காப்பியனாரை நோக்கி நீ சென்று குமரியாரைக்

me to think that he was not a Śaivite, but was rather a Jaina or Buddhist. The same idea is expressed * by him in his commentary on the *Poruḷadhikāram* on the sūtra “வேந்தனினொரீஇய, ஏனொர்மருங்கினு மெய்திடனுடைத்தே” He says, “As for the cause of his (*Agastya*’s) saying ‘Do not hear,’ all the gods who had assembled on Mount *Mēru* requested *Agastya* to go to the south and remain there to keep up the balance when the whole earth which had bent on the southern side owing to the weight of all the gods. Before he went to the south, *Agastya* went to the Ganges and received the river *Kāviri* from her. He then proceeded to *Yamadagniyār* (Sans. *Jamadagni*) and received *Tirunadhūmāgni* (Sans. *Tṛṇadhūmāgni*) who was *Tolgāppiyar* himself. He married *Lōpāmuttiraiyar* who was given to him by her brother *Pulattiyānār*. He went to *Tuvāravati* (Sans. *Dvāraka*) and took the eighteen kings of the line of *Kṛṣṇa* (நிலங்கடந்த நெடுமுடியண்ணல்), the *Vēlirs* of the eighteen families and the *Aruvāḷars*. He denuded the country of its forests and made it inhabitable. He settled on the Mount *Podiyil*, and, having defeated *Rāvaṇa* by his skill in music, freed his habitation from the incursions of *Rākṣasās*. He makes *Rāvaṇa* a contemporary of *Kṛṣṇa*’s dynasty, which is opposed to the Hindu *Purāṇas* and *Itihāsas*. This opinion is supported by the *Rāmāyaṇa* of the celebrated Jain priest of Guzerat, *Hēmacandra*, according to which the incarnation of *Viṣṇu* as *Kṛṣṇa* was before that as *Rāma*.

கொண்டுவருகவெனக்கூற, அவரும் எம்பெருமாட்டியை எங்ஙனங் கொண்டுவருவவென்றார்க்கு, முன்னாகப்பின்னாக நான்கோல் நீளம் அகல நின்றுகொண்டுவருகவென, அவரும் அங்ஙனங்கொண்டுவருவழி, வையை நீர்க்கெகிக் குமரியாரை ஈர்த்துக்கொண்டுபோகத், தொல்காப்பியனார்கட்டளையிறந்துசென்று ஒர்வெதிர்ங்கோலைமுறித்துநீட்ட, அதுபற்றியேறினார்; அது குற்றமென்று அசத்தியனார் குமரியாரையுந் தொல்காப்பியனாரையுந் சுவர்க்கம் புகாப்பிரொனச் சபித்தார்; யாங்கள் ஒருகுற்றமுஞ்செய்யாதிருக்க எங்களைச் சபித்தமையான் எம்பெருமானுஞ்சுவர்க்கம் புகாப்பிரொன அவர் அசத்தியனாரைச் சபித்தார்; அதனை அவர் வெகுண்டாராதலின் அவன் செய்தநூலைக் கேளற்கவென்றான்க.

* “இது மலையமாதவன் நிலங்கடந்த நெடுமுடியண்ணலுழை நரபதியருடன் தொணர்ந்த பதினெண்வகைக் குடிப்பிறந்த வேளிர்க்கும் வேந்தன் தொழில் உரித்தென்கின்றது.” தொல். பொருள், p. 54.

There is a passage occurring in the commentary of Naccinārkkiniyar which contains a very valuable information and is quoted below :—

“கடைச்சங்கத்தாருள் களவியற் பொருள்கண்ட கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரர் ‘இடைச்சங்கத்தார்க்கும் கடைச்சங்கத்தார்க்கும் நூலாயிற்றுத் தொல்காப்பியம்,’ என்றாகலானும்,”

From this passage we learn that the preface to the commentary on the *Iraiyānārayapporul*, which contains an account of the three ancient Saṅgams, was known to Naccinārkkiniyar. But I have already shown * that the preface was not written by Nakkīrar, but by a person who lived eight generations after Nakkīrar. Nakkīrar was a contemporary of Vamaśāsēkhara Pāṇḍya who is assigned to the fifth or the sixth century A.C. (vide *Essay on Tamil Literature*, page 42). If the last of the series of eight teachers of the commentary of Nakkīrar be supposed to have flourished during the seventh or the eighth century, assigning twenty-five years to each generation, Naccinārkkiniyār, who quotes the passage from the preface, must have lived after the seventh or the eighth century.

Parimēlaḷagar, who wrote a commentary on the *Kuraḷ*, refers to Bhōja, king of Dhāra, in the following passage :—

“இச்சிறப்புப்பற்றி வடநூலுள் போசராசனும் ‘சுவைபலவென்று கூறுவார்கூறுக; யாங்கூறுவது இன்பச்சுவை ஒன்றனையே’ என இதனையே மிகுத்துகூறினான்.”—Introd. to the commentary to the third part of *Kuraḷ*.

“Taking into consideration this importance, even King Bhōja says that, though other authors say that there are many sentiments, he would mention only the sentiment of love and he thus attached great importance to it.”

From this reference we may conclude that *Parimēlaḷagar* lived after Bhōja. At this stage comes to our help a tradition which makes Naccinārkkiniyar and *Parimēlaḷagar* contemporaries and states that the former was old when the latter was young. On the authority of the tradition, we may, for the present, rest with the conclusion that Naccinārkkiniyar lived after the time of Bhōja, *i.e.*, the eleventh century A.C.

* Vide ‘*Essay on Tamil Literature*,’ pages 23–24.

In support of the *terminus aquo* of the age of Naccinārkkīṇiyar arrived at now, I may mention the fact that Naccinārkkīṇiyar, in his commentary on the *Jivakacintāmaṇi*, quotes a passage* from the Kapardi-kārika, the author of which was Kapardisvāmi, who is supposed to have flourished about the eighth century and whose name is quoted by Rāmānuja in his *Vēdārthasaṅgraha*.

It is a noteworthy fact that Naccinārkkīṇiyar who has commented upon *Cintāmaṇi*, *Kalittogai*, *Pattuppāṭṭu*, &c., should not have commented upon the *Śilappadhikāram*, a poem which seems to be very old, and older than, and not inferior to, any of the works named above.

2. தொல்காப்பியம் (சொல்)—கல்லாடருரை.

TOLGĀPPIYAM (ETYMOLOGY WITH THE COMMENTARY OF KALLĀḌAR).

The work under notice is a commentary on the second part of the *Tolgāppiyam*, viz., the chapter on Etymology, attributed to *Kallāḍar*, one of the poets of the third Tamil Saṅgam and author of the famous poetical work *Kallāḍam* and portions of *Aganānūru*, *Puranānūru*, *Kurundogai* and *Tiruvalluvamālai*; but from the nature and style of the commentary under notice, one would naturally be led to the conclusion that the commentary is the production of a very inferior hand.

CLASS II.—PROSODY.

3. யாப்பருங்கலச் சூத்திரம்—விருத்தியுரை.

YĀPPARUṅGALACCŪTTIRAM WITH THE VIRUTTI OR COMMENTARY.

The text was written by *Amṛtasāgarar*, who, it is said in the preface (*சிறப்புப்பாயிரம்*), followed the teaching of *Guṇasāgarar* as can be seen from the following passage :—

முழுதலகிழைஞ்சு முற்றெருருங்குணர்ந்தோன்
செழுமலர்ச்சேவடி செவ்விதின்வணங்கிப்

* संगताय वराय समर्प्यते स्वामिना तु वधूर्जलपूर्वकं ।

स्याप्यते च विवाहमहीतले पावको विधिवन्मधुपर्कः ॥

*Saṅgatāyavarāyosamarpyatē svāminātu vadhūrjalapūrvakam, sthāpyatēca-
vivāhamahītalē pavakōvidhivanmadhuparkah*—KAPARDIKĀRIKĀ, Patala, ii. 1, 2.

பாற்படுதென்றமிழ்ப் பரவையின்வாங்கி
 யாப்பநூங்கலநனி யாப்புறவகுத்தோன்
 தனக்குவரம்பாகிய தவத்தொடுபுணர்ந்த
 குணக்கடற்பெயரோன் கொள்கையின்வழாஅத்
 துளக்கறுகேள்வித் துகடர்காட்சி
 அளப்பருங்கடற்பெய ரநுத்தவத்தோனே.

The name of the author is referred to partly in the expression *Kaḍarpeyar*, 'having the name of the ocean'; and the full name is given by Perundēvanār, the commentator of the *Vīrasōḷiyam*, as *Amṛtasāgaranār*. * As *Perundēvanār*, the commentator of the

* “ மாலைமாற்றே சக்கரஞ்சழிகுள
 மேகபாத மெழுகூற்றிருக்கை
 காதைகரப்பே கரந்துறைபாட்டே
 தூசங்கொளலே வாவன்றாற்றுக்
 கூடசதுக்கங் கோழத்திரியே
 யோரெழுத்தினத்தா லுயர்ந்தபாட்டே
 பாதமயக்கே பாவிற்புணர்ப்பே
 யொற்றுப்பெயர்த்த லொருபொருட்பாட்டே
 சித்திரப்பாவே விசித்திரப்பாவே
 விகற்பநடையே வினாவுத்தரமே
 சருப்பதோபத்திரஞ் சார்ந்தவெழுத்து
 வருத்தனைமற்றும் வடநூற்கடலு
 ளொருங்குடன்வைத்த வுதாரணநோக்கி
 விரித்துமுடிக்கு மிறைக்கவிப்பாட்டே
 யுருவகமாதி விரவியலீராய்
 வருமலங்காரமும் வாழ்த்தும்வசையுங்
 கவியேகமகன் வாதிவாக்கியென்
 றவர்கடம்மையு மவையினமைதியும்
 பாடுதன்மரபுந் தாரணப்பகுதியு
 மானந்தமுதலிய ஆனமுஞ்செய்யுளும்
 (?) விளம்பின தியற்கையு நரம்புவிதர்ப்பமும்
 பண்ணுந்திறனும் பாலையுங்கூட்டமு
 மெண்ணியதிணையு மிருதுவுங்காலமு
 மெண்வகைமணமு மெழுத்தஞ்சொல்லுஞ்
 செந்துறைமார்க்கமும் வெண்ணறைமார்க்கமுந்
 தந்திரவுத்தியுந் தருக்கமுட்டியு
 முந்துநூன்முடிந்த முறைமையின்வழாமை
 வந்தனபிறவும் வகுத்தினத்துரைப்பா
 னந்தமில்கேள்வி யாசிரியன்னே.”

என்று அமிர்தசாகரனுக்கறியது கொள்க.—வீரசோ. p. 189.

Vīrasōḷiyam, is considered to have been a disciple of *Buddhamitra*, the author of the text, and a contemporary of *Vīrasōḷa* alias *Kulōttuṅga I*, who reigned between 1064—1113, the author of the work under notice must have flourished before the eleventh century. The commentator, whose name is not known, quotes authors and works very copiously, and I shall give, at the end of this notice, a list of them which I consider very useful as many of the names are scarcely known at present. It has enabled me to make several inferences which are very important for the history of Tamil Literature, and some of these are given below:—

(1) *Poygaiyār*, who is the author of the *Kaḷavaḷinārpadu* and portions of the anthologies called *Narriṇai* and *Puraṇānūru*, and also the Tamil Saint of the same name, are frequently referred to by the commentator without any attributes which may indicate a difference. The stanzas quoted from the *First Tiruvandādi* of the *Iyarpā* have been verified in the latter work with a slight difference, to illustrate some metrical peculiarity. I may also mention here the fact that *Naccinārkkinīyar* also refers to the *Andādi* abovementioned in the following passage :

அது முத்தொள்ளாயிரமும் பொய்கையார்முதலாயினோர்சேய்த
அந்தாதிசேய்யனும் எனவுணர்க.

“Instances of the poem are the *Muttollāyiram* and the *Andādi* composition of *Poygaiyār* and others.”

From the identity of the names, we may infer that *Poygaiyāl-rār* was called simply *Poygaiyār* and was the author of the *Kaḷavaḷinārpadu* and portions of the *Puraṇānūru* and the *Narriṇai* as already said ; that he was called *Poygaiyālvār* when he became a Saint ; that he was a contemporary of *Kōccheṅgaṇṇ*, a Chōla king, and *Kanaikkāḷirumporai*, a Chēra king who was defeated in a battle by the former and was imprisoned. But when *Poygaiyār* composed the poem known by the name of *Kaḷavaḷinārpadu* in honor of the victorious Chōla, the latter ordered the release of the Chēra king ; and the event shows what amount of respect and reverence the Chōla should have felt for the future Saint. I have roughly calculated the age of *Kōccheṅgaṇṇ* to be the seventh or

the eighth century A.C., and the same age should be assigned to Pūdatālvār, Pēyālvār, and Tirumaliśaiyālvār, who were the contemporaries of Poygaiyālvār.

(2) The commentator of the Yāpparuṅgalam under notice quotes the name of *Pērāsīriyar* with certain attributes which belong to God Śiva, and they are as follow :—

1. பிறை நெடுமுடிக்கறைமிடற்றரனூர்பெயர்மகிழ்ந்த பேராசிரியர் வேணியான்
2. தீர்மலிந்தவார்சடையோன் பேர்மகிழ்ந்த—பே. “Pērāsīriyar who gloried with the name of Śiva, who had the Ganges on his matted hair.”
3. திரிபுரமெரித்தவர் பெயர்மகிழ்ந்த—பே. “Pērāsīriyān . . . who burnt the three towns.”
4. திரிபுரமெரித்தவிரிசடைதிருத்தர் பெடர்மகிழ்ந்த—பே “Pērāsīriyar . . . who burnt the three towns and had matted hair.”
- 5 கறைமிடற்றோன் பெயர்மகிழ்ந்த—பே. “Pērāsīriyar. . . who had a black neck.”
6. பெண்ணொருபாகன் பெயர்மகிழ்ந்த—பே. “Pērāsīriyan . . . who had his wife as part of his body.
7. பெருமான்பெயர்மகிழ்ந்த—பே. “Pērāsīriyan . . . Śiva.
8. பிறைமுடியோன் பெயர்மகிழ்ந்த—பே. “Pērāsīriyan. . . who had a crescent of the moon on his crown.”
9. வாமமேகலை மாதையோர்பாகனூர் நாமமகிழ்ந்த நல்லாசிரியர். “Nallāsīriyar . . . who had the Goddess Pārvati as part of his body.”
- 10 காமவேளைக்கறுத்தபுத்தேள் நாமந்தாங்கிய ந. “Nallāsīriyar who held the name of God Śiva, who burnt the God of love.”

11. காமனைக் காய்ந்தவர் நாமமகிழ்ந்த ந—“Nallāsīriyar who gloried with the name of Śiva, who killed the God of love.”

In these adjectives the word பேர்மகிழ்ந்த is doubtful in meaning as it may mean ‘who rejoiced by the name (of Śiva),’ that is, who was pious (to Śiva), or ‘who gloried by the name of Śiva,’ ‘that is, who nobly held the name of Śiva. The use of the word தாங்கிய ‘who held or had,’ in the attribute No. 10, leads us to adopt the

latter meaning. In some of the references we have the name of நல்லாசிரியர், which must refer to the same author from the nature of the attributes. We do not know why the commentator should refer to *Pērāsīriyar* with so many titles, all pointing to God Śiva. As, in the whole of Tamil Literature, there is only one poet who is identified with God Śiva, as far as I know, the references of the commentator must belong to the same person, that is, *Iraiyānār* of the third sangam.

We have now to settle a question which suggests itself, viz., whether the *Pērāsīriyar* (*Iraiyānār*) was the same as the person who goes by the same name and who wrote a commentary on the *Tolgāppiyam*, and who is also referred to by *Naccinārkkīniyar* in his commentary on the work, without any attribute. The identity is also warranted by the fact that *Iraiyānār* was a contemporary of *Nakkīrar* who is said to have flourished in the fifth or the sixth century, and that *Pērāsīriyar* who wrote the commentary of the *Tolgāppiyam* flourished before *Naccinārkkīniyar* who flourished after the eleventh century A.C. or subsequently

The work under notice is divided into the following chapters:—

I. *Uruppiyalōttu*, which is sub-divided into—

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. <i>Eḷuttōttu.</i> | 4. <i>Talaīyōttu.</i> |
| 2. <i>Aśaiyōttu.</i> | 5. <i>Aḍiyōttu.</i> |
| 3. <i>Śirōttu.</i> | 6. <i>Toḍaiyōttu.</i> |

II. *Séyyuḷiyalōttu.*

III. *Oḷibiyalōttu.*

Apart from the *Séyyuḷiyal* of the *Tolgāppiyam*, this is the only work on Tamil Prosody that treats of the subject very copiously and with many examples and authorities. Another work written by the same author as a sequel to this, viz., *Yāpparuṅgalakkāriyai*, is the only work now extant on the subject, the work under notice with its commentary being very rarely found in the libraries of Tamil paṇḍits. The text *Sūtras* alone were edited many years ago by *Tāṇḍavarāya Mudaliar*, an able Tamil paṇḍit and the author of the *Pañcatantra* in Tamil prose. The work with its commentary under notice deserves to be printed and published;

but I am trying to get some more copies of the work for comparing and collating, before putting the work in printers' hands.

The following names of authors, works, kings, and places are referred to by the commentator of the Yāpparuṅgalasūtram :—

(1) *Names of authors.*

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Agattiyānār. | 22. Palkāyanār. |
| 2. Aṇiyiyaluḍaiyār. | 23. Paraṇar. |
| 3. Avinayanār. | 24. Parimāṇanār. |
| 4. Arivuḍainambī. | 25. Paṇambāranār. |
| 5. Aḷaviyanār. | 26. Pāṭṭiyānmarabuḍaiyār. |
| 6. Iḍaikkāḍar. | 27. Peruṅjittiraṇār. |
| 7. Auvvaiyār. | 28. Perundalaicēattan. |
| 8. Kāḍiyanaḷḷiyār. | 29. Pērāsīriyar. |
| 9. Kāpilar. | 30. Poygaittallayānaicēḷā- |
| 10. Kallāḍar. | sīriyar. |
| 11. Kākkaiḷaiyār. | 31. Poygaiyār. |
| 12. Kuḍamūkkirpagavar. | 32. Mayēecurar. |
| 13. Kaiyanār. | 33. Māḍalanār. |
| 14. Śāṅgayāppuḍaiyār. | 34. Māpurānamuḍaiyār. |
| 15. Śīrukākkaiḷaiyār. | 35. Māmūlar. |
| 16. Śeyyuliyaluḍaiyār. | 36. Mārkkāṇḍēyanār. |
| 17. Tolgāppiyanār. | 37. Mūlar. |
| 18. Nakkīrar. | 38. Vāsudēvanār. |
| 19. Nallāsīriyar. | 39. Vāyppayanuḍaiyār. |
| 20. Nallāranār. | 40. Vāyppiyanār. |
| 21. Nattattanār. | 41. Vilakkattanār. |

(2) *Names of works.*

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1. Agattiyam. | 8. Āsīriyamūri. |
| 2. Aḍinūl. | 9. Ānandavōttu. |
| 3. Aṇiyiyal. | 10. Irāmāyaṇam. |
| 4. Amirtapati. | 11. Udayanakumāraṇ-kadai, |
| 5. Araśaccatṭam. | Udayaṇaṇ-kadai. |
| 6. Avinayam. | 12. Kaṇakkīyal. |
| 7. Avinandamālai. | 13. Kalyāṇakadai. |

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 14. Kalittogai. | 38. Pāvaippāṭṭu. |
| 15. Kavimayakkarai. | 39. Piṅgalakēsi. |
| 16. Kārigai. | 40. Piṅgalam (Chandōviciti). |
| 17. Kālakēsi. | 41. Puṇarpāvai. |
| 18. Kirañiyam. | 42. Purāṇasāgaram. |
| 19. Kuṇḍalakēsi. | 43. Purānānūru. |
| 20. Śaṅgayāppu. | 44. Periyapambam. |
| 21. Śayandam. | 45. Peruvaḷlam. |
| 22. Śindam. | 46. Poygaiyārṇūl. |
| 23. Cintāmaṇi. | 47. Pōkkiyam. |
| 24. Cūḷamaṇi. | 48. Maṇiyāram. |
| 25. Śeyanmurai. | 49. Mandiranūl. |
| 26. Śeyiriyam. | 50. Malaiपादुकाḍām. |
| 27. Tumbippāṭṭu. | 51. Māpurāṇam. |
| 28. Tēsigamālai. | 52. Mārkkandēyanārkañji. |
| 29. Tolgāppiyam. | 53. Muttollāyiram. |
| 30. Nālaḍinārpādu. | 54. Mummaṇikkōvai. |
| 31. Nālaḍinānūru. | 55. Mūpṭṭuṭceyyuḷ. |
| 32. Nilakēsi. | 56. Yāpparuṅgalavirutti. |
| 33. Paṭṭinappālai. | 57. Vaduviccai. |
| 34. Palgāyam. | 58. Varuttamānam. |
| 35. Paṇmaṇimālai. | 59. Vaḷaiyāpati. |
| 36. Paṇṇirupaḍalam. | 60. Vāyppiyam. |
| 37. Pāsaṇḍam. | 61. Veṇbāmālai. |

(3) *Names of kings and others.*

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Kuṭṭuvan. | 7. Nandi. |
| 2. Śaṅkhaḷāḷaṇ. | 8. Naṇṇaṇ. |
| 3. Śayantaṇ. | 9. Neḍumāntērkkilli. |
| 4. Śeṅgōrkilli. | 10. Pallavamallaṇ. |
| 5. Śempūṭcēy. | 11. Puṭṭkaraṇār. |
| 6. Śēndaṇ. | |

(4) *Names of places.*

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. Kaḷumalam. | 2. Talaiyālaṅgāṇam. |
|---------------|---------------------|

CLASS III.—LEXICON.

4. பிங்கலந்தை

PIŪGALANDAI.

This is a lexicon named after its author *Piṅgalar*, who was the son of *Divākara*. The father wrote a lexicon which is the first Tamil lexicon * known and extant, and is quoted by *Adiyārkkunaliār* and other commentators. *Piṅgalar* is mentioned in the *Nannul* and the *Cūḍamaṇi* lexicon in the following passages, respectively :—

“ பிங்கலர் முதலா—

நல்லோருரிச்சொலினயந்தனகொளவே”—*Nannūl*.

செங்கதிர்வரத்திற்றேரூன்றுந் திவாகரர்சிறப்பின்பிக்க

பிங்கலருரைநூற்பாவிற் பேணினர்செய்தார்சேர”—*Cūḍamaṇi*.

The lexicon of *Divākara* was improved by the son in the *Piṅgalandai* by additions made here and there. The lexicon under notice is divided into ten parts, viz:—

1. வானவகை, Heaven Group.
2. வானவர்வகை, Deities Group.
3. ஐயர்வகை, Brahmans Group.
4. ஆவனிவகை, Earth Group.
5. ஆடவர்வகை, Men Group.
6. ஆனுபோகவகை, Enjoyment Group.
7. பண்பிற்செயலிற் பகுதிவகை, Quality and Group.
8. மாப்பெயர்வகை, Animal Group.
9. மரப்பெயர்வகை, Tree Group.
10. ஒருசொற் பலபொருள்வகை, Homonyms Group.

The above division of the work and the names of the ten chapters, indicate that the author was well acquainted with the *Nāmalīṅgānuśasanam* of *Amarasīṅha*, and the inference is confirmed by his introduction of many Sanskrit words with slight modifications into his lexicon; as, ஐயங்கவீனம், *Aiyāṅgavīnam*, Sans. *Haiyaṅgavīnam*, ‘ghee obtained from yesterday’s milk’; உதவ்கன் *Utavagan*, Sans. *Hutavahan*, ‘god of fire, or fire’ and

* Noticed at pp. 35–36, Report No. I.

the like. He mentions the eighteen Purāṇas, the eighteen Upaniṣads, the eighteen Smṛtis, the following religions, Buddhism, Jainism, the religion of the Lōkayātica, Mīmāṃsa, Pāñcarātra, Bhaṭṭācārya, Pāsupata, Śaiva, Bhairava, Vāma, Kālāmukha, and Māvita. He refers to the following kings and other personages, viz, the Chēra, the Chola, the Pāṇḍya, *Pāri*, *Eḷi*, *Nalli*, *Āy*, *Malayan*, *Ōri*, and *Pējan*. He mentions the word *Pallava* among the synonyms of 'the mean,' from which we have to understand that, after the downfall of the *Pallava* kingdom at *Kāñci*, the Pallavas were persecuted by their enemies in such a way that the very name *Pallava* became a synonym for 'the mean.' He also refers to the Chalukya kings. From these references we can infer that the lexicon was written after the overthrow of the Pallavas and after the establishment of the Western Chalukya kingdom about the eighth century A.C.

CLASS IV.—POETRY.

5. சிலப்பதிகாரம்.

SILAPPADIKĀRAM.

One of the five great poems of the Tamil language, the remaining being *Cintāmaṇi*, *Maṇimēkalai*, *Valaiyāpati* and *Kuṇḍalakēsi*. The author was *Ilaṅgōvaḍigaḷ*, the younger brother of a Chēra king called *Śeṅguṭṭavan*. The origin of the poem as given in the preface of the work is as follows:—The author *Ilaṅgōvaḍigaḷ* having resigned the cares of the world, became an ascetic and was living in a temple of Arha. The inhabitants of a hill called *Śeṅguṇṇu* assembled together and paid a visit to the royal sage and asked him to know the history of *Kaṇṇagi* to whom the deities had shown her husband in a divine form, and who departed to the celestial city to their infinite astonishment. *Śittalaic-cātṭaṇār*, a poet who was near him and heard the above speech, replied: "I know the above occurrence. There is a town called *Kāvrippūmbaṭṭiṇam* in the country of Chola, in which lived a merchant named *Kōvalaṇ*. He loved a woman named *Mādhavi* on whom he had lavished all his property and was unable to pay her. He took one of his wife's anklets and went to sell it at *Madura*, and offered it for sale at the

market. A goldsmith who was present seized it saying that the anklet was fit for none but the queen of Madura, and went to the palace where he showed it to the king and told him that the anklet of the queen which was missing was found in the hands of a thief who came from a foreign country. Having heard these words the king issued orders to his servants to behead the alleged thief, without enquiring into the case and discovering the truth. Kāṇṇagi not finding the whereabouts of her husband, became immensely distressed and caused the whole town of Madura to be burnt. She is the woman you speak of." Then the Chēra king Śēnguttuvan who was near him, said: "You are speaking of the destiny of fate, what is it?" Poet Śāttan replied: "When I was lying down in the temple of the God Śiva of Madura in the dark, I heard a celestial voice addressing to her to the following effect. Thou shalt see thy husband in a divine form on the night of the fourteenth day from hence." Thereupon Iṅgōvaḍigaḷ replied: "The goddess of virtue will punish and destroy wicked kings; the merits of Kāṇṇagi will be applauded not only by the men of this world, but also by the celestials; and the results of the actions of former birth will continue and make the authors of actions suffer the consequences of those actions. All these facts will be commemorated by the anklet, and we shall compose a poem naming it after the anklet." The poet rejoined: "The story concerns the three great kings—the Chēra, Chōḷa and the Pāṇḍya—therefore, you yourself undertake the work." Thereupon the royal sage composed the poem under notice. With reference to the assumption of the ascetic life by Iṅgōvaḍigaḷ, the younger brother of the Chēra king, the following passage occurs in the commentary of the Śilappadikāram by Adiyārkkunallār:—

ஓர் நிமித்திகன் அடிமுதல் முடிகாறும் இருவரையும் நோக்கி அர
சுரிமை இளவற்குண்டென்றவளவில் செங்குட்டுவன் வெகுண்டுநோ
க்க அடிகள் துறவுபூண்டாரென்பது வரலாறு.

"The explanation is that a diviner who examined the persons of the two princes remarked that the younger would become the ruler of the kingdom; the elder thereupon looked very much disturbed in his mind; and the younger, therefore, became an ascetic."

The work is divided into three parts and thirty *kādaīs* or stories.

In the following stanzas which are taken from the book, references are made to the Pāṇḍya king Iḷaṅjeliyaṅ, Iḷaṅgōvaraśar of Koṅgunāḍu, Kayavāhu of Ceylon, and the Chōla king Perunarkilli.

அன்றுதொட்டுப் பாண்டியனாடு
 மழைவறங்கூர்ந்து வறுமையெய்தி
 வெப்புநோயுங் குருவுந்தொடரக்
 கொற்கையிலிருந்த வெற்றிவேற்சேழியன்
 நங்கைக்குப்பொற்கொல்ல ராயிரவரைக்கொன்று
 களவேள்வியால் விழுவொடு சாந்திசெய்ய
 நாடுமலிய மழைபெய்து நோயுந்துன்பழு நீங்கியது.
 அதுகேட்டுக், கோங்கிளங்கோசர் தங்கனாட்டகத்து
 நங்கைக்குவிழுவொடு சாந்திசெய்ய
 மழைதொழிலென்றும் மாறாதாயிற்று.
 அதுகேட்டுக், கடல்குழிலங்கைக் கயவாகுவென்பான்
 நங்கைக்குநாட்பலிபீடிகை கோட்டமுந்துறுத்தாங்கு
 அரந்தைகெடுத்து வரந்தருமிவளென
 ஆடித்திங்களகவையி னுங்கோர்
 பாடிவிழாக்கோள் பன்முறையெடுப்ப
 மழைவீற்றிருந்து வளம்பலபெருகிப்
 பிழையா விளையுடைடாயிற்று.
 அதுகேட்டுச், சோழன் பெருங்கிள்ளி கோழியகத்து
 எத்திறத்தானும் வரந்தருமிவளோர்
 பத்தினிக்கடவுளாகுமென
 நங்கைக்குப்பத்தினிக் கோட்டமுஞ்சமைத்து
 நித்தல் விழாவணி நிகழ்வித்தோனே.

“From that time the Pāṇḍya Kingdom was visited with drought and diseases of various kinds, and Verrivēreliyaṅ, who was at Korkai (கொற்கை) solemnized feasts in her honour and by sacrificing a thousand goldsmiths to her, appeased her anger; and from that time there has been plenty of rain, and the country has enjoyed its usual prosperity.

“The king of Koṅgu, named Iḷaṅgōvaraśar, having heard that event, solemnized feasts in honour of Kaṅṅagi and performed expiatory ceremonies and has had no drought ever since.

“Then the king of Ceylon, named Kayavāhu, having heard that event, built temples to Kaṅṅagi with altars on which daily

sacrifices were offered, and, hoping that the goddess would remove troubles and grant all boons, frequently held feasts in his town annually in the month of Āḍi (July), and, in consequence of this, there has been plenty of rain, which has rendered the country very rich and productive.

“Then the Chōla king Perunarkilli hoping to receive all boons from the goddess, built temples for her at Kōḷi, that is, Uraiyūr, and solemnized feasts.”

All the events referred to in the above passages must have occurred before the composition of the poem or a little later.

Now, from the above, we can easily see that Iḷaṅgōvaḍigal, the author of the book, Śittalai-cāttanār, who saw Kaṇṇagi when she received the assurance from the guardian deity of Madura that she would see her husband on the fourteenth day, Kaṇṇagi, Mādhavi, and Kōvalan, who are the chief characters of the Śilappadhikāram, were contemporaries, and that all lived in the time of Karikālacōla as Mādhavi danced at the court of that monarch.

These were also the contemporaries of the Pāṇḍya Verrivērcēliyan, the king of Madura, Perunarkilli,* a Chola king, Iḷaṅgōvaraśar, a king of the Koṅgn country, and Kayavāhu, a king of Ceylon, who are said in the poem to have built temples to the deified Kaṇṇagi in their respective countries. The dates of the first three kings cannot be ascertained by any means; but by referring to the histories of Ceylon, we can pretty approximately arrive at the date of the last-mentioned king. I consulted a work on the history of Ceylon, named “Ceylon by an officer late of the Ceylon Rifles.” It contains a long list of the kings of Ceylon beginning with Vijaya, the first Aryan prince who settled in the island and established the Buddhist religion there in 543 B.C. There are two Gajabāhus in the list, one began to reign in 113 A.C., and the other, in about 1127 A.C., and the Kayabāhu under discussion must be one of them. With regard to the identity of the two names, I may say that the name given in

* We have to ascertain yet whether the king Perunarkilli was the same as Karikāla; and if it is not, then he must be the son of the latter.

the Ceylon history is Gajabāhu, which is identical with the original Sanskrit word, meaning "one who has arms like the proboscis of an elephant." It comes through the Pāli language, a kind of Prakrit in which the earliest chronicle of Ceylon called Mahāvamsa was written by Mohānāman between 457 and 477 A.C. But the Tamil name Kayavāhu is a corruption of the Sanskrit Gajabāhu. As to the identity of the persons I think the Ceylon prince mentioned in the Śilappadhikāram must be the first Gajabāhu of Ceylon, as the second is said to have commenced to reign in 1127, a date which is posterior to that assigned to Kulōttuṅga who reigned from 1064 to 1113 A.C. As the first Karikāla preceded Kulōttuṅga by several centuries (*vide* Madras Archæological Reports, Vol. VI, p. 205), he must have been the contemporary of Gajabāhu I. But it may be contended that the name is applied to many Chōla kings as can be seen from the various inscriptions recorded in the 'Archæological Reports of Southern India'; but we are concerned only with Karikāla mentioned in Tamil literature, as there is only one of that name as far as I know. His father was known by the name of Iḷaṅjēteṇṇi, according to a passage in the Porunarāruppaḍai which is as follows:— வெல்வேல் உருவப்பஃறேரினையோன் சிறுவன், on which the commentator says வென்ற வேலினையுடைய அழகினையுடைத்தாகிய பலதேரினையுடைய இளஞ்சேட் சென்னியுடைய புதல்வன்.

"Son of Iḷaṅjēteṇṇi who held a victorious sword and had many beautiful chariots."

The above commentator Nacciṅārkkīṇiyar in another place * says: உருவப்பஃறே ரினஞ்சேட்சென்னி அமுந்தூர்வேளிடை மகட்கோடலும் அவன் மகனாகிய கரிகாற்பெருவனத்தான் நாங்கூர் வேளிடைமகட்கோடலும்.

"The facts that Iḷaṅjēteṇṇi received the daughter of the prince of Alundūr, and that his son Karikārperuvalattān, the daughter of the prince of Nāṅgūr." (*Vide* Com. of Poruladhikāram.)

With regard to the name of Karikāla, Nacciṅārkkīṇiyar adds three stanzas at the end of his commentary of the Porunarāruppaḍai

* His commentary on the Poruladhikāram, Agattīṇiyal, sūtra 30.

which were composed by himself or others and are found in the colophon of the copies of the work. One of them is as follows :—

முச்சக்கரமுமளப்பதற்கு நீட்டியகால்
 இச்சக்கரமேயளந்ததால்—செய்ச்செய்
 அரிகான்மேற்றேன்றொடுக்குமாய் புனணீர்நாடன்
 கரிகாலன் காணெடுப்புற்று.

“As the foot which was stretched out to measure the three worlds measured only this world, the king who possessed countries in which bees built their hives on the stalks of the paddy growing in every field, had his leg burnt and became Karikāla.”

From the above stanza we learn that the name was given to him in reference to the fact that he had a black leg owing to the injury received from fire. This name must have some signification, only when it is applied to that prince and not to any of his descendants who must have assumed the name as an honorific title. We must, therefore, infer that the passages refer only to the first Karikāla and not to any of his descendants. We thus see from the historical as well as literary sources that the age of Karikāla and Ilaṅgōvaḍigaḷ and Śittalaicēttanār was prior to the existence of the third Saṅgam, that Karikāla flourished about 113 A.C., when Gajabāhu began to reign in Ceylon, and that, consequently, the Śilappadhikāram was written long before the works of the third Saṅgam, that is, in the second century A.C.

6. சிலப்பதிகாரம்—அரும்பதவுரை.

ŚILAPPADHIKĀRAM--ARUMPADAVURAI.

This is a short commentary on the Śilappadhikāram by an author whose name is not known. It is, notwithstanding its shortness, very useful, and was consulted by Aḍiyārkkunallār, who wrote a commentary which has been printed with the above commentary. The following authors and works are quoted in the notes :—

1. Āṣiriyamālai.
2. Kalittogai.
3. Cintāmaṇi.
4. Jinēndramālai.

5. Sôllagattiyam ; this must refer to the portion of Agastya's grammar which treats of etymology.
6. Tirukkural.
7. Tirumurugārrupadai.
8. Tolgāppiyam.
9. Nānmanikkāḍigai.
10. Isāittamiḷ Padinārupadalam, which is a work on *Isāittamiḷ* like the Pannirupadalam on *Purāṇapurūḷ*.
11. Paḷamoḷi.
12. Purānānūru.
13. Maduraikkāñji.
14. Vaḷaiyāpadi.
15. Seyirriyanār.

7. சிலப்பதிகாரம்—அடியார்க்கு நல்லாருரை.

ŚILAPPADHIKĀRAM WITH ADIYĀRKKUNALLĀR'S COMMENTARY.

This is a commentary on the Śilappadhikāram written by Adiyārkkunallār, who, as he refers to Naccinārkkiniyar and Ṇampūraṇar, must have lived at a later time than the latter. His proper name seems to be Nirambaiyarkāvalan as shown in the following stanza :—

ஒருந்தமிழொருமூன்று முலகின்புறவகுத்துச்
சேரன்றொகுத்த சிலப்பதிகாரத்திற் சேர்ந்தபொருள்
ஆருந்தெரிய வுரைவிரித்தானடியார்க்கு நல்லான்
காருந்தருவுமனையானிரம்பையர் காவலனே

But the pandits of Madras have taken அடியார்க்கு நல்லார் as the proper name of the author, and, if that is right, the word திரம்பையர் காவலன் must be an epithet and may mean the king of Nirambaiyar. The word Nirambaiyar seems to mean the people of Nirambai, which may be the name of a place. Some pandits agree with me that the author's name is Nirambaiyakāvalan and Adiyārkkunallār, an epithet.

In the following stanza he refers to Boppara Gāngeya, a king who patronized him :—



காற்றைப்பிடித்துக் கடத்திலடைத்துக் கடியபெருங்
காற்றைக்குரம்பை செய்வார்செய்கை போலுங்காலமெனும்
கூற்றைத்தவிர்த்தருள் பொப்பணகாங்கெயர் கோனளித்த
சோற்றுச்செருக்கல்வவோ தமிழ்மூன்றுரை சொல்வித்ததே.

We know nothing about the history of Aḍiyārkkunallār, but from his commentary we can infer that he was a great Tamil scholar well versed in all branches of Tamil literature. His knowledge of music and drama—subjects, which have been sadly neglected by the majority of the later Tamil pandits—is displayed in a most creditable way in explanations of all the passages, terms and expressions of the book which bear on the subjects. In the author's time itself many of the works on them seem to have been lost and to have remained only in passages quoted from them in later works. In the preface to his commentary Aḍiyārkkunallār says that works on music and drama, such as Perunārai, Perunkurugu, Pañcabhāratīyam, and Guṇanūl, Muruval, Śayantam and Śeyirriyam, do not exist; and only quoted passages remain of them.

The commentator Aḍiyārkkunallār quotes from, or refers to, the following works and authors:—

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| (1) Agattiyam. | (18) Cintāmaṇi. |
| (2) Aganāṇūru. | (19) Śīrupānarruppaḍai. |
| (3) Aṇiyiyal. | (20) Cūlāmaṇi. |
| (4) Isainuṇukkam. | (21) Śeyirriyam. |
| (5) Indirakāḷiyam. | (22) Daṇḍiyalaṅkāram. |
| (6) Udayaṇaṅ-kadai. | (23) Tālavagaiyōttu. |
| (7) Ōviyanūl. | (24) Tirukkural. |
| (8) Kaliṅgattupparaṇi. | (25) Tiruccirrambalakkōvaiyār. |
| (9) Kali. | (26) Tirumurugārruppaḍai. |
| (10) Kalittogai. | (27) Tivākaram. |
| (11) Kaḷariyāviraī. | (28) Tolgāppiyam. |
| (12) Kaṇānūl. | (29) Nālaḍiyār. |
| (13) Kuṇanūl. | (30) Nāṇmaṇikkāḍigai. |
| (14) Kurugu. | (31) Nūl. |
| (15) Kuruntogai. | (32) Neḍunalvāḍai. |
| (16) Kūttanūl. | (33) Pañcabāratīyam. |
| (17) Śayandam. | (34) Pañcamarabu. |

- | | |
|----------------------------|--|
| (35) Paṭṭiṇappalai. | (49) Maṇimekhalai. |
| (36) Padirrupattu. | (50) Madivāṇaṇar Nāḍagat-
tamiṇṇul. |
| (37) Bharatasēnāpatiyam. | (51) Maduraikkāñji. |
| (38) Bharatam. | (52) Malaipaḍukaḍām. |
| (39) Paripāḍal. | (53) Muttollāyiram. |
| (40) Paḷamoḷi. | (54) Muruval. |
| (41) Pāṣaṇḍam. | (55) Valaiyāpati. |
| (42) Pūranānuru. | (56) Veṇḍāḷi. |
| (43) Purapporuḷveṇbāmālai. | 1. Nakkīrar. |
| (44) Peruṅgurugu. | 2. Iḷampūraṇar. |
| (45) Peruṅguriñji. | 3. Śilappadhikāra-Arum-
pada Uraiyaśiriyar. |
| (46) Perunārai. | |
| (47) Perumbānārruppaḍai. | |
| (48) Porunarārruppaḍai. | |

8. கார்நாற்பது.

KĀRNĀRPADU.

This is a short poem consisting of forty stanzas, and is one of the eighteen poems known by the collective name of the *Paḍiṇṇ-kīlkkanaḱku*. * It was composed by Madurai Kaṇṇaṅkūttanār, and describes the anxiety of a woman suffering from the absence of her husband who went abroad promising to return within the rainy season, but did not return according to the promise. There is a short commentary which explains some of the stanzas and omits the rest.

9. திணைமலை நூற்றைம்பது.

TIṆAIMĀLAINŪRRAIMBADU.

This poem is attributed to Kaṇimēdāviyār, a disciple of Tamilāśiriyar Mākkāyaṇār. This is a short poem on the five kinds of actions of the lovers as Kuriñji, Marudam, &c., thirty stanzas

* For the eighteen poems, see p. 41 of my Report on the Search of Manuscripts, No. I (1896-97).

being devoted to the description of each of them. This poem is frequently quoted by Naccinarkkiniyar. There are only the first nineteen * stanzas in all the available manuscripts, and of these ten are quoted by Naccinarkkiniyar. There is a commentary on this poem. This is also one of the eighteen poems collectively known by the name of the Padinenkilkkanakku.

10. திணைமொழி ஐம்பது.

TINAIMOḶIYAIMBADU.

This is a short poem on love by Kaṇṇaṅjendanār, son of Śattandaiyār, who also seems to have written a poem, as a stanza is quoted in the Puranānūru in his name. The poem under notice contains fifty stanzas and describes the five kinds of the feelings of love devoting ten stanzas to each of them. There is an old commentary on the poem. It is also one of the eighteen poems known by the collective name of the Padinenkilkkanakku, and it is quoted by Naccinarkkiniyar, in his commentary on the Poruḷadhikāram of Tolgappiyar in illustration of the rules of the description of the love-sentiments in poetry.

11. இன்னொநாற்பது.

INNĀNĀRPADU.

A didactic poem consisting of forty stanzas, containing an enumeration of everything that is unpleasant. It is also one of the Padinenkilkkanakku, 'eighteen poems', which are collectively called so. The author was one of the forty-nine poets, who are said to have constituted the third Saṅgam and is named Kapila Dēvar. He is said to have been a contemporary of Tiruvalluvar and to have written a eulogistic stanza on his Kuraḷ.

The author wrote also portions of the Aiṅgurunūru, the Padirrupattu, the Aganānūru, the Puranānūru, the Narriṇai, the

* A complete copy of this work has been procured for the Library in 1896 97.

kurun dogai, and the Perunguriñji, one of the ten works collectively known as Pattuppāṭṭu.

12. பழமொழி.

PAḶAMOḶI.

Paḷamoli, a poem on moral subjects in 400 stanzas, each stanza containing a proverb, by Muṇṇururai Araiyan, and the name of the author means 'King of Muṇṇururai,' and does not appear to be the proper name of the author. He uses such words as கோனாய், மரிசாதி and the like and expressions which are peculiar to Southern India, and from this fact we have to infer that he lived in the southern part of the Pāṇḍya Kingdom. The author seems to be a Jaina by faith, as can be inferred from the stanza quoted below. The work is also included in the eighteen poems which are collectively known by the name of Padinēṇ kiḷkkaṇakku. The following is the preface (சிறப்புப்பாயிரம்) to the poem, and refers to the author's name :—

பிண்டியினீழற்பெருமானடிவணங்கிப்
பண்டைப்பழமொழிநானூறுங்—கொண்டினிதா
முன்றுமைன்னவனான்கடியுஞ்செய்தமைத்த
வின்றுறைவெண்பாவிவை.

The following information also is gathered from certain stanzas of the poem and an old commentary on the same :—

(1) Karikāla Cōla while young decided a case of dispute which elderly men could not decide; (1) he attacked the Cēra king at

- (1) உரைமுடிவுகாணானிளமையோனென்ற
நரைமுதுமக்களுவப்ப—நரைமுடித்துச்
சொல்லாண்முறைசெய்தான்சோமுன் குவவிச்சை
கல்லாமற்பாகம்படும்.

எ - து. தம்முண் மறுதலையாயினூரிருவர் தமக்குமுறைமைசெய்ய வேண்டிவந்து சிலசொற்சொன்னால் அச்சொல்லின் முடிவுகொண்டா ராய்ந்து முறைசெய்ய அறிவு நிரம்பாத இளமைப் பருவத்தானென்றி கழ்ந்த நரைமுதுமக்களுவக்கும்வகை நரைமுடித்துவந்து முறையே ண்டிவந்த இருதிறத்தாரும் சொல்லிய சொற்கொண்டே ஆராய்ந்த நிந்து முறைசெய்தான் கரிகாற்பெருவளத்தானென்னுஞ்சோழன்; ஆத லால், தத்தங்குலத்துக்குத்தக்க விச்சைகள் கற்பதற்கு முன்னே செ ம்பாகமுளவாம், எ - து.

(21)

Kaḷumalam; (2) he acquired the sovereignty of the Cōla kingdom with the help of his uncle named Pidarttalaippēraṅ; (3) he ruled at his capital Puḡār which was also known by the name of Kāvīripattanaṃ; (4) there was a king named Pāri who was very

- (1) கழமலத்தீல்யாத்தகளிற்றுங்கருவூர்
விழுமியோன்மேற்சென்றதனால்—விழுமிய
வேண்டினும்வேண்டாவிடினுமுறற்பால
தீண்டாவிடுதலரிது.

எ - து கழமலமென்னுழிநீகண்ணே பிண்தீந்துநீறகளிறும் கருவூர்
நீக்கக் கணையிருந்த கரிகால்வளவன் கடிதீனையனுயினும் அவன் சிறப்பு
புடையதலால் அவன்மேற்சென்று தன்மீசையெடுத்துக்கொண்டு அ
ரசிற்சிறிமைசெய்ததாலால் விழுமியபொருளைக்காதவிப்பினுங் காத
வியாதுவிடினும் உறக்கடவனதீண்டாவாய் விடுதலரிது, எ-று. (62)

- (2) சடப்பட்டுயிருயந்தசோழன்மகனும்
பீடரீத்தலைப்போனைப்பெற்றகடைக்காற்
செயிரறுசெங்கோல்செலீஇனானில்லை
யுயிருடையாரெய்தாவினே.

எ - து இளமைப்பருவத்துப் பிறராற்கடப்பட்டுயிரிய்த்துபோகிய
கரிகாலனும் பீடரீத்தலையாரென்னும்பெயரையுடைய தன்மாமனைத் தன
க்குத்துணையாகப் பெறுதலாற் பின்னொருகாலத்தின்கட்டினுரிமைய
புகப்பெற்றுக் குய்றமற்றசெங்கோலைநடத்தினுள்; ஆதலால், உயிருடை
யாரெய்தாததொரு நல்வினைப்பயனில்லை, எ - று.

- (3) பூந்தண்புனற்புகாரீப்பூமிகுறிகாண்டற்கு
வேந்தன்வினாயினான்மாந்தரைச்—சான்றவன்
கொண்டதனைநாணிமறைத்தலாற்றன்கண்ணிற்
கண்டதூஉமெண்ணிச்சொலல்.

எ - து. பூந்தண்புனலையுடைய புகாரீக்கணுள்ள வினேநிலத்தை இ
ன்னதனையென்றறிதற்கு அங்குவாழுமாந்தராவேந்தன் வினாயினவீ
டத்து மற்றொருவன் களவினாலாண்டவருகின்ற நிலத்தையறிந்து அ
ந்நிலத்தை நீக்கிக்கரந்து இத்துணைநிலமுள்ளதென்று ஒரு சான்றவன்
அரசற்குச்சொல்லி அந்நிலங்கரந்தாளுகின்றவனைப் பிழைப்பித்தானு
தலாற் றன்கண்ணைக்கண்டு தெரியவறிந்ததனையும் சொல்லலாம்சொ
ல்லலாகாதென்றாராய்ந்து சொல்லுக, எ - று. (153)

- (4) மாரியொன்றின்றிவறந்திருந்தகாலத்துப்
பாரிமடமகள்பாண்மகற்கு—நீருலையுட்
பொன்றிறந்துகொண்டபுகர்வாகநல்கினு
ளென்றுமுன்றிலோவில்.

எ - து. மாரியென்ப தொன்றின்றி யுலகம்வற்றியிருந்த காலத்துப்
பாரிமடமகள் இரந்துவந்தானொருபாண்மகற்குச் சோறுபெறாமையா
ல் உலையுட்பொன்னினைப்பெய்துகொண்டு சிறந்தசோறாகவேநல்கினுளா

liberal and had a daughter who was also equally liberal; (1) a poet named Gautama composed a poem in praise of a Cēra king named Seṅguṭṭuvan.

CLASS V.—ANTHOLOGY.

13. அகநானூறு.

AGANĀNŪRU.

This is an anthology on erotic subjects consisting of 400 stanzas composed by about 160 poets, and compiled by உருத்திர சன்மன் (Uruttiraśanman), son of மதுரை உப்பூரிகிழார் (Madurai Uppūrikilār) under the auspices of a Pāṇḍya king named உக்கிரப் பேருவழுதி (Ugrapperuvaludi). It is one of the eight poems known by the collective name of the எட்டுத்தொகை (Eṭṭuttogai), which are mentioned in the following memorial stanza:—

நற்றிணைநல்லகுறுந்தொகையையுங்குறுநூ
 ருத்தபதிற்றுப்பத்தோங்குபரிபாடல்
 கற்றறிந்தார்பேசுங்கவியோடகம்புறமென்
 றித்தகைத்தவெட்டுத்தொகை.

1. (நற்றிணை), Nariṇai an anthology of four hundred stanzas, by Pannāḍutanda Pāṇḍiyaṅ Māraṅvaludi.
2. குறுந்தொகை (Kurundogai), an anthology of four hundred stanzas by two hundred and five authors, compiled by Pūrikkō.
3. ஐங்குறுநூறு (Aiṅgurunūru), by five authors.

தலால் ஒரு துன்பமுறுதமணியில்லை, எ - று.—அல்லதூஉள், சோறமரி தாகியகாலத்துப் பொன்னேசோறாகவுதவினாளாதலாம் சென்றிறந்தா லொருபயன்படாதமணியில்லையென்றுமாம். (171)

(1) தொடுத்தபெரும்புலவன்சொற்குறைதீர
 வடுத்தரவென்றற்குவாழியரோவென்றன்
 தொடுத்தின்னரென்னலோவேண்டாகொடுப்பவர்
 தாமறிவார்தஞ்சீரளவு.

எ - து. சேய்நூட்டுவன்புகழைச் செய்யுளாகத்தொடுத்த கனாத மனென்னும்பெயரியபுலவன் யானுமென்சற்றமுந்தரக்கம்புகும்படி பொருந்திய அறங்கள்முடிவித்துத்தறக்கத்தைத்தாவென்றற்கு அவன் சொற்குறைதீர்ப்பான்பொருட்டுவந்து யாகக்கனைநடத்தி நீவேண்டிய தறக்கத்துள்நீவொழ்வாயாகவென்றானுதலால், புனைந்து இப்பெற்றி யாரென்றுபுகழவேண்டுவதில்லை, இயற்கையாகக்கொடுக்குஞ்சீலக்கா ர் தம்மளவினாக்கொடுக்கவல்லதனைத் தாமேயறிந்துகொடுப்பர், எ-று.

4. பதிற்றுப்பத்து (Padirrupattu), by about ten authors.
5. பரிபாடல் (Paripāḍal), by several authors.
6. கலித்தொகை (Kalittogai), compiled by Nallanduvar.
7. அகநானூறு (Aḡanānūru), an anthology of four hundred stanzas by about 160 authors, compiled by Uruttiraśanman during the reign of Ugrapperuvalūdi.
8. புறநானூறு (Puranānūru), an anthology of four hundred stanzas by different authors.

The title of the work Aḡanānūru means a collection of four hundred stanzas regarding erotic subjects, from *agam* 'inside,' that is the sentiments of love, and *nānūru*, 'four hundred.' I subjoin hereto a list of the names of most of the authors whose verses are quoted in the Aḡanānūru:—

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. அஞ்சியாந்தைமகனார். 2. அதியன் விண்ணத்தனார். 3. அந்தில் - இளங்கீரன். 4. அம்மூவனார். 5. அள்ளூர் - நன்மூலீல. 6. அறுவைவாணிகனார் - இளவேட்டனார். 7. ஆலங்குடி - வங்கனார். 8. ஆலம்பெரிசாத்தன். 9. ஆவூர்கிழார்மகனார் - கண்ணனார். 10. ஆவூர் - கௌதமன் சாதேவன். 11. ஆவூர் - மூலங்கிழார். 12. ஆவூர் - மூலங்கிழார் மகனார் பெருந்தலைச்சாத்தன். 13. ஆவெம்பர்சாத்தன். 14. இடைக்காடனார். 15. இடையன் - சேந்தன்கொற்றனார். 16. இடையன் - நெடுங்கீரன். 17. இம்மென்கீரனார். 18. இரங்கு குடிக்குன்றநாடன். 19. இருங்கொலைவயாயன் - செங்கண்ணனார். 20. உம்பர்க்காட்டு - இளங்கண்ணனார். 21. உருஉரீர்கிழார்மகனார் - பரங்கொற்றனார். 22. உலோச்சனார். 23. உவரக்கண்ணனார் - புல்லங்கீரனார். | <ol style="list-style-type: none"> 24. உறையூர் - மருத்துவன் - தாமோதரனார். 25. உறையூர் - முதுகூத்தனார். 26. ஊட்டியார். 27. எயிநைந்தைமகன் - இளங்கீரனார். 28. எருக்காட்டீர் - தாயங்கண்ணன். 29. எருமைவெளியனார். 30. எருமைவெளியனார் - மோகமானக்கடலார். 31. எழும்பன்நிநாகன்முமரன். 32. ஏறத்துப் - பூதன்றேவனார். 33. ஐயூர் - முடவனார். 34. ஓக்கூர்மாசாத்தியார். 35. ஓரோடகத்துக் - கந்தரத்தனார். 36. ஒவ்வையூர் தந்த பூதப்பாண்டியன். 37. ஓரம்போகியார். 38. ஒளவையார். 39. கடியனார் - உருத்திரங்கண்ணனார். 40. கடுந்தொடைக்காவியனார். 41. கழிவர். 42. கயமனார். 43. கருவூர் - கண்ணன்பரணனார். 44. கருவூர் - கண்ணம்புல்லனார். 45. கருவூர் - கதப்பின்னோசாத்தனார். 46. கருவூர் கலிங்கத்தார். |
|---|--|

47. கருஆர் - நன்மார்பன்.
48. கருஆர் - பூச்சாத்தனார்.
49. கல்லாடனார்.
50. காட்டுக்கிழார்மகனார் - கண்ணனார்.
51. காவட்டனார்.
52. காவன் முல்லை - பூதத்தனார்.
53. காவன் முல்லை - மழுக்காத்தனார்.
54. காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் - கண்ணன்.
55. காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக்-காரிக்கண்ணனார்.
56. காவிரிப்பூம்பட்டினத்துச்-செங்கண்ணனார்.
57. காணப்பேர்தந்த - உக்கிரப்பெருமுதி.
58. கிழார்சிரனெயிற்றியார்.
59. கிரத்தனார்.
60. குடவாயில் - கிரத்தனார்.
61. குமிழிநாழான் - நபட்சலையார்.
62. குறுங்குடி - மருதனார்.
63. குறுவழுசியார்.
64. குன்றியன்.
65. கோடிமங்கலத்து - வாதாளின் சேந்தனார்.
66. கோற்றங்கொற்றனார்.
67. கோட்டம்பலத்துத்துஞ்சிய - சேரமான்.
68. கோவனார்.
69. சாகாவோசனார்.
70. செயினார் - இளம்பொன்சாத்தன்கொற்றன்.
71. செயினார் கிழார்மகன் - பெரும்பூதங்கொற்றனார்.
72. செயினார் - கோச்செங்கண்ணன்.
73. சேரமான் - இளங்குட்டுவன்.
74. தங்கால் - பூட்கோவனார்.
75. தங்கால் - முடக்கொற்றன்.
76. தாமப்பொதியார்.
77. தையங்கண்ணனார்.
78. தொண்டிமாழார் - சாத்தன்.
79. தொல்கபிலன்.
80. நக்கணன்.
81. நக்கீரனார். (120)
82. நன்பனார்-சிறுமேதாவியார்.
83. நல்லார்பூரன்கிழார்.
84. நிவிரை - எளியந்தியனார்.
85. நெய்தல் - தத்தனார்.
86. நொச்சிநீயமங்கிழார்.
87. நொய்பாடியார்.
88. பரணர்.
89. பறநாட்டுப் - பெருங்கொற்றனார்.
90. பாண்டியன் - வனதி - நெடுங்கண்ணனார்.
91. பாரதம்பாடிய - பெருந்தேவனார்.
92. பூடபாடிய பெருங்கடுங்கோ.
93. பெரிசாத்தன்.
94. பெருங்குனறுர்கிழார்.
95. பெருந்தலைச்சாத்தனார்.
96. பெருந்தேவனார்.
97. பொதும்பில் - புல்லாளங்கண்ணியார்.
98. போந்தைப்-சலையார்.
99. பொருந்தில் - இளங்கிரைனார்.
100. மதுரை - அளக்கர்ஞாழார்மகனார் - மள்ளனார்.
101. மதுரை - அறுவைவாணிகன் - இளவேட்டனார்.
102. மதுரை - ஆசிரியன்நல்லந்துவன்.
103. மதுரை - இளங்கொள்கிசனார்.
104. மதுரை - இளம்பாலாசிரியன் - சேந்தன்கூத்தன்.
105. மதுரை - ஈழுத்துப் - பூதன்றேவனார்.
106. மதுரை - எழுத்தாளன்.
107. மதுரை - எழுத்தாளன் - சேந்தன் பூதனார்.
108. மதுரை - கண்ணத்தனார்.
109. மதுரை - கவுணியர் - முத்தனார்.
110. மதுரை - கள்ளிற்கடையத்தன் வெண்ணுகன்.
111. மதுரை - காஞ்சிப்புலவன்.
112. மதுரை - காடரக்கனார்.
113. மதுரை - காமக்கண்ணி - நப்பாலத்தனார்.
114. மதுரை - கீரனார்.
115. மதுரை - கூலவாணிகள் - சித்தலைச்சாத்தனார்.
116. மதுரை - செங்கண்ணனார்.
117. மதுரை - தமிழ்க்கூத்தன் நாகன்றேவன்.
118. மதுரை - தத்தகங்கண்ணனார்.
119. மதுரை - தமிழ்க்கூத்தன் - கடுவன்மள்ளனார்.
120. மதுரை - நக்கீரர். (81)

- | | |
|--|---|
| 121. மதுரை - பண்டவாணிகள் -
இளந்தேவன். | 135. மள்ளனார். |
| 122. மதுரை - பண்டவாணிகள் -
இளநாகன்றேவன். | 136. மாமூலனார். |
| 123. மதுரை - பாலாசிரியன் - சே
னங்கூத்தன். | 137. மாறேக்கத்துத் - தாமக்கண்
ணி - நட்பாலத்தனார். |
| 124. மதுரை - பாலாசிரியன் - நம்
பாவன். | 138. முடங்குகிடந்த - நஞ்சேரலா
தன். |
| 125. மதுரை - பாலாசிரியன் - நற்
முன். | 139. முள்ளியூர்ப் - பூதி. |
| 126. மதுரை - புல்லங்கண்ணனார். | 140. மூதெயின்னார். |
| 127. மதுரை - பேராலவாயார். | 141. மோசி - சீரன். |
| 128. மதுரை - கொள்கொல்லன் -
வெண்ணைகனார். | 142. மேனகாக்கற்றையனார். |
| 129. மதுரை - போத்தனார். | 143. வடமவண்ணைக்கன் - பெரிசா
த்தன். |
| 130. மதுரை - மருதங்கிழார்மகன் -
பெருங்கண்ணனார். | 144. வடமோதங்கிழார். |
| 131. மதுரை - மருதன் - இளநாசன். | 145. வண்ணப்புறங்கல்லாடனார் -
வள்ளைப்புறக்கந்தரத்தனார். |
| 132. மருங்கூர்ப் - பாக்கச்சாத்த
ன்பூதனார். | 146. விற்றூற்று - மூதெயின்னார். |
| 133. மருதம்பாடிய - இளங்கடுங்
கோ. | 147. வெங்கண்ணனார். |
| 134. மருதம்பாடிய - நெடுங்கோ. | 148. வெண்வெட்டியார். |
| | 149. வெம்பற்றூர்க் - குமரனார். |
| | 150. வெள்ளீத்திடார். |
| | 151. வெள்ளைக்கண்ணத்தனார். |
| | 152. வெறிபாடிய - காக்கமண்ணி
யார். |

14.—குறுந்தொகை.

KURUNDOGAI.

An anthology consisting of 400 stanzas composed by 205 poets under the auspices of Pūrikko, who, from his name, seems to be a king; but of what country he was a king is not known. The poem is one of the eight anthologies which are known by the collective name of எட்டுத்தொகை (Eṭṭuttogai)—Vide the preceding notice of the Aganānūru.

I subjoin hereto a list of the names of the authors whose verses are collected in the anthology under notice:—

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. அஞ்சியாந்தையார். | 11. ஆகிமந்தி. |
| 2. அண்டர்மகன் - குறுவழுதி. | 12. ஆரியவரசன் யாழ்ப்பிரமத
த்தன். |
| 3. அணிலாடு முன்றலார். | 13. ஆலங்குடி - வங்கனார். |
| 4. அம்மூவனார். | 14. ஆலத்தூர் - கிழார். |
| 5. அழிசில் - நச்சாத்தனார். | 15. இடைக்காடன். |
| 6. அழிசில் - கிழார். | 16. இருந்தையூர் - கொற்றன்பு
லவன். |
| 7. அள்ளார் - நன்முல்லை. | 17. இளங்கீரந்தையார். |
| 8. அள்ளார் - நன்முலவன். | 18. இளங்கீரன். |
| 9. அறிவுடை நம்பி. | |
| 10. ஆசிரியன் - பெருங்கண்ணன். | |

19. இளம்பூதலார்.
20. இறையலார்.
21. ஈழத்துப் - பூதன்றேவன்.
22. உகாடக்குடிகழார்.
23. உருத்திரன்.
24. உரோடகத்துக் - காரத்தன்.
25. உலோச்சன்.
26. உழுந்தினைம்புல்லன்.
27. உறையன்.
28. உறையூர்-சல்லியன்குமாரன்.
29. உறையூர் - சிறுகந்தன்.
30. உறையூர் - பலார்காயலார்.
31. உறையூர் - முதுகண்ணன்சாத்தன்.
32. உறையூர் - முதுகூத்தன்.
33. உறையூர் - முதுகொற்றன்.
34. ஊன்பித்தை.
35. எயிற்றியலார்.
36. ஐயூர் - முடவன்.
37. ஒக்கூர் - மாசாத்தியார்.
38. ஓரம்போகியார்.
39. ஒருசிறைப்பெரியன்.
40. ஓதலாணி.
41. ஓதலாந்தையார்.
42. ஓரிற்பிச்சையார்.
43. ஓளவையார்.
44. கங்குல்வெள்ளத்தார்.
45. கச்சிப்பெட்டு - காஞ்சிக்கொற்றன்.
46. கச்சிப்பெட்டு-நன்னூலையார்.
47. கடம்பலார் - சாண்டிலியன்.
48. கடியலார் - உருத்திரங்கண்ணன்.
49. கடுகுபெருந்தேவன்.
50. கடுதோட்கரவீரன்.
51. கடுவண்மன்னன்.
52. கணக்காயனத்தன்.
53. கண்ணன்.
54. கதக்கண்ணன்.
55. கபிலர்.
56. கயத்தூர்கிழார்.
57. கயமலார்.
58. கருஆர் - கதப்பிள்ளை.
59. கருவர் - கிழார்.
60. கருஆர் - சேரமான்சாத்தன்.
61. கருஆர் - பவுத்திரன்.
62. கல்பொருசிறுறுடையார்.
63. கல்லாடலார்.
64. கவைமகன்.
65. கழிமங்கலங்கிழார்.
66. கள்ளிவாத்திரையன்.
67. காக்ககபாடினி - நச்செண்ணையார்.
68. காமச்சேர்குளத்தார்.
69. காமப்பொதியார்.
70. காரிக் கண்ணன்.
71. காலறிகுடிகையார்.
72. காவன் முல்லைப்பூதலார்.
73. காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் - கந்தரத்தலார்.
74. காவிரிப்பூம்பட்டினத்துச்சேந்தன்கண்ணன்.
75. கிடங்கிற்குலபதினைக்கண்ணன்.
76. கிழார்சீரனெயிற்றி.
77. கிள்ளிமங்கலங்கிழார்.
78. கிள்ளிகிழார்.
79. குடவாயில்-சீரத்தன்.
80. குட்டுவன்கண்ணன்.
81. குப்பைக்கோழியார்.
82. குழற்றத்தன்.
83. குறுங்கிரன்.
84. குறுங்குடி - மருதன்.
85. குறையிறையார்.
86. குன்றிடன்.
87. கூடலூர்கிழார்.
88. கூவன்மைந்தன்.
89. கூழிக்கொற்றன்.
90. கொல்லன்ழிசி.
91. கொல்லிக் - கண்ணன்.
92. கொற்றன்.
93. கோக்குளமுற்றன்.
94. கோப்பெருஞ்சோழன்.
95. கோவசத்தன்.
96. கோஆர்கிழார்.
97. கோவேங்கைப் பெருங்கதவன்.
98. சத்திராதலார்.
99. சாத்தன்.
100. சிறைக்குடி - ஆந்தையார்.
101. செம்புலப்பெயந்திரார்.
102. செய்திவள்ளுவன் பெருஞ்சாத்தன்.
103. சேந்தன்கிரன்.
104. சேந்தன்பூதன்.
105. சேரமான்னைந்த.
106. சொல்லூர் - கொற்றன்.
107. தங்கால் - முடக்கொல்லலார்.
108. தாமோதரன்.
109. தாயங்கண்ணன்.
110. திப்புத்தோளார்.
111. தினயிதிநாகன்.

112. தும்பிசோகிரனார்.
 113. தூங்கல்-ஓரி.
 114. தேவகுலத்தார்.
 115. தொல்கயிலர்.
 116. நக்கீரர்.
 117. நம்பிகுட்டுவன்.
 118. நரிவெரு உத்தலையார்.
 119. நன்னுக்கையார்.
 120. நாகம்பொத்த.
 121. நாமலார்மகன் - இளங்கண்ணன்.
 122. நெடும்பல்லியத்தை.
 123. நெடுவெண்ணிலவினார்.
 124. நெய்தல் - காரக்கியன்.
 125. பமொத்து - மோசி - கிரனார்.
 126. பமொற்று - மோசி - கொற்றமன்.
 127. பதடிவைகலார்.
 128. பதுமனார்.
 129. பரணர்.
 130. பருவமொவாயப்பதுமன்.
 131. பனர்ப்பாறார்.
 132. பாண்டியன் - வனாதி - நெடுங்கண்ணன்.
 133. பாண்டியன் - பன்னாடுதந்தான்.
 134. பாரதம்பாடிய - பெருந்தேவனார்.
 135. பாலைபாடிய - பெருங்கடுங்கோ.
 136. பாரகாபரன்.
 137. பூங்கண்ணுத் திரையார்.
 138. பூங்கண்ணன்.
 139. பூதம்புல்லன்.
 140. பூதன் தேவன்.
 141. பெருங்கண்ணன்.
 142. பெருங்குன்றூர்கிழார்.
 143. பெரிச்சாத்தன்.
 144. பெருந்தோட் - குறுஞ்சாத்தன்.
 145. பெரும்பூதனார்.
 146. பெரும்பாக்கன்.
 147. பேயன் - பேயனார் - பேயார்.
 148. பேரெயின் முறுவலார்.
 149. பொதுக்கயத்துக் - கிரந்தை.
 150. பொன்மணியார்.
 151. பொன்னுகன்.
 152. மதுரை - அளக்கர் ஞாழார்மகன் - மள்ளன்.
 153. மதுரை-ஆறுவைவாணிகன் - வேட்டன்.
 154. மதுரை - ஆசிரியன் - கோடங்கொற்றமன்.
 155. மதுரை - நமூத்துப் - பூதன் தேவன்.
 156. மதுரை - எழுத்தாளன் - சேந்தன் பூதன்.
 157. மதுரை - கடையத்தார்மகன் - வெண்ணுகன்.
 158. மதுரை - கணக்காயன்மகன்.
 159. மதுரை - கண்டாகத்தன்.
 160. மதுரை - கண்ணனார்.
 161. மதுரை - கதக்கண்ணன்.
 162. மதுரை - காஞ்சிப்புலவன்.
 163. மதுரை - கொலம்புல்லன்.
 164. மதுரை - சீத்தலைச்சாத்தன்.
 165. மதுரை - நலவெள்ளி.
 166. மதுரை - பெருங்கொல்லன்.
 167. மதுரை-மருதங்கிழார்மகன்.
 168. மதுரை - மருதன் இளநாகனார்.
 169. மள்ளனார்.
 170. மாங்குடிகிழார்.
 171. மாங்குடி - மருதன்.
 172. மாடலூர்கிழார்.
 173. மாடீரத்தன்.
 174. மாமிலாடன்.
 175. மாழலனார்.
 176. மாயெண்டன்.
 177. மாலைமான்.
 178. மாவளத்தன்.
 179. மிளைகிழான்.
 180. மிளைக்கந்தன்.
 181. மிளைப்பெருங்கண்ணன்.
 182. மிளைப்பெருங்கந்தன்.
 183. மிளைவெடித்தன்.
 184. மீனெறி தூண்டிலார்.
 185. மோதாசனார்.
 186. மோசி - கீரன்.
 187. மோசி - கொற்றமன்.
 188. வடமவண்ணக்கன்.
 189. வடமவண்ணக்கன் - பெரிசாத்தன்.
 190. வருமுலையாரித்தி.
 191. வாடாப்பிரமதன்.
 192. வாயிலான் - தேவன்.
 193. வாயில் - இளங்கண்ணன்.
 194. விட்டகுதிரையார்.
 195. வில்லகவிரலினார்.

196. வீற்றுளுத்தெயினன்.
 197. வெண்கொற்றன்.
 198. வெண்புகன்.
 199. வெண்பூதி.
 200. வெண்மணிப்பூதி.
 201. வெரிசாத்தன்.

202. வெள்ளிவீதியார்.
 203. வெள்ளூர்கிழார்மகனார்-வெண்பூதியார்.
 204. வெட்டகண்ணன்.
 205. வேப்பத்தூர் - கண்ணன்கூத்தன்.

15. நற்றிணை,

NARRINAI.

An anthology consisting of 400 stanzas was composed by different poets. It was compiled under the auspices of பன்னாடுதந்த பாண்டியன் மாறன் வழுகி (Paṇṇāḍutanda-Pāṇḍiyan-Māraṇ-Valūdi). Each stanza consists, at least of nine, or at most of twelve, lines. The poem is one of the eight anthologies collectively known as எட்டுத்தொகை (Eṭuttogai).—Vide the notice of the Aganānūru.

I give here below a list of the names of most of the authors whose verses are quoted therein :—

1. அஞ்சியாந்தையார்.
 2. அம்முவனார்.
 3. அம்மெய்யநாகனார்.
 4. அல்லங்கிரனார்.
 5. அறிவுடைநம்பி.
 6. ஆலங்குடிவன்கனார்.
 7. ஆலம்பெரிசாத்தனார்.
 8. ஆயூர் - காவிகள்கள் - சாதேவனார்.
 9. இடைக்காடனார்.
 10. இளங்கிரனார்.
 11. இளந்திரையனார்.
 12. இளந்தேவனார்.
 13. இளநாகனார்.
 14. இளம்புல்லூர்க்க் - காவிகி.
 15. இளம்போகி.
 16. இளவெயினனார்.
 17. இளவேட்டனார்.
 18. இனிசந்தனாகனார்.
 19. உக்கிரப்பெருவழிதீயார்.
 20. உரோடத்துக்-கந்தரத்தனார்.
 21. உலோச்சனார்.
 22. உறையூர் - கதுவாயாச்சாத்தனார்.
 23. எயினந்தைமகன் - இளங்கிரனார்.
 24. எயினந்தையார்.

25. ஐயூர் - முடவனார்.
 26. ஒருகிறைப்பெரியனார்.
 27. ஓரம்போகியார்.
 28. ஓளவையார்.
 29. கச்சிப்பெட்டு - இளந்தச்சனார்.
 30. கடுவன் - இளமள்ளனார்.
 31. கணிபுன்குன்றனார்.
 32. கண்ணகனார்.
 33. கண்ணன்கொற்றனார்.
 34. கண்ணம்புல்லனார்.
 35. கதப்பிள்ளையார்.
 36. கந்தாத்நனார்.
 37. கருயூர் - கதப்பிள்ளையாத்தனார்.
 38. கபிலர்.
 39. கயமனார்.
 40. கருயூர் - கோதமனார்.
 41. கள்ளம்பாளனார்.
 42. கள்ளிக்குடி - பூதம்புல்லனார்.
 43. காசுபன்கிரனார்.
 44. காஞ்சிப்புலவனார்.
 45. காமக்கண்ணிப்பசலையார்.
 46. காப்பியம் சேந்தனார்.
 47. காரிக்கண்ணனார்.
 48. காவன்முல்லைப் - பூதனார்.

49. காவிரிபூம்பட்டினத்துச் - செ
ங்கண்ணனார்.
50. கிடங்காவிதி - கீரன்கண்ண
னார்.
51. கிடங்காவிதி - பெருங்கொ
ற்றனார்.
52. கிழார் கீரனெயிற்றியார்.
53. கிள்ளிமங்கலம்கிழார்மகன்.
54. கீரங்கீரனார்.
55. கீரத்தனார்.
56. குடவாயில் - கீரத்தனார்.
57. குகிரைத்தீயனார்.
58. குளம்பனார்.
59. குன்றுகட்பாவியாதனார்.
60. குன்றியனார்.
61. குன்றூர்கிழார்மகன் - கண்
ணத்தனார்.
62. கூடலூர் - பல்கண்ணனார்.
63. கூற்றங்குமரனார்.
64. கொட்டையூர் - நல்லந்தை
யார்.
65. கொணமாநெடுங்கோட்டை
ர்.
66. கொளம்பக்கனார்.
67. கொற்றனார்.
68. கொற்றங்கொற்றனார்.
69. கோக்குளமுற்றனார்.
70. கோட்டம்பலவானார்.
71. கோலூர் - கிழார்.
72. கோலியூர்கிழார்மகன் - செ
ழியனார்.
73. சல்லியங்குமரனார்.
74. சாத்தந்தையார்.
75. சேந்தங்கண்ணனார்.
76. சேந்தம்பூதனார்.
77. தங்கால் - ஆத்திரையன்-செ
ங்கண்ணனார்.
78. தங்கால் - பொற்கொல்லன் -
வெண்ணுகனார்.
79. தனிமகனார்.
80. தாயங்கண்ணனார்.
81. தம்பிசோகீரனார்.
82. துரைக்குறுமாவிற்பாலங்
கொற்றனார்.
83. தூங்கல் ஓரி.
84. தேயபுரிப்பழங்கயிற்றினார்.
85. தேயனார்.
86. தேவனடைமான் - இளந்திரை
யன்.
87. தோல்குழை.
88. நக்கனன்.
89. நக்கீரர்.
90. நச்சேந்தனார்.
91. நப்பாலத்தனார்.
92. நம்பிகுட்டுவனார்.
93. நல்லூர்கிழார்.
94. நல்லூர்-சிறுமேதாவியார்.
95. நல்விளக்கனார்.
96. நல்வெள்ளியார்.
97. நல்வேட்டனார்.
98. நற்றங்கொற்றனார்.
99. நற்றமனார்.
100. நீலகண்டன்கலைக்கோட்டுத்
ண்டனார்.
101. நெய்தல் - தத்தனார்.
102. பரணர்.
103. பாண்டியன் - மாறன்வழி.
104. பாரகாயனார்.
105. பாலத்தனார்.
106. பீழிராந்தையார்.
107. பிரமசாரி.
108. பிரான்சாத்தனார்.
109. புதுக்கயத்துவண்ணக்கன் -
கம்பூர்கிழான்
110. பூதங்கண்ணனார்.
111. பூதனார்.
112. பூதனேறவனார்.
113. பெரிசாத்தனார்.
114. பெருங்கண்ணனார்.
115. பெருங்கடுங்கோ.
116. பெருங்கவுசிகனார்.
117. பெருங்குன்றூர்கிழார்.
118. பெருந்தலைச்சாத்தனார்.
119. பெருந்தேவனார்.
120. பெருவழி.
121. பேராலவாயார்.
122. பொதும்பில்கிழார்.
123. பொதும்பில்கிழார்மகன் -
வெங்கண்ணி.
124. போய்கையார்.
125. போதானார்.
126. மடல்பாடிய - மாதங்கீரனார்.
127. மதுரை - அளக்கர்ஞாழலார்
மகனார் - மள்ளனார்.
128. மதுரை-அறுவைவாணிகள் -
இளவேட்டனார்.
129. மதுரை - ஆருலவியநாட்டு -
ஆலம்பெரிசாத்தனார்.
130. மதுரை-இளம்பாலாசிரியன்-
சேந்தன் கூற்றனார்.
131. ஈழத்துத் - தேவன்பூதனார்.

132. ஒலைககடை - ஆத்தார்நல
வெள்ளையார்.
133. மதுரை - கண்ணத்தனார்.
134. மதுரை - காருலவியங்குற்ற
னார்.
135. மதுரை - கொல்லன் வெண்
னுகனார்.
136. மதுரை - சுள்ளம்போதனார்.
137. மதுரை - பள்ளிமருதங்கிழா
ர்மகனார் - சோகுத்தனார்.
138. மதுரை பாலாசிரியன் - சேந்
தன் கொற்றனார்.
139. மதுரை - பூவண்டநாகன்வே
ட்டனார்.
140. மதுரை - பெருமருதனார்.
141. மதுரை - பெருமருதிளநாக
னார்.
142. மதுரை - பேராலவாயார்.
143. மதுரை - மருதங்கிழார்மக
ன் - பெருங்கண்ணனார்.
144. மதுரை - மருதன் - இளநாக
னார்.
145. மதுரை - மருதன் - இளங்க
ண்ணனார்.
146. மருங்கூர்ப்பட்டினத்து - சே
ந்தன்குமரனார்.
147. மருதம்பாடிய - இளங்கடுங்
டகா.
148. மருதை - பெருமங்கள் - இள
நாகனார்.
149. மள்ளனார்.
150. மாங்குடி கிழார்.
151. மாழலனார்.
152. மாறன்வழுதி.
153. மாறேக்கத்து-நப்பசலையார்.
154. மீனைக்கிழானல்வேட்டனார்.
155. மீளிப்பெரும்புதமனார்.
156. முக்காலரசன் நலவெள்ளை
யார்.
157. முடத்தீருமாறன் கூனிமாண்
டியன்.
158. முதுகூற்றனார்.
159. முதுவெங்கண்ணனார்.
160. முப்பேர் - நாகனார்.
161. முலங்கிரனார்.
162. மோசி - கண்ணத்தனார்.
163. மோசி - கிரனார்.
164. வடமவண்ணக்கன் - பெரிசா
த்தன்.
165. வண்ணக்கன் சோருமருங்கு
மரனார்.
166. வண்ணப்புக்கந்தரத்தனார்.
167. வன்பரணர்.
168. விழிக்கட்பேதைப் - பெருங்
கண்ணனார்.
169. விற்றூற்று வண்ணக்கன்றத்
தனார்.
170. வினைத்தொழிற்சோகிரனார்.
171. வெள்ளியத்தினனார்.
172. வெள்ளிவிதியார்.
173. வெள்ளைக்குடிநாகனார்.
174. வெறிபாடிய - காமக்கண்லா
யார்.

EXTRACTS

FROM

SANSKRIT MANUSCRIPTS.

1. कृष्णयजुर्वेदस्य भट्टभास्करीयम् भाष्यम्.

Beginning :

ईशानस्तर्वविद्यानां भूतानामीश्वरः (प्रभुः) परः ।
पुनानु सर्वदा युष्मान् शब्दब्रह्मतनुश्शिवः ॥
यदर्धतमविज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते ।
अनग्राविव शुष्कौघो न तज्ज्वलति कर्हिचित् ॥

किञ्च ॥

स्थाणुरयं भारहरः किलाभूदधीत्य वेदं न जानाति योऽर्थम् ।
योऽर्थावित् सकलं भद्रमश्नुते स नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मेति ॥

, स्वाध्यायोऽध्येतव्य ' इति विधिना चार्थज्ञानपर्यन्तमध्ययनं विधी-
यत इति न्यायसिद्धम् । श्रूयते च, "यदेव विद्यया कृतं तदेव वीर्यवत्तरं
भवति" "य उ चैनमेवं वेद" इति च । मन्वाः पुनरविदितार्थाः
नानुष्ठेयार्थप्रकाशनसमर्थाः । तस्मात्प्रतिपन्नवेदार्थोऽनुष्ठाताभिलषितानि
फलानि प्राप्नोति न च प्रत्यवैतीति वेदार्थः प्रतिपत्तव्यः । अथ मनुः ।

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च ।

सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति ॥ इति

अत्र च ॥

इतिहासपुराणज्ञः पदवाक्यप्रमाणवित् ।

अङ्गोपकारवेदी च वेदार्थं ज्ञानुमर्हति ॥ इति

अनेवंविधा अल्पश्रुता नाधिक्रियन्ते ।

मन्वाणां विनियोगमागमविधिं छन्दांसृषीन् देवताः
काण्डर्षीन्निगमान्निरुक्तमितिहासाख्यायिका ब्राह्मणम् ।
वाक्यार्थस्वरूपमर्थमननन्यायांश्च वक्ष्ये पृथक्
शब्दानामनमूयवः सुमनसः श्रृण्वन्तु जिज्ञासवः ॥
एतैप्पोडशभिश्च तत्त्वविदितः पुंसां भवेच्छ्रेयसे
वेदार्थश्च पडङ्ग एव खलु सोऽध्येयः श्रुतौ चोद्यते ।
वाक्यार्थैकपराण्यधीत्य च भवस्वाम्यादिभाष्याण्यतो
भाष्यं सार्वपथीनमेतदधुना सर्वियमारभ्यते ॥

तस्मात् ।

प्रणम्य शिरसाचार्यान् बोधायनपुरस्सरान् ।
व्याख्या चाध्वर्युवेदस्य यथामति विरच्यते ॥

अपिच । “यो ह वा अविदितार्षेयच्छन्दो दैवतब्राह्मणेन मन्त्रेण
यजति याजयति वा स्थाणुं वर्धति गर्तं वा पद्यते प्र वामीयते पापीयान्
भवतीति यातयामान्यस्य च्छन्दांसि भवन्ति अथ यो मन्त्रे मन्त्रे वेद स
सर्वमायुरेति ” इत्यादिदर्शनात् प्रतिमन्त्रमार्षेयं ऋष्यादीनि ज्ञातव्यानि ।
तत्र मन्वाणां ऋषिर्द्रष्टा अक्षरसंख्याविशेषं छन्दः । मन्त्रवाच्यार्थो देवता ।
विनियोजकं ब्राह्मणम् । तत्रैकैव महती देवता । अग्निवायुसूर्यादिरूपेण
विभक्तास्सर्वत्र ध्यातव्याः । तासां विभूतयः पृथिव्यन्तरिक्षद्युस्थाना
अन्या देवता इति नैरुक्ताः । ताश्च प्रतिमन्त्रे लिङ्गैर्विनियोगेन च गम्यन्त
एवेति न तासां पृथगभिधानाय प्रयस्यामः । ऋषयः प्रजापत्यादयः
प्रतिकाण्डं भिद्यन्ते । ते च होमतर्पणार्थं ज्ञातव्याः । यथाहुः—

अथ काण्डऋषीनेतानुदकाञ्जलिभिः शुचिः ।

अव्यग्रस्तर्पयेन्नित्यं मन्त्रैः पर्वाष्टमीषु च ॥

काण्डोपाकरणेष्वेतान् पुरस्तात्सदसस्पतेः ।

जुहुयात्काण्डसमाप्तौ श्रुतिरेषा सनातनी ॥

तत्र प्रजापतेर्नवकाण्डानि — पौरोडाशिकं यजमानं होतारं इष्टि-
हौत्रं चतुर्णां ब्राह्मणानि पितृमेधश्चेति । सोमस्य नव काण्डानि । अध्वरो
ग्राह्यदक्षिणानि तेषां तेषां त्रयाणां ब्राह्मणमेकं वाजपेयस्तस्य च
ब्राह्मणं सवाशुक्रौयं 'नमो वाच' इत्यादिकं तस्य ब्राह्मणमिति । अग्नेस्स-
प्तकाण्डानि अग्न्याधेयं पुनरग्न्युपस्थानं अग्निस्तस्य ब्राह्मणं 'सावित्राणी'-
त्यादि तस्यैव द्वितीयं ब्राह्मणं 'यदेकेने'त्यादि अग्निहोत्रब्राह्मणमिति ।
अथ विश्वेषां देवानां षोडशकाण्डानि राजसूयं तस्य च ब्राह्मणं काम्याः
पशवः काम्या इष्टयः उपानुवाक्यं 'प्रजापतिरकामेयत' इति पञ्चप्रश्नकं
याज्याः अश्वमेधस्तस्य च ब्राह्मणं सावित्राणि उपहोमसूक्तानि नक्षत्रेष्टयः
सौत्रामण्योऽच्छिद्राणि पशुहौत्रं पुरुषमेध इति सांहितीनामुपनिषदां
सांहित्य उपनिषद् ऋषयः 'शन्नोमित्र' इत्यादीनां याज्ञिकीनामुपनिषदां
याज्ञिक्यः 'अम्भस्पार' इत्यादीनां वारुणीनां वारुण्यः 'सहनाववत्वि'
त्यादीनां इत्येवं तित्तिरिशारवायां चतुश्चत्वारिंशत् काण्डानि अथ काठके
काण्डान्यष्टौ हव्यवाडादीनां अत्र हव्यवाहश्चत्वारि काण्डानि सावि-
त्रचित्यं नाचिकेतचित्यं चानुहोत्रचित्यं वैश्वमृजचित्यमिति अथारुणके-
तुकचित्यस्य अरुणाः काण्डर्षयः । अथ विश्वेषां देवानां द्वे काण्डे
दिवश्येनीष्टयः 'तुभ्यं' 'देवेभ्य' इत्यनुवाकौ । अपामेष्टयः 'तपसा'
'देवेभ्य' इत्यनुवाकौ । अथ स्वाध्यायब्राह्मणस्य स्वयम्भूऋषिः । अथैका-
ग्रिकाण्डं 'प्रशुश्मेति (प्रमुग्मन्तेति)' प्रश्नद्वयं वैश्वदेवाग्निमन्त्राश्च तस्य
विश्वेदेवा ऋषयः ।

अत्र च काण्डानां सङ्कीर्णत्वेऽपि यथाम्नायमेवाध्येयम् सारस्वत-
त्वादस्य पाठस्य । सरस्वती स्वसुनाय सारस्वताय इमं पाठमुपादिदेश ।
स च सर्वविद्यानिधिरमुमेव पाठमध्यैष्ट तस्मादनतिक्रमणीय इति । पूर्व

भगवता व्यासेन जगदुपकारार्थमेकीभूय स्थिताः वेदा व्यस्ताः शाखाश्च परिच्छिन्नाः । तत्र वैशम्पायनन्नाम शिष्यं यजुश्शाखानामाधिपत्ये नियु-
येज । स वै तं पाठं याज्ञवल्क्याय प्रोवाच स च तित्तिरये सोऽपि
चोखाय उखश्च आत्रेयाय ददौ येन पदविभागं चक्रे । अतश्चैयं शाखा
आत्रेयीत्युच्यते । उक्तं च

एतान् ऋषीन् यजुर्वेदे यः पठेत् स वेदवित् ।

ऋषीणामेति सालोक्यं स्वयंभोश्चैकसद्वताम् ॥ इति

अथैषां काण्डानामाद्यवसानावगमः पुरस्ताद्व्याख्यानावसरे भवि-
ष्यति । अयं च वेदो विध्यर्थवादमन्वात्मना त्रेधा भवति । विध्य-
श्वोदनाः । अर्थवादाः स्तुतयः । मन्वाः अनुष्ठेयार्थप्रकाशकाः । एते च
ऋग्यजुपविभागेन द्वेधा वर्तन्ते । ऋचः पादबद्धाः । अतोऽन्यानि यजूषि ॥
तत्राहुः ॥

पदक्रमविशेषज्ञो वर्णक्रमविचक्षणः ।

स्वरमात्रविभागज्ञो गच्छेदाचार्यसंसदम् ॥ इति ॥

तस्मात् ॥

विनियोगस्य मन्वाणां भेदऋग्यजुपस्य च ।

पदार्थस्वरूपाणामभिव्यक्त्यै च यत्यते ॥

तस्मादमावास्यायां सन्नयतश्शाखामाच्छिनत्यध्वर्युः ओं इषे त्वोर्जे
त्वेति 'उभा वामिन्द्राग्नी' इत्यतः प्रागितः प्रभृति ये मन्वाः तेषां
प्रजापतिः काण्डऋषिः । अत्र केचिद्युष्मच्छब्दावृत्त्या द्वे यजुषी आहुः ।
तदानीं छेदने द्वयोस्समुच्चयः । अपरे तु द्वितीयेन सन्नमनादि कुर्वन्ति ।
मन्वार्थस्तु इडन्तं सर्वरेपणीयत्वात् । इह तु सान्नाय्यलक्षणं गृह्यते । ऊर्क-
रसः बलप्राणनयोरुदीपकः । इषु इच्छायां ऊर्जबलप्राणनयोः आभ्यां
कर्मणि करणे च संपदादिलक्षणस्त्रियां क्विप्रत्ययः । उभयत्र तादर्थ्यं
चतुर्थी विभक्तेरुदात्तत्वम् । हे शाखे इडर्थं त्वामाच्छिनन्मि । ऊर्गर्थं

त्वामाच्छिन्नम् । इत्येवं योग्यक्रियाध्याहारेण व्याख्येयम् । प्रयोगकाले तु तदर्थस्मृतिमात्रमेव । प्रवरनामधेयेषु श्रौतपदस्थाने योग्यपदान्तरप्रयोगो युज्यत एव ।

वत्सानपाकरोति ॥ वायवस्थोपायवस्थ इति ॥ अत्र केचित् आख्यातावृत्त्या द्वे यजुषी आचक्षते । वायवो गन्तारः वातेर्गतिकर्मणः 'कृपावाजी' त्युण्प्रत्ययः । उपायवः उपगन्तारः उपपूर्वादिणश्छन्दसीण इत्युण्प्रत्ययः । पूर्वत्र प्रत्ययस्वरेणान्ताऽनुदात्तत्वम् । उत्तरत्र गतिसमासे कृते कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वम् । स्थेति अस्नेः पञ्चमे लकारे रूपम् ।

गोचराय गाः प्रस्थापयति । देवो व इत्यादिभिः तिसृभिः ऋषिभिः । तत्र प्रथमया सवितारमभ्यर्थयेत् ।

* * * *

इति भट्टभास्करमिश्रविरचिते यजुर्वेदभाष्ये ज्ञानयज्ञाख्ये प्रथमे काण्डे अष्टमे प्रपाठके द्वाविंशोऽनुवाकः ॥

द्वितीयः काण्डः.

अतः परं काम्याः पशवो विधीयन्ते । काम्यप्रायः नैमित्तिकानां च मध्ये विधानात् । तेषां न पर्वादिति नियमोऽस्ति । वैश्वदेवकाण्डम् । वायव्यं श्वेतमालभेतेत्यादि तेषां च

* * * *

इति भट्टभास्करमिश्रविरचिते यजुर्वेदभाष्ये ज्ञानयज्ञाख्ये द्वितीय-काण्डे षष्ठप्रश्ने द्वादशोऽनुवाकः ।

ओं ॥ एष निष्पावके शाके कुशिकान्वयजन्मना ।

भट्टभास्करमिश्रेण ज्ञानयज्ञः प्रकीर्तितः ॥

द्वितीयः काण्डस्तमाप्तः.

पंचमः काण्डः.

ईशानस्सर्वविद्यानां भूतानामीश्वरः परः ।

पुनातु सर्वदा युष्मान् शब्दब्रह्मतनुश्शिवः ॥

अतः परमग्निकाण्डमग्न्यार्षेयमारभ्यते । तत्राद्यं प्रश्नचतुष्टयमेकं
काण्डं चतुर्थकाण्डाम्नायमन्त्रब्राह्मणं शिष्टं प्रश्नत्रयं काण्डान्तरप्रयोग-
विशेषार्थम् ॥ तत्रोखां संहरिष्यतः सावित्रहोमांविदधाति * *
* * * इति पञ्चविंशतिः ॥ असंपूर्णः ॥

षष्ठः काण्डः.

अथ सौम्यस्याध्वरस्य ब्राह्मणं सौम्यं काण्डमारभ्यते । तत्र
प्राचीनवंशं करोतीति विधिः हविर्धानशब्दवद्योगाख्यैषा हि देवयजन-
विधिरयं गुणमात्रमेव प्राचीनः प्रागायतः पृष्ठवंशोऽस्मिन्निति बहुव्रीहौ
पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं प्राञ्चतीति * * *
* * * * *

Colophon :—इति भट्टभास्करमिश्रविरचिते यजुर्वेदभाष्ये ज्ञान-
यज्ञाख्ये षष्ठे काण्डे षष्ठे प्रश्ने द्वादशोऽनुवाकः समाप्तः प्रपाठकः.

काण्डश्च समाप्तः.

सप्तमः काण्डः.

षष्ठेन काण्डेन दीक्षाद्युदयनीयान्तोऽग्निष्टोमस्सगुणः प्रतिपादितः स
इदानीमिह विधीयते । पूर्वस्मिन् हि कृत्यतामात्रमस्य विहितम् । अस्यैव
गुणविकाराः सर्वसंस्था उक्ता अग्निष्टोमाद्यप्तोर्यामान्ताः एतत्प्रकृतिका-
स्सर्वे विश्वभिदादय एकाहा द्विरात्रप्रकृतयश्चाहीनाः । द्वादशाहादीनि च
सत्राणि । तत्र पूर्वप्रकरणशेषभूतं तद्व्रतमेव किञ्चिदारभ्यते । तत्र त्रि

वृदादिस्तोमभेदनिबन्धनत्वात् सर्वेषां सान्धानामहीनानां च विभागस्य तेषां
स्वरूपमुत्पत्तिं चाभिधास्यन् तन्निमित्तं चास्य ज्योतिरिति संज्ञां निर्वक्ष्यन्
प्रथममनयैव संज्ञया इदमुपादाय विशिष्टफलसाधनत्वमस्य दर्शयति ॥

* * * *

इति सप्तमस्य पञ्चमे द्वादशोऽनुवाकः.

2. आपस्तम्बप्रवरभाष्यम्.

Beginning :

सत्रानन्तरं तदर्थहोतृगोत्रप्रवरा अध्वर्युप्रवराश्रानुक्तत्वात् वक्ष्यन्ते ।
प्रवरान् व्याख्यास्यामः ॥ प्रज्ञानुबन्धूनां यैराग्निः प्रीयते ते प्रवराः । तेऽ
पिं तान् विस्तरणं प्रवरान् प्रपञ्जेन वक्ष्यामः । आर्षेयं वृणीते श्रूयते
आर्षेयं शिष्याऽपत्यसंबन्धं प्रार्थयते संकीर्तयति अथवा आर्षेयं ऋषेर-
पत्यं आग्निं यजमानेत्यादितच्चात् यजमानस्य च ऋपिसन्तानत्वात् तं
वृणीते प्रार्थयते । होत्रायेति एवं बन्धोरेव नैति पूर्वऋपिसंबन्धान्नैव च्यवने
अर्था अपि च संतत्यै आत्मनः पूर्वेपां च आत्मनः पूर्वेपां च सन्तानायेति
न देवैर्न मनुष्यैरार्षेयं वृणीते ऋपिभिरेवार्षेयं वृणीते इति विज्ञायते अपि
च विज्ञायते न देवैः प्राजापत्यादिभिरार्षेयं वृणीते ऋपिभिरेव मन्त्रद्र-
ष्टृभिः वसिष्ठादिभिरार्षेयं वृणीते आर्षेयं अन्वाचष्ट ऋषिणा हि देवाः
पुरुषं अनुबध्यन्ते इति विज्ञायते ॥

* * * *

End :—

अथासंप्रज्ञातबन्धुः आचार्यामुष्यायणमनुप्रब्रवीत् आचार्यप्रवरं प्रवृ-
णीत सम्यग्ज्ञातः प्रवरः यस्य सम्यग्ज्ञातबन्धुः आचार्यामुष्यायणं आचार्य-
प्रवरं अनुप्रब्रवीत् आनुपूर्व्येण ब्रूयात् आचार्यप्रवरेण प्रवृणीतेत्यर्थः
सामर्थ्याद्ब्राह्मणस्यायं विधिः क्षत्रियाणां पुनरसंप्रज्ञातबन्धूनां पुरोहितप्रवर
एवेति च । अथाह ताण्डिन एकार्षेयं सार्ववर्णिकं सामामनन्ति आहेति

विनिग्रहार्थेयः ताण्डिनो नाम छन्दोगाः एकार्पेयं एकमेवार्पेयं सार्ववर्णिकं
समामनन्ति पठन्ति मानवेति होता मनुवादित्यध्वर्युः मानव्योहि प्रजा
इति ब्राह्मणमिति हि ब्राह्मणं मानवेति होता प्रवृणीते मनुवादित्यध्वर्युः कुत
एनद्वगम्यते मानव्यः मा जातिसामान्याभ्यामित्याधिकारलक्षणयुक्ताः
शब्देनोच्यन्ते यद्यपि ताण्डिनां निदर्शनेन सर्वे मानवगोत्राः प्रभवन्ति
तथापि भिन्नविवाहं कुर्वन्ति इत्येव प्रवरणमात्र एव कल्पितत्वात्
यस्मादेतोर्ब्राह्मणप्रत्यक्षमेव श्रुतं द्विरुक्तिर्मङ्गलार्था इति.

Colophon :—इति कपर्दिविरचिते प्रवरसूत्रभाष्ये प्रवराः समाप्ताः.

3. आपस्तम्बसूत्रधूर्तस्वामिभाष्यवृत्तिः.

Beginning :

यस्य द्विरद्वक्त्राद्याः पारिषद्याः परशशतम् ।
विघ्नं निघ्नन्ति सततं विष्वक्सेनं तमाश्रये ॥
नमस्त्रैलोक्यनिर्माणत्राणसंहनिकर्मणे ।
चित्सदानन्द रूपाय विष्णवे परमात्मने ॥
आपस्तम्बं नमस्कृत्य धूर्तस्वामिप्रसादतः ।
तद्भाष्यवृत्तिः क्रियते यथाशाक्ति निरूपिता ॥
न व्यवस्थाप्यते वस्तु संबुद्धयेन नियम्यते ।
को वा समर्थो वेदार्थनिर्णयेऽत्यन्तगह्वरे ॥
कौशिकेन तु रामेण श्रद्धामात्रं विजृम्भितम्
वेदार्थनिर्णये यत्नः क्रियते शक्तितोऽधुना ॥
यथाभाष्यं यथाप्रज्ञं कृतां व्याख्यामिमां मया ।
विद्वांसस्त्वनुगृह्णन्तु प्रसन्ना वीतमत्सराः ॥

वेदमार्गानुसारेण यथाशक्ति प्रकल्पाम् ।

अल्पार्थमपि मद्वाक्यं श्रद्धधानस्य शोभते ॥

अत्र दर्शपूर्णमासादीनां काल उच्यते । यदहः पुरस्ताच्चन्द्रमाः पूर्ण उत्सर्पेत् । इत्याद्यौपसथ्यकालानुसारेण द्वितीयेऽहनि यागः श्वः पूरितेति पूर्वाह्ने अल्पपञ्चदशीपक्षे स्वर्षिकां तृतीयामुपवसेत् । इत्ययं पक्षः प्रतिप-
त्पूर्वाह्ने सन्धिपक्षः उत्तरेऽहनि सङ्गवान्तः प्रतिपत्सङ्गवपक्षे सद्यः कालता तु पूर्वाह्नेऽल्पपञ्चदशीसन्निपाते केवलप्रतिपत्प्रथमांशसंभवएव. *

कौशिकेन रामेणाग्निचिता कृतायां आपस्तम्बसूत्रधूर्तस्वामिभाष्य-
वृत्तौ प्रथमप्रश्ने प्रथमः पटलः. ॥

इति प्रथमप्रश्ने द्वितीयः पटलः सम्पूर्णः ॥

इति प्रथमप्रश्नभाष्यवृत्तौ तृतीयपटलः सम्पूर्णः ॥

इति प्रथमप्रश्ने चतुर्थः पटलः सम्पूर्णः ॥

” पञ्चमः ”

” षष्ठः ”

” सप्तमः ”

इति कौशिकेन रामेण अग्निचिता कृतायां आपस्तम्बसूत्रधूर्तस्वामि-
भाष्यवृत्तौ प्रथमप्रश्ने अष्टमः पटलः । प्रथमः प्रश्नश्च सम्पूर्णः ॥

इति द्वितीयप्रश्ने षष्ठः पटलः सम्पूर्णः । द्वितीयः प्रश्नश्च सम्पूर्णः ॥

श्रीरामाण्डारनामकमेतच्छ्रीविष्णुचित्तरचितमिति ।

प्राहुः कतिचन भुवने तल्लिङ्गं नात्र पश्यामः ॥

इति कौशिकेन * * तृतीयप्रश्ने षष्ठः पटलः ।
तृतीयप्रश्नश्च समाप्तः ॥

End :

यस्यात्मा शरीरमिति स आत्मेति जीवशरीरकेऽन्तर्यामिन्यात्म-
शब्दप्रयोगात् तस्य च परमात्मत्वात् परमात्मनो ब्रह्मत्वेन सर्वशाखाप्रसि-
द्धत्वात् नारायणपरं ब्रह्म आत्मा नारायणः परः इति नारायणपरं
ब्रह्मपरमात्मशब्दानां सामानाधिकरण्यात् नारायणं महाज्ञेयमिति सर्वदा
ज्ञेयत्वात् यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरमिति श्रुतेश्च.

4. जैमिनिगृह्यसूत्रव्याख्या (सुबोधिनी).

Beginning :

पादैर्हस्तैश्शिशरोभिश्च भूर्भुवः स्वरधिष्ठितम् ।

ज्योतिष्फूर्तिदुरालोकं ज्वलज्जाम्बूनदप्रभम् ॥ 1 ॥

संप्रवृत्तिनिवृत्तिभ्यां संविदः सलिलस्य च ।

विराजमानं विश्वेषां हृदि सूर्ये च सन्ततम् ॥ 2 ॥

अनादिं तमनीशं तमन्तराध्याय पूरुषम् ।

प्राक्कारिकाश्च वृत्तीश्च मन्वादिवचनान्यपि ॥ 3 ॥

न्यायांश्च शिष्टाचारांश्च समालोच्य पुनः पुनः ।

सञ्चिताखिलसाराब्धिः स्वरूपग्रन्था सुबोधिनी ॥ 4 ॥

व्याख्यया व्यक्तयोपेता मन्वाणां च यथामति ।

टीका जैमिनिसूत्रस्य श्रीनिवासेन तन्यते ॥ 5 ॥

नात्र प्रमाणानि विना कश्चिदप्यर्थ उच्यते ।

नानूद्यन्ते . . ग्रन्थविस्तरशङ्कया ॥ 6 ॥

अथातोऽग्निं प्रणयिष्यन् प्रागुदकप्रवणमभ्युक्ष्य स्थण्डिलं लक्षणं
कुर्यान्मध्ये अथेति मङ्गलार्थः अत इति आरम्भार्थः अग्निं प्रणयिष्यान्

प्रदेशान्तरे स्थापयितुमिच्छन् विहितकर्मण इति शेषः प्रागुत्तरप्रदेशावनतं
स्थण्डिलं कृत्वा अभ्युक्ष्य तस्य मध्ये वक्ष्यमाणपञ्चरेखात्मकादिलक्षणं
दर्भादिना लिखेत् ॥ * * * *

इति श्रीनिवासाध्वरिविरचितायां जैमिनिसूत्रव्याख्यायां सुबोधिन्यां
प्रथमः खण्डः ॥

प्रस्तरात्पवित्रे गृह्णाति प्रादेशमात्रे समे अप्रशीर्णाग्रे अनन्तगगर्भे—
पूर्वगृहितात्प्रस्तरात् पवित्रसंज्ञे भाविनि तृणे अप्रशीर्णाग्रे अच्छिन्नाग्रे
अनन्तगगर्भे अन्नस्नृणान्तररहिते प्रादेशमात्रतो गृह्णाति. . . .
इति द्वितीयः खण्डः ॥

स्रुवं प्रणीतानु प्रणीय निष्टप्य दर्भैः संमृज्य सम्मार्गानभ्युक्ष्य
अग्रावादाय दक्षिणं जान्वाच्यामेध्यं चैतत्किञ्चिदाज्येऽवपद्येत घुषणस्य
स्रुका मक्षिका पिपीलिका इत्यापञ्चम्य उद्धृत्याभ्युक्ष्योत्पूय जुहुयात् ॥
. . . . इति तृतीयः खण्डः ॥

सपवित्र प्रस्तरमादत्त तस्याग्राणि स्रुवेऽनक्ति दिव्यङ्गेति ।
अनक्ति संस्पर्शयति दिवि स्वर्गे अङ्ग विराज ॥
इति चतुर्थः खण्डः ॥

पुंसवनं तृतीये मासि अन्यत्र गृष्टेः ।
गृष्टेः प्रथमगर्भाधानात् पुंसवनं अन्यत्र चतुर्थे मासि स्यात् ॥ .
इति पञ्चमः खण्डः ॥

अथातो नान्दीमुखेभ्यः पितृभ्यः पूर्वेषुर्व्याख्यास्यामः । नान्दी-
मुखात् पितृनुद्दिश्य कर्मणा पूर्वेषुः निरन्तरपूर्वादिने कर्तव्यं कर्म व्याख्या-
स्यामः । कर्मणामित्यत्र सीमन्तादीनां षण्णामिति प्रमाणान्तरान्निधमः ॥
. . . . इति षष्ठः खण्डः ॥

सीमन्तोद्घवनं चतुर्थे मासि षष्ठे वा—पूर्वपक्षे पुण्यनक्षत्रे हस्तोत्तराभिर्वा कुर्यात् । उत्तराभिरिति उत्तरफल्गुन्या उत्तराषाढया वा उत्तरश्रौष्ठपद्या वा कुर्यादित्यर्थः ॥
इति सप्तमः खण्डः ॥

कुमारे जाते जानकर्म प्राक् स्तनप्राशनात् । व्रीहिश्व यवश्च जानरूपेणाववृष्य प्राशयेत् ॥
इति अष्टमः खण्डः ॥

अथातो नामकर्म पूर्वपक्षे पुण्यनक्षत्रे द्वादश्यां वा जन्मदिनाद्द्वादशे दिवसे इत्यर्थः पिता नाम कुर्यात् आचार्यो वा ॥
. इति नवमः खण्डः ॥

अथातः प्राशनकर्म पूर्वपक्षे पुण्ये नक्षत्रे मासे त्विदं षष्ठ इति मन्वादिवचनात् ब्राह्मणान्भोजयित्वा हविष्यमन्नं प्राशयेत् ॥
इति दशमः खण्डः. ॥

तृतीये संवत्सरे जटाः कुर्वीत — जटा इति शिखाशब्दवाच्याः केशाः गर्भतृतीये इत्येके उदगयने पूर्वपक्षे पुण्ये नक्षत्रे ब्राह्मणान् स्वस्तिवाच्यापराह्णेऽग्निं प्रणयित्वा दक्षिणतोऽग्नेश्चत्वारि पूर्णपात्राणि निदंद्वात् ॥ इत्येकादशः खण्डः ॥

सप्तमे ब्राह्मणमुपनयीत पञ्चमे ब्रह्मवर्चसकामं नवमे त्वायुष्कामं एकादशे क्षत्रियं द्वादशे वैश्यं नानिषोडशमुपनयीत प्रस्रस्तवृषणो ह्येष वृषलीभूतो भवति इति ॥ इति द्वादशः खण्डः. ॥

सायं प्रानरुदकान्ते पूतो भूत्वा सपवित्रोऽद्विर्मर्जयेत् आपो हिष्ठाभिस्तितृभिस्तरत्समन्दीधावतीति चतसृभिर्मर्जयेत्प्रोक्षयेदात्मानम्. . . .
इति त्रयोदशः खण्डः. ॥

श्रावण्यामुपाकरणं श्रौष्ठपद्यां वा श्रवणसप्तवस्थितचन्द्रयुतपौर्णमासी श्रावणी तथा श्रौष्ठपद्मी वर्षापौर्णमास्योरन्यतरस्यामित्यर्थः हस्तेन—

तन्नक्षत्रयोगि पूर्णिमाभावे सन्निधानाद्दार्पिकेन हस्तेन उपाकुर्यादित्यर्थः.

. . . (“ इति चतुर्दशः खण्डः ” इति नोपलभ्यते.) . . .

इति पञ्चदशः खण्डः ॥

गौदानिकब्रानिकौपनिषदाः संवत्तराः—गोदानसमावधिकं पाव-
मानपर्यन्ताध्ययनमत्र गोदानशब्देनोच्यते ब्रतानीत्यारण्यकपर्वदौ दशा-
ध्यायी उपनिषदिति तवश्श्याव्यव्याहृतिसामगायत्री. ॥

. . . . इति षोडशः खण्डः ॥

द्वादश महानाम्निकाः संवत्तरा नव पट् त्रय इति विकल्पाः.
महानाम्न्य इति विदामववन्निति शक्वरीत्रयं वस्तामि उपनयनार्थं द्वादश
संवत्सरा नव पट् त्रयो वा संवत्सरा इति त्रिविधास्तत्र विकल्पा भवन्ति॥

. . . . इति सप्तदशः खण्डः ॥

द्वादश वर्षाणि वेदब्रह्मचर्यं—वेदार्थं ब्रह्मचर्यं यदुपनयनं आदिष्टं
तद्द्वादश वर्षाणि चरितव्यं । जननात्प्रभृत्येकेत्येके तथा चोपरि पट् वर्षा-
णीत्यर्थः सप्तमे ह्युपनीयते यावदध्ययनं वा ब्रह्मचर्याचरणमिति शेषः ॥

. . . . इत्यष्टादशः खण्डः ॥

वेदमधीत्य ब्रतानि चरित्वा ब्राह्मणः स्नास्यन्सङ्कल्पयते । अहतं
वास एरकां स्नानमनुलेपनं सुमनस आङ्गनं आदर्शमहते वाससी
आव्रतं मणि ॥

यथाशक्ति दक्षिणां दत्त्वा ब्राह्मणानुमतः समावर्तनं करिष्यमाण
इत्यर्थः ॥ इत्येकोनविंशः खण्डः ॥

स्नात्वा मातापितरौ परिचरेत् तदधीनः स्यात् ॥ ताभ्यामनुज्ञातो
जायां विन्देतानाग्रिकां समानजातीयां असगोत्रां मानुरसपिण्डां । अन-
ग्रिकां यस्मिन्वयसि स्वयमेव लज्जया वासः परिदधाति तद्वयस्काम् ॥ .

. . . . इति विंशः खण्डः ॥

अथास्य दक्षिणेन पाणिना दक्षिणं पाणिं गृह्णाति । सम्पातस्त्रोक्कान-
न्तरभिद्ं प्रहस्तं पुंसः प्रजाः कामयमानः प्रहस्तं मणिबन्धप्रदेशं गृह्णाति
. . . . इत्येकविंशः खण्डः ॥

प्रस्थितमनु मन्त्रयते । पूषात्वेनो नयतु । हस्तगृह्याश्विनौ त्वा प्रवह-
तां रथेन । गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथासौ वशिनी त्वं वितथमावदासीति ।
पितृगृहाद्गृहं प्रस्थितां त्वा त्वां पूषा इतः पितृगृहात् पतिगृहं हस्त-
गृह्य हस्ते गृहीत्वा नयतु अश्विनौ त्वा रथेन प्रवहताम् ॥
विवाहः समाप्तः । इति द्वाविंशः खण्डः ॥

सायं प्रातर्होमि—विधिं वक्ष्याम इति शेषः । अग्रय इति प्रथमा-
माहुतिं जुहोति । प्रजापतय इत्युत्तरां सायमिति शेषः । आज्यं पयो व्रीहिर्वा
होमद्रव्यं एवं प्रातः अग्निस्थाने सूर्यः अयं विशेष इत्यर्थः ॥ . . .
वैश्वदेवं समाप्तं । इति त्रयोविंशः खण्डः ॥

नवेन यक्ष्यमाणः पुराणेनाग्रे यजेताग्निधन्वन्तरीप्रजापतिमिन्द्रम्—
नवविकारेण चरुणा यक्ष्यमाणः तज्जातीयेनैव पुराणाविकारेण चरुणा अग्रे
अग्निधन्वन्तरी प्रजापतिमिन्द्रं च यजेत ॥
इति चतुर्विंशः खण्डः ॥

श्रीनिवासाध्वरिकृता टीक्रेयमानिलक्ष्यपि ।

सुमतीनां भवेन्नित्यं संतोषाय सुबोधिनी ॥

श्राद्धं करिष्यन्तः सुताः शुचिवाससः तिलैर्वास्त्ववकीर्य सव्यं आ-
चरन्तोऽन्नमुपसाधयेरन् हविष्यैरुपसिच्यैव ॥
इति प्रथमः खण्डः ॥

शेषमनुज्ञाप्य प्रत्येत्य प्राग्दक्षिणायतं चतुरश्रं गोमयेनोपलिप्य अप
हता अनुरा रक्षांसि पिशाचाः पितृषद इति मध्ये रेखां काष्ठेनोच्छिष्य

ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना असुराः सन्तः स्वधया चरन्ति. . . .
इति द्वितीयः खण्डः ॥

ऊर्ध्वमाग्रहायण्याः त्रयोऽपरपक्षास्तेपामेकैकस्मिन्नेकैकाष्टका भव-
न्ति । शाकाष्टका मांसाष्टकाऽपूपाष्टकेति मार्गशीर्षमासे या पौर्णमासी
सा आग्रहायणी. . . अष्टम्यां कर्तव्या श्राद्धक्रिया अष्टकेत्युच्यते.
. . . . इति तृतीयः खण्डः ॥

इतः परमाहिताग्नेः शरीरनाशेत्यादि दहनादि सापिण्ड्यान्तविधायक
सूत्राण्यन्ते व्याख्यास्यन्ते अथातो गृहकर्मणो गृहवृद्धिमिच्छन् मासि
मासि ऋतावृत्तौ वत्सरे वत्सरे वा पूर्वपक्षे पुण्ये नक्षत्रे गृहशान्तिमारभेत
गृहकर्मणः गृहस्थाश्रमधर्मस्य सिद्ध्यर्थम्.
इति चतुर्थः खण्डः.

अथातो कल्पं
व्याख्यास्यामः अथातः अनश्रता प्रयोक्तव्यसंहिता अनश्रत्संहिता
तत्प्रयोगविधिं व्याख्यास्याम इत्यर्थः शुचिवासाः स्याच्चीरवासा वा अनश्र-
त्संहितायाः प्रयोक्ता शुक्लवासाः चीरवासाः स्यान्.

* * * * *

End :

तावत्कालं ऋग्वेदाद्यजुर्वेदात्सामवेदाद्वा यजानीयात् यावती ऋचः
यावन्ति यजूंषि यावन्ति वा सामानि जानीयात् तान्यधीयीत ॥ समाप्तो
यं ग्रन्थः ॥

5. वैश्वानससूत्रम्.

Beginning :

अथ निषेकादिसंस्कारान् व्याख्यास्यामो ऋतुसङ्गमनगर्भाधान-
पुंसवनसीमन्तविष्णुवलिजातकर्मोत्थाननामकरणान्नप्राशनप्रवासागमन -

पिण्डवर्धनचौलकोपनयनपारायणब्रह्मवन्धविसर्गोपाकर्मसमावर्तनपाणिग्रहणानीत्यष्टादशसंस्काराः शारीराः । यज्ञाश्च द्वाविंशत् । ब्रह्मयज्ञो देवयज्ञः पितृयज्ञो भूतयज्ञमनुष्ययज्ञाविति । पञ्चानामहरहरनुष्ठानं स्थालीपाकमाग्नयणमष्टका पिण्डपितृयज्ञो मासि श्राद्धं श्रैत्राश्वयुजाविति सप्त पाकयज्ञाः । अग्न्याधेयमग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासावाग्नयणोष्टिचातुर्मास्यनिरूढपशुबन्धसौत्रामणीति सप्तहविर्यज्ञाः । अग्निष्टोमोऽत्यग्निष्टोमोक्थ्यः षोडशी वाजपेयमतिरात्रोऽप्तोर्याम इति सप्त सोमयज्ञाः । इत्येते चत्वारिंशत् भवन्ति । निषेकादाजानकासंस्काराः । ब्राह्मण्यां ब्राह्मणाजातमात्रोपनीतः सावित्र्यध्ययनाद्ब्राह्मणो वेदमधीत्य शारीरैः पाणिग्रहणात्संस्कृतः पाकयज्ञैरप्ययज व्होत्रियः स्वाध्यायपरश्राहिताग्निर्हविर्यज्ञैरप्यनुचानस्तोमयज्ञैरपि भ्रूणः संस्कारैरेतैरुपेतो नियम्यमाभ्यामृषिकल्पस्साङ्गचतुर्वेदनपोयोगादृषिर्नारायणपरायणो निर्द्वन्द्वो मुनिरिति संस्कारविशेषात्पूर्वात्पूर्वात्परो वरीयानिति विज्ञायते ॥

अथ निषेकाद्यथ चनुराश्रमिणामथापो नमस्कृत्याचम्य कौरुक्षेत्रं मशक्तो नित्यमथ पुण्याहं देवा ऋषयः अथाग्न्याधेयमथागारविधानं पात्रादाधावं वायव्यमुत्तराग्रं भूसुवं दक्षिणप्रणिधौ गायत्र्या समिधः स्रुवेणाज्यं स्वावयन् अथ सामान्यत इमं मे वरुण ऋताषाडथान्तेहाममन्त्रास्तत्पात्रेणाधावं पुनर्देवेभ्यो हव्यं वहेत्येकविंशतिः । प्रथमः प्रश्नः समाप्तः ॥

अथ शारीरेषु संस्कारेषु ऋतुसंगमनवर्जं नान्दीमुखं कुर्यात् । श्वः कर्तास्मीति गर्भाधानादिक्रिया यदहः करोति तदहर्नान्दी भवति तस्या मुखं सर्वदेवपितृदैवत्यं नान्दीमुखमभ्युदयश्राद्धं दैविकवत् करोति । पूर्वैर्गुरेव पूर्वाह्ने युग्मान् ब्राह्मणान् सुप्रक्षालितपाणिपादान् श्रोत्रियानन्नेन परिवेष्याथैलामभ्युक्ष्याथावनीदमिति मण्डलान्युपलिप्य अस्त्वासनामि-

त्यासनानि सदर्भयवानि निधाय तेष्वासीनां पुष्पाद्यैर्यथोपपादमलङ्करोति
शुक्लं बलिश्वेतसर्षपदधितण्डुलमित्यासनन्ति। चतुश्शुक्लमेतदादायःग्नेर्दक्षि-
णतोऽग्नये सोमाय प्रजेशाय विश्वेभ्यो देवेभ्यो ऋषिभ्यः पितृभ्यो भूतेभ्य-
स्तर्वाभ्यो देवाभ्यो नम इत्यन्तैस्तन्नाम्ना पुष्पादिभिरभ्यर्च्य बलिं
ददाति ॥

* * * *

पैतृकादिकमृणत्रयं जायमानस्य ब्राह्मणस्य सहजातमित्युक्त्वा वारवे-
दिनि विखनाः प्राह ॥ १८ ॥

अथ शारीरेषु चरुमपूपाद्यथ गर्भाधानादि ब्राह्मणस्य पालाश-
प्रोष्ठपदहस्तौ ततो विधिवदाचमनं धातादिपूर्वमग्निष्ट आयुरिति दण्डमथ
पारायणव्रतानि सोमाय काण्डऋषये तथैव धातादि अथाषाढोपा-
कर्माथ समावर्तनं दिवि श्रयस्वेति तदग्रावुपरिधारयन्तस्तत्रोपवेश्य
द्यौस्त्वाददात्वथ प्राणाग्निहोत्रविधानमित्यष्टादश ॥

इति गृह्ये द्वितीयः प्रश्नः.

अथ पाणिग्रहणमष्टौ विवाहा भवन्ति ब्राह्मो दैवः प्राजापत्य
आर्वासुरो गान्धर्वराक्षसः पैशाच इति। यदभिरूपं युक्तवयस्तंपन्नमाहूया-
र्हयित्वा कन्यालंकृता दास्यते स ब्राह्म इति गीयते। यदृत्विजो यज्ञस्या-
त्मनोऽलङ्कृत्य कन्यां प्रतिपादयति स दैवः। युगपद्धर्मानुवर्तिनौ स्याता-
मिति वाचानुमान्याग्निकार्यं स्वयं कृत्वा दद्यात् स प्राजापत्यो भवति।
यद्गोमिथु (ने) नैकेन द्वाभ्यां वा कन्यां ददाति तमार्षमाचक्षते। यत्क-
न्यामाभरणमारोप्य शक्त्या बन्धुभ्यो धनं दत्त्वा हरते तमासुरमामनन्ति।
कामयोगो यदुभयोस्त गान्धर्वः। प्रसह्य यत् कन्याहरणं स राक्षसः।
सुप्तां प्रमत्तां वा रहसि यद्गच्छति स पैशाचो भवति। एषां प्रथमे चत्वार-
स्तोयप्रदानपूर्वकाश्शस्ता ब्राह्मणस्य। नेतरे जघन्याः यस्मात्रीन् पूर्वान्

त्रीनपरान् आर्षजान् पटुपूर्वान् पडवरान् प्राजापत्येनोढाया जातः सप्त
पूर्वान् सप्तावरान् दैवीसुतो दश पूर्वान् दशापरानात्मानं चैकविंश
तिकं ब्राह्मे पुत्रः प्रापयेदिति ॥ १ ॥

* * * *

ब्राह्मणानामत्रेण करोतीत्यष्टादश संस्काराः शारीराः ॥ 23 ॥
अथातः पाणिग्रहणं मातुरसपिण्डां ततः सह स्नातायाविश्वा उडुत्वेत्यथ
चतुर्थीवास अत ऊर्ध्वं पर्वणि स्थालीपाकं वचने वावसत्थ्ये तदेवं
त्रिरात्रं अथ गृहीतगर्भलिङ्गान्पथ गर्भाधानादि अथ चतुर्थे मास्यथ
गर्भाधानाद्यष्टमे मास्यथ विष्णुवलिमथ जातकं चुल्यां कपालमथ
वास्तुमवनमेते शतमथ दशमे द्वादशे वाहि अथ नामकरणमथ वर्षवर्धन
मार्षभं वैरवणमथ षष्ठे मास्यन्नप्राशनमथ वर्षे प्रथमे त्रयोविंशतिः ॥24॥

इति गृह्ये तृतीयः प्रश्नः समाप्तः ॥

अथ स्थालीपाकमग्नेः पश्चिमतस्तिष्ठन् प्राञ्जुस्वः प्राणायामं धारयत्येक-
विंशतीध्मान् संगृह्य दर्भदर्वीस्तुक्स्तुवप्रणीताज्यस्थालीरग्नेरुत्तरेऽवाञ्जुस्वं
सन्पस्योद्धरेत्यग्निमुद्धरेन्धनैरिन्धयेत् । वेदिं परिमृज्य प्रागाद्युत्तरान्तं दर्भाना-
स्तीर्थं इध्मादीनग्निकुण्डं च प्रोक्षयति । प्रणीतामासाद्यं पवित्रं निधायाग्निः
पूरयति पृथिव्यापो गृहीष्यामीति । पूर्ववदुत्पूयोत्तरे निधायाज्यस्थालीं
गृहीत्वा पूर्ववदाज्यं संस्कृत्य चतुर्थीवदाग्नेयं चरुं स्थाल्यां पक्वाग्निं समूह्य
देवस्त्विति दर्वीमादाय प्रक्षालयोत्तराग्रं निधाय इध्मादीन् गृहीत्वाज्य-
मनक्तयेकमनूयाजमपोह्य त्रीन् परिधीनाधारौ च पूर्ववन्निधाय शेषान्
पञ्चदशेध्मान् प्राणायामेनाग्नौ क्षिपत्याज्येन आधारौ संस्त्राव्य हुत्वाग्ने
सोमायेति जुहोति । दर्वी चरुं गृहीत्वाभिघार्यावदानं गृहीत्वाग्ने स्वाहा-
ग्ने स्विष्टकृते स्वाहेति हुत्वात्रानूयाजमग्नौ प्रक्षिप्य प्राजापत्यं जयादी-
न्वाहतीश्च पाहि नो अग्न ऐनसे पाहि नो विश्ववेदसे । यज्ञं पाहि सर्वं
पाहि कामावकीर्णः कामाभिद्गुग्धः संमा समुद्रादिति । स्विष्टकारं च

जुहोति । परिषिच्य प्रणिर्घीश्रुत्वानि । भस्मालिप्तात्मानं प्रोक्ष्यग्निं वैश्वानरसूक्तेनोपस्थाय प्राणाग्नेन दर्भाश्रुनुर्दिशमुत्थाप्याङ्घ्रिः प्रोक्ष्य द्वावपो-
ह्यान्प्राणाग्नाग्नामिति जुहोति । द्ववपि गृहीत्वाङ्घ्रिः प्रोक्ष्यग्ने स्वाहा
सोमाय स्वाहेति हुत्वा त्रीन् परिधीनाधारसभिधौ च जुहुयात् । धार्यं कर्तुम
शक्तः समिधि स्वात्मन्वरणं वा समारोपेदिति विज्ञायते ॥ 1 ॥

* * * *

अथाश्वयुजे मासि आश्वयुजां पौर्णमास्यां गोष्ठेऽग्निं समाधायाधारं
जुहुयादग्नेः प्राच्यां भद्रं देवमावाहाभ्यर्च्य तृणानि संभृत्य गाः स्थापयति
भवतीति स्थास्यां निवापश्रपणं कृत्वाग्नौ परिपेकं कुर्यात् । भवाय
शर्वशानाय पशुपतये उग्राय रुद्राय भीमाय महादेवाय स्वाहेति
रुद्रमन्यं त्र्यम्बकमित्याज्यहोमान्ते मेषणेन चरुमवदायाभिधार्य अवदानं
संगृह्य पूर्ववज्जुहुयात् । अर्कपत्रे देवं चरुं निवेद्याज्यशेषेण तृणान्यभ्युक्ष्य
गोभ्यः प्रदाय प्रदक्षिणनमस्कारौ करोतीति विज्ञायते ॥ 9 ॥

गृहपूजां पुरस्कृत्य सर्वकर्म समारभेदिति विज्ञायते ॥ 4 ॥

अथ स्थालीपाकमथ सतीव्रीह्यष्टकान् दक्षिणपश्चिमेऽग्रेस्थानोऽ
मावास्यायां यजमानः प्राचीनः प्राचीनावीत्यथ श्राद्धं मासि मास्यथ
चैत्रीमथाश्वयुजीमथाग्नौ नित्यहोमान्ते कालविहीनं कुम्भमथ नित्यर्चि-
नमथ गृहशान्तिं तदधिपांस्तदहेति चतुर्दश ॥ 15 ॥

इति गृह्ये चतुर्थः प्रश्नः.

अथाहिताग्नेः पत्न्या गृहस्थस्य स्त्रिया ब्रह्मचारिणोऽनारोपित-
कार्यस्य दहनविधिं व्याख्यास्यामो यथोक्तैस्त्वेवापि कैरिष्टैरायुरात्मीयं
परीक्ष्य तृतीये पञ्चमे चान्धिं समूर्ध्वान्धवान् सविद्यानाहूय पूर्वं
प्रियंभाषित्वैकजंभोगं पारलौकिकं चात्मने विभजेत् । उपस्थितेऽहनि शुची
प्रदेशे सिकतातले दर्भान् प्रागप्रानासृणानि दक्षिणाग्रानित्येके । तत्रासीत्

शयीत वा दक्षिणशीर्षमस्याध्वर्युशं नो मित्र इति शान्तिमात्मनः
 कृत्वायुपः प्राणमिति मुमूर्षोर्दक्षिणे कर्णे जपेत् संज्ञानमिति वामे च ।
 प्राप्ते प्रयाणकाले शुक्लमहोमासाष्पडुत्तरायणमग्निर्ज्योतिरनेन पथा
 ब्रह्मपदं पुनरावृत्त्याभ्येति धूमः कृष्णो रात्रिर्मासाष्पट् दक्षिणायनं
 चान्द्रमसमेतज्ज्योतिः प्राप्यते निर्वृत इति गी चोमे विज्ञाय शान्ति
 ज्योतिष्मतीं जपतीन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु निरुध्य क्रमेण घण्टावसानिके
 पदवये निविष्टे नानाविधे स्वयं ज्योतिषि ब्रह्मण्यद्वितीये तद्योसौ
 सोऽहमित्यात्मेपासनक्रमेण वा समादधीत । यस्मात् प्रयाणकाले यं ध्यायति
 तन्मय एष भवत्यात्मेति ब्रह्मवादिनो वदन्ति तदेवं देवकृते प्रसिंहारे
 गन्धात्मकं भूमेर्गुणमापः प्रथमं ग्रसन्ति । तदादि बाधितोऽग्निः प्रविश्य
 प्राणवातनमर्माणि दारयन्नाडीमुखेभ्यो रसं दहति । तदा दह्यमानमिव
 शरीरं मन्यते । ततः कीञ्जलं शुष्यति । मुक्तबन्धे श्लेष्मणि पित्तेन सहाग्नौ
 पतिते स चाग्निरर्थाभावाच्छाम्यति । वायुःसतिर्यगूर्ध्वमधश्चैव शरीरं वृत्तोल-
 लयति । तस्मान्मुह्यति । तदा स्वैस्वैः कर्मभिरुन्मुक्ताः पञ्च वायवो विसृज-
 न्त्यात्मनःस्थितिमभिनिष्क्रामाश्चोर्ध्वश्वासो ब्राह्ममुक्त्या दृतेरिव मन्दं मन्द-
 मूपमाणमुदावहति । तदा वेगेनोत्थाय वायुमूर्तिभ्रमन्निवकण्ठे खुरुखुरा-
 यमाणो विश्वमेव विहरन् जलूकवत् पदात् पदान्तरं विन्दन्नुत्क्रामति
 धर्माधर्मोर्ध्वभावोधोभावश्च ज्ञानात् ज्ञानसुखदुःखाच्चेश्वर वशात्तेन सह
 प्रतिष्ठेयानाम् ॥ 1 ॥

*

*

*

*

तस्माद्विनीये तृतीये चान्हि तेभ्यस्त्रयाणां पिण्डानां क्रमेण क्रमेण
 निर्वापणमष्टकां करोतीति विज्ञायते ॥ 15 ॥

अथाहिताग्नेः अथो विगतानिलचेष्टं पूर्ववत्पूजनं तिलतण्डुलदधि-
 मधुक्षीराणामनाहिताग्नेस्तोपवीती स्नात्वा गुरवे यो ह वै धर्माधर्मौ

अथापहाह्य अथावटाहिनमथादाह्यानाथाकृतिदहनमथैकोद्विष्टं अथ
तथा मासि मासि पूर्ववद्यथोक्ते स्थानेति पञ्चदश.

इति गृह्ये पञ्चमः प्रश्नः.

अथ निषेकादिसंस्काराणां प्रायश्चित्तं व्याख्यास्यामः । स्नात्वा
सङ्कल्प्य पुण्याहे विधिवत् संस्कारान् कुर्यात् । चतुर्दिशं चतुर्हस्तं
गोचर्मेत्युक्तं गोचर्ममात्रोपलिते पूर्ववदग्निं निधायामिमुखमासीनमग्निं
ध्यात्वाघारं जुहुयात् । पर्वस्यादावाघारे क्रियालोपे विपरीते च वाह्नी-
र्महाव्याहृतीर्गायत्रीं सावित्रीं मिन्दाहुतीर्वैष्णवं च द्विरावृत्त्या हुत्वा पुनरा-
घारं जुहोति । स्थण्डिले परिस्तरणादिसंभारे च प्रमाणवर्जिते हीने इन्द्रा-
हुति सावित्रीं व्याहृतीश्च जुहुयात् । ऋत्विजोरभावे दक्षिणोत्तरयोः प्रागग्रं
कूर्चं निधाय ब्रह्मसामौ संङ्कल्पयति । सर्वयुग्मं प्राच्यानुदीच्यां वाग्रमन्त
श्च दैविके करोति । सर्वमयुग्यं दक्षिणपश्चिमस्यां वाग्रमन्तश्च करोति । होमे
न्यूनोऽतिरिक्ते च पूर्णाहुतिं मिन्दाहुतीर्जुहोति । विशेषेऽनुक्ते सुवेण होतव्य-
माज्यं हविर्व्याहृतीर्मन्त्रं प्रायश्चित्तेऽनुक्ते वैष्णवं प्रायश्चित्तमग्नावाज्ये चरौ
वा मक्षिकाकृमिरोमपिपीलिकादिपतने तद्व्यपोह्य बर्हिषोद्दीप्य प्राजापत्य-
माग्नेयमग्न्यायतने गोवराहश्वसर्पमण्डूकमार्जारार्धैर्मने तत्पदानीदं विष्णु-
रिति प्रोक्ष्य वैष्णवं रौद्रं च परिस्तरणादिसंभाराणां दाहभेदे च्छेदे नाशे
च तत्तत्स्थाने संयोज्य मिन्दाहुतीः द्विरावृत्त्या जुहुयात् । आघारे कृते
तस्मिन्नग्नौ समुत्सन्नेऽग्निं ध्यात्वा तद्गस्मादीयन्ने योनिरिति समिध-
मारोप्य उद्बुध्यस्वेति लौकिकाग्नौ समिधं निधायोज्वालय परिपिच्यमानो
ज्योतिरयाश्चाग्नेमिन्दाहुतीर्व्याहृतीश्च जुहुयात्पर्वहोमान्ते विष्टकृत्
प्रभृत्यन्तहोमे हीने विष्णोर्नुकादिमिन्दाहुत्या श्रावितादीन् जुहु-
यात् ॥ 1 ॥

*

*

*

*

ब्राह्मणो ब्राह्मणीं नम्रिकां गौरीं वा कन्यां क्षत्रियः क्षत्रियां वैश्यो
वैश्यां । वरोदष्टवर्षा दशमां नम्रिकां रजस्यप्राप्ते दशवर्षादाद्वादशात्
गौरीमित्य मनन्ति ।

* * * *

कर्तव्यावित्वेके होमं हुत्वा राक्षसपैशाचौ वेत्यपरेऽन्यथाकन्या-
गमनं यश्चित्तं करोति ॥ 12 ॥

* * * *

पुरुषसूक्तविष्णुसूक्ताभ्यां हुत्वा पूर्ववदभ्यर्च्य हविर्निवेदयति ॥20॥

अथ निषेकादिमंत्राणां ऋतुसङ्गमनगर्भाधाने कालेऽतीते कुमारश्च
कुमारी च नक्षत्रहोमे हीने अथ निषेकादीनां ब्राह्मण्यं ब्राह्मणात्
उपनयनप्रभृति अथातः पुनराधानं अथावकीर्णप्रायश्चित्तं अथातः पुनरु-
पनयनं पारायणव्रतवन्दवित्तर्गे च ब्राह्मणो ब्राह्मणीं रजःप्राप्तौ परदेश-
गते जेष्ठे पाणिग्रहणप्रभृति ब्रह्मज्ञो देवज्ञश्च हे होमे हीने अथातः
पाकयज्ञस्थानां पिण्डपितृयज्ञो मासि श्राद्धे चैकविंशतिः.

इति गृह्ये षष्ठः प्रश्नः.

अथ मृतसंस्कारप्रायश्चित्तं जातकसंस्कारो मृतसंस्कारश्चेति द्वौ
संस्कारौ भवतः पूर्वणेन लोकं परेण परलोकं जयति मृतस्य संस्कारः
शरीरमस्य दहनमित्याहुः । निर्दोषस्य शरीराहुतिरग्नेः प्रियतमा भवति
तथा आहुत्या समृतकोदेवलोकं गच्छति । मातापित्रोः पुत्रोऽन्यो भ्राता
सपिण्डस्तगोत्रः पितुर्मातृश्च योनिवन्धुर्भुक्षिष्यत्विजो वा पत्न्याश्च
पतिस्मृतः पत्युर्भ्राता सपिण्डस्तगोत्रः पितुर्मातृश्च योनिवन्धुर्वा पुत्रस्य
पित्रादयो मृतस्य शरीरं दाहयति । मृतस्य संस्कारे कृते संस्कर्तुः सर्वसं-
पत्समृद्धिः स्यात् अन्यथा भ्रूणहत्यामवाप्नोति । तस्माद्ब्रह्ममैधेन वा
विधानेन पूर्ववदग्निर्यजुर्भिस्तोनेन्द्रस्य वाचस्पते विधेन मत्स्वाचस्पते वाचो

वीर्येण सोमस्सोमस्य वाचस्पते च्छिद्रयावाचोनेऽि सप्तभिर्मन्त्रैराहिनाग्ने
 शरीरं पश्चाग्निभिर्वा दाहयत्यग्निर्व्यजुर्भिस्तेनेन्द्रस्येति द्वाभ्यामौपासनाग्निना
 गृहस्थानाहिनाग्निं तदुपनयनाग्निना ब्रह्मचारिणं च दाहयेदस्मात्स्वमसिभूः
 पृथिवीं गच्छतु भुवोऽन्तरिक्षं गच्छतु सुवर्दिवं गच्छत्वाते चतुर्मन्त्रै-
 रित्येके ॥ 1 ॥

*

*

*

*

एवमुत्पाद्य पूर्वोक्तेन विधिना दहनं कुर्यात् ॥ 9 ॥

अथ मृतसंस्कारप्रायश्चित्तमाहिनाग्निरेनाहिनाग्निश्च शावेऽनाशीच-
 युके सगर्भाया मरणे उपनयनादूर्ध्वं प्रेतं ज्ञातिं च जानदन्तस्य पूर्वेषुः
 द्वौ विश्वेदेवौ अथ गृहस्थस्यौपासनेति नव.

इति गृह्ये सप्तमः प्रश्नः.

वैश्वानमधर्मसूत्रम्.

अथ वर्णाश्रमधर्मः ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रा मुखबाहूरुपादेपुजाता-
 श्रत्वारो वर्णाः यस्माद्ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीदिति श्रुतिः पूर्वेणां त्रयाणां
 निषेकाद्यास्तंस्काराः विधीयन्ते ॥ तेषां द्विजन्मनां वेदाधिकारः तस्मा-
 द्ब्राह्मणस्याध्ययनाध्यापनयजनयाजनदानप्रतिग्रहाणि षट् कर्माणि भवन्ति।
 क्षत्रियवैश्ययोर्ध्वजनाध्ययनदानानि। क्षत्रियस्य प्रजापालनदुष्टनिग्रहशुद्धाः।
 वैश्यस्य पशुपाल्यकुसीदवाणिज्यं च। शूद्रस्य द्विजन्मनां शुश्रूषा
 कृषिश्रैव। ब्राह्मणस्याश्रमाश्रत्वारः क्षत्रियस्याद्यास्तयः वैश्यस्य द्वावेव
 तदाश्रमिणश्चत्वारो ब्रह्मचारी गृहस्थो वानप्रस्थो भिक्षुरिति ॥ 1 ॥

*

*

*

*

सगुणे ब्रह्मणि बुद्धिं निवेश्य पश्चान्निर्गूणब्रह्माश्रित्य यत्नं कुर्या-
 दिति विज्ञायते ॥ 11 ॥

अथ वर्णाश्रमधर्मनुपनीतो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणश्चतुर्विधा दारान्
संगृह्य गृहस्थाश्चतुष्टया गृहस्थरसपत्नीक अपत्नीका बहुविधा भिक्षुका
मोक्षार्थिनः निवृत्त्याचारभेदादथैकार्ष्यादित्येकादश.

इति धर्मे प्रथमः प्रश्नः.

अथ वनस्थः श्रामणकं गृहस्थस्तोमयाजी पुत्रपौत्रं च दृष्ट्वा तत्पु-
त्रादीन् गृहस्थे संस्थाप्य मौण्ड्यं कृत्वा प्राजापत्यं कृच्छ्रं चरेत्। वसन्ते
शुक्लपक्षे पुण्यक्षे पत्न्या सार्धं वनाश्रमं याति। पूर्वस्मिन् दिवसे कृत्स्नानं
संकल्प्य कुशोदकं पीत्वा उपवासं कुर्यात्। औपासनहोमं हुत्वाग्निमयं ते
योनिगित्थरणप्रामारोपेत्। दर्शपूर्णमासविधानेन दर्भादीन् सङ्गृह्य पूर्ववत्
कूर्चदत्त्वा परिधीन् समिधो वेगुदण्डोपवीतकण्डलुत्रलकरादीन् संभरति।
पूर्वोक्तविधिनाग्निकुण्डं कुर्यात् अपरस्मिन् दिवसे वैश्वानरमूक्तेनाग्निं
मथित्वा प्रज्वाल्य अग्नौ आयाह्युपावरोहेत्यग्निं निधाय पूर्ववत् श्रामणका-
ग्न्याघारं जुहोति। प्रणम्याग्निं परिषिच्यग्ने-प्रायश्चित्ते त्वं इति पञ्च
प्रायश्चित्तं हुत्वा आपो हिरण्यपवमानैरात्मानं प्रोक्ष्य दैवत्यं वैष्णवं
पञ्चवारुणं च प्रधानान् व्याहृत्यन्तं यजेत् ॥ 1 ॥

* * * *

तपसां श्रामणमेतन्मूलं तस्मादेतद्विधानं एतमग्निं च श्रामणकमि-
त्याह विखनाः ॥ 5 ॥

* * * *

नित्यं श्रुतिस्मृत्युदिं कर्म कुर्वन् मनोवाक्कायकर्माभिशानैर्धर्म समा-
चरति ॥ 15 ॥

अथ वनस्थस्य श्रामणकाग्नेः प्रतीच्यां तत्पत्नी च अथाग्न्यायतने
प्रोक्ष्य रात्रौ नाश्नीयात्। सन्यासक्रमः स्तुचि स्तुत्रेण देवस्य त्वा यो मे

दण्डं धर्म्यं सदाचारं ब्राह्मणो हृद्गाभिरन्ये वान्धवास्तद्धार्यापुत्रयोर्मध्याह्ने
जले शुद्धे परस्योदके मृत्पिण्डांस्तिलसक्तुदधिलान्जं चेति पञ्चदश ॥

इति धर्मे द्वितीयः प्रश्नः ॥

गृहस्थाश्रमी द्वे यज्ञोपवीते वैणवं दण्डं कमण्डलुं च धारयेत् ।
स्नात्वा सभार्यो गृह्यान्मौ गृह्याणि कर्माणि श्रौताग्निषु श्रौतानि कुर्यात् ।
सायं च होमान्तेऽतिथीनभ्यागतान् प्राशयित्वा मितं प्राश्य पत्न्या शयीता-
र्द्रपादः प्रत्यगुत्तरशिराश्च न स्वपत्यृतुराग्निषु स्वभार्यायामुपगच्छेत् । आदौ
त्रिरात्रमृतुमतीगमनसहासनशयनानि वर्जयेत् । परदारान्न संगच्छेत् ।
परदारगमनादायुः श्रीर्ब्रह्मवर्चसं विनश्यति । भार्यया सह नाश्नाति ।
अश्नन्तीं तां जृम्भमाणां नग्रां च नावलोकयेत् । असत्यवादं वर्जयति ।
असत्यात्परं पापं सत्यात्परो धर्मश्च नास्ति । सर्वप्राणिहितोऽद्रोहेणैव
जीवेत् । शुद्धार्थवान् कुसूलधान्यः कुम्भीधान्योऽश्वस्तानिको वा स्यात् ।
द्विजातिपतितान्त्यजातां न स्पृशेदुदयेऽच सूर्यं नक्षेत्रं । देवं गुरुं घृतक्षीर-
दधिमृत्तोयसमिद्धभाग्निवनस्पतीन् प्रदक्षिणं गच्छेत् ॥ 1 ॥

*

*

*

*

ततो ब्राह्मणाद्यास्सर्ववर्णायां विधिवत् पुत्रमुत्पादयेयुरिति ॥ 15 ॥

स्वाध्यायी भिक्षुः स्नात्वा गोदोहनकालमात्रं सन्यासिनो आहि-
ताग्नेर्नारायणवर्लिं केशवाद्यैर्नामिभिश्रानुर्वर्ण्यं सङ्करणे अयं धर्मः पद्म्या-
मुत्पन्नो विप्राच्छूद्रायां वैश्यान्नृपायामम्बुष्टाद्विप्राथामिति पञ्चदश ॥

इति धर्मे तृतीयः प्रश्नः ॥

अथ ऋषिगोत्रप्रवरान्व्याख्यास्यामो विश्वामित्रजमदग्निभरद्वाज-
गौतमत्रिवसिष्ठकाश्यपानां सप्तऋषीणां अगस्त्यवियदापत्यगोत्रं तस्मिन्
गोत्रे वराणां ऋषिणां प्रवराणां प्रवरः प्रवरकाले यजमानस्य प्रवरं
यथोक्तं होता चाध्वर्युश्चाशंसति तेषां विश्वामित्रकौशिकानां स्वर्धियः

प्रवरो भवति । विश्वामित्रो देवरातो देवल इति होता देवलवद्देवरातव-
द्विश्वामित्रवदित्यध्वर्युरौक्म्यानां श्रार्षेयो विश्वामित्ररौक्म्यरैवणेति होता
रैवद्रौकथ्यवद्विश्वामित्राध्वर्युर्वैश्वामित्रदेवश्रम(व)सदैवतरसनां श्रार्षेयो
विश्वामित्रदैवश्रवसदैवतरसेति होता दैवतरसदेवश्रवसी विश्वामित्राध्वर्यु-
लोष्टिनानां श्रार्षेयो विश्वामित्राष्टकलोहिनेति होता लोहितवदष्टकव-
द्विश्वामित्रवदध्वर्यू राज्यानां श्रार्षेयो विश्वामित्रमधुच्छन्दोज्योतिर्होता-
ज्यवन्मधुच्छन्दवद्विश्वामित्रवदध्वर्युः कान्तानां श्रार्षेयो वैश्वामित्रकादा-
सिलेति होता क्षीलवत्कान्तवद्विश्वामित्रवदित्यध्वपुरघमर्षणकौशिकानां
श्रार्षेयो विश्वामित्रोऽघमर्षणकौशिकेति होता कौशिकवदघमर्षणव-
द्विश्वामित्रवदित्यध्वर्युरिन्द्राकौशिकानां श्रार्षेयो वैश्वामित्रेन्द्रकौशिकेति
होता कौशिकवदिन्द्रवत् विश्वामित्रवदित्यध्वर्युः पौराणां श्रार्षेयो विश्व-
मित्रपौराणेति होता पौराणवद्विश्वामित्रवदित्यध्वर्युः ॥ १ ॥

* * * *

वैश्यक्षत्रियाणां वैश्यानां च पुरोहितप्रवरो भवति मानवे मनुव-
दिति विखनाः ॥

अथ ऋषिगोत्रप्रवरान् भार्गवजामदग्निवत्सानां भारद्वाजानां
आङ्गीरसगौतमानां आत्रेयाणां वसिष्ठानां काश्यपानामागस्त्यानामित्यष्टौ ॥

इति गृह्ये प्रवरप्रश्नः समाप्तः.

वैखानसगृह्ये एकादशप्रश्नः ॥ इति वैखानसगृह्यम्.

6. कपर्दिकारिका.

Beginning :

श्रुतिस्मृतिप्रबोधिता करिष्यते यदा तदा ।

स्वकर्म यत्तदादितो यतासुरागुरुं वदेत् ॥ 1 ॥

सव्याहृतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा म्ह ।

त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्ये ॥ 2 ॥

प्राचीः पूर्वमुदक्संस्थं दक्षिणारम्भमालिखेत् ।

अथोदीचीः पुरस्संस्थं पश्चिमारम्भमालिखेत् ॥ 3 ॥

अवाक्करोभ्युक्ष्य निधाय वह्निमुत्सिच्यते प्रोक्षणतोयशेषम् ।

प्राक्तोयमन्त्रनिदधात्युदग्वा यथा वहिस्स्याच्च परिस्तराणाम् ॥ 4 ॥

दर्व्याज्यपात्रेण सह प्रयोज्य वैकङ्कती प्रोक्षणभाजनी खुक् ।

प्रणीतिपात्रेण सहेध्मदारूप्युपस्पृशेच्चापि घृते च दर्व्या ॥ 5 ॥

. इति प्रथमः पटलः.

प्राणसम्यमनं प्रथमं भवेत् प्रेषणं सुहृदामभिमन्त्रणम् ।

सङ्गताय वराय समर्पिते स्वाभिना तु वधूर्जलपूर्वकम् ॥ 1 ॥

स्थाप्यते च विवाहमहीतले पावको विधिवन्मधुपर्कः ।

गोत्रगो सहितोऽसहितोऽपि वा दीयते वरवृत्तसमीक्षया ॥ 2 ॥

एवमेव परापचिताय चाभ्रातृमन्त्रजपोऽथ समीक्षणम् ।

अत्र चागूःकरणं वरकन्ययोः भ्रुवोऽन्तरं यजुषा परिमृज्यते ॥ 3 ॥

. इति द्वितीयः पटलः.

दर्व्यामनक्तचग्रमथेतरस्यां मध्यं समूहं त्रिरिहापि वा द्विः ।

पक्षे द्वितीये सकृदेव मूलं द्वितीयदर्व्यामितरे च दर्व्याम् ॥ 1 ॥

अनक्ति दर्व्योरपि वाग्रमध्ये स्थाल्यान्तु मूलं त्रिरिहापि वा द्विः ।

पक्षे तृतीये सकृदेव मूलं स्थाल्यामुपक्रम्य समञ्जसं स्यात् ॥ 2 ॥

. इति तृतीयः पटलः.

साग्निः कुमारः स हि तेन चागूः कृत्वोपभुञ्ज्यादथ वाचनं च ।

उक्तं कुमारं द्वयरारिसृज्यादनक्ति पूर्वं प्रनिवापनं च ॥ 1 ॥

यज्ञोपवीतकालस्स्याद्वाचने कृत आशिषः ।

पुरस्तात् समिदाधानात् शिवस्वामिमेतेन तु ॥ 2 ॥

पात्रप्रयोगे तु कुशाम्बुकूर्वा वस्त्राश्मदण्डाजिनमेखलाश्च ।

दैवानि पात्राणि नियुज्य पश्चाद्युञ्जीत चामूनि सहोपनेता ॥ 3 ॥

. इति चतुर्थः पटलः.

सूत्रे वस्त्रे मणियुगसमित्सक्षु गन्धौ प्रवृत्तौ

शीतोष्णांबुशुरकटयवछत्रदण्डाञ्जनानि ।

आदर्शोपानद्द्वयकुशशकृत्स्नानचूर्णोदपात्रे

स्नास्यन्युञ्ज्यात् सकृदिह नरः काष्ठमौदुम्बरं च ॥ 1 ॥

स्नातकाय सकृन्मधुपर्कको गृह्यकं श्रुतिचोदितमेव वा ।

स्नानमाचरता दिवसे यत्तस्य नक्तमथापिच इष्यते ॥ 2 ॥

इति पञ्चमः पटलः.

यवा विरूढाः शलली सपुञ्जा ग्लप्सो यवानामभिवन्दनं च ।

एतानि सीमन्तविधौ प्रयुञ्ज्यात् पात्राणि साकं खलु मानुषाणि ॥ 1 ॥

फलद्वयेन सम्युक्तं वटाङ्कुरं दृपत्सुतौ ।

सुपावनाय वस्त्रकं क्षिपेत्सहैव पुंसवे ॥ 2 ॥

. इति षष्ठः पटलः.

वाह्यतः स्वगृहाङ्गजनं भवेत् सकुभिर्हरणं त्वितरेण वा ।

तसकादिपुनर्ब्रजनान्तिकं नित्यमौत्तरणादथ इष्यते ॥ 1 ॥

त्रिभिर्धथोदं परिधाय मन्त्रैस्तथा परैर्मुख्यकुटौ त्रिभिस्तु ।

त्रिभिर्धथोदं पुनरुक्तमेकं मुख्यस्य संवेष्टि कपर्दिशिष्यः ॥ 2 ॥

. इति सप्तमः पटलः.

आवारदार्वत्रिमुखाज्यभागप्रदक्षिणानुब्रजनेषु चित्ते ।

आधारयोः स्विष्टकृति प्रसिद्धं यज्ञोपवीतं हि कपर्दिनोक्तम् ॥ 1 ॥

कार्यस्तथा सप्तभिरन्नहोमाः स्वाहादिमन्त्रैरथसर्पिषा स्युः ।
सकृत्सकृत्स्वष्टकृतं च हुत्वा त्रिभ्यस्तु पिण्डा इह पश्चिमाः स्युः ॥ 2 ॥
. इत्यष्टमः पटलः.

श्रियः पतिं प्रणम्याथ प्रदर्शन्तेऽधुना स्फुटम् ।
आपस्तम्बीयगृह्यस्य होममन्त्रोक्तदेवताः ॥ 1 ॥
आधारयोः प्रजापतिरपि वेन्द्रः परस्य तु ।
अग्नीषोमौ क्रमात् प्रोक्ते देवते आज्यभागयोः ॥ 2 ॥
. इति नवमः पटलः.

आगूर्विधानेन च दारुदर्भौ विप्रान्निमन्त्र्य स्थललेखनादि ।
स्रुगादिभिः पैतृकपात्रयोगे पूर्णे जलेऽर्घ्यग्रहदर्भपर्णैः ॥ 1 ॥
प्रच्छादनं ब्रह्मनिवेशनादिमुखाहुतिं चात्र पुनर्निमन्त्र्य ।
प्रक्षाल्य पादानथ तु क्षणान्ते वः पात्रमित्यादिकमर्घ्यदानम् ॥ 2 ॥
. इति दशमः पटलः.

कपर्दिऋषिणा उक्ताः कारिकाः समाप्ताः.

7. अमोधवृत्तिः.

Beginning :

श्रीवीरममृतं ज्योतिर्नत्वादिं सर्ववेदिनाम् ।

शब्दानुशासनस्येयममोघा वृत्तिरुच्यते ॥

नमः श्रीवर्धमानाय प्रबुद्राशेषवस्तवे ।

येन शब्दार्थसम्बन्धास्सर्वेण सुनिरूपिताः ॥

शब्दो वाचकः अर्थो वाच्यः तयोस्सम्बन्धो योग्यता अथ वा शब्द-
आगमः अर्थः प्रयोजनमभ्युदयो निश्चेयसं च तयोस्सम्बन्ध उपायोपेय-
भावः ते येन सर्वसत्त्वहितेन सता तत्त्वतः प्रतिज्ञापिताः तस्मै परमार्ह-

न्त्यमहिम्ना विराजमानाय भगवते वर्धमानाय षडपि द्रव्याणि अशेषाणि
 अनन्तपर्यायरूपाणि साकल्येन साक्षात्कुर्वते नमस्कुर्वे इत्युपस्कारः एवं
 कृतमङ्गलरक्षाविधानं परिपूर्णमल्पग्रन्थं लघूपायं शब्दानुशासनं शास्त्रमिदं
 महाश्रमणसङ्घाधिपतिर्भगवानाचार्यशाकटायनः प्रारभते शब्दार्थज्ञानपू-
 र्वकं च सन्मार्गानुष्ठानम् ॥ अ इ उ ण् ।

* * * *

Colophon :—इति श्रुतकेवलिदेशीयाचार्यशाकटायनकृतौ शब्दानु-
 शासने षट्त्वी प्रथमस्याध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

* * * *

इति श्रुतके . . . - . द्वितीयः पादः ॥

* * * *

इति श्रुत . . . - तृतीयः पादः ॥

* * * *

इति श्रुत . . . - चतुर्थः पादः ॥

* * * *

इति श्रुतकेवलिदेशीयाचार्यशाकटायनस्य महाश्रमणसङ्घाधिपतेः
 कृतौ शब्दानुशासने षट्त्वी द्वितीयस्याध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

* * * *

इति श्रुतकेवलिदेशीयाचार्यशाकटायनकृतौ शब्दानुशासने षट्त्वी
 द्वितीयस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

* * * *

इति श्रुत . . . - तृतीयः पादः ॥

* * * *

इति श्रुत . . . - चतुर्थः पादः ॥

—

8. काशिकाव्याख्या(पदमञ्जरी).

Beginning :

व्यक्तप्रधानपुरुषात्मकमस्वतन्त्रमेतत्समस्तमाधितिष्ठति यः स्वतन्त्रः ।
तस्मै शिवाय परमाय दशाव्ययाय साम्वाय सादरमयं विहितः प्रणामः ॥
स्वं स्वं मनोरथमवानुमपेतविघ्नं यस्य प्रसादमनवाप्य न शक्नुवन्ति ।
पद्मासनप्रभृतयः प्रथमेऽपि देवास्तद्वस्तु हस्तिमुखमस्तु मयि प्रसन्नम् ॥

तातं (रुद्र)पद्मकुमाराख्यं प्रणम्याम्वां श्रियं तथा ।

ज्येष्ठं चाग्निकुमाराख्यमाचार्यमपराजितम् ॥

यश्चिराय हरदत्तसंज्ञया विश्रुतो दशमु दिक्षु दक्षिणः ।

उज्जहार पदमञ्जरीमसौ शब्दशास्त्रसहकारपादपात् ॥

तामिमामनुपथेन चेतसा भावयन्तु भुवि भव्यदुद्धयः ।

कः खलु प्रणयिनि प्रियंवदे मत्सरी भवति मद्भिधे जने ।

अविचारितरमणीयं कामं व्याख्याशतं भवतु वृत्तेः ।

हृदयंगमा भविष्यति गुणगृह्णाणामियं व्याख्या ॥

इष्टदेवनमस्कारः कार्यः सन्नेह किं कृतः ।

वृत्तौ सूत्रे तथाभाष्ये वार्तिके च तदुच्यते ॥

मनसा वचसा च कर्मणा कृत एवायमिहानिवेशितः ।

न हि दर्भपवित्रपाणिताद्यपरं मङ्गलमत्र कर्त्यते ॥

वृत्त्यन्तरेष्वसन्तं गुणं वदन् वृत्तिकृन्निजे ग्रन्थे प्रेक्षावतां प्रवृत्त्यै
क्रियमाणं वस्तु निर्दिशति ॥ “वृत्तौ भाष्य इति” ॥ वस्तुनि निर्दिष्टे
सति तेनार्थे नार्थिनः प्रवर्तन्ते इतरे नेत्युपयुक्तो ग्रन्थादौ वस्तुनिर्देशः ।
वृत्त्यन्तरेष्वसम्भाविनो गुणस्य कथनं तु प्रवृत्तिनियमार्थं कथमपरया प्रवृ-
त्तीर्विहाय वृत्त्यन्तराण्यस्याम् । स पुनर्गुणो वृत्त्यादिषु विप्रकीर्णस्वांशः
तत्सारभूतोऽशस्तत्संग्रहात्मकत्वम् । तत्र सूत्रार्थप्रधानो ग्रन्थो वृत्तिः ।

साचेह पाणिनिप्रणीतानां सूत्राणां कुणिप्रभृतिभिराचारैर्विरचितं विवरणम् ।
 आक्षेपसमाधानपरो ग्रन्थो भाष्यम् । तदिह कात्यायनप्रणीतानां वाक्यानां
 पनञ्चलिप्रणीतं विवरणम् । तथाशब्दः समुच्चये । पारायणशब्दः प्रत्येक-
 मभिसम्बध्यते धातुपारायणं नामपारायणमिति । यत्र धातुप्रक्रिया तद्धा-
 तुपारायणम् । यत्र गणशब्दानां निर्वचनं तन्नामपारायणम् । आदिशब्देन
 शिक्षोणादिफिपादेर्ग्रहणम् । 'विप्रकीर्णस्य विक्षितस्य तन्त्रस्य तन्त्रं प्रधाने
 सिद्धान्ते तन्तुवाये परिच्छदे' इति निघण्टुः । इह तु सिद्धान्तवचनः
 तत्रापि व्याकरणशास्त्रे वर्तते वृत्त्यादिसमभिव्याहारात् तस्य यः सार
 उत्कृष्टोऽशस्तस्य संग्रहः क्रियते संगृह्यत इत्यर्थः । तत्प्रकारं दर्शयति
 "इच्छुपसंख्यानवती" ति सूत्रेणासंगृहीतं लक्ष्यं येन संगृह्यते तदुपलक्षण-
 मिच्छुपसंख्यानग्रहणम् । तेन वक्तव्यादीनामपि ग्रहणम् । वृत्त्यन्तरेषु
 सूत्राण्येव व्याख्यायन्ते इयं पुनरिच्छ्यादिमती तथा शुद्धगुणा वक्ष्यति ।
 'लोहिनादिडाज्भ्यः क्यपूर्वचनम् भृशादिष्वितराणी' ति कण्वात्तु शकलः
 पूर्वः कतादुत्तर इष्यत इति चसैषा गणस्य शुद्धिः । वृत्त्यन्तरेषु तु गण-
 पाठ एव नास्ति प्रागेव शुद्धिः णेरणावित्यादौ गूढः सूत्रार्थो विवृतो यथा
 सा विवृतगूढसूत्रार्था गूढग्रहणं सूत्रार्थमात्रोपलक्षणं, सूत्रार्थप्रधानेत्यर्थः ।
 अनेन वृत्तिलक्षणमुक्तम् व्युत्पन्नानां शब्दरूपाणां सिद्धिर्यस्यां सा
 व्युत्पन्नरूपसिद्धिः उदाहरणमण्डितेत्यर्थः । यदि वोदाहृतशब्दरूपं यथा
 सिद्धयति तथा व्युत्पत्तिः क्रियते यस्यां सा व्युत्पन्नरूपसिद्धिः । दुर्निरू-
 पेषु पदेषु क्वचित् प्रक्रियाऽभिधीयत इत्यर्थः वृत्तिरिति ग्रन्थाभिधानम् ।
 काशिकेति देशतोऽभिधानम् । काशिषु भवा "काश्यादिभ्यश्चिठौ" ति
 काशिका ॥ यथा पुनरयमंशः सारभूतस्तथा दर्शयति । "व्याकरणस्ये-
 ति" एतावदेव शास्त्रशरीरं यदिच्छुपसंख्यानादि, एतावति हि शास्त्र-
 कृतं परिनिनिष्ठति परिसमाप्यते । अस्मैव तु शास्त्रशरीरस्य परिकर-
 वन्वो रक्षावन्वः परिशिष्टोऽशो ग्रन्थकारेण भाष्यकारादिना क्रियते

आक्षेपसमाधानादिमुखेनायमेवांश उपस्थाप्यत इत्यर्थः । अत्र च व्याकरणविषया वृत्तिः क्रियत इति वचनात्तस्य यत्प्रयोजनं तदेवास्या अपीति अर्थादुक्तं भवति । अथ व्याकरणस्यैव किं प्रयोजनं, किमनेन पृष्टेन सर्वथाध्येयं व्याकरणं, श्रूयते हि 'ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेय' इति सन्ध्योपासनादिवदवश्यं कर्तव्यं व्याकरणाध्ययनमित्युक्तं भवति तत्र यथाऽनुपासीनः सन्ध्यां प्रत्यवैति तथाऽनधीया नोऽपि व्याकरणं, तत्र व्याकरणं ज्यौतिषं निरुक्तं शिक्षा छन्दोविचितिकल्पसूत्राण्यङ्गानि, अङ्गत्वञ्चाङ्गसंस्तवात् ।

मुखं व्याकरणं तस्य ज्यौतिषं नेत्रमुच्यते ।

निरुक्तं श्रोत्रमुद्दिष्टं छन्दसां विचितिः पदे ॥

शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य हस्तौ कल्पान् प्रचक्षते ।

इति । उपकारकत्वाच्च तत्र व्याकरणमर्थविशेषमाश्रित्य पदमन्वाचक्षणं पदपदार्थप्रतिपादनेन वेदस्योपकरोति । ज्यौतिषमप्यध्ययनोपयोगिनमनुष्ठानोपयोगिनश्च कालविशेषं प्रतिपादयति, निरुक्तं तु व्याकरणस्यैव कात्स्न्यं । छन्दोविचितिरपि 'गायत्र्या यजति' 'त्रिष्टुभा शंसती' त्यादौ श्रुतानां गायत्र्यादिशब्दानां लक्षणतोऽर्थमाचष्टे । शिक्षाप्यध्ययनकाले कर्मणि च मन्त्राणामुच्चारणप्रकारं प्रतिपादयति । कल्पसूत्राण्यपि प्रतिशाखं शाखान्तराधीनेन न्यायप्राप्तेन चाङ्गेनोपेतस्य कर्मणः प्रयोगं कल्पयन्ति । षट्सु चाङ्गेषु व्याकरणं प्रधानं पदपदार्थज्ञानस्य तदायत्तत्वात् । वृत्तिकारस्तु प्रयोजनप्रवणत्वात्प्रेक्षावत्प्रवृत्तेः संभवाच्च प्रयोजनस्य भाष्यकारेण पठितं साक्षात्प्रयोजनमाह । 'अथेति' । अथेत्ययं शब्दोऽधिकारार्थः अधिकारः प्रस्तावप्रारम्भः, तमथशब्दो द्योतयति शब्दानुशासनमित्येतावत्युच्यमाने सन्देहः स्यात् किं शब्दानुशासनं प्रारभ्यते उत श्रूयत इति, अथशब्दे तु सति क्रियान्तरव्यवच्छेदेन प्रस्तूयत इत्यपोऽर्थो निश्चीयते । विविक्ताः साधवः शब्दाः प्रकृत्यादिविभागतो

ज्ञाप्यन्ते येन तच्छास्त्रमत्र शब्दानुशासनम्, अनुपूर्वो हि शासिर्विविच्य
 ज्ञापने दृष्टः तद्यथा 'अक्षेत्रवित् क्षेत्रविदं ह्यप्राट् स प्रैति क्षेत्रविदानुशिष्ट
 इति' 'संपूषन् विदुषा नय यो अञ्जसानुशासती' ति च ततः करणे ल्युट्,
 शब्दानामनुशासनं शब्दानुशासनमिति कर्मणि षष्ठ्या समासः अत्र
 च शब्दानामिदमनुशासनं नार्थानामिति अर्थव्यावृत्तिपरायां चोदनायां
 कर्तृविशेषस्याविवक्षितत्वाद्भयप्राप्तचभावान्नो 'भयप्राप्तौ कर्मणी' त्य-
 नेन षष्ठी किं तर्हि 'कर्तृकर्मणोः कृती' त्यनेनेति 'कर्मणि चे' ति
 न निपिद्धः समासः ।

अनिदंप्रथमाः शब्दाः साधवः परिकीर्तिताः ।

त एव शक्तिवैकल्यप्रमादालसतादिभिः ॥

अन्यथोच्चरिताः पुंभिरपशब्दा इतीरिताः ।

स्मारयन्तश्च ते साधूनर्थधीहेतवः स्मृताः ॥

यद्यपि लोके गवाद्यो गाव्यादयश्च सममेव प्रयुज्यन्ते वाचकत्वा-
 भिमानोऽपि सम एव तेषु लौकिकानां साधीयान् गाव्यादिषु,

तथापि गवाद्योऽनादयः साधवः त एव साक्षाद्वाचकाः । गाव्या-
 दयस्तु बालादिभिरशक्त्यादिना गवाद्युच्चारणेच्छयैव तथा तथोच्चार्थ-
 न्ते आदिमन्तोऽपभ्रंशाः ते च स्वयमवाचका अपि प्रथमं गवादिशब्द-
 स्मरणद्वारेणार्थधियं जनयन्ति, ये च यत्रैव प्रथमे व्यवहारे व्युत्पाद्यन्ते
 तेषां गवादिवत्तेष्वेव वाचकत्वाभिमानः । एवं तन्मूलानामपि । तत्र ये
 साधवः ते शास्त्रेणानुशिष्यन्तेऽसाधुभ्यो विविक्ताः प्रकृतिप्रत्ययविभा-
 गेन ज्ञाप्यन्ते इमे साधव इति, कथं पुनरिदमाचार्येण पाणिनिनावगतमेते
 साधव इति, आपिशलेन पूर्वव्याकरणेन, आपिशलिना तर्हि केनावगतं,
 ततः पूर्वेण व्याकरणेन, यद्ययमन्धपरम्पराप्रसङ्गः, तद्यथा शुक्लं क्षीर-
 मित्यन्धेनोक्ते केनेदमवगतमिति पृष्टो यदान्धान्तरं मूलं निर्दिशति सोप्य-
 न्धान्तरं तदा नैतद्ब्रुवः शौक्ल्ये प्रमाणं भवति तादृगेतत् । नैष दोषः ।

सर्वे एव हि ते स्वे स्वे काले गाव्यादिभ्यो विविक्तान् गवादिशब्दान् प्रत्यक्षत एवोपलभन्ते चत्वारो वेदाः ऋग्यजुस्सामाथर्वणलक्षणाः, तत्र ऋग्वेदं एकविंशतिधा भिन्नः, एकशतं यजुश्शाखाः, सहस्रवर्त्मा साम-वेदः, नवधाथर्वणो वेदः, षडङ्गानि, मीमांसा न्यायविस्तरः, अष्टादश पुराणानि, अनन्तान्युपपुराणानि, अष्टादश स्मृतयः अनन्ता उपस्मृतयः, भारतरामायणादिरितिहासः, आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वोऽर्थशास्त्रं काव्यानि नाटकानि एतावान् प्रयोगस्य विषयः तद्यस्यात्र सर्वत्र निष्ठा स तावत्सर्वानेव व्याकरणानुगताञ्छन्दान् प्रत्यक्षयति व्याकरणेन च पूर्वस्मिन्नपि काले तेषां सत्तामनुसन्धत्ते, एषा अस्मदादीनां गतिः । पाणि-निरपि स्वकाले शब्दान् प्रत्यक्षयन्नापिशालादिना पूर्वस्मिन्नपि काले सत्तामनुसन्धत्ते, एवमापिशालिः, अनादिरयं संसारः कथं पुनरस्मदादीनां सर्वलक्ष्यदर्शित्वं, मा भूदस्मदादीनामस्मद्विशिष्टानां महर्षीणां सम्भवति यस्य वा ईश्वरानुग्रहः स सर्वं प्रत्यक्षयति । अत्रैव हि लौकिकाः स्मरन्ति ।

येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् ।

कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः ॥

इति । अक्षरसमाम्नायं च व्याचक्षते देवसूत्राणीति ।

अथ वा कस्यचित् केचिदपरस्यां परे तथा ।

अन्यस्यान्ये तथा शब्दाः सन्ति दर्शनगोचराः ॥

तथा च । यद्विस्मृतमदृष्टं वा सूत्रकारेण तत् स्फुटम् ।

वाक्यकारो ब्रवीत्येव तेनादृष्टं च भाष्यकृत् ॥

अत एव च पाणिनीयमेतन्निमुनिव्याकरणं वदन्ति सन्तः

*

*

*

*

यथैव वेदवाक्यानां पाठे सत्यपि सङ्करे ।

बहूनामभियुक्तानामुपदेशेन निर्णयः ॥

आह ॥ अनादिता चेत्साधुत्वं संज्ञाशब्देषु का गतिः ।
 उच्यते नामकरणे गृह्येषु नियमश्रुतेः ॥
 यथाकामं न संज्ञानां विनियोगः समास्ति नः ।
 तस्मादनादिता संज्ञास्त्वपि नैव विरुध्यते ॥
 यास्तत्तद्देशभषाभिः संज्ञास्तासां न साधुता ।
 लृकारवार्तिके चैतद्युक्तं कात्यायनोऽब्रवीत् ॥

* * * *

कूचिमञ्जीत्यादयो न तासां साधुत्वं, तदेतत् लृकारोपदेशस्य प्रयो-
 जननिराकरणावसरे वार्तिककारेणाप्युक्तं 'न्याय्यभावात्कल्पनं संज्ञा-
 दिष्वि' ति, यदृच्छया कश्चित् लृत्को नाम तस्मै दृढच्युतकाय देहीति
 अच्कार्यं यथा स्यादिति लृकार उपदिश्यते । तत्र न्याय्यभावात्
 न्याय्य ऋतकशब्दः स हि कृदन्तः ऋतीयतेः कृनि ऋतक इति,
 ततश्च तस्यैव संज्ञात्वेन कल्पनं युक्तं स एव संज्ञात्वेन कल्पयितव्य
 इत्यर्थः

* * * *

यास्त्वेताः स्वेच्छया संज्ञाः क्रियन्ते टिवुभादयः ।
 कथं नु तासां साधुत्वं नैव ताः साधवो मताः ॥
 अनपभ्रंशरूपत्वान्नाप्यासामपशब्दता ।
 हस्तचेष्टा यथा लोके यथा सङ्केतिता इमाः ॥
 ततश्च । नासां प्रयोगोऽभ्युदयः प्रत्यवायोऽपि वा भवेत् ।
 लाघवेनार्थबोधार्थं प्रयुज्यन्ते तु केवलम् ॥

* * * *

अनपभ्रष्टतानादिर्यद्वाभ्युदययोग्यता ।
 व्याक्रिया व्यञ्जनीया वा जातिः कापीह साधुता ॥

* * * *

यश्च व्याकुरुते वाचं यश्च मिमांसतेऽध्वरम् ।
तावुभौ पुण्यकर्माणौ पङ्क्तिपावनपावनौ ॥

इति ॥ शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥

इति च, तथा ॥ निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥

* * * *

‘यदधीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते ।
अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हि चित्’ ॥

* * * *

ननु चार्थाभिधानाय प्रयोगः शब्दगोचरः ।
प्राप्त इत्यविधेयस्स्यात् क्षुधितस्येव भोजनम् ॥

उच्यते । अर्थप्रयुक्ते शब्दानां प्रयोगे समुपस्थिते ।

धर्माय नियमः शास्त्रे प्राञ्जुरवत्त्वादिवद्भवेत् ॥

* * * *

‘यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान्यथावद्वच्यवहारकाले ।
सोऽनन्तमामोति जयं परत्र वाग्योगविदुष्यति चापशब्दैः’ ॥

इति । कात्यायनप्रणीतेषु भ्राजाख्येषु श्लोकेषु मध्ये पठितोऽयं
श्लोकः ।

तथा साधुष्वपि सामान्यलक्षणान्विताद्विशेषलक्षणान्वितस्य प्रयोगे
फलविशेषः स्मर्यते ।

नाकमिष्टसुखं यान्ति सुयुक्तैर्बडवारथैः ।

अथ पत्कापिणो यान्ति येऽचीकमत भाषिणः ॥

इति । अयमर्थः । कमे ‘रायादय आर्द्धधातुकेवे’ ति णिङ्भाव-
पक्षे लुङि ‘कमेरुपसङ्ख्यान’ मिति चङो विशेषलक्षणं, णिङ्भावपक्षे
तु णिश्रिद्रुस्तुभ्य इति सामान्यलक्षणं, तत्र ये विशेषलक्षणस्य स्मर-
न्तौऽचकमतेति प्रयुज्यते ते सुयुक्तैर्बडवारथैरिष्टसुखं नाकं स्वर्गं यान्ति

ये तु सामान्यलक्षणवशेनाचीकमतेति भाषन्ते ते पादौ कर्षन्तः स्वर्गं यान्तीति , चङ्घ्रिधौ भाष्यकारेण पठितोऽयं श्लोकः । तदेवं साधून् प्रयु-
ञ्जानस्याभ्युदयो भवतीति नियमार्थः ।

9. आख्यातचन्द्रिका.

Beginning :

भूवार्यादिप्रकृतये पुरुषत्रयमूर्तये ।
सदाख्यातपदायास्मै परस्मायात्मने नमः ॥
सम्पूज्य गुरुपादाब्जे भट्टमल्लेन रच्यते ।
व्युत्पित्सूनां प्रचारार्थमेकार्थाख्यातपद्धतिः ॥
सत्तायामस्ति भवति विद्यते चाथ जन्मनि ।
उत्पद्यते जायते च प्ररोहत्युद्भवत्यपि ॥
निर्वर्तते सम्भवति सिद्धौ सिध्यति राध्यति ।
निष्पद्यते च राध्नोति साध्नोति फलतीति षट् ॥
वर्तते तु वसत्यास्ते ध्रियते चावतिष्ठते ।
क्षीयते स्थलति स्थित्यां मठत्यपि च तिष्ठति ॥
जीवे बलत्यूर्जयति श्वसित्वनिति जीवति ।
अन्यतेऽथ प्राणिति च समनित्युदनित्यपि ॥
व्यनित्यपानिति प्राणवृत्तिष्वारख्यातपञ्चकम् ।
कृच्छ्रजीवे क्षञ्जयति कठत्यातङ्कतित्रयम् ॥
परिणामे परिणमत्यात्मनेऽपि विवर्तते ।
सम्पद्यते कल्पतेऽथ वृद्धौ बृंहति वर्धते ॥

. इति भावविकारवर्गः.

स्फूर्तौ सप्ताविरस्त्याविर्भवति प्रादुरस्ति च ।

प्रादुर्भवति निर्भाति स्फुरति प्रतिभासते ॥

वेत्ति जानाति जानीते वेद बोधति बुधन्ते ।

निबोधते चेतयते मन्यते प्रतिपद्यते ॥

प्रेक्षते पण्डते प्रत्येत्यवगच्छति चेतति ।

मनुते चोपलभतेऽवैति वेदयतेऽश्नति ॥

ज्ञाने गारयते संवेद्यात्मनेऽयमकर्मकः ।

गृह्णात्यपि च गृह्णीते चिकेति च निकेति च ॥

एतौ छन्दसि केषां चिद्दानार्थीस्तप्तविंशतिः ।

. इति बुद्धिवर्गः.

लपते लप्यति लपत्याशास्ते माङ्गतीप्सति ।

आंकाङ्क्षति स्पृहयति नाथते वष्टि वाञ्छति ॥

आशंसते कामयते लप्यते काङ्क्षतीच्छति ।

लिप्सते हर्षतीच्छायां (बल) सहत्यप्यनुरुध्यते ॥

विंशतिस्स्युर्भ्रूणयते त्वपि लुभ्यति गृध्यति ।

कङ्कते गर्धयति च गाधे पट् स्युर्धनायति ॥

. इत्यन्तःकरणवर्गः.

आचष्टे वक्ति वदति लपत्याख्याति भापते ।

ब्रूतेऽभिधत्ते गदति व्याहरत्यपि जल्पति ॥

ब्रवीत्यभिदधाति व्याहरते कथयत्यपि ।

गृणात्युदीरयत्युक्तौ कीर्तयत्यालपत्यपि ॥

मणत्यपि वचत्येके वाचयत्यपि शंसति ।

पठत्यधीतेऽध्ययने चर्चयत्यपि चर्चति ॥

आमनत्युपयुक्ते च गमयत्यपि शिक्षने ।

. इति वचनक्रियावर्गः.

द्वादने नर्दति नदत्यपि गर्जति गुञ्जति ।

कूजति क्षीजति गजत्यपि गृञ्जति गर्जति ॥

रेभते गञ्जति रणत्येवं व्रणति गुञ्जति ।

अम्बते रम्बते वेष्टत्यणति क्षणतीति च ॥

शब्दायते कणति च रीति भ्रणति रासति ।

वणति द्रणति हापयति स्वनति रासते ॥

कलते कौति वनति ध्वनयत्यपि मोजति ।

कवते क्रोशति रसत्यपि हसति रायति ॥

गवने घोषति रवीत्यपि स्यमति कायति ।

रवने धवते क्रूपत्यैटते ध्वनतीति च ॥

जावते शचते गाजयत्येते शब्दवाचिनः ।

. इति ध्वनिक्रियावर्गः

अत्र भावविकाराणां धियामिच्छादिकर्मणाम् ।

वाचां तत्सङ्गतानां च पर्यायाः प्राय ईरिताः ॥

इत्याख्यातचन्द्रिकायां प्रथमः काण्डः ॥

अथोच्यते नृविप्रादिचेष्टावर्गैस्समासतः ।

प्रसङ्गसङ्गताश्चान्याः पर्यायैस्तिङ्पदात्मकैः ॥

प्रक्रम्यते प्रारभते प्रतौत्युद्घातयत्यपि ।

प्रस्तुते चोपक्रमते दशोपक्रम्यतेप्यमी ॥

अभ्यादत्ते प्रक्रमत उपजानात्युपक्रमे ॥ . . .

इति मनुष्यचेष्टावर्गः ॥

प्रक्षालयति पल्पूलयति शोधयतीत्यमी ।

निर्णेनेक्ति पुनातीति धावत्यप्यात्मने त्रयः ॥

निङ्क्ते मार्ष्टि च शौचे स्युर्मर्जयत्यपि मार्जति ।

मज्जत्याञ्जवते स्नाति स्नायत्येकेऽवगाहते ॥

स्युर्मज्जने बुडत्येते शुन्धयत्यपि शुन्धति ।

शुद्धयते शुन्धयति शुचो भावे स्युरवदायति ॥

. इति ब्रह्मक्रियावर्गः.

ऐश्वर्यं इन्दति सुरत्यपि रज्यति पत्यते ।

तप्यते तपतीत्येके क्षिपतीष्टे च सौतिं च ॥

. इति क्षत्रियचेष्टावर्गः.

रूपते रूपतीत्येते रूपौ खुरति कर्षति ।

रदत्येवं विलिरवते हरति स्युः खलत्यपि ॥

. इति वैश्यचेष्टावर्गः ॥

वयते वयति व्यूतौ ऊयतेऽथ विपीव्यति ।

तथा निपीव्यति स्यूतौ परिपीव्यति सीव्यति ॥

. इति शूद्रचेष्टावर्गः.

प्रकीर्णकसनाद्यन्तनानार्थान्यात्मनेपदे ।

तदन्यस्मिन्विभागाश्च संगृह्यन्तेऽत्र सर्वशः ॥

इति द्वितीयः काण्डः.

यानि पूर्वमसङ्गत्या नैवाख्यातान्यचक्षत ।

वक्ष्यन्ते तानि वर्गेऽस्मिन् प्रकीर्णारूपे यथास्मृति ॥

विभाति व्युच्छते व्युष्टे प्रभाति विविशत्यपि ।

श्विन्दते श्वेतते त्रीणि स्युः शुक्लत्वेऽवदायति ॥

. इति प्रकीर्णवर्गः.

धातोस्तुमर्थादिच्छायां सानि रूपं बुभूषति ।

चिचिक्षीषत् इत्यादि पूर्ववच्चात्मनेपदम् ॥

. इति सनादिवर्गः

अथ नानार्थधातूत्थान्याख्यातानीह कानिचित् ।

यथामति प्रदर्श्यन्ते व्यक्तं भूवाद्यनुक्रमात् ॥

गणेऽवधारणात् क्वापि सूत्रे तेन विशेषणात् ।

क्वाप्यर्थान्तरनिर्देशादनेकार्थाभिधानतः ॥

भवतीत्येष सत्तायां प्राप्तिसम्पत्तिजन्मसु ।

आद्योपलम्भे पर्याप्तौ सामर्थ्ये प्रभवत्ययम् ॥

सम्भावनायां माने च साहित्ये सम्भवत्यपि ।

शक्तिव्याप्तयोर्विभवति प्राकट्येऽप्युद्भवत्यथ ॥

. इति नानार्थवर्गः.

भावे कर्मणि सर्वस्माद्धातोः स्यादात्मनेपदम् ।

ङितस्तथानुदात्तेभ्यो भूयतेऽप्ययते तु दिक् ॥

इत्यात्मनेपदपरस्मैपदवर्गः.

Colophon:— इति भट्टमल्लविरचितायामाख्यातचन्द्रिकायां परस्मै-
पदात्मनेपदविभागाः ॥ इत्याख्यातचन्द्रिकासङ्ग्रहस्समाप्तः ॥

10. अभिधानरत्नमाला.

Beginning :—

शब्दब्रह्म यदेकं यच्चैतन्यं (च) सर्वभूतानाम् ।

यत्परिणामस्त्रिभुवनमखिलमिदं जयति सा वाणी ॥ 1 ॥

इयममरदत्तवररुचिभागुरिवोपालितादिशास्त्रेभ्यः ।

अभिधानरत्नमाला कविकण्ठविभूषणार्थमुद्ध्रियते ॥ 2 ॥

स्वः स्वर्गः सुरसद्व त्रिदशावासः त्रिविष्टपं त्रिदिवम् ।

द्यौर्गौरनुर्वभुवनं नाकः स्यादूर्ध्वलोकश्च ॥

तत्रभवान् भगवानिति शब्दो वृद्धैः प्रयुज्यते पूज्ये ।

पादा इति नामान्ते देवो भट्टारको वापि ॥ 155 ॥

इति श्रीमद्ब्रह्महलायुधकृतायामभिधानरत्नमालायां स्वर्गकाण्डः प्रथमः ।

भूर्भूमिर्वसुधावनिर्वसुमती धात्री धरित्री धरा ॥

गौर्गोत्रा जगती रसा क्षितिरिला क्षोणी क्षमा क्ष्माचला ।

कुःपृथ्वी पृथिवी स्थिरा च धरणिर्विश्वम्भरा मेदिनी ।

ज्यानन्तां विपुला समुद्रवसना सर्वसहोर्वी मही ॥ 1 ॥ . . .

उशीरं वीरणीमूलं श्रीवेरं वालुकं जलम् ।

मुस्तकः कुरुविन्दः स्याद्गुन्द्रा च जलशङ्खयः ॥ 470 ॥

भौमकाण्डो द्वितीयः.

बडवामुखं च पातालं वैरोचननिकेतनं ।

तथाधोभुवनं प्रोक्तं नागलोको रसातलम् ॥ 1 ॥

निम्नागाधोर्गर्तः श्वभ्रं सुपिरं वपा विलं विवरं ।

अन्तरमवटच्छिद्रं निर्व्यधनं रन्ध्ररोककुहरधराः ॥ 2 ॥ . . .

उद्धाटनं घटीयन्त्रं पादावर्तोऽरघटकः ।

पानन्तु सरणिः प्रोक्ता प्रणाली जलपद्धतिः ॥ 65 ॥

इति पातालकाण्डस्तृतीयः.

निकरनिकायनिवहाविसरव्रजपूगसञ्चयाः ।

समुदयसार्थयूथनिकुरुम्बकदम्बकपूगराशयः ॥ 1 ॥ . . .

परभागो गुणोत्कर्षः स्पर्धा सङ्घर्ष उच्यते ।

आयामः स्मृत आनाहः परिणाहो विशालता ॥ 102 ॥

इति सामान्यकाण्डश्चतुर्थः:

एकार्थो बहुभिः शब्दैः कथितः कथ्यतेऽधुना ।

एकस्यैव तु शब्दस्य बहुष्वर्थेषु वर्तनम् ॥ 1 ॥

रुद्रेऽपि खण्डपरशुर्वैश्रवणेऽप्येककुण्डलः प्रोक्तः ।

द्वारेऽपि प्रतिहारः प्राकाराग्रेषु कपिशीर्षम् ॥ 2 ॥ . . .

अथानन्तरकल्याणसंप्रश्नादिषु कथ्यते ।

अथो इति तथा प्रोक्तो नामाभ्युपगमादिषु ॥ 100 ॥

सदा सना च नित्यार्थे स्वस्ति स्यान्मङ्गलादिषु ।

इतिशब्दः स्मृतो हेतौ प्रकारादिसमाप्तिषु ॥ 101 ॥

Colophon :—इति श्रीमद्वलायुधभट्टकृतायां अभिधानरत्नमालायां
अनेकार्थकाण्डः पञ्चमः.

11. अमरकोशव्याख्यानम् (टीकासर्वस्वम्)

Beginning :—

बर्हिणबर्हिपीडः सुषिरपरो बालवह्निभो गोष्ठे ।

मेदुरमुदिरश्यामलरुचिरव्यादेश गोविन्दः ॥

मुदेऽसौ धीराणां न गुणलवगवन्मम परि-

श्रमः किञ्च स्वार्थस्तदिह विबुधाः क्षन्तुमुचितम् ।

इतो ये सासूया अनृजुमतयो नूतनतया ।

खलास्तेऽमी हेया गुणिषु पुनरप्यञ्जलिरयम् ॥

अथ ॥

टीकासर्वस्वं दशटीकावित् करोत्यमरकोशे ।

श्रीमत्सर्वानन्दो वन्द्यघटीयार्तिहरपुत्रः ॥

*

*

*

*

यद्यपि सन्त्यतिगुणिनः श्रमस्तथाप्यत्र हि मम मौखर्यात् ।
ललितं रीतिं पिकश्चेत् वाग्यामं यान्ति किं काकाः ॥

तत्रादौ भगवतः सेवायां परोपदेशे प्रारिप्सितप्रत्यूहशमनाय धर्ममा-
र्जयन्नाह.

यस्येत्यादि । हे धीराः स सेव्यतामित्यनेनैव धैर्यशालिन एव सेवि-
शक्नुवन्तीति तान् संबोधयति ।

Colophon:— इति श्रीवन्द्यघटीयश्रीसर्वानन्दकृतौ.

टीकासर्वस्वे स्वर्गवर्गः.

* * * *

इतिश्रीसर्वानन्दकृतौ टीकासर्वस्वे पातालवर्गः । काण्डश्च प्रथमः. ।

* * * *

इति श्री वन्द्यघटीय	*	भूवर्गः,
इति वन्द्यघटीय	*	पुरवर्गः.
इति वन्द्यघटीय	*	शैलवर्गः.
इति-वन्द्यघट्टि	*	वनौपधिवर्गः.

The following passages are found in the complete copy of the
work already existing in the Library.

इति स्त्रीत्वानुशासनम् । अरुणान्येति अन्यबोद्धव्यम् । नामानुशा-
सनं यथा निलिम्पाद्युपदो देवा इत्यादि गङ्गाधरादीनां ।

त्रीणि व्याकरणान्यधीत्य सकलं साहित्यमालोक्य च
प्रज्ञाव्यापकभापितानि हृदये न्यस्याकृतेदं सह ।

प्राज्ञेनानु सनातनेन बहुशः प्रत्यक्षरं शोधितं

जिज्ञासाथ विशब्दवर्त्मनि तदाचैतत् समालोच्यताम् ॥

इति वन्द्यघटीय श्रीसर्वानन्दकृतौ टीकासर्वस्वत्रिलिङ्गादिसङ्ग्रहवर्गः ।

संपूर्णं च टीकासर्वस्वम्

12. अमरकोशव्याख्यानम् (लिङ्गाभट्टीयम्).
(तृतीयकाण्डः अव्ययवर्गान्तः लिङ्गादिसङ्ग्रहवर्गे किञ्चित्).

Beginning :—

सर्वज्ञं सर्वगतं भजत सदा शैलजार्धसङ्कीर्णम् ।
नानार्थप्रथम . . . प्रकाशितस्फूर्तिम् ॥

एवं काण्डद्वयेन नियतार्थनामानि अनुशिष्य प्रेक्षावत्प्रवृत्तिसिद्धये
वक्ष्यमाणं सङ्ग्रह्य दर्शयति विशेष्यनिघ्नैरिति

* * * *

बोम्मकट्ट्यप्पयार्येण नामलिङ्गानुशासने ।
विशेष्यनिघ्नवर्गस्य संक्षिप्य व्याकृतिः कृता ॥

* * * *

बोम्मनकण्ठ्यप्पयार्थः पदवाक्यप्रमाणवित् ॥
सङ्कीर्णवर्गं व्याचष्ट नामलिङ्गानुशासने ॥

इह यच्चक्तमज्ञानादालस्याद्यदुदीरितम् ।
प्रमादादन्यथोक्तं यद्विद्वद्भिः शोद्धचतां (बुधैः) ।
श्लोकाः सङ्कीर्णगाः सार्धद्विचत्वारिंशदीरिताः ।

* * * *

Colophon:— इति श्रीवङ्गलिङ्गयसूरिविरचितायां अमरकोशपद-
वितृत्तौ अव्ययनानार्थवर्गविवेचनम् ॥

* * * *

इति श्री वङ्गलिङ्गयसूरिविरचितायाममरकोशपदवितृत्तौ अव्यय-
वर्गविवेचनम् ।

अथ लिङ्गसङ्ग्रहवर्गमुपक्रमते

End:

अश्वस्तुरगः गो . . . हिङ्गलो रागद्रव्यं वेतालो भूता-
विष्टशवः मल्लो बाहुयोद्धा भटल्लः काण्डभेदः पुरोडाशः पिष्टकृतहोम-
द्रव्यं पट्टिसः आयुधभेदः

13. त्रिकाण्डशेषः (तृतीयकाण्डः).

Beginning :

क्षेमङ्करोऽरिष्टतातिः स्याद्द्रङ्करशङ्करौ ।

आमुप्यायणविज्ञातौ पुत्रान्नादः कुटीचकः ॥ 1 ॥

स्थपुटं विषमं सञ्चारजीविशरणार्पकः ।

अभिपन्नः शरणार्थी पाण्डुष्टष्टस्त्वलक्षणः ॥ 2 ॥

उद्गटोडामरोत्तालमाविष्टः प्रेतवापितः ।

प्रेङ्खोलितस्तरलितः तृषितस्तर्षितः सैतृष्ट ॥ 3 ॥

ऊर्ध्वस्थोर्ध्वन्दमौ तुल्यौ ग्राम्यो ग्रामेयकः स्मृतः ।

पराचीनं प्रतीपं स्यात् समीचीनं समञ्जसम् ॥ 4 ॥

स्वस्थानस्थः परान्द्वेष्टि यस्तगोष्ठस्त उच्यते ।

दाता तु दारुर्मुचिरः स्याद्विदग्धस्तु नागरः ॥ 5 ॥

. इति विशेष्यनिघ्नवर्गः.

विधिर्विधानं कर्मास्त्री क्रिया कृत्या विधा कृतिः । . . .

अवसानं तु विरामो मध्यमधो मण्डलं चक्रम् ।

स्यादारम्भः प्रस्तावना तदा मुखमपि ज्ञेयम् ॥

इति सङ्कीर्णकाण्डः.

स्वरकाद्यादिकाद्यन्तवर्गेर्नानार्थसङ्ग्रहम् ।

विहायामरकोशोक्तमकार्षीत् पुरुषोत्तमः ॥

शक्रार्कपर्णयोश्चार्कोऽभीकस्त्वभयकामिनोः ।
 रूपकान्तिकयोश्चाङ्गोऽलिमकौ काककोकिलौ ॥
 अन्तिकं निकटं चुष्टिर्नाद्योक्त्या चाग्रजान्तिका ।
 अनीकोऽस्त्री रणे सैन्ये गौर्यां मातारि, चाम्बिका ॥

* * * * *

End :

कपोतविहगोऽपि स्यात्पृश्न्यां च प्रसभे हठः । ठान्ताः
 प्राण्यङ्गकोशयोरण्डं कूश्माण्डौ फलभिद्रणौ ॥ 10 ॥
 कुण्डं स्वातोत्थयोजारिजे ना कुण्डी कमण्डलौ ।
 सिंहोक्तौ स्त्री विषे क्ष्वेडः पशौ क्रोडं न नोरसि ॥

14. नानार्थरत्नमाला.

Beginning :

यत्पादाम्बुरुहच्छाया देवचूडामणीयते ।
 यस्य ज्ञानादयोऽनन्ताः स देवः श्रेयसेऽस्तु नः ॥
 अस्ति श्रीमन्निरुगपदण्डनाथः प्रचण्डधीः ।
 सदृत्तौ चैव दण्डेशवंशमुक्तामणिर्गुणी ॥
 द्वितीयमन्तःकरणं राज्ञो हरिहरस्य यः ।
 राजकार्यं प्रजारक्षां द्वयं धत्ते कुलव्रतम् ॥
 भारं हरिहराधीशो भुवः कूर्मादिदुर्वहम् ।
 बुद्धौ कुशाग्रसूक्ष्मायां यस्य विन्यस्य मोदते ॥
 तिस्रो दधानश्चतुरः पञ्च षट् च यथोचितम् ।
 प्रयुञ्जानो नयन्वृद्धिं सप्ताष्टौ यो जिगीषति ॥

विविधग्रन्थसन्दर्भविमर्दविमलीकृतम् ।
 यस्य चेतः सरस्वत्या विलासमुकुरायो ॥
 सोऽयं ग्रथ्नाति नानार्थरत्नमालां गुणोज्ज्वलाम् ।
 श्रीमानिरुगपदण्डेशो नात्यल्पं नातिविस्तरम् ॥
 काण्डैश्चतुर्भिरेकद्वित्रिचतुर्वर्णवर्णितैः ।
 सङ्कीर्णान्ययकाण्डाभ्यामिति पङ्क्तिरनुक्रमान् ॥
 कथ्यन्ते केऽपि नानार्थशब्दास्तत्रान्तराध्वना ।
 अमी सलिङ्गनिलिङ्गभेदाद्बुधा भवन्ति हि ॥
 सलिङ्गाः सप्तधा वृत्त्या स्त्रियां पुंसि नपुंसके ।
 स्त्रीपुंसयोः स्त्रीवपुंसोः स्त्रीनपुंसकयोस्त्रिषु ॥
 शब्दान् पुंसः स्त्रियः स्त्रीवान् नानालिङ्गत्रिलिङ्गकान् ।
 प्रायः क्रमात्प्रवक्ष्यामः कान्तादीन् द्व्यक्षरादिषु ॥
 रूपभेदात्साहचार्यत्कण्ठोक्त्या वा विभावयेत् ।
 लिङ्गान्यथादि त्वन्तं वा पदं पूर्वेण नान्वयेत् ॥
 त्रिष्विति त्रिषु लिङ्गेषु ज्ञेयं द्वन्द्वे द्वयोरिति ।
 लिङ्गान्तरनिषेधोऽत्र शेषलिङ्गविधायकम् ॥

इति पीठिका ॥

अकारो ब्रह्मविष्ण्वीशकमठेष्वङ्गणे रणे ।
 गौरवेऽन्तःपुरे हेतौ भूषणेऽङ्गात्तुमेज्ययोः ॥

* * * *

क्षः संरोधे विरोधे च क्षेमदुःस्वप्नोश्च ना ।
 क्षा स्त्री रमायां निद्रायां क्षं स्त्रीवे क्षेत्ररक्षसोः ॥
 अप्राचुर्यात्प्रयोगस्य लिङ्गं क्वचिदपेक्षितम् ।
 एकाक्षरेषु शब्देषु तद्वह्यं लक्ष्यभेदिभिः ॥

Colophon :

इति जगदुपकारिण्यामिरुगपदण्डाधिनाथरचितायाम् ।
 एकाक्षरकाण्डोऽयं पूर्णो नानार्थरत्नमालायाम् ॥
 अर्को मघोनि स्फटिके ज्येष्ठभ्रातरि भास्करे ।
 शुभ्रेऽर्कपादपे चाथ मर्को मनसि मारुते ॥

* * * *

End :

अथ त्रिषु पटुस्तीक्ष्णे नीरोगे निपुणेऽपि च ।
 तटौ तीरभृगू सृष्टास्त्यक्तनिश्चितनिर्मिताः ॥
 इष्टमाशंसिते दत्ते सुहृत्पूजितयोरपि ।
 म्लिष्टौ म्लानास्पष्टवाचौ व्यक्तसंमुद्ध्योः स्फुटः ॥
 इति टान्ताः ॥

15. मेदिनीकोशः.

Beginning :—

वृषाङ्गाय नमस्तस्मै यस्य मौलिविलम्बिनी ।
 जटावेष्टनजां शोभां विभावयति जाह्नवी ॥
 पूर्वाचार्यकृतिं वीक्ष्य शब्दशास्त्रं निरूप्य च ।
 नानार्थशब्दकोशोऽयं लिङ्गभेदेन कथ्यते ॥
 प्रायशो रूपभेदेन विशेषणवशात्कचित् ।
 स्त्रीपुन्नपुंसकं ज्ञेयं विशेषोक्तेश्च कुत्र चित् ॥
 त्रिलिङ्ग्यां त्रिष्विति पदं मिथुने तु द्वयोरिति ।
 निषिद्धलिङ्गं शेषार्थं त्वन्ताथादि न पूर्वभाक् ॥
 रूपाद्वचकं लिङ्गमुक्तलिपिभ्रान्तिछिदे क्वचित् ।
 विशेष्यनिन्नेऽनुक्तेऽपि विज्ञेया वाच्यलिङ्गता ॥

गुणे शुक्लादिकद्याः पुंसि स्युस्तद्वति त्रिपु ।
 तीक्ष्णाद्यास्तु गुणे स्त्रीवं गुणिलिङ्गास्तु तद्वति ॥
 स्त्रीवपुंसोरपि स्त्रीत्वं काप्यल्पत्वविवक्षया ।
 जातिवाचकशब्दानामपि तु स्त्रीविवक्षया ॥
 उद्भिदः प्रसवे स्त्रीवं हरीतक्यादयः स्त्रियाम् ।
 पुप्पे जातिप्रभृतयः खलिङ्गा व्रीहयः फले ॥
 प्राङ् नानार्था न तच्छिङ्गं द्वयोर्द्वन्द्वे न चैकना ।
 शब्दावृत्तिर्न लिङ्गक्ये सप्तमे न विशेषणे ॥
 स्त्रीवे नपुंसके पुंसि स्त्रियां योषिति च द्वयोः ।
 स्त्रीपुञ्ज्यादि यद्वृत्तं तच्छिङ्गस्यैव वाचकम् ॥
 नानार्थप्रथमान्तोऽत्र सर्वत्रादौ प्रदर्शितः ।
 सप्तम्यन्नाभिधेयेषु वर्तमानो निवेशितः ॥
 एकद्वित्रिचतुःपञ्चषड्गणानुक्रमात्कृतः ।
 स्वरकाद्यादिकाद्यन्तवर्गानार्थसङ्ग्रहः ॥
 नानार्थकोशपुस्तकभारार्जनदुःखहानये कृ....(पया) ।
 मेदिनिकरकृतकोशो विशुद्धलिङ्गोऽभिलिख्यतामेकः ॥
 को ब्रह्मणि सस्मिरात्मयमदक्षेषु भास्करे ।
 कामग्रन्थौ चक्रिणि च पत्रिणि च पार्थिवे ॥
 मपूरेऽग्निपु पुंसि स्यात्सुखशीर्षजलेषु कम् ।
 इति कैकम् ॥

* * * *

End :

लक्षणं नात्रि चिह्ने च सारस्यां लक्षणा क्वचित् ।
 लक्ष्मणा त्वोपधीभेदे सारस्यामपि योषिति ॥

रामभ्रातरि पुंसि स्यात् सश्रीके चाभिधेयवत् ।
विषाणी क्षीरकाकोल्याम्भुजशृङ्गां च योषिति ॥

16. विश्वप्रकाशः

Beginning :

विश्वेश्वरं विद्विशान्त्यै वाणीं वाचः प्रवृत्तये ।

गुरून् गूढार्थभानाय प्रणमामि निरन्तरम् ॥

यद्यस्ति वाङ्मयमहार्णवमन्यनेच्छा प्राप्तुं पदं फणिपतेर्यदि कौतुकं वः ।
विश्वप्रकाशमनिशं तदिदं निषेव्यं सम्भाव्यतां परमशाब्दिकशेखरश्रीः ॥

सतां पुस्तकसंभारभारमोक्षः कृतो मया ।

नामानुशासनमिदं संपूर्णं तन्वताद्भुतम् ॥

एकद्वित्रिचतुःषडपड्वर्गानुक्रमोज्ज्वलैः ।

कान्तादिवर्गेर्नानार्थैः सङ्ग्रहोऽयं वितन्यते ॥

नानार्थैः प्रथमान्तोऽत्र सर्वत्रादौ प्रदर्शितः ।

सप्तम्यन्तेषु शब्देषु वर्तमानः सुनिश्चितः ॥

दृष्टान्तेन सह कापि सप्तम्याधार एव च ।

स्पष्टानां भिन्नलिङ्गानां काप्यत्र पुनरुक्तता ॥

अकारो ब्रह्मविष्ण्वीशकमठेष्वङ्गणे रणे ।

गौरवेऽन्तःपुरे हेतौ भूषणे भ्रूसुमध्ययोः ॥

आकारस्तु घटे भावे परितापे पितामहे ।

इकारः फणिरत्नार्चिरग्रतोऽर्थशुभार्थयोः ॥

हरे करेणुसङ्घाते निशाकरकरे स्मरे ।

ईकारोऽब्जदले यक्ष्यां बाण्यां कमलकेसरे ॥

रचनायां शक्रचापे बाणे फणिनि कम्बले ॥ . . .

End :

यावन्नमेति ताध्ये स्यात् यावदागामिनिश्रये ।
 यावदागामिकाले स्यात् कर्मरिम्भावसानयोः ॥
 तद्यावदिति सन्देशे न निर्देशानिदेशयोः ।
 कर्मविघ्ने वितर्के स्याद्दुष्करेऽपि कथंचन ॥
 इत्यन्योन्यस्य संसर्गात् धातुसंसर्गतः पृथक् ।
 यथा विशेषार्थकृतस्तथा कविभिरिष्यतान् ॥

Colophon :—इति विश्वप्रकाशः समाप्तः ॥

17. 18. अमरुकव्याख्या (शृङ्गारदीपिका.)

Beginning :

ज्याकृष्टिवद्धकटकामुखपाणिपृष्ठ-
 प्रेङ्खन्त्रस्वांशुचयसंवलितो मृडान्याः ॥
 त्वां पातु मञ्जरितपल्लवकर्णपूर-
 लोभभ्रमङ्गमरविभ्रमभृत्कटाक्षः ॥

ज्याकृष्टीति ॥ मृडान्याः दुर्गायाः कटाक्षः अपाङ्गदर्शनं त्वां पात्विति
 सम्बन्धः । क्रीदशः कटाक्षः । ज्याकृष्टिवद्धकटकामुखपाणिपृष्ठप्रेङ्खन्त्रस्वां-
 शुचयसंवलितः ज्याकृष्टये सम्बद्धः कटकामुखपाणिः कटकामुखो नाम
 धनुराकर्षणहस्तविशेषः “ तर्जनीमध्यमामध्ये पुङ्खोऽङ्गुष्ठेन पीज्यते । तस्मि-
 न्ननामिकायोगात् स हस्तः कटकामुखः ” ॥ तस्य पृष्ठे पश्चाद्भागे प्रेङ्खन्तः
 चलन्तः नस्वानामंशवः तेषां चयः तेन संवलितः समानं मिलितो मिश्रः
 पुनः क्रीदशः मञ्जरितपल्लवकर्णपूरलोभभ्रमङ्गमरविभ्रमभृत् मञ्जरितः सञ्जा-
 तमञ्जरीकः “ तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच् ” इति इतच्प्रत्ययः
 मञ्जरितश्चासौ पल्लवश्च स एव कर्णपूरः कर्णावतंसः तत्र लोभेन स्पृहया

भ्रमन् भ्रमरः तस्य विभ्रमं लीलां विभ्रतीति विभ्रमभृत् । अत्रोपमालङ्कारः
 नखांशुचयमञ्जरीः पाणिपल्लवयोः कटाक्षभ्रमरयोश्च सादृश्यप्रतीतेर्विद्य-
 मानत्वात् यथाकथंचिद्यत्रोद्भूतमुपमानमित्युक्तत्वात् । अत्र कविः शृङ्गार-
 रसात्मकं काव्यं प्रारभमाण आदौ वीररसाभिव्यञ्जिकां देव्या धनुराकर्ष-
 णक्रियां किमुक्तवानिति नाशङ्कनीयं येनात्र शृङ्गाररसात्मिकाया एव
 वश्यमुखीसंज्ञाया देव्या ध्यानं विदक्षितवान् । उक्तं च त्रिपुरासारासिन्धौ ।
 सन्धाय सुमनोबाणं कर्पन्तीमैक्षवं धनुः । जगज्जैवी जयारक्तां देवीं
 वश्यमुखीं भजेदिति ।

॥ मू ॥ क्षितो हस्तावलग्नः प्रसभमभिहितोऽप्याददानोऽशुकान्तं
 गृह्णन् केशेष्वपारतश्चरणनिपतितो नेक्षितस्तम्भ्रमेण ।
 आलिङ्गन्त्योऽवधूतस्त्रिपुरयुवतिभिस्साश्रुनेत्रोत्पलाभिः
 कामीवाद्रांपराधस्स दहनु दुरितं शांभवो वशशराग्निः ॥

शांभवः शराग्निः वः युष्माकं दुरितं अंहोऽशुभं च दहत्विति सम्बन्धः

End :

सालक्तकेन नवपल्लवकोमलेन
 पादेन नूपुरवता मदलालसेन ।
 यस्ताज्यते दधितया प्रणयापराधान्
 सोऽङ्गीकृतो भगवता मकरध्वजेन ॥

स्पष्टोऽर्थः ॥ अत्र दधितया पादेन ताडितोऽपि भगवता मकर-
 ध्वजेनाङ्गीकृत इत्यनेन नानाविधैरुपचारैरुपलालितैः किमुोत्पयमर्थः
 सूचितः । एतावता कामपुरुषार्थस्योपादेयत्वमुक्तं भवति ॥

Colophon :— इति श्रीवीरनारायणसकलविद्याविशारदकोमटि-
 वेमभूपालविरचिता शृङ्गारदीपिका समाप्ता ॥

19. कप्फणाभ्युदयः.

Beginning :

सर्वज्ञनादिगुणगोचरमाययौ यो
 ध्येयो यतोऽपि यतिवन्धुर बोधिः ।
 मानाय निश्चितचतुर्विधवित्तमार्तिः
 मूर्तिर्दिशां दिशतु दाशबलिः शिवं नः ॥
 अस्ति प्रथा परमदैत्यमुखायनाभः
 सूतागजाननगुहावसिनाधिविन्ध्यम् ।
 लीलावनीति नगरी कलितापदाना,
 पुंवर्गभावतरणे हरिणाङ्गनेन ॥
 या तुङ्गसौधतलकीलितकेतुदण्ड-
 षण्डैर्जवाज्जलमुचामभिपाटितानाम् ।
 उत्सङ्गिनीभिरवतंसपताकिकाभि-
 विद्धं व्यथादिव दिवि व्रणपट्टिकाभिः ॥

Colophon :—इति श्रीकाश्मीरभट्टशिवस्वामिकृतौ कप्फणाभ्युदये
 महाकाव्ये नगरीनरेन्द्रवर्णना नाम प्रथमः सर्गः

अथोत्तराणां नृपमण्डलक्रिया
 विचारहेतोः प्रहितो हितक्रियम् ।
 कदाचिदेनं समये सभासदं
 प्रतापमाप प्रणिधिः पजापतिम् ॥

इति कप्फणाभ्युदये चरविक्षेपविन्यासो नाम द्वितीयसर्गः

संप्राप्य प्रणिधिगिरां गरीयसीना-
 मत्यन्तं तरलितताम्रतारकाणाम् ।
 संरम्भभ्रुकुटिचलद्रू....(द्रुवक्र) भासां
 क्रोधेन प्रसभमलम्भि भूपतीनाम् ॥

इति श्रीकण्फणाभ्युदये महाकाव्ये सभासंक्षोभो नाम तृतीयः सर्गः

अपसदसि समस्ता यस्तु भूपालचक्रे

प्रकटिनगुरुकोपारम्भसंरम्भजृम्भे ।

वहनि विलसितानि प्रस्तुतानि प्रचण्ड-

प्रलयजलदजालाडम्बरैरम्बरन्धि ॥

इति श्रीकण्फणाभ्युदये महाकाव्ये राजवाक्यं नाम चतुर्थः सर्गः

इति तत्र सुबाहुभारतमिनुसन्धानुमवन्धय्या गिरा ।

गुरुसङ्गरकाभ्यया कथं विदधानेषु नृपेषु निष्ठुरम् ॥

इति श्रीकण्फणाभ्युदये महाकाव्ये दूतीसंप्रेषणं नाम पञ्चमः सर्गः

अखर्वमौर्दाग्निमिवोदधेः छुतं वंशीश्वरश्यामसमीरणोरणैः ।

जलप्रभाडम्बरञ्चुम्बिताम्बरं प्रकृष्ट . . . चन्दनाचलम् ॥ . . .

इति श्रीकण्फणाभ्युदये महाकाव्ये पर्वतवर्णना नाम षष्ठः सर्गः

इत्थं तास्ताः क्षमाधरवस्तुस्तुतिगर्भाः

श्रुत्वा श्राव्या विश्रुतविद्याधरवाचः ।

शैलोत्सङ्गश्रीपरिभोगस्पृहयालुः

स प्रास्तावीत्संस्तुतिमाक्रीडविहारम् ॥

इति श्रीकण्फणाभ्युदये महाकाव्ये शिविरसन्निवेशो नाम सप्तमः सर्गः

अथ समं क्षितिपालमनोमुदे खचरसिद्धिवशाद्विविशुः श्रियम् ।

मधुमदध्वनितालिमनोरमद्रुमलये मलये सकलर्तवः ॥

इति श्रीकण्फणाभ्युदये महाकाव्ये सर्वर्तुवर्णना नामाष्टमः सर्गः

अथात्यये गगनविहारभूभुवां गिरां गिरावृतगणबन्धबन्धुरे ।

महीपतिः कुसुमचिचीषया चिरं वनावर्नी व्यहृत वञ्चूभिरावृतः ॥

इति श्रीकण्फणाभ्युदये महाकाव्ये कुसुमावचयो नाम नवमः सर्गः

अथ वनगहनान्निरीय पृथ्वी-
तलविलनिर्गतनागनायिकाभाः ।
अभिनवादिनकृत्करालताप-
क्लमवशमन्धरमन्धरं ययुस्ताः ॥

इति श्रीकण्फ सलिलवर्णनं नाम दशमः सर्गः

अथ सुदृशां प्रियप्रणयविभ्रमभावनया
सममुदियाय शनैः सुरतोत्सवसस्पृहता ।
राविरपि सञ्जहार करडम्बरमम्बरतः
फलमभिवाञ्छितानुपदभावि हि भव्यधियाम् ॥ . . .

इति श्रीकण्फ दिनान्तवर्णनं नाम एकादशः सर्गः

अथेपदाधूततमोनुबन्धा श्राव्या रुचिः केतकिधूलिवर्णा ।
एष्यन्निशानाथचरिष्णुरथ्यरथ्यारजोराजिरिवाविरासीत् ॥ . . .

इति चन्द्रोदयप्रसाधनवर्णनं नाम द्वादशः सर्गः

धृतसन्धिरसौ विचित्रवृत्तिर्विदधानः स्फुटशुद्धपात्रयोगम् ।
मधुवारविधिः सनायिकाज्ञो ववृधे नाटकवन्नितम्बिनीनाम् ॥ . . .

मधुपूरपरिष्ठितेऽङ्गनाना-
मतिवृद्धोऽप्यवतीर्य चित्रमार्गं ।
विजहार निरर्गलं कोमोन (मदेन)
न च चस्स्वाल यदद्भुतं तदासीत् ॥ 38 ॥

अवनीकिलता वसन्तमासः (?)
सुरताशोकपुरन्धिपादघातः ।
नयनोत्पलतान्तमातरिश्वा
जगृहे घोषदशां मदो वधूनाम् ॥ 39 ॥

अग्नेविकीर्णनिभृतप्रणयादिवाक्य-
 पुष्पाञ्जलिःसरलविभ्रममूत्रधारः ।
 प्रस्तावनां दयितसन्धिरसैःसमाप्य
 सिद्धिं व्यधत्त रमणीरतं नाटकस्य ॥ 40 ॥

- इति मधुपानवर्णनो नाम त्रयोदशः सर्गः
 रसरभसया रागस्थि(त्या)या मुहुः प्रियलालसं
 चिरपणितया मानावृच्या मुहुः पिहितस्पृहम् ।
 मधुमदमुदा लेभे लभ्यं न दुर्लभवच्छभो
 निधुवनविधिक्रीडालम्बं नितम्भवतीजनः ॥
- इति सम्भोगवर्णनो नाम चतुर्दशः सर्गः
 गायं गायन्निरवधि वधूसौधसेनामधोधः
 कामक्रीडाकुसुमकलिकाकुड्गुलीभावमूलम् ।
 इत्थंकारं जनिचरजनिज्यानिस्ङ्कल्पकल्यां (?)
 कलयम्भत्रे हृतमचकथन् वन्विनो....वनाभिः ॥
- इति प्रदोषवर्णनो नाम पञ्चदशः सर्गः
 अथोत्साहवतेव श्रीः प्रतीतिः कविनेव च ।
 दर्शकेन पुरी प्रापि प्रसेनजिदधिष्ठिता ॥
- इति सैन्यप्रस्थानो नाम षोडशः सर्गः
 दर्शकानुशयदर्शनदर्शो (?) पिण्डपातन अथारिवधूनाम् ।
 कप्फणोऽपि चतुरं रणदीक्षः क्रोधजे पुलकवारिणिसस्त्रौ ॥ ..
- इति सङ्कलयुद्धे सप्तदशः सर्गः
 अथ म्लानचमूर्वार्तिसमुदायबलोदयः ।
 आसेदे नृपचक्रेण समुदायबलोदयः ॥
- इति युद्धवर्णनो नामाष्टादशः सर्गः

अहनोसानुद्धो रणवहोपहृतमिपोवधारणे ।

पुरुषवरेण खगं सेदुरादुतोसभासदि ॥

इति संस्कृते प्राकृतसमादेशे एकोनविंशः सर्गः

अद्वावर्चाचाटुचर्याभिरुच्चैः कृत्वेत्यजिज्जिनिजभ्याजनस्य (?) ।

आज्ञाधीयां दाक्षिणात्ये क्षितोशे पृथ्वीभूते शखिनीवानिलेन ॥ . . .

इति श्रीभट्टशिवस्वामिनः कृतौ कण्फणाभ्युदये महाकाव्ये अभ्यु-
दयलाभो नाम विंशः सर्गः

20. 21. कृष्णकर्णामृतम् सव्याख्यानम् ॥

Beginning :

चिन्तामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरुर्मै

शिक्षागुरुश्च भगवान् शिखिपिच्छमौलिः ।

यत्पादकरूपतरुपल्लवशेखरेषु

लीलास्वर्यंवररसं लभते जयश्रीः ॥ 1 ॥

श्रीरामं सीतया साकं मुकुन्दं मौनिशेखरम् ।

यज्वानं वाजपेयेन यज्ञेशं प्रणतोऽस्म्यहम् ॥

येषां सन्दर्शनादेव पट्टास्त्रीविशगा भवेत् ।

यतीन्द्रान्वासुदेवेन्द्रान् नमामोऽभीष्टसिद्धये ॥

पलुपत्यन्वये जातपापयल्लयसुरिणा ।

कर्णामृतस्य व्याख्यानं क्रियते कृतिनां मुदे ॥

मन्त्रशास्त्रे महाभाष्ये मणौ भीमांसयोस्तदा ।

मनिर्दस्य भवेत्तेन मन्त्रव्याकृतिरीदृशी ॥

तथापि पूर्ण क्षीरेण स्वर्णपात्रं करे वहन् ।
 पिबेति क्षीरदाता मे सहाय इति साहसम् ॥
 पेद्भिभट्टादिभिः प्राप्ययशसे प्रार्थना न मे ।
 किन्तु कृष्णस्मृतिर्नित्यं भवत्विति मनिर्मम ॥
 अर्थान्तरपरिस्फूर्तिर्यत्र कापि भवेद्यदि ।
 भाष्टप्राभाकरौ दृष्ट्वा परितुप्यन्तु ते जनाः ।
 अज्ञानाद्यत्र कुत्रापि विपरीतार्थवर्णनम् ।
 कृतं चेच्छोध्यतां तत्तद्विद्वद्भिर्वीतमत्सरैः ॥

तत्र प्रथमशतके आदित आरभ्य केषु चिच्छ्लोकेषु मम मनः कृष्ण
 एव प्रवर्ततां नान्यत्रेति प्रार्थना मनस्स्वास्थ्ये सति तदनन्तरं केषु
 चिच्छ्लोकेषु कृष्णचाक्षुषताप्रार्थना चाक्षुषसाक्षात्कारे सति केषु चिन्नम-
 स्कारादिकमिति श्लोकानां क्रमो ज्ञेयः ॥ अत्र ग्रन्थकर्ता ग्रन्थं चिकीर्षु-
 रादौ गुरून्महीकरोति ॥ चिन्तामणिरिति ॥ चिन्तामणिर्नाम मन्त्रविशेषः
 यच्चिन्तनवशात्कृतार्थोऽभूत्कविः स जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तत इत्यर्थः ।

ननु गुरुं प्रकाशयेद्दीमान्नतु मन्त्रं प्रकाशयेत् । इति चेन्न । तच्चि-
 न्तामणिमन्त्रचिन्तनफल इत्यादिना श्रीहर्षेण प्रकाशितत्वात् । स्मृतिस्तु
 साध्यमन्त्रविषया न तु सिद्धमन्त्रविषयेति ज्ञेयम् । यद्वा चिन्तामणिरिति
 कश्चिद्योगी यत्सन्निधानेन कविना योगाभ्यासः कृतः । यद्वा चिन्ताम-
 णिरिति श्रीकाकुलेश्वरानुग्रहवशान्निर्मलान्तरङ्गा काचिद्धारवनितेति वा ।
 यद्वा चिन्तामणिरिति सोमगिरेर्विशेषणमस्मिन्पक्षे चिन्तामणिवदभी-
 ष्टप्रदा सोमगिरिर्नाम काचिद्धारवनितेति वा । यद्वा उक्तविशेषणविशिष्टः
 सोमगिरिर्नाम महावाक्योपदेष्टा गुरुः संप्रदायप्रवर्तकः मे मम गुरुः
 जयति शिक्षागुरुरन्तर्यामित्त्वेन शिक्षकः शिखिनो मयूरस्य पिञ्छं बर्हं
 मौलौ शिरसि यस्य तत्तथोक्तः । भगवान् षड्रुणैश्वर्यसंपन्नः श्रीकृष्ण

इत्यर्थः सोऽपि जयति येषां पादावेव कल्पतरुपञ्चवशेखराणि कल्पवृक्ष
 किसलयश्रेष्ठानि तेषु विषये जयश्रीः लीलाः विलासाः ताभिर्भुते स्वयं-
 वरे रसमनुरागं लभते 'लीला विलासक्रिययोः' 'गुणे रागे द्रवे रस' इति
 चामरः । कृष्णादिपादविषयकस्वयंवरेऽनुरागं प्राप्तवती जयश्रीरित्यर्थः ।
 रूपकालङ्कारः ॥ 1 ॥

End :

अत्रापि मत्प्रणीतकर्णामृतग्रन्थेऽपि तां तां प्रीतिं कुरु वीप्सायां
 द्विर्भावः ॥ 106 ॥

Colophon :—इति श्रीलीलाशुकविरचिते श्रीकृष्णकर्णामृतस्तोत्र-
 रत्ने तृतीयशतकं समाप्तम् ॥

कृष्णकर्णामृतम् (सव्याख्यानम्) द्वितीयशतकम्.

एकतः सिद्धकोदण्डवाणानप्यैक्षवं धनुः ।

पुष्पास्त्रायेव वेण्यादि नमो रामाय गृह्यते ॥

शतकान्ते तद्वैभवमेव मदीयज्ञानकरणं गोचरयत्वित्युक्तं तद्वैभवमे-
 वाह अभिनवेत्यादिना ।

अभिनवनवनीतस्निग्धमापीतदुग्धं-

दधिकणपरिदिग्धं मुग्धमङ्गं मुरारेः ।

दिशतु भुवनकृच्छ्रच्छेदि तापिञ्छमुच्छ-

च्छत्रि नवशिखिपिञ्छालाञ्छितं वाञ्छितं नः ॥

अभिनवेति॥अभिनवनवनीतेन नूतननवनीतेन स्निग्धं स्वच्छं आ-
 पीतं ईषत्पीतवर्णं दुग्धं क्षीरविन्दवो यस्य तत् ईषत्पीतवर्णक्षीरकणैर्व्याप्त-
 मित्यर्थः । यद्वा पीयमानं दुग्धं येन तत्तथोक्तमिति वा दधिकणैः परिदिग्धं
 समन्ताद्रूपितं तापिञ्छस्य तमालवृक्षविशेषस्य । कालस्कन्धस्तमालः स्यात्

तपिञ्छोप्यथसिध्रक इत्यमरः । गुच्छानां स्तवकानां छविरिव कान्ति-
रिव कान्तिर्यस्य तत् नवया नूतनया शिखिपिञ्छया मयूरवर्हेण लाञ्छि-
तमलङ्कृतां यद्वा नवेन शिखिपिञ्छेन आलाञ्छितं ईषदलङ्कृतमिति
वा पिञ्छाशब्दस्य अकारान्तप्रयोगो निघण्ट्वन्तरेषु मृग्यः । तद्गुक्तं
चम्पुरामायणे । इन्द्रजालविधिसाधकपिञ्छिकेवेति भोजराजप्रयोगः । भुव-
नानां समस्तजनानां कृच्छ्रमुपद्रवं छेदितुं शीलमस्यास्तीति तथोक्तं
मुरारेः कृष्णस्य मुग्धं सुन्दरं । मुग्धः सुन्दरमूढयोरित्यमरः । अङ्गं शरीरं
नः अस्माकं वाञ्छितं अभीष्टं दिशतु ददानु ॥ 1 ॥

End :—

हे गोपालकेति ॥ गाः पालयतीति गोपालकः तस्य संबुद्धिः, कृपा
दया सैव जलं तस्य निधिः समुद्रः तस्य संबुद्धिः, सिन्धोः कन्या लक्ष्मीः
तस्याः पतिः तस्य संबुद्धिः, कंसस्य अन्तकः शत्रुः तस्य संबुद्धिः,
गजेन्द्रे करुणा दया तस्याः पारं परतीरं अन्तरमिति यावत् तत्प्राप्तः
पारीणः तस्य संबुद्धिः गजेन्द्रनिमित्तमत्यन्तदयां कुर्वन्नित्यर्थः माधवः
लक्ष्मीधवः तस्य संबुद्धिः, रामः बलरामः तस्यानुजः कनीयान् तस्य
संबुद्धिः, जगतां त्रयं जगन्नयं तस्य गुरुः शिक्षकः तस्य संबुद्धिः, पुण्ड-
रीकाक्ष सितांभोजनयन गोपीजनानां वल्लवीजनानां नाथः कान्तः तस्य
संबुद्धिः मां पालय रक्ष । त्वां विना परमन्यं देवतान्तरमित्यर्थः न स्मरामि
त्वद्यतिरिक्तं देवतान्तरमिति न स्मरामि त्वमेव मां पालयेति भावः ॥108॥

22. श्रुतिरञ्जनी अष्टपद्मीव्याख्या.

Beginning :

धवलजलदवर्णं चन्द्रमःखण्डचूडं

परशुहरिणहस्तं ज्ञानमुद्राभिरामम् ।

भुजगवरविराजत्कङ्कणाजानुबाहुं
 दलितनिजजनार्तिं दक्षिणामूर्तिमीडे ॥
 अस्त्यान्धदेशे चरकूरिवंश्यः कृष्णातटे काश्यपगोत्ररूढः ।
 यो बह्वृचानां बहुमाननीयो धत्ते सदा कीर्तिमुवैजयन्तीम् ॥
 आसत्तपूरुषं यत्र लक्ष्मीवाण्योरवस्थितिः ।
 आसीत् कपोतलिङ्गस्य वरात् कुण्डलिवासिनः ॥
 यत्र नामादिमशिशोरङ्कितं वेङ्कटेशितुः ।
 सलक्ष्मीकस्त एवाचर्यो भगवान् गृहदेवता ॥
 तत्रोद्भूत्तिम्मयसोमयाजिबुधोऽष्टभाषाकविपटुभद्रः ।
 नित्यान्नदाता निजभक्तिलब्धवृषाकपायीरमणप्रसादः ॥
 तस्मादुदैद्बह्वृचचक्रवर्ती यज्ञेश्वरः पण्डितसार्वभौमः ।
 सर्वाम्बिका सर्वगुणोपपन्ना तस्य द्वितीयाभवद्म्बिकाभा ॥
 ताभ्यामुदभवन् पुत्राः सर्वाचारनियामकाः ।
 विधिमन्त्रार्थवादज्ञाश्चत्वारो निगमा इव ॥
 षड्दर्शनीतत्वविवेककर्ता स्वशिष्यसंपादितदिग्जयश्रीः ।
 तेष्व्वादिमः पण्डितपटुभद्रः श्रीकोण्डुभट्टो जयतीह लोके ॥
 लक्ष्मीधरस्तदनुजो दक्षिणामूर्तिकिङ्करः ।
 सर्वविद्वत्कविमतः सज्जनाप्तो विराजते ॥
 षड्भाषाचन्द्रिका धेन कृताथो रत्न(स्वर)मंजरी ।
 प्रसन्नराघवव्याख्या रचिताथ हरेर्मुदे ॥
 तेन लक्ष्मीधरार्येण क्रियते श्रुतिरञ्जनी ।
 विद्वत्कविमुदे गीतगोविन्दस्यार्थदीपिका ॥

न बुध्यते बुधैर्गीतगोविन्दस्यार्थगौरवम् ।
 व्याख्यानशतकेनापि विहाय श्रुतिरञ्जनीम् ॥
 यदत्रेष्टं न लिखितं यद्विरुद्धमनीप्सितम् ।
 त्रितयं तस्य हे सन्तः क्षम्यतां कृपया मायि ॥
 यत्नेन गच्छतः कापि स्वलनं स्यान्महीयसः ।
 हसन्त्यसाधवस्तत्र समादधति साधवः ॥
 रत्यलङ्कारसंगीतशब्दशास्त्रविचक्षणैः ।
 विलोकनीया विद्वद्भिर्व्याख्या सा श्रुतिरञ्जनी ॥

अथ खलु तत्रभवान् जयदेवनामा महाकविः सङ्गीतसाहित्यसा-
 रस्य पारदृश्या गीतप्रबन्धनिर्माणवशेन सकलपुरुषार्थसंपादनमन्दारायमा-
 णां गोपिकामनोहरमनोहरवर्णानां मनसि निधाय चिकीर्षितस्य गीतगो-
 विन्दाख्यप्रबन्धस्याविवेकेन परिसमाप्तिप्रचयगमनमाशासानः “काव्यं
 यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । सद्यः परनिर्घृतये कान्तास-
 म्मिततयो पदेशयुजे” ॥ इत्यालङ्कारिकवचनप्रमाण्यात् काव्यस्यानेक-
 श्रेयस्ताधनतां च पश्यन्नाशीर्निमस्क्रि यावस्तुनिर्देशो वापितन्मुखमित्यार्थपरि-
 पाटीमनुसरन् कात्यायनीसमाराधनाय कालिन्दीतटं प्रतिगतस्य नन्दगो-
 पस्योक्तिव्याजेन प्राप्तं राधामाधवयोर्विहाररूपं वस्तु काव्यबीजत्वेन
 निर्दिशति ॥

मेवैरिति ॥ मेधैर्मेदुरमम्बरं वनभुवः श्यामास्तमालद्रुमैः
 नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय ।
 इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयोः प्रत्यध्वकुञ्जद्रुमं-
 राधामाधवयोर्जयन्ति यमुनाकूले रहःकेलयः ॥

अत्र “मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि हि शास्त्राणि प्रथन्त”
 इति न्यायेन पद्यादौ माङ्गल्यशब्दे प्रयोक्तव्ये सति श्रीप्रदगुरुत्रयात्मक-
 भूमिदेवताको मगण आदौ प्रयोज्यः । उक्तं च मगणस्य श्रीप्रदत्वम् ।

*

*

*

*

Colophon :—श्री श्रीमदखिलविद्यापरिवारदक्षिणामूर्तिमहादेवप्र-
सादलब्धविद्यापूर्वोत्तरमीमांसाशब्दतर्कसाहित्यसर्वभौमचरकूरिकोण्डुभट्टो-
पाध्यायानुजेन सर्वाम्बिकागर्भशुक्तिमुक्तामणिना लक्ष्मणसूरिणा विरचि-
तायां गीतगोविन्दव्याख्यायां श्रुतिरञ्जनीसमाख्यायां पञ्चमस्तर्गः ॥

23. नीलकण्ठविजयचम्पुः (त्रय आश्वासाः).

(अममग्रः)

Beginning :

वन्दे वाञ्छितलाभाय कर्म किं तन्न कथ्यते ।

किं दम्पतिमिति ब्रूयामुताहो दम्पती इति ॥ 1 ॥

दृष्ट्वा कौस्तुभमप्सरोगणमपि प्रक्रान्तवादा मिथो

गीर्वाणाः कति वा न सन्ति भुवने भारा दिवः केवलम् ।

निष्क्रान्ते गरले द्रुते सुरगणे निश्चेष्टिने विष्टपे

मा भैष्टेति गिराविरास धुरि यो देवस्तमेव स्तुमः ॥ 2 ॥

कति कवयः कति कृतयः कति लुप्ताः कति चरन्ति कति शिथिलाः ।

तदपि प्रवर्तयति मां शङ्करपारम्यसङ्कथालोभः ॥ 6 ॥

चौर्येण प्रणयेन वापहरतः पङ्क्तिषु गव्यान्यापे

स्त्यायन्ते चरितानि चेत्कविकुलोद्गीतानि गाथाशतैः ।

त्रैलोक्योत्कटकालकूटकवलीकारप्रकारं पुनः

स्तोतुं के प्रथमेऽपि नाम कवयोर्दूरोऽधिकारस्तु नः ॥ 9 ॥

अष्टत्रिंशदुपरुतसप्तशताधिकचतुस्तहस्रेषु ।

कलिवर्षेषु गनेषु ग्रथितः किल नीलकण्ठविजयोऽयम् ॥ 10 ॥

अस्ति समस्तसुरासुरस्तोमवन्दितचरणारविन्दस्य भगवतो महेन्द्रस्य
स्थानमास्थानममृतान्धसामायतनमाश्चर्याणामाकरो रत्नानामवाधिर्वैपयिका-
नन्दस्य किमपरमगोचरे गिरामभरावती नाम नगरी॥

जानाम्यहमुमाकान्तं जानासि त्वं च मद्विरा ।
जानन्ति किमिमे मूढास्तत्सम्यगनुशिष्यताम् ॥

इति परमुपदेशं देशिको देवतानां
निरुपधिकरुणाब्धिर्निर्जरेभ्योऽवतीर्य ।
स्वयमपि हृदि गाढं चिन्तयन्निन्दुचूडं
मिषति कमलपीठे पद्मनाभस्तिरोऽभूत् ॥

अथ यथोपदेशमिन्दिरापतेरादिश्यादेष्टव्यमन्तर्हिते पितामहे पूर्ण-
मनोरथा दिवोकसः पुरहराराधनकौतूहलेन पुनरासेदुरुपत्यकां परमा-
नन्दमन्थरा मन्दराद्रेः ॥

Colophon :—इति श्रीमद्भरद्वाजकुलजलधिकौस्तुभश्रीकण्ठमतप्र-
तिष्ठापनाचार्यचतुरधिकशतप्रबन्धनिर्वाहकश्रीमन्महाव्रतयाजिश्रीमदप्प-
यदीक्षितसोदर्यश्रीमदाञ्जादीक्षितपौत्रेण श्रीमन्नारायणदीक्षितपुत्रेण भूमि-
देवीगर्भसंभवेन नीलकण्ठदीक्षितेन विरचिते चम्पुकाव्ये द्वितीय
आश्वासः ॥

उपासीना नानाविधिभिरुपहारैश्च विविधै-
श्शरण्यं लोकानां शशधरकलोत्तंसममराः ।
मृषा सन्धितन्तः प्रकृतिकुटिलैर्दानवगणै-
र्विरिञ्चस्यादेशादवृणुत गुरुं दूत्यविधया ॥

निर्मग्नमन्दरमणिद्युतिसंप्रदिग्धा निष्पेतुरम्बरतले पयसः कणा ये ।
लम्बाश्चिरायं लिङ्गुचामलकाम्रमात्रास्तारास्त एव परिणेमुरिति प्रतीमः ॥

पथि गिरिवरादस्माद्गारावसन्नसुरासुर
 प्रतिपदकृतस्कन्धव्यत्याससंत्रमकम्पितात् ।
 मणिभिरभितो यस्यां यस्यां भुवि स्वलितं क्वचित्
 समजनि-खनिस्ता सा नाम स्थलेषु जलेषु च ॥

अपिच ॥ विदरादम्बरतलादापततोऽस्य महता वेगेन प्रकीर्यमाणे
 पर्यन्तगते परिपीवीयमाने च दरीमुखैरेव परिसरगते च पयसि शून्यमिव
 निरवशेषमणीव मन्यमाना

24. अनर्घराघवम्.

Beginning :

निम्प्रत्यूहमुपास्महे भगवतः कौमोदकीलक्ष्मणः
 कोकप्रीतिचकोरपारणपटुज्योतिष्मती लोचने ।
 याभ्यामर्धविवोधमुग्धमधुरश्ररिर्द्धनिद्रायितो
 नाभीपल्वलपुण्डरीकमुकुलः कम्बोत्सपत्नीकृतः ॥
 विरमति महाकल्पे नाभीपथैकनिकेतनः
 त्रिभुवनपुरशिशल्पी यस्य प्रतिक्षणमात्मभूः ।
 किमधिकरणं कीदृक्कस्य व्यवस्थितिरित्यसा
 बुदरमविशङ्कष्टुं तस्मै जगन्निधये नमः ॥

नान्यन्ते सूत्रधारः ॥ लवणोदवेलावनालीतमालकन्दलस्य त्रिभुव-
 नमौलिमण्डनमहानीलमणेः कमलाकुचकलशकेलीविरचितकस्तूरिकाप-
 त्राङ्कुरस्य भगवतः पुरुषोत्तमस्य यात्रायामुपस्थानीयास्तभासदः । दतः
 कुतश्चिद्वीपान्तरादागतेन कलहकन्दलनाम्ना कुशीलवेन रौद्रवीभत्स-
 भयानकभूषिष्ठं कमपि प्रबन्धमभिनयता नित्यङ्किलायमुद्वेजितो लोकः ।
 तत्कस्यचिदाभिमतसभाजः प्रेक्षणकस्य प्रयोगानुज्ञया नाव्यवेदोपाध्याय-
 बहुरूपांतेवासीमध्यदेशीयस्सुचरितो नाम भरतपुत्रो भवद्भिरनुगृह्यै ॥

प्रीतिर्नाम सदस्थानां प्रिया रङ्गोपजीविनाम् ।
जित्वा तदपहर्तारमेव प्रत्याहरामि ताम् ॥

(आकाशे कर्णं दत्त्वा) किं ब्रूथ वैदेशिको भवानसमग्रपात्रः
कथमीदृशे कर्मणि प्रगल्भत इति (विहस्य सप्रश्रयमञ्जलिं बध्वा) हन्त भोः
किमेवमुदीर्यते भवद्विधानामाराधनी प्रवृत्तिरेव मे पात्राणि समग्रयिष्य-
ति । यतः

यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तिर्यञ्चोऽपि सहायताम् ।

अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुञ्चति ॥

तत्रापि तावन्निरूपयामि रूपकमभिरूपमीदृशम् । मुहूर्तमिव स्थित्वा
स्मरणमभिनीय सोच्छासं । अस्ति मौद्गल्यगोत्रसंभवस्य महाकवेर्भट्टश्रीवर्ध-
मानतनूजन्मनस्तन्तुमतीनन्दनस्य मुरारिकवेः कृतिरभिनवमनर्घराघवं नाम
नाटकं तत्प्रयुञ्जानास्तामामाजिकानुपास्महे । विचिन्त्य सहर्षम् । अहो परिष-
दाराधनस्य रमणीया खल्वियं सामग्री ।

यतः ॥ मद्दुर्गा रसपाठगीतिगतिषु प्रत्येकमुत्कर्षिणो
मौद्गल्यस्य कवेर्गभीरमधुरोद्गारा गिरां स्यूतयः ।
धीरोदात्तगुणोत्तरो रघुपतिः काव्यार्थवीजं मुनि
वाल्मीकिः फलति स्म यस्य चरितस्तोत्राय दिव्या गिरः ॥

*

*

*

*

End:

वसिष्ठः ॥ सहर्षं किं ते भूयः प्रियमुपहरामि ॥

रामः ॥ किमपरं प्रियमस्ति.

ताताज्ञामधिमौलि मौक्तिकमणिं कृत्वा महापोत्रिणो
दंष्ट्राविन्ध्यविलासपत्रशबरी दृष्टा भृशं मेदिनी ।
सेतुर्दक्षिणपश्चिमौ जलनिधी सीमन्तयन्निर्मितः
करुपान्तं च कृतं च सर्वमदशग्रीवोपसर्पं जगत् ॥

तथापीदमस्तु भरतवाक्यं ॥

समुन्मीलत्सूक्तिस्तवकमकरन्दैः श्रवणयो-

रविश्राम्यद्धारासनपनमुपचिन्वन्तु कवयः ।

न शब्दब्रह्माख्यं परिमलमनाघ्राय च जनः

कवीनां गम्भीरं वचसि गुणदोषौ रचयतु ॥

अपिच ॥ देवस्यात्मभुवः कमण्डलुजलस्रोतांसि मन्दाकिनी-

गङ्गाभोगवतीमयानि पुनते यावन्निलोकीमिमाम् ।

तावद्दीरयशोरसायनमधुस्यन्दः कवीनामयं

जागर्तुं श्रुतिशङ्कुलीवलयितव्योमावगाही गुणः ॥

इति निष्क्रान्तास्सर्वे ॥

Colophon :— इति श्रीमुरारिकृतावनर्घराघवे सप्तमोऽङ्कः ॥

25. अनर्घराघवव्याख्या (इष्टार्थकरूपवल्लीसमाख्या).-

Beginning :

ओङ्कारार्थाय विज्ञानदायिने लोकसाक्षिणे ।

करुणानिधये श्रीमद्दक्षिणामूर्तये नमः ॥

अस्त्यान्ध्रदेशे चरकूरिवंश्यः कृष्णातटे काश्यपगोत्ररूढः ।

यो बहुचानां बहुमाननीयो धत्ते सदा कीर्तिमुवैजयन्तीम् ॥

नित्यान्नदाता निजभक्तिलब्धवृषाकपायीरमणप्रसादः ।

तस्मादुदैद्वहृचचक्रवर्ती यज्ञेश्वरः पण्डितसार्वभौमः ॥

सर्वाभिवका सर्वगुणोपपन्ना तस्य द्वितीयाभवदभिवकाम्बा ।

ताभ्यामुदभवन् पुत्राश्चत्वारः श्रीनिकेतनाः ।

विधिमन्त्रार्थवादज्ञाः चत्वारो निंगमा इव ॥

पद्दर्शनीतत्त्वविवेककर्ता स्वाशिष्यसम्पादितदिग्जयश्रीः ।

तेष्वादिमः पण्डितपट्टभद्रः श्रीकोण्डुभट्टो जयतीह लोके ॥

लक्ष्मीधरस्तदनुजो दक्षिणामूर्तिकिङ्करः ।
 सर्वविद्वत्कविमतो जयति क्षमातले सुधीः ॥
 सगार्हस्थ्ये चिरं स्थित्वा जित्वा सर्व दिशस्सुधीः ।
 सन्यस्याजनि योगीन्द्रो रामानन्दाश्रमाभिधः ॥
 जगत्प्राणात्वादी प्रतिदिनमधस्तात्समुषितः
 सदा रन्ध्रान्वेषी कुटिलतमवृत्तेन सहितः ।
 द्विजिह्वानां वश्यः परुषविषसंस्पृष्टवचनः
 कथं रामानन्दाश्रममुनितुलामेष्यति पतिः ॥
 स करोति महायोगी मीमांसाद्वयपारगः ।
अनर्घराघवव्याख्यां प्रीतये विदुषां शुभाम् ॥'
 प्रमादादन्यथाबोधादज्ञानाद्वा विलिख्यते ।
 यदत्र तन्मया सद्भिः क्षन्तव्यं कृपया मयि ॥

अथ तावन् तत्रभवान् मुरारिर्नाम महाकविः प्रसिद्धकविसार्वभौमः
 सकलतन्त्रस्वान्त्रः सङ्गीतसाहित्यसारस्यपारदृश्या नाटकनामधेयरूपकनि-
 रूपणापदेशेन सकलपुरुषार्थसन्तानसम्पादनसन्तानाद्यमानमनन्तात्तनया-
 नयनचकोरिकाचन्द्ररामचन्द्रचरितगुणवर्णनं मनसि निधाय चिकीर्षितस्य
 नाटकप्रबन्धस्याविन्नपरिसमाप्तिप्रचयगमनमाशासानः काव्यं यशसे . .

इति परिपाटीमनुरुन्धन्नाटकादौ कर्तव्यां पूर्वैरङ्गप्रधानाङ्गभूतां
 नान्दीमादावाचरति निष्प्रत्यूहमिति अत्र ॥ भगवतः पुरुषोत्तमस्य ते
 लोचने निष्प्रत्यूहं विघ्नाभावावोपास्महे मनोवाक्कायकर्म्मभिः भजाम इति
 क्रियाकारकसम्बन्धः ॥ उत्तरवाक्यस्थो यच्छब्दस्तच्छब्दोपादानं नापेक्षत
 इति नात्र तच्छब्दप्रयोगापेक्षा . . ,

End :

सद्यः रावणहननानन्तरमेव भद्रपीठप्रतिष्ठं सिंहासनारूढं अन्धं
रावणाङ्घ्रिन्नं नत्तारं विभीषणारूपं प्रपौत्रं दृष्ट्वा तुप्यन् विभीषणपट्टाभिपे-
कावलोकनेन गतरावणच्छेश इत्यर्थः एतादृशपुलस्त्यो रावणपितामहो
यस्य तथोक्तः विभीषणराज्यदानेन पुलस्त्यसन्तोष एवं विधः एषः जान-
कधेव जाया यस्य स जानकीजानिः जायाया निड् इति निड् जगति
जगत्सु विजयते सर्वोत्कर्षेण वर्ति पश्येति वाक्यशेषः । अनेन कृतकृत्यता
सूचिता पात्रैस्त्रिचतुरैरङ्गस्तदन्ते सर्वनिर्गम इति वचनार्थं मनसि निधाय
अङ्गपरिसमाप्तिं सूचयति इति निष्क्रान्ताविति अङ्ग इति अङ्गं प्रत्यक्षने-
तृरूपरामचरितत्वात् नानाविधानसंविधानरसाश्रयत्वाच्चेति सर्वं भद्रम् ॥

Colophon :—इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्यकृष्णाश्रमपादशि-
ष्यरामानन्दविरचितायां अनर्घराघवव्याख्यायां इष्टार्थकल्पवल्लीसमाख्या
यां षष्ठोऽङ्कः ॥

26. प्रबोधचन्द्रोदयः.

Beginning :—

मध्याह्नार्कमरीचिकास्त्रिव पयःपुरो यदज्ञानतः
खं वायुर्ज्वलनो जलं क्षितिरीति त्रैलोक्यमुन्मीलति ।
यत्तत्त्वं विदुषां निमीलति पुनः स्वर्गभोगिभोगोपमं
सान्द्रानन्दमुपास्महे तदमलं स्वात्मावबोधं महः ॥

आपिच ॥ अन्तर्नाडीनियमितमरुच्छङ्खितब्रह्मरन्ध्रं
स्वान्ते शान्तिप्रणयिनि समुन्मीलदानन्दसान्द्रः ।
प्रत्यग्ज्योतिर्जयति यमिनः स्पष्टलालाटनेत्र-
व्याजव्यक्तीकृतमिव जगद्ध्यापिचन्द्रार्धमौलेः ॥

नान्द्यन्ते सूत्रधारः ॥ आदिष्टोऽस्मि सकलसामन्तराजन्यचक्रचूडा-
मणिमरीचिमञ्जरीनीराजितचरणकमलेन बलवदरिनिवहवक्षःकवाठपाटन-

विकटितनृसिंहरूपेण स्वलनरनरपतिकुलप्रलयकालमहार्णवमग्नमेदिनी-
समुद्धरणमहावराहेण निखिलदिग्विलासिनीकर्णपूरीकृतकीर्तिमौक्तिकेन स-
मस्ताशास्तम्बेरमकर्णतालास्फालनबहुलवातसम्पातनर्तितप्रतापानलेन श्री-
मत्ता गोपालेन यथास्वलु सहजसुहृदो राज्ञः कीर्तिवर्मदेवस्य दिग्विजय-
व्यापारान्तरित परब्रह्मानन्दैरस्माभिरस्खलित नानाविधविषयरसविदूषिता
इवातिवाहिता दिवसाः इदानीं कृतकृत्या वयम् ।

यथा ॥ नीताः क्षयं क्षितिभुजो नृपतेर्विपक्षा-
रक्षावती क्षितिरभूत् प्रथितैरमात्यैः ।
साम्राज्यमस्य विहितं क्षितिपालमौलि-
मालार्चितं भुवि पयोनिधिमेखलायाम् ॥

यत्पूर्वमत्रभवद्भिः कृष्णमिश्रैः प्रबोधचन्द्रोदयं नाम नाटकं निर्माय
भवतः समर्पितमासीत् तदद्य राज्ञः कीर्तिवर्मणः पुरस्तादभिनेतव्यमिति ।
अस्ति चास्य भूपतेः परिपदस्तदवलोकने कुतूहलमिति तद्भवतु गृहं गत्वा
गृहिणीमाहूय सङ्गीतकमनुतिष्ठामीति (परिक्रम्य नेपथ्याभिमुखमवलोक्य
आर्ये) इत इतः (प्रविश्य) नटी ॥ एसम्मि आणवेदु अ (आ एषास्म्या-
ज्ञापयत्वार्यः) को णिओओ अणुचि टि अदुत्ति (को नियोगोऽनुष्ठीयता-
मिति) ॥

सू ॥ आर्ये विदितमेव भवत्या ॥

अस्ति प्रत्यर्थिष्ठथ्वीपतिविपुलबलारण्यमूर्च्छत्प्रताप-
ज्योतिर्ज्वालावलीढत्रिभुवनविवरो विश्वविश्रान्तकीर्तिः ।

गोपालो भूमिपालान् प्रसभमसिलतामात्रमित्तेण जित्वा
साम्राज्ये कीर्तिवर्मा नरपतितिलको येन भूयोभ्यषेचि ॥ . . .

तेन शान्तपथस्थितेनात्मविनोदाय प्रबोधचन्द्रोदयं नाम नाटकमभि-
नेतुमादिष्टोऽस्मि तदादिश्यतां वर्णिकापरिग्रहणाय

येन च ॥ विवेकेनेव निर्जित्य कर्णं मोहमिवोर्जितम् ।

श्रीकीर्तिवर्मनृपतर्वोधस्येवोदयः कृतः ॥

नेपथ्ये ॥ पाप शूलूपापशद । कथमस्नासु जीवत्सु स्वामिनो महामो-
हस्य विवेकसकाशात्पराजयमुदाहरसि ॥

सूत्र ॥ आर्ये ससंभ्रममुपसर्पावः । अवलोक्य ।

उनुङ्गपीवरकुचद्वयपीडिताङ्गमालिङ्गिताः पुलकिनेन भुजेन रत्याः ।

श्रीमान्जगन्ति मदयन्नयनाभिरामः कामोऽयमेति मदघूर्णितनेत्रपद्मः ॥

मद्वचनाञ्चायमुपजातकोप इवालक्ष्यते तदस्माकमपसरणमेवेतः श्रेयः ॥
इति निष्क्रान्तौ । प्रसावना ॥

ततः प्रविशति यथादिष्टो रत्या सह कामश्च ॥

End :

विष्णुभक्तिः (पुरुषमुत्थापयति) उत्तिष्ठे वत्स किन्ते भूयः प्रियमुप-
हरामि ॥

पुरु ॥ किमतः परं प्रियमस्ति ॥

प्रशान्तारातिरगमद्विवेकः कृतकृत्यताम् ।

नीरजस्के चिदानन्दे पदेऽस्म्यभिनिवेशितः ॥

तथापीदमस्तु

संसारपारसिन्धुडवकुशलमहाकर्णधारे मुरारौ

भक्तिर्मुक्तिप्रसारा प्रसरतु जननी सर्वकालं जनस्य ।

किञ्चानन्यप्रकाशं परममलमजं ज्योतिरानन्दसान्द्रं

शान्तात्मानो मुनीन्द्राः प्रमुदितमनसः सन्ततं भावयन्तु ॥

यतः । पूर्वं तावद्विवेकप्रमुखनिजबलैर्निर्जिते सानुबन्धे

मोहेऽस्माकं कुलारौ तदनु समुदिते हन्त वैराग्यमूर्धे ।

शान्तिश्रद्धादियत्नात्पुनरुपनिपदासादितात्संप्रयोगा-

दस्माभिः सत्प्रसाद्गाढुवमयमनुना लब्ध एव प्रबोधः ॥

भरतवाक्यम् ॥ पर्जन्योऽरिमन्जगति महती दृष्टिमिष्टां विधत्ता-
 राजानः क्षमां गलितविविधोपहृवाः पालयन्तु ।
 तच्चोन्मेषाद्विगततमसस्त्वत्प्रसादान्महान्तः-
 संसाराब्धिं विषममतुलातङ्कपङ्कं तरन्तु ॥

तथा भवत्विति निष्क्रान्ताः सर्वे ॥ इति षष्ठाङ्कः ॥

Colophon: — प्रबोधचन्द्रोदयं नाम नाटकं सम्पूर्णम् ॥

27. प्रसन्नराधवम् .

(प्रथमद्वितीयाङ्कौ समग्रौ तृतीयः ईपदसमग्रः).

Beginning :—

चत्वारः प्रथयन्तु विद्रुमलतारक्ताङ्गलिश्रेणयः

श्रेयः शोणसरोजकोमलरुचस्ते शार्ङ्गिणः पाणयः ।

फालेष्वब्जभुवो लिखन्ति युगपद्ये पुण्यवर्णावलीः

कस्तूरीमकरीः पयोधरयुगे गण्डद्वये च श्रियः ॥ . . .

यः खलु जनकराजस्य राज्ञः सदसि हरचापारोपणं नाम रूपक-
 मभिनीय परितुष्टेनं तेन राज्ञा समर्पितां रङ्गविद्याधर इति ख्यातिं दयिता-
 मिवासादितवान् नटः स पुनरधुना कां दिशमानन्दयति ।

सूत्र ॥ दक्षिणापथं । सा हि ख्यातिरस्य मदीयमेव गुणारामनामेति
 जल्पता नटापशदेन केनाप्यपहता । तेन निजख्यातिं प्रत्याहर्तुं तामेव
 दिशमनुमृतः । अधुना श्रुतमस्माभिः यत्किल सुकण्ठनाम्ना गायकेन सह
 मैत्रीं विधाय दाक्षिणात्यस्य वाहिनीपतेस्तदसि रङ्गसङ्गरमुपक्रान्तवानिति.

नटः ॥ अहो महानुपक्रमः.

सूत्र ॥ कीर्तिं मृणालकमनीयभुजामनिद्र-
चन्द्राननां सितसरोरुहचारुनेत्राम् ।
ज्योत्स्नास्मितां परहतां दयितामिव स्वां
लब्धुं न कः परममुद्यममातनोति ॥

* * * *

विलासो यद्वाचामसमरसनिप्यन्दमधुरः
कुरङ्गाक्षी विम्बाधरमधुरभावं गमयति ।
कवीन्द्रः कौण्डिन्यस्म तव जयदेवः श्रवणयो
रयासीदातिथ्यं न किमिह महादेवतनयः ॥

अपिच ॥ लक्ष्मणस्येव यस्यास्य सुमित्रागर्भजन्मनः ।
रामचन्द्रपदाम्भोजे भ्रमद्भृङ्गायते मनः ॥

नटः ॥ नन्वयं प्रमाणप्रवीणोऽपि श्रूयते तदहमिह चन्द्रिकाचण्डा-
तपयोरिव कवितातार्किकत्वयोरेकाधिकरणतामालोक्य कौतुकितोऽस्मि ।
.

सूत्र ॥ यस्याश्चोरश्चिकुरनिकरः कर्णपूरो मयूरो
भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः ।
हर्षो हर्षो हृदयवसतिः पञ्चवाणश्च वाणः
केषां नेष्टा कथय कविताकामिनी कौतुकाय ॥ . . .

End :

रात्रवेण शिशुनापि गरीयान् लीलयैव नमितो हरचापः ।
दूरमुल्लसति चास्य समन्तादम्बरेऽपि गमितो गुणधोषः ॥

28. 29. मालतीमाधवव्याख्या.

Beginning :—

ऐन्दव्या कलया वतंसितकचं सौन्दर्यसारास्पदं
 कारुण्यामृतपूरपूरितलसञ्छीलाकटाक्षाङ्कुरम् ।
 विशुत्कोटिदिनेशकृण्डलरुचिन्धकारिभाभासुरं
 वन्दे पाशसृणीक्षुचापसुमनोवाणोद्धहं तन्महः ॥
 यद्गण्डमण्डलगलन्मदवारिधाराः
 कर्णद्वयव्यजनवातविधूतशीर्णाः ।
 भक्तान्तरायनिवहा इव सार्यमाणा
 भान्तिद्विपेन्द्रवदनं तमुपाश्रयापः ॥
 एकाम्रमूलनिलयौ करिभूधरनायकौ ।
 काञ्चीपुरीश्वरौ वन्दे कामितार्थप्रसिद्धये ॥
 पदवाक्यप्रमाणज्ञो भवभूर्मिहाकविः ।
 मालतीमाधवं नाम यद्रूपकमरीरचत् ॥
 क्रियते विवृतिस्तस्य भारद्वाजेन धीमता ।
 यज्वनः पर्वतेशस्य सूनुता त्रिपुरारिणा ॥
 सन्ति यद्यपि चैतस्य व्याख्याः प्राच्यस्तथापि ताः ।
 अवक्तव्योक्तिवक्तव्यत्यागाभ्यान्नादृता बुधैः ॥
 अतो मितेन वचसा लब्ध्वा भावप्रदीपिका ।
 मालतीमाधवस्येयं रच्यते रसिकप्रियम् ॥
 अदृष्टपूर्वव्याख्यानमस्तु वैतन्मनोहरम् ।
 अदृष्टदिव्यकान्तानां मानव्य इव कामिनाम् ॥
 प्राग्व्याख्यासन्निधाने वा भवत्वस्योपयोगिता ।
 भानोरसन्निधाने किं न ग्राह्या करदीपिका ॥

तेषामस्मादृशां वैतदुपयोगि भविष्यन्ति ।

सर्वदा सादरं सन्तः प्रतिगृह्णन्त्वमत्सराः ।

को वा प्रणिधिनि प्रहे

अथवा किन्न एतेन दैन्येन यदि मत्कृतेः ।

विशेषश्चेद्विशेषज्ञः प्रतिगृह्णानु तत्तदा ॥

साहित्याध्वपरिक्षुण्णधियामस्मादृशां भृशान् ।

तादृशा एव जानन्ति विद्युरन्ये कथं खलाः ॥

अथ तत्रभवान् भवभूतिः कीर्त्यादिसत्काव्यनिर्माणप्रयोजनप्राप्तये
प्रेक्ष्य प्रबन्धभेदं मालतीमाधवं नाम प्रकरणमकार्षीत् ।

* * * *

चापलं यदकारीदं बालेनापि सता मया ।

गुणैकग्राहिणामेव प्रीतयेऽस्तु महात्मनाम् ॥

इति श्रीमद्भारद्वाजकुलतिलकपर्वतनाथयाज्ञिकनन्दनत्रिपुरारिसूरि-
विरचितायां मालतीमाधवप्रदीपिकायां प्रथमाङ्कविवृतिः समाप्ता ।

जयत्पूर्वपाण्डित्यमहो कुसुमधन्वनः ।

आविरिञ्चप्रपञ्चैकसम्प्रदायप्रवर्तकम् ॥

केनाप्यनुपदिष्टेषु प्रगल्भा येन बालिकाः ।

* * * *

जयन्त्यमृतानिप्यन्दिरसोत्कर्षानुरञ्जिताः ।

मधुरोदात्तगम्भीरा भवभूतिकवेर्गिरः ॥

इति श्रीमद्भारद्वाजकुलतिलकपर्वतनाथयाज्ञिकनन्दनत्रिपुरारिसूरि
विरचितायां मालतीमाधवप्रदीपिकायां द्वितीयाङ्कविवरणं समाप्तम् ॥

अनङ्गशासनवधूमङ्गलोज्जीवनौषधम् ।

अभङ्गुरकृपारज्यदपाङ्गामाश्रये शिवाम् ॥

* * * *

भवभूतिवचोगुम्भरसास्वादनचातुरी ।

यदि विद्येत केषाञ्चिद्विरलानां विपश्चिताम् ॥

इति भरद्वाज * * यज्वनन्दन * * तृतीयाङ्कविवरणम् ।

नमामि मदनानन्दविधानविहितादराम् ।

शम्भुवामाङ्गवामार्शी कामार्शी कामिनास्ये ॥

* * * *

End :

अत्र पानक्रियावर्णनेन बीभत्सरसपोषः प्रादोषिक इति रजनीमुख-
समुद्राः प्रमोदः प्रकृष्टो हर्षः तेषां रात्रिचरत्वात् ॥

30. सुभाषितसुधानिधिः.

Beginning :

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् ।

प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॥

अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् ।

अनेकदन्तं भक्तानामेकदन्तमुपास्महे ॥

ऐश्वर्यमव्याहृतमावहन्तु हेरम्बपादाम्बुजपांसवो नः ।

ये निर्वहन्ति श्रुतिनिर्वहन्तीं सीमन्तसिन्दूरपरागलक्ष्मीम् ॥

उपोद्धानपद्धतिः.

दन्ताग्रं दारयेद्विघ्नान् एकदन्तस्य नः प्रभोः ।

लीलया यस्य संभूतो वलयः कनकाचलः ॥

वीरश्रीकम्पराजोऽस्ति विदुषां सञ्चरन्निधिः ।

यत्कीर्तिकामिनीहस्ते ब्रह्माण्डं कन्दुकायते ॥

स्वमुद्रामुद्रितान् कृत्वा प्रायः प्रत्यर्थिपार्थिवान् ।
 समुद्राधिपतिर्योऽभूत् नाम्बुधिः शतधापरम् ॥
 यस्यातपत्रं विमलं श्यामाकारमलक्षितम् ।
 तदन्तर्वर्तिवसुधाच्छायाच्छन्नमिवादरान् ॥
 यत्कामकणमध्ये तु बद्धां त्यागाय सद्गुणैः ।
 कामधेनुं समालोक्य वृषस्तत्त्व उपाजनि ॥
 यस्य कीर्तिपयोराशौ मग्नं भूमण्डलं महत् ।
 तदन्तर्वारिलीनस्य कूर्मस्य श्रियमावहत् ॥
 मतिमांस्तस्य राज्ञोऽभूमन्न्वी मायणसायणः ।
 यन्मन्त्रेण न सर्पन्ति नित्यं शत्रुविलेशयाः ॥
 यस्य दानाम्भसां पूरैः पङ्क्तिः प्राङ्गणे मुहुः ।
 मग्नं पादमिवोद्धर्तुं न शक्नोति वृषः क्वचित् ॥
 दानसिंहासनारूढे यस्मिन् लक्ष्म्या सह स्थिरम् ।
 तद्भारती च विदुषा जिह्वासिंहासने स्थिता ॥
 यन्द्रष्टुं यद्गुणान्वक्तुं श्रोतुं च सततं मुदा ।
 शेष एवोचितस्तोऽपि भुजङ्गत्वान्न गप्यते ॥
 भारद्वाजान्वयभुवा तेन सायणमन्विणा ।
 व्यरच्यत विशिष्टार्थस्सुभाषितमुधानिधिः ॥
 धर्मार्थकाममोक्षाङ्कं यत्र पर्वचतुष्टयम् ।
 भवत्वपूर्वसन्दर्भं कविकर्णरसायनम् ॥
 स कदाचित्समासेऽथ कम्पभूपं कलानिधिः ।
 अश्रावयदनूनश्रीर्निश्रेयसकरं परम् ॥
 दमश्शीलं गृहस्थस्य पतिः साध्वी सुशी.... : ।
 अज्ञस्मुजनदुर्जन्तुकलिडाम्भिककर्म च ॥

विदुर्दुर्वृद्धिमृत्यू च धर्मसङ्कर एव च ।

* * *

प्रसिद्धं यद्वस्तु प्रथयति विना कारणकलां
जगद्भावप्रख्यं निजरसहराद्धारयति च ।

क्रमात्प्रख्योपाख्याप्रसरमुभंगं भावयति तत्
सरस्वत्यास्तत्त्वं कविसद्गृह्याख्यं विजयते ॥

सरस्वतीविभ्रमदर्पणानां सूक्तामृतक्षीरमहोदधीनाम् ।
सन्मानसोच्छ्वाससुधाकराणां कधीश्वराणां नयति प्रकर्षः ॥

धर्मार्थकाममोक्षेषु वैलक्षण्यं कलामु च ।

करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधुकाव्यनिषेवणम् ॥

सूक्तिसङ्ग्रह एवस्यात् प्रयोक्तृणां मनोमुदे ।

रत्नैः किमुदयाकीर्णैः परिष्कारार्थिनां फलम् ॥

स्थानस्थानार्पणादेव भासते स तु भूयसा ।

हारे वा विपणौ वा किं रत्नराशिर्विशोभते ॥

काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये ।

सद्यः परनिर्घृणये कान्तासम्मिततथोपदेशयुजे ॥

बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवस्समयदूषिताः ।

अत्रोधोपहताश्चान्ये जीर्णमङ्गैः सुभाषितम् ॥

कम्पतं खलगिरा काव्यं लभते भूयसीं रुचिम् ।

वृष्टं श्वदंष्ट्रया हृद्यं यथा हेमाविभूषणम् ॥

सुभाषितं....प्रविशत्यधोगलम्

न दुर्जनस्यार्करिपोरिवामृतम् ।

तदेव धत्ते हृदये सद्दुर्जनो

हरिर्महारत्नमिवातिनिर्मलम् ॥

ओजो रञ्जनमेव वर्णरचना चित्रा न कस्य प्रिया ।
 नानालङ्कृतयो न कस्य मनसस्तोषं समातन्वते ॥
 काव्ये किन्नु सतां चमत्कृतिमनास्तूक्तिप्रबन्धाः स्फुटम् ।
 तीक्ष्णाग्राञ्ज्ञाटिति श्रुतिप्रणयिनः कान्ताकटाक्षादिव ॥

इति प्ररोचनापद्धतिः

* * * *

End :

इति पूर्वपश्चिमसमुद्राधीश्वरारिरायविभालश्रीकम्पराजमहाप्रधान-
 भरद्वाजवंशमौक्तिकमायणरत्नाकरमुद्राकरमाधवकल्पतरुसहोदरसायणार्थ-
 विरचिते मुभापितसुधानिधावर्थपर्वे सम्पूर्णम् ॥

31. अलङ्कारकौस्तुभः (सव्याख्यः).

Beginning :

यन्नाभीजलजोदितः समजनि स्रष्टारिविलानां पुमान्
 यत्पादाम्बुजसङ्गिनी सुरधुनी जाता जगत्पावनी ।
 यद्वक्षोभवनेन्दिरा परिणता विश्वाधिकैश्वर्यदा
 सोऽयं विश्वमभीप्सितं प्रदिशतु श्रीपद्मनाभो ऽ निशाम् ॥

अत्र प्रथमं प्रारिप्सितग्रन्थनिर्विघ्नपरिसमाप्तये मङ्गलमाचरितं तस्य
 च व्यवहारायालङ्कारकौस्तुभ इति नाम निबधन् यत्करोषीत्यादिभगव-
 द्दचनेन तं ग्रन्थं कौस्तुभरत्नत्वेनाध्यवस्यन् वर्णनीयाय भगवते श्रीपद्म-
 नाभाय समर्थयति ॥

श्रीकञ्जनाभकरुणाकलशाब्धिजाता-

लङ्कारकौस्तुभममूल्यसुवर्णकान्तम् ।

तदूरिभासुरगभीरगुणाभिरामं

तस्मै पुनर्भगवतेऽद्य समर्पयामि ॥ 1 ॥

न यद्भवश्चित्रपदमित्यादि श्रीमद्भागवतवचनपर्यालोचनया यथासामो-
दमपि कुसुमं गुणग्रथनमन्तरेण कण्ठे न धार्यते तद्वत्काव्यमपि श्रीपद्मना-
भस्य गुणवर्णनेन विना कण्ठे विबुधा न धारयन्तीत्याह ।

नानालङ्कृतिकेसरैर्नवरसस्यन्दैरमन्दस्फुरत्
व्यङ्ग्यामोदभरैर्यदुज्ज्वलतरं काव्यं प्रसूनं नवम् ।
तद्द्वाराजदुदारनिर्जरगुणग्रामाभिरामं न चेत्
सानन्दं सततं कथन्तु विबुधैः कण्ठेषु संधार्यते ॥

ननु ब्रह्मादीनामपि श्रीपद्मनाभगुणाः वर्णयितुमशक्या इति तत्रा-
ल्पमतेः कथं प्रवृत्तिरित्यत आह ॥

याता यद्गुणलेशलेशकथने ब्रह्मादयो मूकतां
कोऽहं तत्र तथापि सा हिं करुणा वाचालयत्येव माम् ।
कोणे कापि सरोजनाभममितब्रह्माण्डभाण्डावली-
वीथीविष्फुरितोदरं परिममौ तं भिक्षुदण्डेन या ॥

तथा च या रूपा यथा परिमेयतनुं भगवन्तं श्रीपद्मनाभमल्पमपि
भिक्षुदण्डं मानसाधनं कृत्वा परिमातुं प्रवृत्ता तथा साल्पमतिमपि
मां तव साधनं कृत्वा स्तोतुं स्वयमेव प्रवृत्तोति भावः । तस्माद्भगवतः
श्रीपद्मनाभस्य गुणवर्णनेन तदङ्गत्वेन तद्भक्ताग्रेसरश्रीवञ्जिपालरामवर्म-
कुलशेखरनृपगुणवर्णनेन च भवतीं तोषयामीति भारतीं प्रार्थयते ॥

तन्मत्सूक्तिगुणैः शुभां गुणमणीनम्भोजनाभस्य तान्
सङ्गथ्याहमलङ्करोमि भवतीं हरैर्नवैर्भारति ।
तैरेव ग्रथितैस्तदेकशरणश्रीरामवर्मावनी-
पालस्वर्द्धुमकीर्तिसूननिकरैरप्यन्वहं भासुरैः ॥

एवं भारतीमाराध्य कवितारसज्ञानभिष्टौ ति ॥

सारस्यं कतिचित्प्रगल्भकवयः सारस्वतं तच्चतः
 प्रज्ञातुं प्रभवन्त्यपारकृपया देव्या गिरां नापरे ।
 कूजत्कोकिलशारिकाशुकमुखास्तिष्ठन्त्यनेकेन किं
 नीरक्षीरविवेचने पुनरमी हंसाः परं विश्रुताः ॥

नायकनिवासस्थानमभिवर्णयति ॥

प्रफुल्लकमलाञ्चितं प्रथितराजहंसास्पदं
 प्रसन्नरसरागवत्कविकुलं प्रपन्नार्तिहम् ।
 निरन्तरनिषेवितं जयति निस्तुलैर्निर्जरै-
 रनन्तनगरीति तन्नलिननाभधामाद्भुतम् ॥

तत्र वर्णनीयं श्रीपद्मनाभं निर्दिशति ॥

श्रीवैकुण्ठपुरीकवाटपटलीमौनं समुत्पादयन्
 भव्यानन्तपुरीसृतीर्निविडयन् सेवापरैर्निर्जरैः ।
 धून्वन् योगविदां मरुन्निगमनश्रान्तिं सकृत्पश्यता-
 मध्यास्ते परमादिशन्निजपदं यत्पद्मनाभोऽनिशम् ॥

एवं नायकं निर्दिश्य तद्भक्ताग्रेसरश्रीवज्रिपालरामवर्मकुलशेखर-
 सार्वभौमगुणवर्णने सङ्गतिं प्रदर्शयन्नाह ॥

श्रीपद्मनाभपदपङ्कजसक्तचित्तः

तन्वन्कलिं कृतयुगं निरवद्यनीत्या ।

विश्वंभरामवाति तत्पुरमत्यं धारः

श्रीरामवर्मकुलशेखरसार्वभौमः ॥

End:

राराजन्मधुराधरां प्रविलसच्चोलां कनत्कुन्तलां
 काश्मीराङ्गविभूषणातिललितां काञ्चीगुणालङ्कृताम् ।
 क्षोणीं श्रीरघुरामवन्निरुपमां रत्नाकरोरूर्मिका-
 जालान्तामनुरञ्जयत्वनुदिनं श्रीरामवर्मप्रभुः ॥

श्रीमद्वज्रिकुलाम्बुधिर्विजयतामाचन्द्रतारं बुधा-
धारा वज्रधरा श्रियानुपमया देदीप्यतामन्वहम् ।
सत्कल्याणकवेः कृतिर्वितनुतामानन्दमन्तः सतां-
चित्ते स्वेतु रामवर्मनृपतेः श्रीपद्मनाभः सदा ॥

Colophon :—इति श्रीमत्पेरूरुकुलजलधिचन्द्रश्रीरामचन्द्रचरणा-
रविन्दामिलिन्दायमानमानसगोपालविपश्चित्पौत्रेण सुब्रह्मण्यसुधीमणिपुत्रे-
ण कल्याणसुब्रह्मण्यसूरिणा विरचिते अलङ्कारकौस्तुभे संसृष्टिप्रकरणम् ॥

32. कविकल्पलता.

Beginning :

गङ्गावारिभिरुक्षिताः फणिफणैरुत्पल्लवास्तच्छिखा-
रत्नैः कोरकिताः सुधांशुकलया स्मेरैकपुष्पश्रियः ।
आनन्दाश्रुपरिष्ठुतासिहुतभुग्धूमैर्मिलद्दोहदा-
नल्पं कल्पलताः फलं ददतु वोऽभीष्टं जटा धूर्जटेः ॥

मालवेन्द्रमहामात्यश्रीमद्वाग्भटनन्दनः ।

देवेश्वरः प्रतनुते कविकल्पलतामिमाम् ॥ 2 ॥

प्रतिभाभावितात्मानः कवित्वं के न कुर्वते ।

अन्यत्र कविताधानकुशला विरलाः पुनः ॥ 3 ॥

यदन्वैर्वर्त्म न क्षुण्णं तत्र संचरतो मम ।

पदे पदे प्रस्वलतः सन्तस्सन्त्ववलम्बनम् ॥ 4 ॥

कविशिक्षाशतं वीक्ष्य कवीन्द्रानुपजीव्य च ।

निबद्धेयं मया धीरास्त्वरितश्लोकसिद्धये ॥ 5 ॥

सुपुष्परम्यस्तवका सदालिपरिशीलिता ।

कविकल्पलता सेयममला परिशील्यताम् ॥ 6 ॥

शब्दश्लेषकथार्थारूपाश्चत्वारस्तवका इह ।
 ते चतुः पञ्चपट्टसप्तकुसुमैरन्विताः क्रमात् ॥ 7 ॥
 तत्राद्यस्तवके छन्दोऽभ्यासः सामान्यशब्दकः ।
 वर्णस्थितिरनुप्रासः कुसुमानि यथाक्रमम् ॥ 8 ॥
 छन्दोऽभ्यासः प्रसूनेऽत्र नेत्रभूते विपश्चिताम् ।
 कथ्यन्ते केऽपि शब्दा यैश्छन्दो मन्दोपि विन्दति ॥ 9 ॥
 श्रीलक्ष्मीः कमला पद्मालया च हरिवल्लभा ।
 दुग्धाब्धिनन्दिनी क्षीरसागरापत्यमित्यपि ॥ 10 ॥
 क्षीरपाथोधितनयेत्येवमेकाक्षरादिकम् ।
 आदौ साध्यं पदं स्थाव्यं शेषं कुर्याद्विशेषणैः ॥ 11 ॥
 विशेष्यो वर्णकाकाराधाराधेयक्रियागुणैः ।
 सादृश्यपरिवाराद्यैः क्रियते सावशेषणैः ॥ 12 ॥
 यथा सुधांशुर्धवलोऽतिवृत्तः क्रान्तान्तरिक्षो हरिणं दधानः ।
 महत्तमोद्भो जनतापहारी मृगेन्द्रवद्राजतिऋक्षराजः ॥ 13 ॥

End :

आदिकान्तलिपौ कादिकान्तशब्दगवेषणे ।
 चित्रानुप्रासयमकशब्दनिश्चयकृद्भवेत् ॥

यथा कल खल गल चल छल जल तल स्थल दल नल पल बल
 भल मल हल कीर चीर तीर धीर नीर वीर सीर हीर क्षीर एवमन्यत्रापि ॥

यत्किञ्चिदत्र न मया गदितं ग्रन्थस्य गौरवत्रासात् ।
 मत्कृतचन्द्रकलापेऽमलमतिभिस्तद्गुणैर्ज्ञेयम् ॥

Colophon :—इति कविकल्पलतायांप्रथमस्तवके वर्णानुप्रासो नाम
 तुरीयं कुसुमम् ॥ समाप्तश्च प्रथमस्तवकः ॥

उद्दिष्टवर्णनं वर्णः प्रकीर्णः सङ्ख्यया सह ।
 रूढादिश्रेति पञ्चेह कुसुमानि यथाक्रमम् ॥
 श्वैत्यादिभिर्विभिन्नस्योद्दिष्टवस्तुद्वयस्य यत् ।
 अभेदः क्रियते श्लेषात्तत्स्यादुद्दिष्टवर्णनम् ॥
 सितकृष्णौ विधुहारी शितिताराभ्रकनागराजघनसाराः ।
 रामपयोराशयर्जुनसिंही जानन्ति चन्द्रहासाद्याः ॥
 विधुश्चन्द्रो त्रिष्णुश्च

End :

जलजादिषु पूर्वपदेषु सरोजमुख्येषु चोत्तरपदेषु ।
 सुरपतिसमेषु चोभयपदेषु पर्यायपरिवृत्तिः ॥
 इति परिवृत्तिसहाये योगात्ते यौगिकाः शब्दाः ।
 परिवृत्तिसहाये ते मिश्रा गीर्वाणतुल्यास्तु ॥

Colophon :—इति कविकल्पलतायां द्वितीये श्लेषस्तवके रूढयौ-

गिकामिश्राख्यं पञ्चमं कुसुमम् ॥ समाप्तश्चायं स्ववकः ॥

अथ राजेक्षणं गङ्गास्तुतिर्भगवदीरणम् ।
 विप्रालापस्तटाकादिवर्णनं वादितर्जनम् ॥
 इति यत्र निगद्यन्ते क्रमेण कुसुमानि षट् ।
 तं वदामि कथाकल्पं सुधाकल्पं समासतः ॥
 अर्थिप्रत्यर्थिनोर्यत्र विमतिः सा कथा द्विधा ।

End :

लक्षणे मम दक्षत्वं साहित्ये सम्मता मतिः ।
 तर्के कर्कशतात्यन्तं क्व शास्त्रे नास्ति मे श्रमः ॥
 इत्थं सुव्यधकैर्वाक्यैरेन्यदर्पान्समुद्धरेत् ।
 अर्थं च शामयेद्वादियुक्तियुक्तैर्वचःक्रमैः ॥

Colophon :—इति कविकल्पलतायां तृतीयस्तवके वादितर्जनं
नाम षष्ठं कुसुमम् । समाप्तश्चायं स्तवकः ।

अर्थोत्पादोऽद्भुतं चित्रं सादृश्यं रूपकादिकम् ।

समस्यापूरणोपायः समस्या च यथाक्रमम् ॥

मृण्मयकार्पासमयद्रुमसंभवधातुचर्मटपदाश्च ।

वाच्याक्लेशसहत्वात् तत्तत्स्थानादिसंप्राप्तिः ॥

End :

यस्यादेशमवस्थितस्त्रिदिवराण्णूनं दिवं रक्षति

प्रस्तावे विनिहत्य यश्च दितिजानादत्त लोकत्रयं ।

तिग्मांगुं क्षमदब्ज ते हृदि सतामेनोक्षयाविष्कृतं

तं मोक्षाय भजे प्रजापतिकृतातिथ्यक्रियं सन्ततम् ॥

स जनककविनामाङ्कित षडारचक्रबन्धः

इति कविकल्पलतायां चतुर्थस्तवके चित्रं नाम तृतीयं कुसुमम् ।

३३. कुवलयानन्दः अप्पयदीक्षितकृतः.

Beginning :—

अमरीकवरीभारभ्रमरीमुखं वरीकृतम् ।

दूरीकरोतु दुरितं गौरीचरणपङ्कजम् ॥

परस्परंतपस्सम्पत्फलायितपरस्परौ ।

प्रपञ्चमातापितरौ प्राञ्चौ जायापती स्तुमः ॥

उद्वाच्य योगकलया हृदयाब्जकोशं

धन्यैश्चिरादपि यथारुचिं गृह्यमाणः ।

यः प्रस्फुरत्यविरतं परिपूर्णरूपः-

श्रेयः स मे दिशतु शाश्वतिकं मुकुन्दः ॥

अलङ्कारेषु बालानामवगाहनसिद्धये ।

ललिताः क्रियते तेषां लक्ष्यलक्षणसङ्ग्रहः ॥

येषां चन्द्रालोके दृश्यन्ते लक्ष्यलक्षणश्लोकाः ।

प्रायस्त एव तेषामिदरेषां त्वभिनवा विरच्यन्ते ॥

उपमा यत्र सादृश्यलक्ष्यरुच्छसति द्वयोः ।

हंसीव कृष्ण ते कीर्तिः स्वर्गङ्गामवगाहते ॥

यत्रोपमानोपमेययोः सहृदयहृदयाह्लादकत्वेन चारु सादृश्यमुद्भूतयो-
च्छसति व्यङ्ग्यचमर्यादां विना स्पष्टं प्रकाशते तत्रोपमालङ्कारः । हंसीवित्युदा-
हरणं । इयं च पूर्णोपमेत्युच्यते । हंसी कीर्तिः स्वर्गङ्गावगाहनमिव शब्द-
श्रेत्योपामुपमानोपमेयसाधारणधर्मोपमावाचकानां चतुर्णामप्युपादानात् ।

यथा वा ॥ गुणदोषौ बुधो गृह्णन्निन्दुक्षेत्रेडाविवेश्वरः ।

शिरसा श्लाघते पूर्वं परं कण्ठे नियच्छति ॥

अत्र यद्यपि

End :

समप्राधान्यसङ्करो यथा ॥

अवनु नस्तरितस्तुरगावलिः

समतिलङ्घिततुङ्गपयोधरा ।

स्तुरितमध्यगतारुणनायका

मरत्तकैकलतेव नभःश्रियः ॥

34. चित्रमैमांसा.

Beginning :—

अभिवाद्य चन्द्रशेखरमाद्यं गौरीसखं परं ज्योतिः ।

विवृणोमि विपुलविषयां विश्वदार्थमिर्थचित्रमीमांसाम् ॥

काव्यं तावन्नविधं ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्यचित्रभेदात् । यत्र वाच्या-
तिशायि व्यङ्ग्यं स ध्वनिः ।

यथा ॥ स्थिताः क्षणं पक्ष्ममु ताडिताधराः पयोधरोत्सेधनिपातचूर्णिताः ।

वलीषु तस्याः स्वलिताः प्रपेदिरे चिरेण नाभिं प्रथमोदविन्दवः ॥

अत्र तपस्यन्त्याः देव्याः देहोपरि पततां प्रथमदृष्टिविन्दूनां क्रिया-
स्वभाववर्णनेन देव्यास्समाध्युचितावस्थानाभिव्यक्तिद्वारा चिरनिदाघतप्त-
देहोपरि पतनेन सुखपारवश्यसम्भ्रमहेतौ प्रथमदृष्टावप्यविहितसमा-
ध्यवस्था व्यज्यते । तथा हि ।

नासाग्रन्वस्तनयनः संवृत्तास्यः सनिश्चलः ।

ध्यायीत मननादेव पुरोऽवष्टभ्य चाग्रतः ॥

इति समाध्यवस्थानमाहुः । तत्र पक्ष्मसु संस्थिता इत्यनेन नासाग्रन्व-
स्तनयनत्वरूपमर्धनिमीलनं व्यज्यते सर्वधोन्मीलने पक्ष्मणामूर्ध्वाग्रत्वेन
सर्वधा निमीलने तेषामधोग्रत्वेन च तेषु जलविन्दूनां स्थित्यसंभवात्
पक्ष्मभ्यश्च्युतानां तेषामास्ये अप्रविश्य अधरोष्ठे निपत्य ततश्च्युतिकथनेन
संवृत्तास्यत्वं व्यज्यते ततश्च्युतानां स्तनोत्सेधनिपातनादिवर्णनेन तूरोवष्टभ्यः
अलसावनतावस्थाने हि स्तनयोरन्तस्संकुचिताकारतया तदुत्सेधयोस्तेषां
पतनं न स्यात् कथंचित् तयोः पतित्वा वलित्रयं प्राप्तानामपि वलीषु
तिर्थगेव गमनं स्यात् न नाभिदेशप्राप्तिः नाभौ च संवृतायां प्रवेशो न
स्यात् पक्ष्माधरादिक्रमकथनेन च निश्चलत्वं व्यज्यते मुखादिचलने सति
पक्ष्मपतितानां तेषामधरपयोधरादिक्रमेण पतनासंभवात्

End :

एवमपि विद्वन्मानसहंसेत्यादावपि श्लिष्टरूपके अतिव्याप्तिः । रूपके
ताद्रूप्यारोपमात्रं नत्वतिशयोक्तिवदभेदाध्यवसाय इति कल्पनाद्रूपक-

लक्षणविचार एव निरस्तासारूप्यनिबन्धेनाप्रस्तुतप्रशंसोदाहरणेषु चाव्या-
प्तिः ।

Colophon:—इति श्रीमदप्पयदीक्षितकृतौ चित्रमीमांसायामति-
शयोक्त्यलङ्कारप्रकरणम् ।

35. प्रतापरुद्रीयम्.

Beginning :

विद्याकैरवकौमुदीं श्रुतिशिरः सीमन्तमुक्तामणिं
दारान् पद्यभुव त्विलोकजननीं वन्दे गिरां देवताम् ।

यत्पादाब्जनमास्क्रियाः सुकृतिनां सारस्वतप्रक्रिया
बीजन्यासभुवो भवन्ति कवितानाख्यौकजीवातवः ॥

पूर्वेभ्यो भामहादिभ्यः सादरं विहिताञ्जलिः ।

वक्ष्ये सम्यगलङ्कारशास्त्रसर्वस्वसङ्ग्रहम् ॥

चिरेण चरितार्थो ऽभूत् काव्यालङ्कारसङ्ग्रहः ।

प्रतापरुद्रदेवस्य कीर्तिर्धेन प्रकाश्यते ॥

रसप्रधानाः शब्दार्था गुणालङ्कारवृत्तयः ।

रीतयश्चेयतीशास्त्रप्रमेयं काव्यपद्धतिः ॥

. तथा चोक्तं काव्यप्रकाशे ।

काव्यं यशसेर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये ।

सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततथोपदेशयुजे ॥ इति

*

*

*

*

प्रतापरुद्रदेवस्य गुणानाश्रित्य निर्मितः ।

अलङ्कारप्रबन्धो ऽयं सन्तः कर्णोत्सवोऽस्तु वः ॥

काकतीयनरेन्द्रस्य यशो भूपयितुं कृता ।
विद्यानाथकृतिश्रेयं स्वयं तेन विभूष्यते ॥

अतः परं (गुणालङ्कारादिविषयेषु भामहोद्भूतरुद्रभट्टदण्ड्यादिभिः
 कथिताः बहवः श्लोकाः एतस्मिन्ग्रन्थे उदाहृताः).

End :

अत्र प्रतिपक्षबलाणव इत्युपमाया व्याकुलीकृतसत्त्व इति बाधकं
 प्रमाणम् । उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोग इत्यनुशासनेन सामान्य-
 प्रयोगस्योपमाबाधकत्वात् । अतःपरिशेष्याद्रूपकालङ्कारः । एवं यथा सम्भ-
 वमन्येषामलङ्काराणां संमृष्टिसङ्करौ बोद्धव्यौ तत्र तत्र प्रबन्धेषु ।

Colophon :—इति विद्यानाथमहोपाध्यायकृतौ प्रतापरुद्रयशोभू-
षणे प्रतापरुद्रीयं नामालङ्कारशास्त्रं समाप्तम् ।

36. शृङ्गारमञ्जरी प्रथमपरिच्छेदः.

Beginning :

श्रीमदादीश्वरं नत्वा सोमवंशभुवार्थितः ।
रायाख्यजैनभूपेन वक्ष्ये शृङ्गारमञ्जरीम् ॥
 अष्टाविंशं शतं तस्याः प्रमाणं श्लोकपद्यतः ।
 अनुष्टुप्संख्या पञ्चचत्वारिंशं शतं मतम् ॥
 विदोषं सगुणं रीतिरसालङ्कारगं मुदे ।
 काव्यं कुर्वीत शब्दार्थरचनानिपुणः कविः ॥
 वर्णभेदं विजानीयात् कविः काव्यमुखे पुनः ।
 सद्दर्णं सद्गणं पद्यात् संपत्सन्तानसिद्धये ॥
 वदन्ति देवताशब्दा भद्रादीनि जये तु ते ।
 गणाद्वा वर्णसो वापि नैवनिन्द्याः कवीश्वरैः ॥

अथ पददोषानाह ॥

अलक्षणं श्रुतिकटु व्याहृतार्थमनर्थकम् ।
नेयार्थमप्रसिद्धं च ग्राम्यं चासम्मतं पदम् ॥
शब्दशास्त्रविरुद्धत्वादलक्षणमिदं यथा ।
कान्ततोषाम्बुधिः कान्तामुखचन्द्रेण वर्द्धते ॥

End :

अर्थश्रनुर्विधो मुख्यो लक्षोव्यङ्ग्यश्च गौणकः ।
यथा घोषोऽस्ति गङ्गायामित्यादिषु परीक्षकः ॥
मुख्यो गङ्गेति लक्ष्यस्तु तटः शाद्वलवच्छरी ।
गुल्मशीतादिकं व्यङ्ग्यो गौणोऽग्निर्बालकस्त्विति ॥

Colophon :—इति शृङ्गारमञ्जर्यां प्रथमः परिच्छेदः ।

द्वितीयः परिच्छेदः.

प्रसादः कान्तिरौदार्यं माधुर्यं समतौजसी ।
अर्थव्यक्तिः समाधिश्च श्लेषश्च सुकुमारता ॥
द्रागर्थार्पिकता यत्र प्रसादः कार्थिता यथा ।
राजहंसीव भासि त्वं यान्त्यायान्ती च लीलया ॥

End :

अत्यन्तसुवयःकामालीनेव प्रियवक्षसि ।
प्रगल्भा सुरतारम्भेऽप्यस्वाधीनमना यथा ॥
गाढाश्लेषप्रलीनस्तनविसजयुगोद्भिन्नरोमोद्गमाख्या
सान्द्रन्नेहातिरेकप्रगलितविरणत्काञ्चिसुश्रोणिवस्त्रा ।
मा मालं मेति दैन्यप्रलपितवदना किं मृता किं प्रसुप्ता
. . ये किं सुप्रविष्टा मनसि समुषिता वेति सा रंरमीति ॥

दृक्प्रीतिमनःसक्ती सङ्कल्पो जागरस्तथा तनुता ।
अरतिर्लज्जात्यागो मोहो मूर्च्छा मृतिर्दशावस्थाः ॥

Colophon :—इति द्वितीयःपरिच्छेदः ।

तृतीयःपरिच्छेदः.

महादभ्रमध्ये महादभ्रमध्ये प्रिये पश्य चन्द्रं तवास्यायमानम् ।
प्रिये पश्य चन्द्रं महादभ्रमध्ये महादभ्रमध्ये तवास्यायमानम् ॥
प्रिये पश्य चन्द्रं तवास्यायमानं महादभ्रमध्ये महादभ्रमध्ये ।
महादभ्रमध्ये प्रिये पश्य चन्द्रं महादभ्रमध्ये तवास्यायमानम् ॥

एवमसंयुतपादत्रिकं योज्यम् ।

श्लोकपादपदावृत्ति वर्णावृत्ति युता युता ।
भिन्नवाक्यादिमध्यान्तविपर्यायमकं हि तत् ॥ . . .

अथार्थालङ्कारानाह ।

उपमा रूपकं जातिभ्रान्तिमान् हेतुसंशयौ ।
प्रतिवस्तूपमाक्षेपो दृष्टान्तस्तुल्ययोगिता ॥

* * * *

End :

आशीरभिमतार्थेषु प्रशंसा कथिता यथा ।
सर्वज्ञः सर्ववागीशः सार्वो ब्रह्मास्तु वो मुदे ॥
उक्तालङ्कृतिभिर्मिश्रः सङ्करः कथितो यथा ।
त्वं राजकरसंस्पर्शाच्चन्द्रकान्तशिलायसे ॥
. . . लदेवीति ख्याता शीलविभूषणे ।
तत्पुत्रः कामिरायारख्यो राय इत्येव विश्रुतः ॥

तहूमिपालपाठार्थमुदितेयमलङ्कितम् ।

संक्षेपेण बुधैर्होषा यद्यत्रास्ति विशोधिताम् ॥

Colophon :— इति शृङ्गारमञ्जरीनामालङ्कारे तृतीयः परिच्छेदः ।

श्रीसेनगणाप्रगण्यतपोरक्ष्मीविराजिनाजिनसेनदेवयतीश्वरविरचितः
शृङ्गारमञ्जरीनामालङ्कारः ।

37. भेदधिकारः.

Begining.

वेदान्तवनसञ्चारि नीलाचलगुहेशम् ।

ज्योतिर्विराजते ध्वस्तमायावरणवारणम् ॥

किं न त्वं नरसिंह एव यदि वा नाहं न नोचेत्कथं
बन्धो मद्यस्विलेश्वरै त्वयि विभो किं नास्ति मत्तः परम् ।

भूयादर्थवदात्मबन्धहर इत्याद्यं वचोऽपौरुषं

न त्वं ना तदहं त्वमेव नृहरे भुयासमात्मस्त्वयि ॥

हृदयालयमालम्ब्य करुणारससुन्दरम् ।

गुरूणां चरणाम्भोजं कुर्वे भेदस्यधिकृतिम् ॥

अन्तःकरणातिरिक्ताहमिति प्रतीयमानो जीवः पारमान्न भिद्यते चेत-
नत्वात् पदार्थत्वात् ब्रह्मवत् विपक्षे भेदग्राहकप्रमाणाभावाद्भेदश्रुत्य-
प्रामाण्यप्रसङ्गाच्च नाप्रयोजकत्वम् ॥ तथा हि ॥

मानाभावादयुक्तेश्च न भिदेश्वरजीवयोः ।

जीवानुमुचितां चैव नात्मनो न परस्परम् ॥

अथ कथं भेदे प्रमाणाभावः नाहमीश्वर इत्येतेत् प्रत्यक्षं सर्वसम्मतम् ।
न भ्रान्तिः । बाधाविरहात् न वा तद्धेतुसंभवः । अस्ति खलु अस्मदादिप्र-
त्यक्षं नाहमीश्वर इति तच्चाबाधितमहमीश्वर इत्यप्रतीतिः ननु न ताव-

दिदं चक्षुरादिजन्यं आत्मनि तदसंभवात् मनसश्च प्रमाणान्तरसहकारिणः
 पृथक्प्रमाणत्वायोगात् । अतः क्लृप्तप्रमाणाभावात् सा भ्रान्तिरिति चेन्न
 सुखाद्युपलब्धेः प्रमाणजन्यतया मनस एव तत्प्रमाणत्वेन भेदस्यापि
 तत्प्रमाणकत्वात्

End :

तस्मात्तद्व्यवसयीत्यादेः सत्यज्ञानमुखात्मकं ।
 जीवो ब्रह्मेति संसिद्धमद्वैतं च्योतिरस्तु मे ॥
 आस्तामन्यप्रमाणत्वमभेदे सर्ववस्तुनः ।
 भेदप्रमाणमेवैतदद्वैतं साधयेत्स्फुटम् ॥
 गुरुचरणसकाशाद्बुद्धं निर्गतं यत्-
 द्विगुणमनुगुणं वा वीक्षतां तत्क्षमात्मा ।
 अपि विमृजति कश्चित्काचमालावमत्या
 शतमखमणिमालां शारदाकाशनीलाम् ॥

Colophon:—इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमज्जगन्नाथाश्र-
 मपूज्यपादशिष्यश्रीमत्तृप्तिहाश्रमिविरचितो भेदधिकारः समाप्तः ।

37-a. भेदधिकारसत्क्रिया (असमग्रा).

Beginning :

मृषा मायाशक्त्यावृत्तमहिमनि ब्रह्मणि परे
 जगज्जालं जातं स्फुरति विपतीवोरुनगरम् ।
 विरिञ्चश्रीशेशत्रिदशनरतिर्भगवतभिदा
 कुतोऽतो भूमाहं निरवधि सदानन्दघनचित् ॥
 काशते कलितं यस्य पदं वैदिकमस्तकैः ।
 भक्तमुक्त्यै समीहन्तं तं नृसिंहं गुरुं भजे ॥

गम्भीरभावभारेण दुर्वहा गौरवी कृतिः ।

तथापि भेदधिकारसत्क्रियां श्रद्धयारभे ॥

यद्यपि श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणागमैः क्रियासमभिहारेण जगन्निदाने सर्वज्ञे परमात्मनि सजातीयादिसमस्तभेदो निन्दितो निषिद्धश्च यद्यपि चात्र भवद्विर्वादायणभगवत्पादादिभिः पूर्वाचार्यैरारम्भणादिन्यायतोऽपि भेदसत्ता निराकारि । तथापि केचित्स्वोत्प्रेक्षापरिकल्पितपरिभाषिकयुक्ति-कलापाकुलीकृतान्तःकरणाः भेदसत्तां संभावयन्तो न श्रुत्यादिसिद्धशुद्धा-द्वितीयचिदात्मनि श्रद्धां न बध्नन्ति अतस्तन्मोहशान्तये समस्तभेददुर्नि-रूपत्वप्रकटनाय ग्रन्थमारभमाणस्तत्परिसमाप्त्यादिफलकमीश्वरतत्त्वानु-सरणरूपं मङ्गलं मनसानुष्ठितं शिष्यशिक्षार्थं प्रकठयन् प्रकरणविषय इदं च सूचयन् स्मृतवस्तुस्वरूपं सलक्षणप्रमाणं निर्दिशति वेदान्तेत्यादिना । ज्योतिः चित्प्रकाशः विराजते विविधनामरूपप्रपञ्चात्मना दीप्यते अनेन अध्यस्तसमस्तप्रपञ्चात्मत्वापत्या तदधिष्ठानत्वं तत्तदवच्छिन्नस्फूर्तिमत्तया च सर्वज्ञत्वमिति तटस्थलक्षणद्वयं सूचितं ज्योतिःपदोपात्तस्य चित्प्र-काशस्य सदानन्दात्मत्वेन श्रुतिन्यायाभ्यां निर्धारितत्वेन, सच्चिदानन्दरूपं स्वरूपलक्षणमुक्तम्

*

*

*

*

End :

प्रागुक्तं स्मारयति अप्रसिद्धीति धर्मिज्ञानसाधेच्छाया इत्यत्र सिंहा-
वलाकेनन्यायेन । प्रतिपादयति इष्टसाधनत्वेति आरोपात्प्राक्तस्थानुपस्थि-
तत्वेन तद्गोष्टसाधनत्वस्याप्यनुपस्थितिः तदुपस्थित्यधीनेच्छाया एव
प्रागुक्तं संभवान्न तस्यास्तद्धेतुत्वार्थः । नन्वाहारोपे तदिच्छाया अहे-
तुत्वे दोषान्तरस्याप्यभावात्कापि न स्यात् ततश्च प्रतीकोपासीनामप्यसम्भ-
वात्तद्विधीनामप्रामाण्यापात इत्याशङ्क्याह न चैवमिति ॥

38. पञ्चदशप्रकरणव्याख्या (असमग्रा).

Beginning :

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ ।

प्रत्यक्तत्त्वविवेकस्य क्रियते पददीपिका ॥

प्रारिप्सितस्य ग्रन्थस्याविघ्नेन परिसमाप्तिप्रचयगमनाभ्यां शिष्टा-
चारं परिप्राप्तमिष्टदेवतागुरुनमस्कारलक्षणं मङ्गलाचरणं स्वनानुष्ठितं
शिष्यशिक्षार्थं श्लोकेनोपनिबध्नाति । अर्थाद्विषयप्रयोजने च सूचयति ॥

मू ॥ नमः श्रीशङ्करानन्दगुरुपादाद्भुजन्मने ।

सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे ॥

शं करोतीति शङ्करः परमात्मा एष ह्यानन्द इति श्रुतेः आनन्दः
निरतिशयप्रेमास्पदत्वेन परमानन्दरूपः प्रत्यगात्मा शङ्करश्चासौ आनन्द-
श्चेति शङ्करानन्दः प्रत्यगभिन्नः परमात्मा स एव गुरुः परिपक्वमलाये (!)
तानुत्सादनहेतुशक्तिपातेन योजयति परे तत्त्वे स दीक्षयाचार्यमूर्तिस्थ
इत्यागमात् श्रीमांश्चासौ शङ्करानन्दगुरुश्चेति गन्धद्विप इत्यादिवत्स-
मासः , -

अत्र शङ्करानन्दपदद्वयसामानाधिकरण्येन जीवब्रह्मणोरेकत्वलक्षणो
विषयः सूचितः जीवस्य ब्रह्मरूपतया अपरिच्छिन्न
लक्षणं प्रयोजनश्च सूचितम् सविलासमहामोहेत्यादिना । निश्शेषानर्थनि-
वृत्तिलक्षणं प्रयोजनमुखत एवाभिहितम् । इदानीमवान्तरप्रयोजनकथन
पुरस्सरं ग्रन्थारम्भं प्रतिजानीते ॥

मू ॥ तत्पादाद्भुरुहद्वन्द्वसेवानिर्मलचेतसाम् ।

सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते ॥

तस्य गुरोः पादावेवाद्भुरुहे कमले तयोर्द्वन्द्वं तस्य सेवया परि-
चर्यया स्तुतिनमस्कारादिलक्षणया निर्मलं रागादिरहितं चेतः अन्तः-

करणं येषां ते तथोक्ताः तेषां सुखावबोधाय अनायासेन तच्चज्ञानोत्पाद-
नायायं वक्ष्यमाणः प्रकारः तच्चस्यानारोपितस्वरूपस्याखण्डं सच्चि-
दानन्दं महावाक्येन लक्ष्यत इति वक्ष्यमाणस्य विवेक आरोपितात्पञ्च-
कोशलक्षणाज्जगतो विवेचनं विधीयते क्रियत इत्यर्थः ॥

* * * *

Colophon :— इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीभारतीतीर्थवि-
द्यारण्यमुनिवर्धकिङ्करेण श्रीरामकृष्णविदुषा विरचिता तच्चविवेकस्य पद-
दीपिका समाप्ता ॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ ।

भूतपञ्चविवेकस्य व्याख्यानं क्रियते मया ॥

* * * *

मू ॥ तदद्वैतं श्रुतं यत्तत् पञ्चभूतविवेकतः ।

बोद्धुं शक्यं ततोऽभूतपञ्चकं प्रविविच्यते ॥

* * * *

इति श्रीपरम . . . महाभूतस्य तात्पर्यदीपिका समाप्ता ॥

* * * *

मू ॥ गुहा हितं ब्रह्म यत्तत् पञ्चकोशविवेकतः ।

बोद्धुं शक्यं ततः पञ्चकोशकं प्रविविच्यते ॥

* * * *

इति श्रीपरम . . . पञ्चकोशविवेकव्याख्या समाप्ता ॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ ।

मयाद्वैतविवेकस्य क्रियते पदयोजना ॥

* * * *

मू ॥ ईश्वरेणापि जीवेन सृष्टं द्वैतं विविच्यते ॥

ईश्वरेण क्लृण्वोपाधिकेनान्तर्यामिणा जीवेनापि कार्योपाधिकेनाहं
प्रत्यभिना सृष्टमुत्पादितं द्वैतं जगत् विविच्यते विभज्य प्रदर्शित इत्यर्थः ॥

* * * *
इति श्री . . . अद्वैतविवेकस्य पदयोजना समाप्ता ॥

* * * *
मू ॥ वेनेक्षते श्रृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च ।
स्वाद्रस्वादु विजानाति तरुप्रज्ञानमुदीरितम् ॥

चभुर्द्वादशनिर्गतान्तःकरणवृत्त्युपाहितेन येन चैतन्येन इदं दर्शन-
योग्यं रूपादिकमीक्षते पश्यति पुरुषः ॥

* * * *
इति श्री . . . महावाक्यविवेकव्याख्या समाप्ता ॥

* * * *
मू ॥ ब्रह्मानन्दं प्रवक्ष्यामि ज्ञाते तस्मिन्नशेषतः ।
ऐहि क्कामुष्मिकानर्थव्रातं हित्वा सुखायते ॥ इति
निर्विशेषं परं ब्रह्म साक्षात्कर्तुमनीश्वरः ।
ये मन्दास्तेऽनुकम्प्यन्ते सविशेषनिरूपणैः ॥ इति

* * * *
इति श्री . . . ब्रह्मानन्दे योगानन्दो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥

* * * *
धर्मधर्मवशादेव जायतां म्रियतामपि ।
पुनर्देहलक्षैः किन्त्रो दाक्षिण्यतो वदेदिति ॥

* * * *
इति . . . ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥

* * * *

योगानन्दः पुरा प्रोक्तो यस्यात्मानन्द इप्यताम् । इति

* * * *

इति श्रीपरम . . ब्रह्मानन्दे अद्वैतानन्दो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥

* * * *

योगेनात्माविवेकेन द्वैतमिथ्यात्वचिन्तया ।

ब्रह्मानन्दं पश्यतोऽथ विद्यानन्दो निरूप्यते ॥

* * * *

इति . . ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥

* * * *

एषोऽस्य परमानन्दो योऽस्वण्डैकरसात्मकः ।

अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेवोपभुञ्जते ॥ इति

* * * *

ग्रन्थमुपसंहरति ॥

ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे पञ्चमाध्याय ईरितः ।

विषयानन्द एतेन द्वारेणान्तः प्रविश्यताम् ॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ ।

क्रियते चित्रदीपस्य व्याख्या तात्पर्यबोधिनी ॥

* * * *

इति . . तात्पर्यबोधिनी नाम चित्रदीपव्याख्या समाप्ता ॥

वेदार्थस्य प्रकाशेन तमोहार्दं निवारयन् ।

पुमर्थाश्रतुरो देयाद्विद्यातीर्थमहेश्वरः ॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ ।

क्रियते नृमिदीपस्य व्याख्यानं गुर्वनुग्रहात् ॥

* * * *

मू ॥ अस्याः श्रुतेरभिप्रायस्सम्यगत्रविचार्यते ।

जीवन्मुक्तस्य या तृप्तिः सा तेन विशदायते ॥ इति

End :

श्रुत्यनुभूतिभ्यां निश्चित्य सर्वबन्धैः प्रमानृत्वकर्तृत्वादिभिः प्रमु-
च्यते प्रकर्षेण सर्वाऽत्मना मुच्यते जाग्रदादिष्ववस्थामु एक एवात्मा
मन्त्रव्यः एवं विवेकज्ञानेन स्थानत्रयव्यतीतस्य ॥

39. लौकिकन्यायरत्नाकरे पूर्वार्धम्.

Beginning :

यस्माज्जातं निखिलभुवनं जीवते येन जातं

यस्मिन्नन्ते व्रजति विलयं सच्चिदानन्दरूपे ।

यस्य श्वासा निगमनिचया यश्च तन्मात्रमेधः

तं प्रत्यक्षं शिशुशशिशिवं साम्बमूर्तिं नतोऽस्मि ॥ 1 ॥

* * * *

गुरून्नत्वा सुतत्त्वज्ञान् दयालून् रामवत्सदा ।

लौकिकन्यायरत्नानामाकरस्तन्यते मया ॥ 12 ॥

न्यायार्थं विषयश्चैवोदाहतिश्च यथामति ।

वदिष्यामोऽत्र सङ्केपाद्विस्तरादपि कुत्रचित् 13 ॥

प्रसङ्गादागतानान्तु न्यायानां तत्र विस्मृते ।

अर्थभात्रं वदिष्यामः क्वचिदन्यामुदाहतिम् 14 ॥

प्रसङ्गादायाता अपि निगदः विख्यातविषया

न ते व्याख्यास्यन्ते पुनरसकृदुक्ताश्च विरलाः ।

पुनर्व्याख्यास्यन्ते विषयकथनादि(?)प्रवितताः

पुरा प्रोक्तान् कांश्चित्पुनरपि वदिष्यामि विषये ॥ 15 ॥

अर्थादर्थो न शब्दार्थ इत्याद्या बुद्धसूक्तयः ।
 पूर्वैर्न्यायतया प्रोक्ता वदिष्यामस्ततस्तथा ॥ 16 ॥
 प्रसङ्गात्पाठोष्वत्र शास्त्रीष्वपि कस्य चित् ।
 अक्षरार्थं वदिष्यामस्तात्पर्यं चैव कस्य चित् ॥ 17 ॥
 सन्दर्भेन सुबोध्याः स्युः शिष्टा न्यायाः सुबुद्धिभिः ।
 लौकिकेषु यथाबुद्धि यथासम्भवमादरात् ॥ 18 ॥
 उदाहर्षी वदिष्यामः प्रायो वेदान्तशास्त्रगाम् ।
 मीमांसान्यायगं काञ्चित् काञ्चिच्चापरशास्त्रगाम् ॥ 19 ॥
 आप्नायशिरसामस्या निबन्धत्वं न तावता ।
 स्याद्वैशेष्यात्तु तद्वाद इति न्यायसमाश्रयात् ॥ 20 ॥
 पञ्चीकृतस्य भूम्भादेः पृथिवीत्वादिकं यथा ।
 अन्नायान्तनिबन्धत्वं तथास्य स्यादसंशयम् ॥ 21 ॥

* * * *

श्रीमन्नानकसद्गुणागवनजे वंशे लसन्मौक्तिक-
 श्रीमद्रामदयालुशिष्यरघुणा नाथात्तनाम्ना कृते ।
 प्रीत्यै साम्बशिवस्य लोकविदितन्यायाख्यरत्नाकरे
 पूर्णो मे प्रनिरूपणे समुदितः पूर्वार्धभागः शिवः ॥

Colophon :—इति श्रीमद्रामदयालुशिष्येण सोमवंशीविन्दराय-
 कुलोत्तंसगुलावरायवर्मभूतनुना उदासीनावस्थेन रघुनाथेन विरचिते लौ-
 किकन्यायरत्नाकरे प्रमेयनिरूपणपरं पूर्वार्धं समाप्तम् ॥

लौकिकन्यायरत्नाकरे उत्तरार्धम्.

अथ प्रमाणतत्त्वप्रतिपादनप्रचुरो भागः प्रारभ्यते । अत्रैव च प्रस-
 ङ्गेन पूर्वोक्तार्थोपि दृढीक्रियते यदाहि तरति शोकमात्मविदित्यादौ

प्राचीनवार्तिकमतमाश्रित्य सकलपदार्थस्मरणाद्युगपदेव विशेष्ये विशेष-
षणं तत्र विशेषणान्तरमिति न्यायेन सर्वपदार्थानामन्योन्यं क्रियाकर्मभा-
वेनान्वयरूपशाब्दबोधः स्वीक्रियते तदा खलेकपोतन्यायोऽवतरति ॥

यथाहुः ॥ वृद्धा युवानः शिशवः कपोताः खले यथामी युगपत्पतन्ति ।

तथैव सर्वे युगपत्पदार्थाः परस्परेणान्वयिनो भवन्ति ॥ इति ॥

अत्र वृद्ध इव शिशुभिः कपोतैः चिरतरचिरसन्निहितकालोक्तानां
पदार्थानां साम्यं बोद्धव्यं न चोत्तरपदार्थस्मरणेन पूर्वपदार्थस्मरणनाशात्
कथं युगपत्सर्वपदार्थस्मरणमिति शङ्क्यम् प्रत्येकपदार्थानुभवजन्यसंस्का-
रैरन्यस्य तावद्विषयकस्मरणस्योदयसम्भवात् ।

End :

क्वचिदन्यो लौकिकन्यायः संचार्ति यथा कल्यादौ हरिहरान्वयो-
न्यं ध्यात्वान्योन्यरूपतां प्राप्तावित्युपपादनपरे पौराणिकारूपाने कीटभृङ्ग-
न्यायः प्रवर्त्यते कीटो यथा भृङ्गे गृहीतस्तद्गयात्तमभिद्धचायंस्तद्रूपता-
मेति तथा तौ प्रेम्णा अन्योन्याभिधानादन्योन्यात्मकतां प्राप्तावित्यर्थः ।
अत्र सर्वत्र न्यायोदाहरणयोर्युक्तचित्साधर्म्येण चन्द्रमुखन्यायेन साम्यं
बोद्धव्यं गोगवयन्यायः मार्जारव्याघ्रन्यायः श्वसिहन्यायश्चेदृशः चन्द्रव-
न्मुखं गोसदृशो गवयो मार्जारसमो व्याघ्र इत्यादौ यथा किञ्चित्साधर्म्य-
मवलम्ब्य साम्यमभिधीयते तथा प्रकृतेऽपि बोद्धव्यं एवं सर्वे लौकिका
दृष्टान्ता लौकिकयो गाथाश्च सर्वा न्यायत्वेनोदाहर्त(?)शक्यन्त इत्यलम-
तिप्रपञ्चेन ।

व्याख्यातं न्यायवृन्दं निजमतिमनतिक्रम्य यावन्मयाप्तं

पारं प्राप्तुं तु शक्तो न हि भवति गुरुः कः पुनर्मादृशोऽज्ञः ।

सर्वः सर्वं न वेत्ति प्रथितमिदमतो नास्ति मेऽत्रापराधः

शिष्टा ज्ञेयाः स्वयं वै सुविमलमतिभिः सम्यगाराधितार्यैः ॥ 1 ॥

अत्र प्रथमपादे यावत्तैलं तावद्व्याख्यातमिति न्यायप्रवृत्तिगोचरत्वं
 बोद्धव्यं भिक्षुः कौपीनलाभं बहुमन्यत इति न्यायः दरिद्रः कन्थालाभं
 वरं मन्यत इति न्यायः यावत्स्नाता तावत्पुण्यं इति न्यायश्चेह बोद्धव्यः
 तृतीये न हि सर्वः सर्वं जानातीति न्यायोऽ
 र्थतः पठितः सर्वसाध्यान्निवृत्तिर्नापवादायेति न्यायतः न हि सर्वत्रानीश-
 शक्तिरिति न्यायश्चेह सूचितः

वेदेन्द्राम्नायसङ्ख्याकैर्लौकिकन्यायरत्नकैः ।

व्याप्तोऽब्धिः प्रीतयेऽयं स्यात्सोमसोमशिखामणेः ॥ २ ॥ . . .

न्यायव्याख्याच्छलेनात्र सिद्धान्तशास्त्रपट्टगः ।

वादसिद्धान्तयोर्न्यस्तो विज्ञातोऽस्तु सतां मुदे ॥ ४ ॥ . . .

यो ब्रह्मा यश्च विष्णुर्वसुतनुरपि यो यश्च गौर्यादिमूर्ति-
 र्यश्चात्मा सर्वजन्तोः श्रुतिशिखरगिरां यश्च तात्पर्यभूमिः ।

यस्यावोधात्समुत्थो व्रजति च विलयं यस्य बोधात्प्रपञ्च-
 स्तं शुद्धं संप्रपद्ये शिवममरमजं शम्भुमीशानमीज्यम् ॥ ८ ॥

* * * *

Colophon :— इति श्रीसाधुवृन्दवन्दितपदारविन्दश्रीमद्रामदयालु-
 शिष्येण सोमवंशीयविन्दरायकुलोत्तंसश्रीसेवीदेव्याश्रितपादारविन्दश्रीगु-
 लावरायसूनुनोदासीनावस्थेन रघुनाथवर्मणा विरचितं लौकिकन्यायरत्ना-
 करारूपं प्रकरणं सम्पूर्णम् ॥

40. नरपतिजयचर्या (आन्ध्रटीकासहिता).

Beginning :

अव्यक्तमव्ययं शान्तं नितान्तं योगिनां प्रियम् ।

सदानन्दस्वरूपाय तं वन्दे ब्रह्म सर्वगम् ॥

विविधविबुधवन्द्यो भारवीवन्द्यमानः
 प्रचुरचतुरभावं दातुकामो जनेभ्यः ।
 नरपतिरिति लोके ख्यातिना (तनामा) भिधास्ये
 नरपतिजयचर्यानामकं शास्त्रमेतन् ॥
 कृते जयार्णवं नाम त्रेतायां, ब्रह्मयामलम् ।
 द्वापरे विजयाख्यातं कलौ चैव स्वरोदयः ॥
 ब्रह्मयामलमादौ स्याद्वितीयं विष्णुयामले ।
 रुद्रयामलमाख्यातं चतुर्थं त्वादियामले ॥
 स्कन्धं दत्त्वा यामलाख्यं षष्ठं कूर्मस्य यामलम् ।
 तत्परं यामले देव्या इति यामलसप्तकम् ॥
 श्रुत्वादौ यामलास्तत तथा युद्धजयार्णवम् ।
 कुमारिकौशलं चैव योगिनीजालशम्बरम् ॥
रसाद्यं च त्रिमुण्डं च स्वरसिंहः स्वरार्णवः ।
भूवलं गारुडं नाम षष्ठं च स्वरभैरवम् ॥
 तन्त्रं रणहिताख्यं च सिद्धान्तं जयपद्धतिम् ।
पुस्तकेन्द्रं च कान्द्रं च दर्शनं ज्यौतिषं तथा ॥
 मन्त्रयन्त्राण्यनेकानि कूटं यानि मयानि च ।
 तन्त्रयुक्तं च विज्ञेयं विख्यातं बडवानलम् ॥
 एषां सर्वशास्त्राणां दृष्ट्वा सारं महात्मनान् ।
 सारोद्धारं प्रवक्ष्यामि सर्वसत्त्वानुरूपयोः ॥
 रथाश्वगजभूपालैः सम्पूर्णा यदि वाहिनी ।
 तथा विभङ्गमाप्नोति नृपे हीनस्वरोदये ॥

तावत्तरन्ति ते वीरा दोर्भ्यामाहवसागरम् ।

यावत्पतन्ति नो चक्रे स्वरास्तु बडवानले ॥

* * * *

Colophon :—इति श्रीमहाराजाधिराजश्रीसूर्यवंशान्वयश्रीसरस्व-
तीवरप्रसादकुलपद्मादित्यदेवविरचिते नरपतिजयचर्यास्वरोदये भूवलत-
न्त्रमहार्णवसारे चतुरशीतिचक्र बलाध्यायो नाम चतुर्थः ॥

पञ्चबन्धानुरूपं स्वरबलविमलं देहकल्पप्रधानं
राशृक्षं इन्दुऋक्षं ग्रहवशफलदं स्थायियाधिप्रधानम् ।
वर्गो याद्यसावर्णं बलविधिसहितं मातृकावेदरम्यं
भूपालानां जयार्थं नरपतिरुदितश्चक्रबन्धप्रबन्धम् ॥

इति श्री चतुर्थः ॥

41. नारदीयसंहिता (असमग्रा).

Beginning :

अणोरणुतरस्साक्षादीश्वरो महतो महान् ।
आत्मा गुहायां निहितो जन्तोर्जयत्यतीन्द्रियः ॥
सिद्धान्तसंहिताहोराख्यस्कन्धत्रयात्मकम् ।
वेदस्य निर्मलं चक्षुर्ज्योतिश्शास्त्रमनुत्तमम् ॥
अस्य शास्त्रस्य संबन्धो वेदाङ्गमिति धातृतः ।
अभिधेयां च जगतः शुभाशुभनिरूपणम् ॥
यज्ञाध्ययनसङ्क्रान्तिग्रहाण्डशकर्मणाम् ।
प्रयोजनं च विज्ञेयं तत्कालं च विनिर्णयम् ॥
विनैतदखिलं श्रौतस्मार्तकर्म न सिध्यति ।
तस्माज्जगद्धिनायेदं ब्रह्मणा रचितं पुरा ॥

तं विलोकयाथ तत्पूनुनरिदो मुनिसत्तमः ।
 उक्तं स्कन्धद्वयं पूर्वं संहितास्कन्धमुत्तमम् ॥
 वक्ष्ये शुभाशुभफलज्ञप्तये देहधारिणाम् ।
 होरास्कन्धेऽन्यशास्त्रस्य व्यवहारप्रसिद्धये ॥
 संज्ञान्युक्तानि सर्वाणि सम्यक्तत्र पृथक् पृथक् ।
 शास्त्रोपनयनाध्यायो ग्रहचारोऽब्दरक्षणम् ॥
 तिथिवासरनक्षत्रवेदतिथ्यथ संज्ञिकाः ।
 चन्द्रताराबलाध्यायः सर्वलग्नप्रतिवाहयः ॥
 आधानपुंसिसीमन्तजातनामान्नभुक्तयः ।
 चौलाङ्गुरार्पणं मौञ्जीशुरिकाबन्धनक्रमः ॥
 समावर्तनवैवाहप्रतिष्ठासन्नलक्षणम् ।
 यात्राप्रवेशनं सद्यो वृष्टिः कूर्मविलक्षणम् ॥
 उत्पातलक्षणं शान्तिमिश्रिकाश्राद्धलक्षणम् ।
 सप्तत्रिंशद्विरध्यायैर्नारदीयाख्यसंहिताम् ॥
 य इमां पठते भक्त्या स दैवज्ञो (भवेद्भुवम्) हिवेधवन् ।
 त्रिस्कन्धज्ञो दर्शनीयः श्रीतस्मार्तक्रियापरः ॥
 निर्दाग्भिकः सत्यवादी दैवज्ञो दैवतस्थितः । * * *

Colophon:—इति नारदीयसंहितायां शास्त्रोपनयाध्यायः ॥

End :

अलसं मुखिनं स्थूलं पतितं मृष्टाशनं भृगोस्तनयः ।
 शयनोपचारकुशलं द्वादशगः स्त्रीजितं कुरुते ॥

ग्रन्थान्तरे ॥ उचितव्ययकारित्वं रिक्त्यगे देवतागुरौ ।

बुधभार्गवयोश्चापि गुरुनद्धि मुखं फलम् ॥

शनिः ॥ विकलः पतितो विसुखो विषमाक्षो निरृणो विगतलज्जः ।
व्यवभवनगते सौरे बुद्धव्ययः स्यात्सुपरिभूतः ॥

42. वास्तुप्रकरणम् (ज्यौतिषदर्पणम्).

Beginning :

अथ वास्तुप्रकरणम् ॥

सौम्ये फाल्गुनवैशाखमाघश्रावणकार्तिके ।

मासाः स्युर्गृहनिर्माणे पुत्रपौत्रधनप्रदाः ॥

व्याधिश्चैत्रेऽथ वैशाखे ज्येष्ठे मृत्युर्भवेत्सदा ।

आषाढे मृत्युरत्नादिपशुनाशमवाप्नुयात् ॥

श्रावणे मित्रलाभः स्या (द्धनी) धनि भाद्रपदे तथा ।

पत्नीनाशश्चाश्वयुजे कार्तिके धनधान्यकम् ॥

मार्गशीर्षे तथा भक्तं पुष्ये तस्करतो भयम् ।

माघे लाभस्तु बहुलः फाल्गुने काश्चनीसुता ॥

वासुदेवे प्रसुप्तेऽपि सूर्ये मूलत्रिकोणगे ।

गृहारम्भप्रवेशं च कुर्याच्छ्रावणमासिके ॥

स्थिरराशिगते सूर्ये शोभनं गृहकर्मणि ।

चरस्थे मध्यमं विद्याद्विस्वभावेऽतिनिन्दितम् ॥

जलाग्निवातोपहते विदेशे यज्ञकर्मणि ।

न मासर्तुदिनर्शादिलग्रमूढादिचिन्तनम् ॥

काश्यपः ॥ क्षेत्रस्वीकरणं पूर्वं गन्धवर्णरसल्लवैः ।

मधुपुष्पसुरामांसगन्धविप्रानुपूर्वकम् ॥

सितमीपद्रक्तहरितकृष्णवर्णं यथाक्रमम् ।
 मधुरं कटुकं तिक्तं कषायं रससंज्ञितम् ॥
 सर्वसंपत्प्रदं नृणामीशानप्रागुदञ्चवम् ।

* * * *

End :

वास्तुपुरुषं पूजयेत् तत्र मन्त्रः ॥

वास्तुपुर्षं नमस्तेऽस्तु भूशय्याभिरत प्रभो ।

मद्गृहे धनधान्यादिसौभाग्यं कुरु मे सदा ॥

एवं संप्राथम्यं कुण्डे स्वगृहोक्तप्रकारेणाग्निं प्रतिष्ठाप्य एभिरेव मन्त्रैः
 प्रतिदैवतं समिदाज्यचरुभिरष्टाविंशतिवारं प्रत्येकं हुत्वा वास्तुमन्त्रेण
 वास्तुहोमं कुर्यात् होमशेषं समाप्य वादित्रादिसहितः क्षेत्राद्बहिस्त्वीशा-
 न्यदिशे नागमातृभ्यः आग्नेये कोणे विदार्थे नैऋतिकोणे पूतनायै वायव्य-
 कोणे वावरक्षस्यै नम इति मन्त्रैरेतैः ताभ्यश्च चरुणा बलिं दद्यात् ॥
 ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्ति काञ्चनं दत्त्वा ब्राह्मणान्भोजयेत् ॥

वास्तुहोमं विना यत्र कृतं वस्तु विनश्यति ।

तस्माद्वास्त्वर्चनं होमं कृत्वाथ प्रविशेद्बुधः ॥

इति न्यायाद्वास्त्वर्चनं कृत्वा गृहं प्रविशेत् ॥

Colophon :—इति काञ्चनयल्लार्थवर्षेण विरचिते ज्यौषिषदर्पणे
 प्रवेशाध्यायः ॥

इति वास्तुप्रकरणं समाप्तम् ॥

43. कामकलासूत्रम्.

Beginning :

सकलभुवनोदयस्थितिलयमयलीलाविनोदनोद्युक्तः ।

अन्तर्लानविमर्शः पातु महेशः प्रकाशमात्रतनुः ॥

सा जयति शक्तिराद्या निजसुखमयनित्यनिरुपमाकारा ।
भाविचराचरबीजा शिवरूपविमर्शनिर्मलादर्शा ॥

* * * *

एतैरोद्यत्रितयमनुगृहीतं गुरुक्रमो विदितः ।

* * * *

उदितः पुण्यानन्दादिति कामकलाङ्गनाविलासोऽयम् ।
परशिवभुजङ्गभावाकर्षितहर्षाय कल्पते नित्यम् ॥

End :

चिन्तातरङ्गतरलस्तृष्णासलिलप्रपञ्चवाराशिः ।

यदनुग्रहेण तीर्णस्तरमै श्रीनाथनाविकाय नमः ॥

Colophon:—इति कामकलासूत्रं संपूर्णम् ॥

44. गीतासारः.

Beginning :

अथ श्रीगीतासारस्तोत्रमहामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा ऋषयः । गाय-
त्रीत्रिष्टुब्जगत्यश्छन्दांसि । अग्निवायुसूर्या देवता । आहवनीयगार्हपत्यद-
क्षिणाग्रयः स्थानानि । ऋग्यजुस्सामवेदनीलपीतश्वेतवर्णा अकारो बीजं
उकारः शक्तिः मकार इति कीलकम् श्रीसाम्बमूर्तिप्रेरणया श्रीसाम्बमूर्ति-
प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । अं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः । उं तर्जनीभ्यां नमः । मं मध्य-
माभ्यां नमः । अं अनामिकाभ्यां नमः । उं कनिष्ठिकाभ्यां नमः । मं करत-
लकरप्रष्ठाभ्यां नमः । अं हृदयाय नमः । उं शिरसे स्वाहा मं शिखायै
वौषट् अं कवचाय हुं उं नेत्राभ्यां वौषट् मं अस्त्राय फट् भूर्भुवस्सुवरोमीति
दिग्बन्धः ॥

ध्यानम् ॥ वेदादिमूलं सकलस्वराणां त्रयोदशस्थं शशिविन्दुरूपम् ।

नादान्वितं सप्तभुजङ्गरूपं त्रिवेदमूलं प्रणवं नमामि ॥

अर्जुन उवाच ॥

ओङ्कारस्य च माहात्म्यं रूपस्थानं परंतप ।
तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम ॥

श्रीभगवानुवाच ॥

साधु पार्थ महाबाहो यन्मां त्वं परिष्टच्छसि ।
विस्तरेण प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदनः शृणु ॥
पृथिव्यग्निश्च ऋग्वेदो भूरित्येव पितामहः ।
अकारे तु लयं प्राप्तः प्रथमे प्रणवात्मके ॥
अन्तरिक्षं यजुर्वायुः भुवो विष्णुः सनातनः ।
उकारे तु लयं प्राप्तो द्वितीये प्रणवात्मके ॥
दिवः सूर्यः सामवेदः स्वरित्येव महेश्वरः ।
मकारे तु लयं प्राप्तः तृतीये प्रणवात्मके ॥

End :

सारमुद्धृत्य कृष्णेन अर्जुनस्य मुखे हुतम् ।

* * * *

सर्ववेदमयी गीता सर्वशास्त्रमयो मनुः ।
सर्वनीर्थमयी गङ्गा सर्ववेदमयो हरिः ॥
पादं वाप्यर्धपादं वा श्लोकं श्लोकार्धमेव वा ।
नित्यं पठन्ति यो विप्रः स वै मोक्षमवाप्नुयात् ॥
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।
तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥

Colophon :—इति श्रीमन्महाभारते शनसहस्रिकायां परमहंसस्य
भीष्मसर्वणि गीतासारे ओङ्कारयोगो नाम परमरहस्याध्यायः ॥

45. प्रपञ्चसारसङ्ग्रहः (असमग्रः).

Beginning :

नत्वा श्रीशङ्कराचार्यमरेन्द्रयनीश्वरम् ।

कुर्वे प्रपञ्चसारस्य सारसङ्ग्रहमुत्तमम् ॥

तत्र प्रपञ्चसारे यच्छङ्कराचार्यैरुक्तं मन्त्रयन्त्रप्रयोगादितत्सर्वमपि सारभूतमेव तथापीदानीं मन्दप्रज्ञानां विस्तरशो ज्ञानुमनुष्ठातुं चाशक्यत्वा-
दत्यन्तोपकारभूतत्वेन यत्सारतरं तदल्पग्रन्थेनैव यथा सर्वमन्त्रयन्त्रतन्त्र-
सारग्रहणं स्यात् तथा सर्वतः सारं गृहीत्वा मया सत्सम्प्रदायसर्वस्वाभिध
व्याख्यानोक्तमार्गेण वक्ष्ये तत्र पुनः प्रसङ्गात् तत्र मन्त्रकल्पान्तरे
मन्त्रसारक्रमदीपिकासनत्कुमारीयशारदातिलकमन्त्रदेवनाप्रकाशिकादौ य-
द्यन्मन्त्रयन्त्रतन्त्राद्युक्तं तदपि किञ्चित्किञ्चिद्वक्ष्यते तत्र प्रपञ्चसारे प्रथमं
तावत् क्षीराब्धौ शेषपर्यङ्कशायिनं महाविष्णुं प्रति ब्रह्मादिभिस्त्रि-
भिर्मूर्तिभिस्त्रोषामुत्पत्त्यादिविषयः प्रश्नप्रकारः प्रथमे पटले निरूपितः ।
पुनर्विष्णुना तदुत्तररूपेण त्रिगुणात्मिकाया भुवनेश्वर्याः स्वशक्त्याः सका-
शात् त्रयाणां ब्रह्मादीनामितरेषां देवादीनां च सर्ववैदिकतान्त्रिकमन्त्रय-
न्त्रतन्त्राणां चोत्पत्तयो निरूपिताः । प्रथमपटलावशिष्टग्रन्थैस्सह द्विती-
यादिभिस्त्रिभिः पटलैस्तदुपरि पञ्चमषष्ठयोः पटलयोस्तु सर्वमन्त्रसाधारण-
दीक्षार्थं मण्डलं मण्डपनिर्माणवास्तुबलिकलशपूजाहोमकलशाभिषेकगुरू-
पत्तर्पणमन्त्रोपदेशगुरुदक्षिणाकृप्त्यादिप्रकार उक्तः ॥ तत्सर्वमिदानीन्त-
नैरतिप्रयाससाध्यत्वादननुष्ठीयमानत्वाद्ग्रन्थविस्तरभयाच्चात्र न लिख्यते
तस्मात्तत्सर्वं मूलग्रन्थ एवावलोकनीयं तदनुष्ठानेच्छुभिः ॥ दीक्षाशब्दा-
र्थस्तु अत्रैवोक्तः ॥

दद्याच्च दिव्यभावं सिगुयाहुरिभान्यतो भवेद्दीक्षा ।

मननात्तत्त्वपदस्य त्रायत्र इति मन्त्र उच्यते भयतः ॥

इति दीक्षामहिमा मन्त्रमहिमा चोक्तः ॥ तत्रो भयत इति भेदवासनाग्र-
न्थिरूपत इति पुनरपि दीक्षाया अवश्यकर्तव्यतात्रैवोक्ता ॥

दैवादिकस्याप्यथ मानुषादेः पैत्रादिकस्याप्यथ वत्सरस्य ।

आदिं समारभ्य समग्रसम्पद्यत्वेन दीक्षाविधिमारभेत ॥ इति

एवं सम्भाव्य भोजने कृते फलमाह ।

End :

* * * *

सायं प्रातरनेन होमविधिना भोज्यानि नित्यं भजन् ।

प्राणीनप्रमदोदरं प्रविशति प्राणाग्निहोत्री पुनः ।

Colophon :—इति प्रपञ्चसारसङ्ग्रहे गीर्वाणेन्द्रविरचिते सप्तमः

पटलः ॥

अथ त्रिपुराविधिः आराधकृषिः देवीगायत्रीछन्दः त्रिपुराभैरवी-
देवता मूलमन्त्रमुच्चार्य
निर्वाणरूपे परे संविन्मये श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी ॥

46. शिवभुजङ्गः ॥

Beginning :—

कदा वा विरक्तः कदा वा सुभक्तः कदा वा महायोगिसंसेव्यमुक्तिः ।

हृदाकाशमध्ये सदा संवसन्तं चिदानन्दरूपं शिवं साम्बमीले ॥

सुधीराजहंसै स्सुपुण्यावतंसैश्चिरश्रीसमेतैस्सदाचारपूतैः ।

उदारैर्गतासूयसंसक्तभावैरधिर्निर्गतक्रोधलोभप्रचारैः ॥

End :

अकण्ठेकलङ्कादनङ्गेभुजङ्गा-

दपाणौकपालादफालेऽनलाक्षात् ।

अमौलौशशाङ्कादवामेकलत्रा-

दहं दैवमन्यन्न मन्ये न मन्ये ॥ 23 ॥

किरीटे निशीशौ ललाटे हुताशो
 भुजे भोगिराजो गले कालिमा च ।
 तनौ कामिनी यस्य तत्तुल्यदैवं
 न मन्ये न मन्ये न मन्ये न मन्ये ॥ 24 ॥

शिवादन्यथा दैवतं नाभिजाने
 महादेव शम्भो गिरीश त्रिशूलिन् ।
 त्वर्यादं समस्तं विभातीति यस्मा
 च्छिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहम् ॥ 25 ॥

भुजङ्गप्रियाकल्प शम्भो मयेदं
 भुजङ्गप्रयातेन वृत्तेन क्लृप्तम् ।
 तव स्तोत्रमेतत्पठेद्यस्तुभक्त्या
 स पुत्रायुरारोग्यमैश्वर्यमेति ॥

47. शिवानन्दलहरी (असमग्रा)-

Beginning :

कलाभ्यां चूडालङ्कृतशशिकलाभ्यां निजतपः
 फलभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवनु मे ।
 शिवाभ्यामस्तोकत्रिभुवनशिवाभ्यां हृदि पुन-
 र्भवाभ्यामानन्दस्फुरदनुभवाभ्यां नतिरियम् ॥ 1 ॥
 गलन्ती शम्भो त्वच्चरितसरितः किल्बिषरजो-
 दलन्ती धीकुल्यासरणिषु पतन्ती विजयताम् ।
 दिशन्ती संसारभ्रमणपरितापोपशमनं
 वसन्ती मञ्चेनोद्भूदभुवि शिवानन्दलहरी ॥ 2 ॥

End :

सौरुप्यं तव पूजने शिव महादेवेति संकीर्तने
 सामीप्यं शिवभक्तिधुर्यजनतासांगत्यसम्भाषणे ।
 सालोक्यं च चराचरात्मकतनुध्याने भवानीपते :
 सायुज्यं मम सिद्धमत्र भवति स्वामिन् कृतार्थोऽस्म्यहम् ॥ 29 ॥
 त्वत्पादाम्बुजमर्चयामि परमं त्वां चिन्तयाम्यन्वहं
 त्वामीशं शरणं ब्रजामि वचसा त्वामेव याचे विभो ।
 वीक्षां मे दिश चाक्षुर्षां सकरुणां दिव्यैश्चिरं प्रार्थितां
 शम्भो लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु ॥ 30 ॥

48. सौन्दर्यलहरी (असमग्रा).

Beginning :—

शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं
 न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि ।
 अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिश्वादिभिरपि
 प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ॥ 1 ॥
 तनीयांसं पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं
 विरिश्चस्सञ्चिन्वान्विरचयति लोकानविकलम् ।
 वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां
 हरः संक्षुद्यैनं भजति भसितोद्भूलनविधिम् ॥ 2 ॥

End :

शरज्योत्स्नाशुभ्रां शशियुतजटाजूटमकुटां
 वरत्रासवाणस्फटिकघुटिकापुस्तककराम् ।
 सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निदधते
 मधुक्षीरद्राक्षामधुरिमधुरीणा भणितयः ॥ 15 ॥

कवीन्द्राणां चेतःकमलवनवालातपरुचि
 भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीम् ।
 विरिञ्चप्रेयस्यास्तरलतरशृङ्गारलहरी
 गभीराभिर्वाग्भिर्विदधति सतां रञ्जनममी ॥ 13 ॥

49. (श्रीशृङ्गागिरि) गुरुपरम्परा ॥

Beginning :—

महादेवो महाविष्णुस्तृतीयश्चतुराननः ।
 वसिष्ठः शक्तियोगीन्द्रः पराशरमुनीश्वरः ॥ 1 ॥
 व्यासः शुको गौडपादो गोविन्दभगवान्मुनिः ।
 गुरुः श्रीशङ्कराचार्यः षण्मत्स्थापनः प्रभुः ॥ 2 ॥
 विश्वरूपाचार्ययोगी नित्यबोधघनाभिधः ।
 ततोज्ञानघनाचार्यो ज्ञानोत्तममहामुनिः ॥ 3 ॥
 ज्ञानगिर्याचार्यवर्यस्तथा सिंहगिरीश्वरः ।
 ततश्चेश्वरतीर्थाख्यो नृसिंहाभिधतीर्थकः ॥ 4 ॥
 विद्याशङ्करतीर्थाख्यो लम्बिकायोगतत्परः ।
 भारती कृष्णतीर्थाख्यो विद्यारण्यमहामुनिः ॥ 5 ॥
 विद्यानगरनिर्माता वेदभाष्यादिकृद्गुरुः ।
 श्रीचन्द्रशेखराभिख्यभारती तदनन्तरम् ॥ 6 ॥
 नृसिंहभारती भूयो नृसिंहोपासकस्सदा ।
 भक्तशङ्करनामादयः पुरुषोत्तमभारती ॥ 7 ॥
 श्रीचन्द्रशेखराभिख्यभारती तदनन्तरम् ।
 नृसिंहभारती चैव पुरुषोत्तमभारती ॥ 8 ॥

भारती रामचन्द्राख्यो नरसिंहाख्यभारती ।
 नृसिंहभारती ज्ञेयो नृसिंहोऽभिनवस्तथा ॥ 9 ॥
 सच्चिदानन्दयोगीन्द्रः स्तंभे हेरम्बदर्शकः ।
 श्रीनृसिंहाख्ययोगीन्द्रः सच्चिदानन्दभारती ॥ 10 ॥
 ततश्चाभिनवाभिख्यः सच्चिदानन्दभारती ।
 ततोऽभिनवपूर्वश्रीनृसिंहाभिधभारती ॥ 11 ॥
 श्रीसच्चिदानन्दयोगीन्द्रतपश्चर्यापरायणः ।
 पुनश्चाभिनवाभिख्यः सच्चिदानन्दभारती ॥ 12 ॥
 श्रीशृङ्गेरीपुराधीशः श्रीविद्यामन्त्रबोधकः ।
 श्रीमदाचार्यसदृशश्रीनृसिंहयतीश्वरः ॥ 13 ॥
 भारतीनामविख्यातःतपःशीलो जगद्गुरुः ।
 राजाधिराजसंपूज्यो जगत्ख्यातो विराजते ॥ 14 ॥

50. शङ्कराचार्यचरितम्.

Beginning :

गणेशाय नमस्तस्मै यत्प्रसादाद्विवस्वतः
 प्रत्यूहद्वान्तविद्वंसः क्रियते सर्वकर्मणाम् ।

* * * *

एषा सरस्वती भूयात्सतामानेन्ददायिनी ।
 समाश्रितपदाम्भोजजनतासुरपादपः ।
 सर्वदा मे शुभा ॥
 आपन्नाज्ञतमोराशि पदार्थानतिदर्शयन् ।
 गुरुरत्नप्रदीपो मे मनोधामनि भासताम् ॥
 विष्णुलीलाव्रतानां ते कर्तारः कविपुङ्गवाः ।

जयन्ति सुतरां लोके वाल्मीकिव्यासशङ्कराः ।
 सर्वांगमावृतं वन्दे व्यासाचलमिमं कविम् ॥
 बभूव शङ्कराचार्यः कीर्तिकल्लोलिनी यतः ।
 अत्युन्नतस्य काव्याद्रेस्तलं व्याप्य भूवोऽखिलम् ॥
 अर्थप्रसूनमादातुमसमर्थोऽहमद्भुतम् ।
 ह्रस्वमत्यद्भुशाग्राह्यं गृहीत्वा कल्पयामि तत् ॥
 सपद्येन सृजेक नामुदे ।
 निबन्धनमिदं पुण्यमध्यायनवकान्विनम् ॥
 करोमि यतिवर्षस्य निर्देशं समुपाश्रितः ।
 कथासङ्क्षेप एवाद्यो द्वितीयो जनने भवेत् ॥
 तृतीयो व्याससङ्क्षेपे तुरीयः शिष्यसंभवे ।
 सुरेश्वरस्य शिष्यस्य सन्यासे पञ्चमस्ततः ॥
 पष्ठस्तु हसामलकतोटाख्याद्विजेन्द्रयोः ।
 सप्तमे मुक्तिदायिन्याः काञ्चया माहात्म्यकीर्तने ॥
 रामेश्वरकथाख्याने पहरेष्टमः ।
 सर्वज्ञाननिधेस्तस्य शङ्कराचार्ययोगिनः ॥
 नवमः परमानन्दसायुज्ये विहितावधिः ॥
 शब्दे चार्थे कथायां च मौढ्य जामयान्यथा ।
 यत्प्रोक्तमिह तच्चज्ञः क्षन्तुमर्हति शङ्करः ॥
 यतीन्द्रं निर्मलात्मानं नानाविधकथाविदम् ।
 शिष्यभूतो यतिः कश्चित्प्रच्छ जनितादरम् ॥

स उवाच ॥ सर्वेषां गुरुरस्माकं सर्वज्ञो यतिपुङ्गवः ।

जातः श्रीशङ्कराचार्यः कस्मिन्देशे मुपावने ॥

आरभ्य जन्मतः कस्मिन् वत्सरे भिक्षुतामगात् ।
 केषां निबन्धनानां च कर्ताभूत्स यतीश्वरः ॥
 कति शिष्या महात्मानस्तस्याभूवन्महामतेः ।
 सशिष्यः सश्वरन्भूमौ कानि चक्रेऽद्भुतानि च ॥
 सायुज्यं कुत्र देवेन प्राप्तवानपि तच्चवित् ।
 एतत्सर्वमपि श्रोतुं गुरो कौतूह (तुक) वानहन् ॥

गुरुः ॥ हन्त ते कथयिष्यामि पापहं च महाद्भुतम् ।
 अस्मद्देशिकवृत्तान्तं शिष्य तं शृणु सादरम् ॥
 पुरा केरलमेदिन्यां कालडिक्षेत्रवासिनः ।
 समीपे पद्मनाभस्य महानासीद्विजोत्तमः ॥
 तस्य पुत्रो महान् जज्ञे वृषाचलनिवासिनः ।
 सर्वज्ञस्य प्रसादेन सर्वज्ञः शङ्कराह्वयः ॥ . . .

* * * *

End :

देशिकेन्द्रो महायोगी स्तोत्रं कुर्वन् स वैष्णवम् ।
 विवेश परमानन्दं भानुविम्बान्तरस्थितम् ॥
 इति श्रीशङ्कराचार्यचरितं लोकपावनम् ।
 कृतं गोविन्दनाथेन यतिभक्तिसहायतः ॥
 ज्ञानप्रदं नरैः सर्वै . . . शेषतः ।
 पठितव्यं कीर्तितव्यं श्रोतव्यं चानुवासरम् ॥
 ये पठन्ति नरा वृत्तं शङ्कराचार्ययोगिनः ।
 ज्ञानं विद्यां च मोक्षं च प्राप्नुयुस्ते न संशयः ॥

* * * *

इति श्रीशङ्कराचार्यचरिते नवमोऽध्यायः ॥

51. चारुचर्या.

Beginning :

सुनीतिशास्त्रसद्वैद्यधर्मशास्त्रानुसारतः ।
 विरच्यते चारुचर्या भोजराजेन धीमता ॥
 ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत् स्वस्थो रक्षार्थमायुषः ।
 शरीरचिन्तां निर्वर्त्य कृतशौचविधिस्ततः ॥

अथ दन्तधावनविधिः.

प्रातरुत्थाय विधिना कुर्याद्वा दन्तधावनम् ।
 वाग्यतः पुण्यकाष्ठेन त्वध ऊर्ध्वक्रमेण च ॥
 पैत्यश्लेष्महरं नित्यं नैर्भल्यं चक्षुषोर्हितम् ।
 श्रोत्रनासाविशुद्धयै च नराणां दन्तधावनम् ॥
 निर्गुण्डीचूतबिल्वं च बीजपूरं हरिप्रिया ।
 शुक्रेष्टः सुमनःछक्षमपामार्गैः शिरीषकैः ॥
 क्षीरकण्टकवृक्षोत्थैर्बहुत्वृजुकाष्ठकैः
 अर्कन्यग्रोधरवदिरकरञ्जककुभादिकम् ॥
 प्रातर्भुक्त्वा च मृद्वग्रं कषायं कटुतिक्तकम् ।
 भक्षयेद्दन्तपवनन्दन्तमांसान्यबाधयन् ॥
 नाद्यादजीर्णवमयुश्वासकासज्वरादिषु ।
 तृष्णास्यपाकहन्मित्रं शिरः कर्णमयी च तत् ॥
 विज्ञातवृक्षं क्षुण्णाग्रं मृद्वग्रं रसभूमिजं ।
 कनिष्ठार्धसमस्थौल्यं प्रमाणं द्वादशाङ्गुलम् ॥
 द्वादशाङ्गुलकं विप्रे काष्ठमाहुर्मनीषिणः ।
 क्षत्रविट्शूद्रनीचानां नवषट्चतुरङ्गुलम् ॥

*

*

*

*

*

End:

अथान्यत् ॥

गोमूत्रं कटुतिक्तोष्णं पित्तलं कफवातनुत् ।
 अष्टला नोदरेषु देयन्नित्यं चतुष्कलम् ॥
 धारोष्णममृतं गव्यं धाराशीतं त्रिदोषहम् ।
 पाणिशर्करया युक्तं पेयं तत् प्रस्थमात्रकम् ॥
 निरुक्तवल्कं फलनारिकेलं
 जले विनिक्षिप्य मुहूर्तमात्रम् ।
 पचेद्गृहीत्वा हिमवालुकेन
 निक्षिप्य यामद्वयमात्रमेव ॥

100

101

102

EXTRACTS
FROM
TAMIL MANUSCRIPTS.

1. தொல்காப்பியம்—(நச்சினூர்க்கினியருரை.)

சொல்லதிகாரம்.

1.—கீளவியாக்கம்.

Beginning :

உயர்நிணையென்மனார் மக்கட்சட்டே
யஃநிணையென்மன ரவரலபிறவே
யாயிருதிணையி னிசைக்குமனசொல்லே.

என்பது சூத்திரம்.

இவ்வதிகாரம் மேற்பாயிரத்தள் “ எழுத்துஞ் சொல்லும்பொருளு நாடி ” என நிறுத்தமுறையானே எழுத்துணர்த்திச் சொல்லுணர்த்து கின்றாராதலின் சொல்லதிகாரமென்னும் பெயர்த்தாயிற்று; அது ‘சொ ல்லையுணர்த்திய முறைமை’ எனவிரியும்

சொல் என்றது எழுத்தினு னுக்கப்பட்டு இருதிணைப் பொருட்டன் மையும் ஒருவனுணர்த்தற்குக் கருவியாமோசையை. ஈண்டு ஆக்கப்படு தலென்றது - ஒருசொற்கூறுமிடத்து ஓரொழுத்துப் போக ஓரொழுத்தக் கூறுவதல்லது ஒருசொல்லாகமுடியும் எழுத்தெல்லாம் சேரக்கூறலா காமையின் அவ்வெழுத்துகள் கூறிய அடைவேபோயிற்றேனுங் கே ட்டார்கருத்தின்கண் ஒருதொடராய் நிலைபெற்றுநின்று பொருளை அறிவுறுத்தலை ; ஆயின் ஓரொழுத்தொருமொழிக்கு ஆக்குதலின்றாலெ னின், ஓரொழுத்தொருமொழியைக் கூறியக்கால் அதுவுஞ்செவிப்புல னாய்க் கருத்தின்கண் நிகழ்ந்து பின்னர்பொருளையாக்குதலின் அது வும் ஆக்குந்தன்மையுடைத்தாயிற்று.

இருதிணைப்பொருளுமாவன் : ஐம்பாற் பொருளின் பகுதியாகிய கா ட்சிப்பொருளும் கருத்துப்பொருளும் அவற்றின் பகுதியாகிய ஐம்பெ ரும் பூதங்களும் அவற்றின்பகுதியாகிய இயங்குதிணையும் நிலைத்திணை யுமாம். இவையெல்லாம் ஐம்பாலாயடங்கின.

இனிப் பொருட்டன்மையாவது—மக்கட்டன்மையும் இயங்குதிணைத் தன்மையும் நிலைத்திணைத்தன்மையுமாம். இத்தன்மை ஒருபொருட் குக் கேடுபிறந்தாலுந் தனக்குக்கேடின்நித் தானென்றேயாய்ப் பல வகைப்பட்டபொருடோறு நிற்குமென்றுணர்க.

கருவியாவது—அப்பொருட்டன்மையை ஒருவனுணர்தற்கு அவ்
வேசைகருவியாய் நின்றல். இதனை ஐம்பொறிகள் ஒருவன் பொருள்
களை உணர்தற்குக் கருவியாய் நின்றும்போலக் கருவியாய் நிற்குமென்
றுணர்க்.

இனி, ஓசையைச் சொல்லென்றீரோல் கடலொலி சங்கொலி விண்
டுலி முதலியனவுஞ் சொல்லாகாவோவெனின், சொல் இது முன்பு
யானுணர்ந்த எழுத்தென்றே பின்பு கூறியக்காலும் உணர நின்றலின்
கேடின்னி நிலைபேறுடையதாயிற்று. இவை அங்ஙனம் உணர்தலாம்
ருமையானும் எழுத்தினுணர்க்கப்படாமையானும் நிலைபேறிலவாயின;
ஆதலின் சொல்லெனப்படா; அன்றியும், ஓசை அரவம் இசை என்ப
னபோலன்றிக் கிளவி சொல் மொழி என்பன எழுத்தினுணரிய வே
சையை உணர்த்தும். முற்கு லீளை முதலியன எழுத்தினுணர்க்கப்படா
மையின் சொல்லாகா.

இனி, ஒருசாரார் எழுத்தினுணரிய வேசையுங் கெடுமென்பர்.
உரையாசிரியரும், 'சொல்'லன்பது எழுத்தினுணர்க்கப்பட்டுத்தீண
யறிவுக்குமோசை' என்றும், 'தன்னையுணர நின்றவழி எழுத்தென
ப்படும், தான் இடைநின்று பொருளுணர்த்தியவழிச் சொல்லெனப்பட
டும்' என்றுங்கூறினார் அக்கருத்தேபற்றி. இனி, சேனுவலையர் 'சொ
ல் பொருள்தறித்துவரும்' என்றாராவெனின், ஒருவன் பொருட்டன்
மையை யுணர்த்தற்குச் சொல் கருவியாய் நின்றவன்றித் தனக்கோருண
ர்வின்மையின் தான் ஒருபொருளைக்கருதி நின்றவன்றெனமறுக்க.

அச்சொல்லை எட்டுவகையானும் எட்டிறந்த பல்வகையானுமுணர்
த்துப.

(1) இரண்டுதிணையும், (2) ஐந்துபாலும், (3) எழுவகைவழுவும், (4)
எட்டுவேற்றுமையும், (5) ஆறெட்டும், (6) மூன்றிடமும், (7) மூன்றுகா
லமும், (8) வழக்குஞ்செய்யுளுமாகிய விரண்டிடமும், என எட்டுவகை
யானுணர்த்துப.

இனி, எட்டிறந்த பல்வகையாவன: சொல் நான்குவகையென்ற
லும், அவற்றையே பல்வகைப்பகுத்தலும், விகாரவகையும், பொருள்
கோள்வகையும், செய்யுட்குரிய சொல் நான்கென்றலும் பிறவுமாம்.

அச்சொற்றுள் தனிமொழியும் தொடர்மொழியுமென இருவகைப்
படும். தனிமொழிபொருள்விளக்குமாறு "நிலந்தீ நீர்வளி விசும்போ
டைந்துங், கலந்த மயக்கமுலகமாகலி, னிருதிணை யைம்பாலியனெறி
வழாமைத், திரிவில் சொல்லொடு தழாஅல்வேண்டும்" என்னும் மர
பியற் சூத்திரத்தானுணர்க். தொடர்மொழி இருமொழித்தொடரும்
பன்மொழித்தொடருமென இருவகைப்படும். அவை தொடருங்காற்
பயனிலைவகையானும் தொகைநிலைவகையானும் எண்ணுநிலைவகை
யானும் தொடரும்.

இனி, வடநாலோர் கூறியவாறே அவாய்நிலையானும் அண்மை நிலையானும் தகுதியானும் தொடருமென்றுமாம்.

சாத்தன், உண்டான், மன், நனி என்பன தனிமொழி. சாத்தன் வந்தான், இது பயனிலைத்தொடர். யானைக்கோடு, இது தொகைநிலைத் தொடர். நிலநீர், இது எண்ணுநிலைத்தொடர். இவை இருமொழித்தொடர். அறம்பேண்டியரசனாலகம்புரந்தான் என்பது பன்மொழித்தொடர்.

வழுக்களைந்து சொற்களை அமைத்துக்கோடலின் இவ்வோத்துக் கிளவியாக்கமென்னும் பெயர்பெற்றது. இனிச், சொற்கள்பொருள் கண்மேலாமாறுணர்த்தினமையிற் கிளவியாக்கமென்னும்பெயர் பெற்றதென்றுமாம்; ஒருவன்மேலாமாறிது, ஒருத்திமேலாமாறிது, பலர்மேலாமாறிது, ஒன்றன்மேலாமாறிது, பலவற்றின்மேலாமாறிது, வழுவாமாறிது, வழுவமையுமாறிது எனப்பொருள்கண்மேலாமாறுணர்த்தினமையின்.

இனி, இத்தலைச்சுத்திரம் சொல்லும்பொருளும்வரையறுத்துணர்த்துகின்றது.

(இச்சுத்திரத்தின்பொருள்) மக்கட்சுட்டே எ-து மக்களாகிய நன்கு மதிக்கப்படும்பொருளை, உயர்திணை என்மனார் எ-து உயர்திணையென்று கூறுவர்தொல்லாசிரியர்; அவர் அலபிற எ-து மக்களல்லாத பிறபொருளை, அஃறிணையென்மனார் எ-து அஃறிணையென்று கூறுவர்தொல்லாசிரியர்; அ இருதிணையின் இசைக்குமனசொல் எ-து அவ்விருதிணைப்பொருள்களையும் உணர்த்தும் சொற்கள் என்றவாறு.

எகாரமுன்றும் ஈற்றசை. இணைத்தெனவறிந்தவும்மை விகாரத்தாற்றொக்கது. “இசைப்பிசையாகும்” என்றதனால் இசைப்பு ஒலிக்குமென்னும் பொருடந்தெனின் சொல்லுக்குப் பொருளுணர்த்தும்வழியல்ல தொலித்தல் கூடாமையின் உணர்த்துமென்னுந்தொழிலினை இசைக்குமென்னுந் தொழிலாற்கூறினார்; இதுவும் ஒர்மரபு வழுவமைதி. பொருளை யுணர்த்துவான் ஒருசாத்தனை யெனினும் அவற்கு அதுகருவியாகவல்லது உணர்த்தலாகாமையின் அக்கருவிமேற்றொழிலேற்றிச் சொல் உணர்த்துமென்றது கருவிகருத்தாவாகக் கூறினார். இவ்வாசிரியர் எவ்விடத்துஞ் சொல்லைக் கருவிகருத்தாவாகக் கூறுமாறு மேலேகாண்க. அது “எல்லாச்சொல்லும் பொருள்குறித்தனவே” என்றும்போல்வன.

இச்சுத்திரத்தாற் பொருளிரண்டு சொல்லிரண்டென வரையறுத்தார்.

உயர்திணை என்பது—உயர்ந்தவொழுக்கமென இறந்தகால வினைத் தொகை; அது ஆகுபெயராய் மக்கட்பொருளை உணர்த்தி நின்றது.

இதனைப்பண்புத்தொகை யென்பாருமுளர், அது பொருந்தாது; என்னை: இது காலந்தோன்ற நின்றலின். மக்கட்சுட்டென்பது மக்களாகிய சுட்டென இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை, சுட்டு-நன்குமதிப்பு; அது ஆகுபெயராய் மக்கட்பொருளை உணர்த்தினின்றது. சேனுவரையர் இதனைப் 'பண்புத்தொகைப்புறத்துப் பிறந்த அன்மொழித்தொகை' என்றாரலெனின், இருபெயரொட்டாகுபெயர்க்கும் அன்மொழித்தொகைக்கும் வேறுபாடுணராமற் கூறினமையின் அதுபொருந்தாது; என்னைவேறுபாடெனின், ஈண்டு ஆகுபெயராய்நின்றநன்குமதிக்கும்பொருளும் மக்களையே யுணர்த்தினிற்கும்; அன்மொழித்தொகை அவ்வாறன்றி வெள்ளாடையென்றால் வெண்மையும் ஆடையும்ன்றி உடுத்தானையே உணர்த்தினிற்கும்; இது தம்முள்வேற்றுமை. "அன்மொழிதிலையாதன்மொழிதிலையலும்" என்புழி "வெள்ளாடைஎன்புழி தொக்க இருமொழிமேலும் தில்லாது உடுத்தானென்னும் அன்மொழிமேனின்றது" என்று உதாரணங் காட்டினார் சேனுவரையரும் என்றுணர்க. அஃறிணை—அவ்வொழுக்கமல்லவாகியவொழுக்கம் எனப் பண்புத்தொகை. அதுபொருளையுணர்த்தி நின்றது, ஆகுபெயராய். என்மனார் என்றது 'ஆரீற்று நிகழ்காலமுற்றுவினைத்திரிசொல். என்றிசினோரே என்பது அவ்வாறு வந்த இறந்தகாலமுற்று வினைத்திரிசொல். "மக்கடாமேயாறறிவுயிரோ" என்று மக்களுயர்ந்தமை மரபியலிற்கூறுப. அவரலவென்றது பிறவென்றார் அஃறிணை உயிருள்ளனவும் இல்லனவுமாகிய இருகூறு மடங்குதற்கு.

"மறங்கடிந்த வருங்கற்பின்" எனவும் "சில சொல்லிற் பல கூந்தல்" எனவும், பிறுண்டுஞ் சான்றோர்செய்யுளுள் இன்சாரியை உருப்புற்றது நின்றனோக்கி உரையாசிரியரும் 'ஆயிருதிணையினையும்' என இரண்டா முருபுவிரித்துப் பொருள் கூறினார்.

இனிச் சேனுவரையர் 'மக்கட்சுட்டு' என்பதற்கு "மக்களாகிய சுட்டியொதன்கணிகழும் அது மக்கட்சுட்டு" என்றும், 'ஆயிருதிணையினிசைக்குமனசொல்லே' என்பதற்குச் "சொன்னிகழ்ச்சிக்குப் பொருள் இடமாதலின் ஆயிருதிணையின்கண்ணென எழுவது விரிக்க" என்றும் பொருள் கூறினாரலெனின், முன்னர் 'மக்களென்றுகருதப்படும் பொருளை உயர்கிணையென்ப' என்று அவர் கண்ணழிவு கூறியது ஒரு பொருளிடத்து நின்ற மக்கட்டன்மையாலே ஒருவற்கு அப்பொருள் மக்களென்று கருதப்பட்டதென்று பொருடந்துநின்றது. பின்னர் மக்களாகிய சுட்டியொதன்கணிகழுமென்றது நோக்குகின்றவர்க்கு மக்களாகிய கருத்து யாதொரு பொருளிடத்துத்தோன்றுமென்று பொருடந்தால் வெள்ளாடையென்னும் பண்புத்தொகைபோல அக்கருத்து மக்களாகாமையிற் பண்புத்தொகை அன்றும். அது மக்கட் சுட்டென்பதற்

கப்பொருள் மக்கட் சட்டென்றவர் கூறிய பொருளானும் மக்களையே தோற்றுவித்து நின்றவின் அன்மொழித்தொகை அன்றும். அன்றியும் ஆசிரியர் ஈண்டு ஒரு பொருணினு தன்னை யொருவர்க்கு உணர்த்துமாலும் ஒருவன் அதனை உணருமாறும் ஆராய்கின்றாரல்லர்; உயர்ந்தவொழுக்கமென்று முதலூலாசிரியர் கூறிய குறி உலகத்தார்க்கு விளங்கப் பொருள்கூறக்கருதியே அதன்பொருளே பயப்பத் தாமும் மக்களாகிய நன்குமதிக்கும் பொருளென்று அச்சொற்குப்பொருள் கூறினொன்றுணர்க. அவர் கூறிய உயர்ச்சிதோன்றத் தாமும் நன்கு மதிப்பென்று பொருள் கூறினார்; தாமும் உயர்க்கிணையென்றே ஆளுதல்பற்றி. இனி “இசைப்பிசையாகும்” என்றதனால் திணையிடமாகச்சொற்கணின்று பிறவற்றை இசைத்தல்வேண்டும்; அதனை அது பொருந்தாது, மக்களைச் சுட்டிச்சொல்லுஞ்சொல் உயர்க்கிணைச்சொல் என்றுணர்க. அன்றியும் ஆசிரியர்க்கு அங்ஙனம் பொருள் கூறுதல் கருத்தாயின் “ஆலேவறிசொல்” முதலிய சூத்திரங்களெல்லாம் சொன்னிகழ்ச்சிக்குப் பொருளிடமாக ஆலேவின்கணிகழுஞ்சொல் மகலேவின் கணிகழுஞ்சொல் என்றே சூத்திரஞ்செய்வாராம்; ஆசிரியர் அங்ஙனம்செய்யாது ஒருவன் ஆண்மகளை அறியுஞ்சொல்லும் பெண்டாட்டியை அறியுஞ்சொல்லுமென அறியுமென்னும் பெயரச்சஞ் சொல் என்னுங் கருவிப்பொருளைக்கொண்டு முடியச்சூத்திரஞ்செய்தலின் ஆசிரியர்க்கு அங்ஙனம்பொருள்கூறுதல் கருத்தன்மையறிக.

மன என்பது வினைபற்றிய அசைநிலை இடைச்சொல்லாய் நின்றது.

End:

செய்யுண் மருங்கினும் வழக்கியன் மருங்கினு

மெய்பெறக்கிளந்த கிளவியெல்லாம்

பல்வேறுசெய்தியி னூனெறிபிழையாது

சொல்வரைந்தறியப் பிரித்தனர்காட்டல்.

இஃது யான் விரித்துக் கூறாதனவற்றை விரித்துக் கூறிக்கொள்க என அதிகாரப்புறனடை கூறுகின்றது. (இதன் பொருள்) ‘செய்யுள் மருங்கினும் வழக்கியன் மருங்கினும்’ எ-து இவ்வதிகாரத்தின்கட் செய்யுளிடத்தும் வழக்கிடத்தும், ‘மெய்பெறக்கிளந்த கிளவியெல்லாம்’ எ-து சிவவற்றிற்கு ஞாபகமாகப்பொருள்பெறச் சொல்லப்பட்ட சொற்களெல்லாவற்றையும், ‘பல்வேறுசெய்தியி னூனெறிபிழையாது’ எ-து செம்பொருளவாய்ப்பலவாக வேறுபடுத்திய விரிவுகையுடைய அகநீதியத்தீர் கூறிய நெறியிறம்பாமல், ‘சொல்வரைந்து அறியப்பிரித்தனர்காட்டல்’ எ-து சொல்லை வேறுபடுத்து மாணுக்கன் உணருமாறு துண்ணுணர்வுடையார் உரையானுங் காண்டிகையானும் பிரித்துக்காட்டுக எ-று.—அங்ஙனம் உணரப்பிரித்துக்காட்டுமாறென்னையெனின்: இரண்டாவது “வினையே வினைக்குறிப்பவ் விருமுதலிற்றேன்றும்”

என்றதற்கு மூவகையவாகிய வினைச்சொல்லினும் வினைக்குறிப்புச்சொல்லினும் பிறக்குங் காரணங்கள் எட்டனுட் செயப்படுபொருட்கண்ணே இரண்டாவது தோன்றுமென்றும், அச்செயப்படுபொருள்கடாம் மூவகையவென்றும், மூன்றாவதற்கு ஒதிய வினைமுதல் இயற்றும்வினைமுதலும் ஏவும் வினைமுதலுமென இருவகைய வென்றும், கருவி முதற்காரணமுந்தனைக்காரணமுமென இருவகையவென்றும், நான்காவதற்கு ஒதிய கொடைப்பொருள் இருவகையவென்றும், ஐந்தாவதற்குப் பொருள் நால்வகையவென்றும், அதன்கட் பொரு உறழ்பொருவும் உவமப்பொருவுமாமென்றும், ஏது காரகவேதும் ஞாபகவேதும் மாமென்றும், ஆரவதற்குத் தற்கிழமை ஓவகைய பிறிதீன்கிழமை மூவகையவென்றும், பிறவும் வேற்றுமையோத்தினுட் பிரித்துக்காட்டினும்.—இனி, வினையெனப்படுவதெனப் பொதுப்படக் கூறிய முதனிலைகளை இன்னவாறு வருமெனப் பிரித்துக்காட்டியும், அவை எடுத்தலோசையான் முன்னிலை யேவலொருமை முற்றாய் திற்குமென்றும், கடதறக்கள் முதனிலையை அடுத்துவருங்கால் இறப்பும், ஈற்றினை அடுத்துவருங்கால் எதிர்வும் உணர்த்துமென்றும், தில் கின்று என்பன நிகழ்காலம் உணர்த்துமென்றும், பகரவகரம் எதிர்காலமுணர்த்துமென்றும், ஏனையெழுத்துக்கள் இன்பெற்றும் பெறாதும் உகரம்பெற்றும் பெறாதும் வருமென்றும், வினைக்குறிப்புக்கள் பண்பாங்காலத்தும் வினைக்குறிப்பாங்காலத்தும் வேறுவேறு பொருளுணர்த்துமென்றும், விரவுவினைகள் பிரிவு வேறுபடேஞ் செய்தியவாங்காலத்து முடிக்குஞ்சொல்லானுமன்றித் தம்முள்ளே பாலும் இடமுங் குறித்துக்கொள்ளுந் தன்மையையுடையவென்றும், வினையெச்சங்கள் காலங்காட்டும் எழுத்துக்கள் பெறுமென்றும் அவை திரியுமென்றும், அவை காரண காரியம் பெறுமென்றும், பெயரெச்சங்களுட் காரணப்பொருட்டாய் வருவன கருவிக்கண் அடங்குமென்றும், பிறவும் வினையியலுட் பிரித்துக்காட்டினும்.—இனி அறுவகைத்தொகையுந் தொகுங்கால் இன்ன சொற்கண்ணே இன்னதொகை தொகுமென்றும், முற்கூறிய வினைச் சொற்கடாமுஞ் சில முக்காலமுஞ் சில ஒருகாலமும் உணர்த்துமென்றும், அவை பெயர்கள் பெறுங்கால் இன்னவாறே பெயர்கள் பெறுமென்றும், பிறவும் எச்சவியலுட் பிரித்துக்காட்டினும்.

இனிச் “சொல்வரைந்தறியப் பிரித்தனர் காட்டல்” என்பதனால் திரையனூரென்பது திரையனூற்செய்யப்பட்ட ஊரெனவுந் திரையனது ஊரெனவும், மூன்றாவதும் ஆரவதும் விரிந்தது. கடிப்பகை என்பது நான்காவதும் ஆரவதும் கடியாகியபகை யெனப்பண்பும் விரிந்தது. ஏழேகாலென்பது ஏழுங்காலுமென உம்மையும் ஏழேகால் நிலமான ஊரென அன்மொழியும் விரிந்தது. சொல்லிலக்கணமென்பது ஆரவதும் நான்காவதும் ஏழாவதும் விரிந்தது. சொல்லிலக்

கணங்கூறிய நூலென ஆகுபெயருமாய் தின்றது. பொன்மணி யென்பது மூன்றாவதும் ஐந்தாவதும் ஏழாவதும் பொன்னுமணியுமென உம்மையும் விரிந்தது. கருப்புவேலியென்பது நான்காவதும் ஆறாவதும் ஏழாவதும் மூன்றாவதும் ஐந்தாவதும் விரிந்தது. இயலிசையென்பது ஆறாவதும் ஏழாவதும் இயலுமிசையுமென உம்மையும் இயல்கின்ற இசையென வினையும் இயலாகிய இசையெனப் பண்பும் விரிந்தது. உரைவிரியென்பது ஆறாவதும் ஏழாவதும் நாலாவதும் இரண்டாவதும் உரைக்கும் விரியெனவினையும் உரை விரியையுடையதென அன்மொழியும்விரிந்தது. கருத்துப்பொருளென்பது இரண்டாவதும் மூன்றாவதும் ஐந்தாவதும் நான்காவதும் ஆறாவதும் ஏழாவதும் கருத்தும் பொருளுமென உம்மையும்விரிந்தது. சொற்பொருளென்பது மூன்றாவதும் நான்காவதும் ஐந்தாவதும் ஆறாவதும் சொல்லும் பொருளுமென உம்மையுஞ் சொல்லாகிய பொருளெனப்பண்பும் விரிந்தது. இவ்வாறே பிறசொற்களுந்தொக்கு விரியுமாறு அறிந்து பிரித்துக்காட்டுக. “இவனியாரென் குவையாயினிவனே” என்னும் புறப்பாட்டினுட் சேரனை முன்னிலையாக்கி முடமோசியார் கூறுகின்ற காலத்து இவனென்பது முன்னிலைப்படார்க்கையாய் தின்றது. இவ்வாறு வருவனவும் பிறவும் பிரித்துக்காட்டுக.

கொல் செல் வெல் என்பன லகரம் எனாமாய்த்திரிந்து தனக்கேற்ற மகர ஒற்றுப் பெற்றுப் பாலும் இடமுங் காட்டும். ஆன் ஏறிக் கொன்றான் சென்றான் வென்றான் என தின்றன. கோறு கோறும் சேறு சேறும் வேறு வேறும் என்பன முதனிலை நீண்டு லகர ஒற்றுக் கெட்டுத் தமக்கு உரிய ஒருமைத்தன்மை யீறும் பன்மைத் தன்மை யீறும்பெற்று தின்றன. வாவென்பது வந்தான் வருகின்றான் எனமுதனிலை குறுகிக் கால எழுத்திற்கு ஏற்ற இடைநிலை எழுத்துப்பெற்று வந்தன. கொள்ளென்பது கொண்டான் கோடு கோடும் என லகாரம் ணகாரமாய் கெட்டும் முதனிலை நீண்டும் வந்தன. கைவாரங் கொள்வானைக் கைவாரி யெனவுந் திருவில்லாதானைத் திருவிலியெனவும் அறிவில்லாதானை அறிவிலியெனவும் நூலோதினானை நூலோதியெனவும் இவ்வாறே ஈறு திரிந்து வருவனவும் பிறவும் பிரித்துக்காட்டுக.

வில்லி வாளி வினைக்குறிப்பு முற்றீறு திரிந்தபெயர். வலைச்சி பனத்தி வெள்ளாட்டி முதலியன சகரமுந் தகரமும் டகரமுமாகிய இடைநிலைபெற்றன. செட்டிச்சி கணக்கச்சி முதலியன சூச்சென்னும் இடைநிலைபெற்றன. கணவாட்டி இவ்வினைப்பெயர் டகரம் பெற்றது. இன்னும் இவ்வாறே வருவன பிறவும் பிரித்துக்காட்டுக.

கிள்ளிகுடி கிள்ளியுடைய குடிமக்கள் இருக்கும் ஊரெனவும், கீழ்வயிற்றுக்கழலை கீழ்வயற்றின்கண் எழுந்தகழலைபோல்வானெனவும்

அன்மொழித்தொகைபாம். - வடுகக்கண்ணனென வல்லொற்றடுத்தால் வடுகநாட்டிற்றந்த கண்ணென்றும் வடுகங்கண்ணென மெல்லொற்றடுத்தால் வடுகனுக்கு மகனாகிய கண்ணென்றும். “நனிநீடுழந்தன்று மனனேயினியே” என்பது பின்வருங்காலம் உணர்த்திற்று. இனியெம்மெல்லே எனப் பின்னென்னும் இடம் உணர்த்திற்று. ஏனோவென்பது ஒழிதற்பொருள் உணர்த்திற்று. ஏதிலென்பதயலானென்னும்பொருள் உணர்த்திற்று. உண்ணாதின்றென்புழி ஆவென்பதுஇடைநிலை யெழுத்தென்று உணர்க. வா தா என்றும்போல்வன மறையுணர்த்துங்கால் வாரான், தாரான், வாராது போயினான், தாராதுபோயினான், வாராதசாத்தன், தாராதசாத்தன் என முதனிலை குறுகாது திற்குமென்று உணர்க. நன் தீ சிறு பெரு வன் மென் கடுமுது இள புது பழ இன் உடை அன் என்பன முதலிய முதனிலைகள் மகரவைகாரம்பெற்று நன்மை தீமை சிறுமை பெருமை என வினைக்குறிப்புப்பெயராய் திற்குமாறும், இவைதாம் நன்று தீது சிறிது பெரிது வலிது மெலிது கடிது முதிது இளைது புதிது பழைது இன்று உடைத்து அன்று என அஃறிணை வினைக்குறிப்பு முற்றாய் திற்குமாறும், நல்லன் தீயன் சிறியன் பெரியன் வலியன் மெலியன் கடியன் முதியன் இளையன் புதியன் பழையன் இல்லன் உடையன் அல்லன் என அன்பெற்று உயர்கிணை வினைக்குறிப்பாய் திற்குமாறும், இவைதாம் ஆன் என்னும் ஈறு பெற்று முற்றாயும் படுத்தலோசையான் வினைக்குறிப்புப்பெயராய் உருபெற்றும் பயனிலை கொண்டு திற்குமாறும் பிரித்துக்கொள்க. இவ்வாறே ஏனைப்பால்களோடும் ஒட்டுக. இவைபண்பாய் திற்குமாறு முரிய வென்றுணர்க. இவைதாமே நன்றாய் வளர்ந்தான் வளர்ந்தது தீதாய்ப்போயிற்று போயினான் என வினையெச்சக் குறிப்பாமாறும் நல்லசாத்தன் தீயசாத்தன் எனப்பெயரெச்சக்குறிப்பா மாறுங்காண்க. சிற இழி தீர் என்னும் முதனிலைகள் அல்லீறுபெற்றும் அன்னீறும் ஆனீறும்பெற்றும் முற்கூறியவாறே திற்குமாறும் சிறந்து இழிந்து தீர்ந்து எனவுஞ் சிறந்த இழிந்த தீர்ந்த எனவும் வினையெச்ச வினைக்குறிப்பும் பெயரெச்சவினைக் குறிப்புமாறும் உணர்க. இவ்வாறு வருவன பிறவும் பிரித்துக்கொள்க; “சுடரிழாய் * * * பன்மானும்” என்புழி மானென்னும் இடைச்சொற் பலபடியுமென்னும் பொருட்டாய் தின்றவாறு காண்க. “பிரிதல் வல்லியாரீதுந் துறந்தோர்” என்புழி வல்லாராயென வினையெச்சமாய் தின்றவாறு காண்க. “கால்பொர நுடங்கலிற் கறங்கிசையருவி” என்புழி நுடங்குதலையுடைய அருவியென திற்குமாறுணர்க. இவைபோல்வன ஓசைவேற்றுமையான் வேறுபடுவனவு முணர்ந்து கொள்க. “நில்லாது பெயர்ந்த பல்லோருள்ளும்” என்புழி முன்னர் எல்லாரும் உளப்பாடாகக்கூறிய தோழி ஈண்டும் பல்லே முள்ளும் என்னுது தன்னை

நீக்கிக்கூறிய தென்னையெனின் தலைமகன் தன்னேநோக்கி அழிவுத
கக் கூறி ஆற்றானாகி நின்ற நிலைமையைக்கண்டும் அருள் பிறவாது
ஆயமுந்தலைவியும் போயவாறும் அதற்குத் தான் அழிவுதக்கு நின்ற
வின் அவரோடே போதலாற்றாது பின்னர்ப் போயவாறுந் தோள்
றக் கூறுகின்றனாதலிற் பல்லோருள்ளுமெனக் கூறினொன்று
பொருள்கூறுக. “முரசு முழுங்குதானே மூவருள்ளு, மரசெனப்படு
வது நினதேயத்தை” என்புழி மூவிரென்தென்னையெனின் புல
வன் கூறுகின்ற இவனை ஒழிந்த இருவகைக்குலத்தோரும் இவன் முன்
ணுள்ளோரும் படர்க்கையராதலின் அம்மூவகைக் குலத்துள்ளோ
ராயுங் கூட்டி முரசு முழுங்குதானே மூவரசுள்ளும் அரசென்றிண்டு
சிறப்பித்துச் சொல்லப்படுவது அச்சோமுன்வழித்தோன்றிய நின்னா
சேயென்றெனப்பட பொருள்கூறுக. இங்ஙனஞ் சான்றோர் செய்யுட்
கள் இவ்வாசிரியர் கூறிய இலக்கணங்களுளடங்காததுபோன்றுகிடப்
பன பிறவும் உளவேனும் நுண்ணுணர்வுடையோர் அவற்றின்பொரு
ட்பயனை நோக்கி ஒருவாற்றான் இக்கூறிய விலக்கணங்களுளடக்கிக்
கொள்க. இச்சூத்திரத்தின்கருத்து இவ்வதிகாரத்துட் சிலவற்றிற்கு
விரித்துக்கூறாது நுண்ணுணர்வுடையார் உணருமாறு கூறிய விலக்கண
ங்களும் உள, அவற்றிற்கு முதலூலானும் விரித்துயானுங் காண்டி
கையானு முணர்ந்துகவென்று கூறுதலாம். இங்ஙனங் கூறினர் முடி
ந்தது காட்டலென்னுந் தந்திரவுத்திக்கினமாகவென்றுணர்க. இங்ங
னங்கூறாது யான் கூறப்படும் இலக்கணங்களை முதலூல்களாற் கூறிக்
கொள்கவெனின் அது குன்றக்கூறலென்னுங் குற்றமாமென்றுணர்க.

எச்சவியன் முற்றும்.

சொல்லதிகார முற்றும்.

சொல்லதிகாரத்திற்கு மதுரையாசிரியன் பாரத்துவாசி
நச்சினுர்க்கினியான் செய்த காண்டிகை முற்றும்.

தொல்காப்பியவுரையில் நச்சினுர்க்கினியரால் காட்
டப்பட்ட மேற்கோள்களின் குறிப்பு.

[எழுத்ததிகாரம்].

சூத்திரம்.

6. செய்யுட்களோசை சிதையுங் காலீரளபு
...கொள் மாபுரானம்.
செராஅஅய்வாழியநெஞ்சு திருக்குறள், 1200.
தூஉஉத்தீம்புகைத்தொல்விசம்பு மலைபடுகடாம்.
பேளளர்த்துகொல்
இலாஅஅர்க்கிலலைத்தமர் நாலடியார், 283.
விராஅஅய்ச்செய்யாமைநன்று 246.

- மரீஇஇப்பின்னைப்பிரிவு நாலடியார் 220.
10. விளங்காய் திரட்டினூரில்லைக்களங்கனியை 103.
...மில் ,,
33. வருவர்கொல்வயங்கிழா அய்வலிப்பல்யான் பாலைக்கவி.
கேளளிணி
பிடியூட்டிப் பின்னுண்னுங்கனிநெனவு ஷை
முரைத்தனரே
40. கண்டண்டண்ணெனக் கண்டுங்கேட்டும்.
கஃஃநென் னுங்கல்லதரத்தம்.
கஃஃநென் னுந் தண்டோட்டுப்பெண்ணை.
எஃஃகிலங்கிய கையராயின் னுயி...ஊடு.
46. அகரமுதல திருக்குறள், 1.
50. வருவர்கொல்வயங்கிழா அய், 33 q. v. பாலைக்கவி.
கடியவேகனங்குழா அய். ஷை.
குரங்குளைப் பொலிந்த கொய்சுவற்புரவி.
51. அந்நூலை...முந்நூலாக்கொள்வானும்
போன்ம்.....
சிதையுங்கலத்தைப்பாயினுற்றிருத்தித்...திசை
யறிமீகாணும்போன்ம்.
52. மருளி னுமெல்லாமருண்ம்.
57. அடைப்பையாய்கோரூ.
புனையிளங்கொங்கையாய்வரும்.
கௌவைநீர்வேலி.....கூற்று வெண்பாமாலை,
iv. 23.
64. எமலிதந்த மனவுச்சூலும்பு.
72. நொஅலையனின்னாடடைநீ.
111. இரும்புகிரித்தன்னமாயிருமுருப்பிற்...தெறிப்ப அகம், 4.
கருங்காலோமைக்காண்பின்பெருஞ்சினை...
தெய்வமால்வரைத்திருமுனியருளால். ... சிலப், 3 - காதை,
எயிறுபடையாக வெயிற் கதவிடா ..தருந்
தொழில்சாவா புறம், 3.
115. நின்னுகூறுவலெனவகேண்மதி ,, 35.
119. எடுத்தநறவின்சூலையலங்காந்தள்.
131. கற்பினின்வழா அநற்பலவுதவி.
அகடுசேர்புபொருந் தியளவினிற்றிரியாது.
140. ஏளியவளொருத்திபேடியோவென்றார்.
விண்வத்துக்கொட்கும்.
154. எட்டிப்பு மணிமேகலை.
எட்டிக்குமரனிருந்தோன்றன்னை ஷை.
157. மழவரோட்டிய.
அவர்க்கண்டெம்முள்.
எக்கண்டுபெயருங் காலையாழ நின்கற்கெழு
சிறுகுடி
நப்புணர்வில்லா நயனில்லோர்நட்பு.
மறங்கடிந்தவருங்கற்பின் (Sec. 1. சொல்) ... புறம், 166.
சில்சொல்லிற்பல்கூந்தல் (Sec. 1. சொல்) ... ஷை
வரைபாய்வருடை
புலம்புக்கண்ணேபுல்லணற்காலை புறம், 258.
172. யார்யார் க்கண்டேயுவப்பர்,

- யாவது நன்றெனவுணரார்மாட்டும்.
176. புன்கண்ணுடைத்தாற்புணர்வு.
பாடறியாதானையிரவு.
கண்ணாக்காணக்கதவு.
179. உடைமையுமின்மையு மொடுவயிடுகோக்கும்.
180. ஒன்றாகநின்றகோவினையடர்க்கவந்த.
191. எல்லார்க்குமெல்லாநிகழ்பவை.
204. ஆங்கக்குயிலு மயிலுங்காட்டிக்க சேவனை...
யோளே.
213. பலாஅஞ்சிலாஅ மென்மனார்புலவர்.
232. ஆனநெய்தெளித்துநானநிவி.
ஆனமணிகறங்குங்கானத்தாங்கண்.
234. இறவுப்புறத்தன்ன பிணர்படுதவுமுதற்...தர்
ழை நற்றிணை 19.
புறவுப்புறத்தன்ன புன்காயுகாய்.
237. உப்பின்றுபுற்கையுண்கமாதொற்கையோளே.
இடனன்று துறத்தல்வல்லியோளே.
வாளன்றுபிடியாவன்கடைவர்.
நாளன்றுபோகி புறம், 124.
238. ஈகாண்டோன்றுமெஞ்சிறுநல்லூரே.
கள்வனோவல்லன் கணவனென்காற்சிலம்பு...
யீதொன்று.
246. வெண்கூதாளத்துத்தண்பூங்கோதையர்.
கணவிரமாலையிடுக்கழிந்தன்ன.
261. எழுஉத்தாங்கியகதவுமலைத்தவர்...தலின் ... புறம் 97.
பழுஉப்பல்லன்ன பருவுகிர்ப்பாவடி.
275. கழியே, சிறுகுரனெய்தலொடுபாடோவாதே...
தொலிக்கும்.
279. தென்றற்குவிணைக்குச்சேமணிக்குக்கோகிலத்தி
ற்கன்றிற்கு.
290. யானோதேறேனவர் பொய்வழங்கலரே.
குன்றறழ்ந்தகளிமென்கோ கொய்யுளை
மாவென்கோ.
299. உயவல்யானைவெரிநுச்சென்றன்.
300. வெயில்வெரிநிறுத்தபயிலிதழ்ப்பசுங்குடை.
304. விண்ணத்துக்கொட்கும் வண்ணத்தமரர்.
விண்ணத்துக்கொட்கும் வினாசெல்லூர்தி
யோய்.
விண்குத்துநிள்வரைவெற்பகளைபவேர்.
வண்வத்துக்கொட்கும்.
306. தாழ்ப்பெயல்களைகுரல்கடுப்பண்ணுப்
பெயர்த்து
312. புலம்புக்கனனே புறம், 258.
கலம்பெறுகண்ணுளரொக்கற்றலைவர்.
316. இலம்படுபுலவரேற்றகைநிறைய.
இலம்பாடுநாணுத்தரும்-
333. அதுமற்கொண்கன்றேரே.
காப்பும்பூண்டிசிற்கடையும்போகல்.
345. மின்னுச்செய்விளக்கத்துப் பின்னுப்
பினியவிழ்ந்த.

- மின் னுநிமிர்ந்தன்ன.
346. பொன்னகர்வரைப்பிற்கன்னந்தூக்கி.
356. பொலம்படப்பொலிந்த கொய்சுவற்புரவி.
பொலங்கலஞ்சுமந்த பூண்டாங்கிளமுலை.
பொலஞ்சுடராழிபூண்டதே.
பொலந்தேர்க்குட்டுவன்.
பொலநறுந்தெரியல்.
பொலமலராவினா.
363. பீர்வாய்ப்பிரிந்த நீர் திறைமுறைசெய்து.
ஆரங்கண்ணியடுபோர்ச்செழியர்.
மாரிப்பீரத்தலர்சிலர்கொண்டே ...
365. பொன்போற்பீரமொடு புதற்புதன் மலர ... நெடு நல்வாடை, 14.
400. புட்டேம்பிப்புயன்மாறி பட்டினப்பாலை, 4.
404. இக்கிடந்த துமக்கட்டலை.
405. விண்ணுக்குமேல்.
மண்ணுக்கு நாப்பண்.
பல்லுக்குத்தோற்றபனிமுல்லைபைங்கிளிகள் ...
மண்.
408. மால்யாறுபோந்து கால்சுரந்துபாய்ந்து.
481. வானவரிவில்லுந் திங்களும்போலும்.
கல்கெழுகானவர் நல்குறுமகளே.
மாந்திக்கிழவனும்போனம்.
கான்கெழுநாடு.
பிண்கெழுபெருந்திறற்பலவேன்மன்னர்
துறைகெழுமாந்தை.
வளங்கெழுதிருநகர்.
பயங்கெழுமாமழை புறம், 266.
பூக்கேழ்தொடலை நுடங்கவெழுந்து.
துறைகெழுரன்கொடுமைநாணி.
செங்கேழ்மென்கொடி.
482. ஒல்லொலிநீர்பாய்வதேபோலுந்துறைவன்.
483. தடவுநிலை புறம், 140.
நறவங்கண்ணிநற்போர்ச்செம்பியன்...கானல்.
முழவுமாதொலைச்சியபைந்நிணப்பிளவைப்...
விரைவு.
கிண்வளிவிசித்த முழுவொடாகுளி.
சுறவெறிமீன்.
இரவழங்கு சிறுநெறி.
கள்ளியங்காட்ட புள்ளியம்பொறிக்கலை ... அகம், 97.
தீயினன்னவொன்செங்காந்தள் மலைபுகடாம், 145.
- நல்லொழுக்கங், காக்குந்திருவத்தவர். ... நாலடியார், 57.
எப்பெற்றமான்பிண்போல்.
கைத்துண்டாம்போழ்தே நாலடியார், 19.
கைத்தில்லர் நல்லர் நான்மணி.
புன்னையங்கானல்.
முல்லையந்தொடையல்.
அண்ணல்கோயில் வண்ணமே.
அஞ்செவிநிறையவாவின்.

மரவம்பாவைவயிரூரப்பருகி.
 மரவநாகம்வணங்கிமாற்கனம்.
 காரெதீர்கானம்பாடினேமாக ... புறம், 144.
 பொன்னந்திகிரி முன்சமத்துருட்டி.
 பொன்னங்குவட்டிற்பொலிவெய்தி.
 வேர்பிணிவெதிரத்துக் கால்பொருநாலிசை. நற்றிணை, 62.
 ஆயிடையிரு போண்மைசெய்தபூசல்.
 முதிர்கோங்கின்முகை.
 காய்மாண்ட தெங்கின்பழம் ... சீவகசிந்தாமணி.
 தொண்டெலையிட்ட பத்துக்குறை.

[சொல்லதிகாரம்.]

1. மறங்கடிந்தவருங்கற்பின், (See 157 எழுத்து.) புறம், 166.
 சில்சொல்விற்பல்கூந்தல், (See 157 எழுத்து) ,, 166.
4. பெண்ணவாயாணிழந்த பேடியணியாளோ. நாலடியார், 251.
7. ஆர்த்தார்கொண்மார்வந்தார்.
9. காணந்தகைப்பசெலவு.
15. எப்பொருளாயினும். } ... { தொல், சொ
 அப்பொருள். } ... { ல், 35.
18. செஞ்ஞாயிற்று நிலவு வேண்டினும்...வேண்
 டினும் ... புறம், 38.
 வடவேங்கடந்தென்குமரி ... தொல், பாயிரம்.
22. வரும்ழைய வாய்க்கொள்ளும் வாடாச்சீர்...
 தோள்
 குருதிபடிந்துண்டகாக முருவிழந்து...வாய.
 அரியகாணஞ்செனரூர்க்...தோளே.
24. உருவுகிளரொளிவினை.
 ஞாயிற்றுருவுகிளர் வண்ணங்கொண்ட
 உருவக்குதிரை.
 வேண்டெருவங்கொண்டதோர்கூற்றங்கொல்.
26. கவிசெந்தாழைக் குவிபுறத்திருந் ... கூகையுங்
 கூடி ... புறம், 238.
 பெருந்தோட் சிறுநுகப்பிற் பேரமர்க் கப்பே
 தை.
27. கொடுங்கோற் கோவலர் பின்
 னின்றுய்த்தர...தாயர் ... முல்லைப்பாட்டு.
29. பெருவிறலமரர்க்குவென்றிதந்த ... புறம், 55.
 புன்றருபசுங்காப்தின்ற.
 தூண்டில்வேட்டுவென் வாங்கவாராத.
 அரிமலர்ந்தன்ன கண்ணம்மாகடைசி...நின்ற
 தாரா.
33. பன்னிருகையும் பாற்படவியற்றி ... முருகாறு, 113.
 முரசமுழங்குதானைமூவருங்கூடி.
 இருதோடோழர்பற்ற.
 ஒண்குழையொன்றொல்கியெருத்தலைப்ப.
34. உறற்பால நீக்கலுறுவர்க்குமாகா ... நாலடியார், 104
 மன்னுகபெரும் நிலமிசையாளே ... புறம், 6.
 மன்னுவுலகத்து மன்னுதல்குறித்தோர் ... ,, 165.

- மன்றாப்பொருட்பிணிமுன்னிய.
 35. நானு நட்புமில்லோர்த் தேறின...வுல
 கத்தானே.
37. நாயிடைமுதுநீர் அகம்.
 அளிநிலைபெறாது ஷெ.
 கொய்தளிர்ந்தண்டலைக்...சாரநாட்
 பொற்புண்சுமந்த புணர்மென்முலைக்கோடு... சீவகசிந்தாமணி.
 வையைக்கிழ உன் வயங்குதார் மாணகலந்...
 யொருங்கு
39. அவனணங்கு நோய்செய்தா...விளைவு.
 42. எந்தைவருக வெம்பெருமான வருக.
 43. யானுமென்னைஃகமுஞ்...போர்.
 45. ஆவுமானியம் பார்ப்பனமாக்களும் ... புறம், 9.
 46. மூங்கிலின்மிசை...ளிரும்பிடி.
 நளிபுகை...னீர்மிசைந்து.
 இடம்படிவீழ்...புலியினஞ்சிறந்த.
 கடவுளொருமீன்...யயின்றனர் ... பரிபாடல்.
 அறுசுவையடிசி...தின்றென.
47. ஊன்றுவைகறி...லல்லது ... புறம், 14.
 51. வடுகரருவாளர்...ரறிவுடையார்.
 கடுஞ்சினத்த...மாண்டதாயினும் ... புறம், 55.
 பார்ப்பார்தவலோ...யெனப்படுவார் ... ஆசாரக்கோவை.
 பார்ப்பாரறவோர்...கைவிட்டு ... சிலப், காதை 21.
 தானுந்தேரும்...னலனுண்டான்.
53. கழிப்பூக்குற்றுக்கானலல்கி.
 55. கன்றறற்றுப் படுத்தபுன்றலைச்சிரூர்.
 56. அரிதாரச்...மலைப்பெய்தநீர்.
 ஊட்டியன்ன...செயலை.
 பல்லார்தோ...நாறுமெமக்கு.
 ஜல்லேங்கு வளைபுலா அன்...நறிது.
57. ஒழுக்கமுடைமைகுடிமை ... திருக்குறள், 133.
 மடிமைகுடிமைக் கட்டங்கிள். ,, 608.
 ஆயிடை யிருபெய...பூசல் ...
 ஊராண்மை...றுடைத்து.
 வேளாண்மை...தாளாண்மை.
 வேளாணை திரும்...பிரிவினானும்.
 உட்குடையா னூராணியல்பினுள்.
 இளமை...தருதலுமின்றே.
 ஆண்மைதோன்ற புறம், 242.
 மூப்புடைமுதுபதி.
 அடிமைபுகுத்திவிடும்.
 சொல்வன்மைநன்று.
 விருந்தெதிர்கொள்ளவும்.
 ஆங்கவை...லல்கி.
 ஐம்பெருங்...ராயமும் மணிமேகலை.
 ஆண்மையடுத்தமகன்.
 பிறனியலாள் பெண்மைநயவாதவன் ... திருக்குறள், 147.
 அரசுபடக்கடந்தட்டு.
 பெண்ணரசியேந்தினள்.
 அரசுவா வீழ்ந்த களத்து.

- போர்யானைவந்தீகவீங்கு.
 தேமலரலங்கற்றிருவேபு தக.
 ஆலமர்செவ்வன்...மெம்முயிர்.
 எவவுஞ்செய்கலான்...நோய்.
67. சிறுமைபெருமையிற்...துணிந்தே.
 கோஞல் ..பல்கி புறம், 117.
71. கொலைவர்கொமொரந் தேய்த்தார்.
 72. கவிரம்பெயரிய.
 74. உலகத்தோ...வொழுக்கல் திருக்குறள், 140.
 காவோடறக்...தொட்டானும் திரிகடுகம்.
 நாவீற்றிருந்த...திருமாமகள் சீவகசிந்தாமணி.
 இதுநனி...னென்னும்.
75. பொன்னொ...பிறரோ.
 77. நிலத்துக்கணி...கரும்பும்.
 உண்டி...யளிது.
 கள் வார்க்கு...நிலை.
 புதல்வர்கன்புறும்.
 மனைக்கு...லின்மை நான்மணி.
 போர்க்கு...மன்.
 நடடார்க்கு...நாணுதோன்.
 தன்சீரிய...மைந்தன்.
 உற்றார்...மகளிர்.
79. கோட்டிற் ..நெடுந்தேர்.
 தலையி...ரணையர் திருக்குறள், 964.
80. யானைவளவன்கொல்வீமீமீசை.
 ஐம்பாலுரிமைபுமதன்மற்கிழமை அகந்தியம்.
82. கண்ணின்று...னாயின்.
 வடக்கணவேங்கடம்
93. வாறோக்கி...ரொல்லாம் திருக்குறள், 542.
94. நின்மகள்...கொண்டு.
 யாமெம்...பாராட்ட.
 என்னணி...ளாடிய.
102. என்னொடு.. சூழாது.
 தடுப்பெனப்...நெறி.
 முன்கைச்சுடர்...வியோயாட.
 அந்தணர் நூற்குமறத்திற்குமாதியாய் திருக்குறள், 543.
105. தணவால்...கழலே.
 106. கிளையரி...துவர்வாய்.
 கொக்கி...கொக்கின
108. கடிநிலை...சிரியர்க்க.
 காவலோ...சும்மே.
 உள்ளம்போல...வுடைமையான.
112. கறைமிட...தன்று புறம், 1.
 யானுண்ணலுமுண்ணேன்.
 வாழ்தலும்வாழேன்.
119. ஆறநியந்தணர் வித்தொகை.
 122. சுடர்த்தொடிகேளாய்.
 தும்பீ...நாராய்.
 கொகையு...சென்றாளுக்கு.
126. சான்றோர்...காமகா.

131. படிவவுண்டி...மகனே.
 அகவன்மகனே.
 அகவன்மகனே.
 கூந்தன்மா...மார்பின்மறு.
 நம்பன்...கேட்க.
 நம்பானெம்பெருமா.
 வாயிலேயோ வாயிலோயே புறம், 206.
 மாந்தர்கூறீர்.
 துறந்துள்ளா...வெல்லாநீ.
 எல்லாநீ...காட்டினே.
 கேளீர்...நாளும்.
 விளங்குமணி...பூணய் புறம், 130.
 கிழுவோள்...முரியள்.
 கிழுவோட்குவமமீரிடத்தூரித்தே.
 கிழுவோற்...வரைவினறே.
 பெருங்கால்...வோயே புறம், 202.
 ஆவுமானியற்...பேணி ,, 9.
143. தடியே...மகாஅயர்.
 151. மாஅஅனின்...கொண்டு.
 153. வருந்தினே...னெஞ்சம்.
 கருங்கால்...மகி.
 திங்களுட்...முயால்.
 156. எம்மானே...யொளித்தீயோ
 159. இளைதாக...விடத்து திருக்குறள் 879.
 163. ஒத்தகிழவனுங் கிழத்தியும்.
 165. ஊரார்...பெண்டெனமொழிப.
 என்னேநின்...கற்பின்.
 168. எல்லேம்...டொருங்கே.
 வல்லே...றிதுவென.
 இருவேழும்...படர்தீர.
 171. வெறியுறு...காயினும்.
 பிறந்தவர்க...ராகியே.
 கற்றனங்கள்...னெல்லாம்.
 எங்கள்வினை...நாளே
 189. கண்டனிரெல்லா...நோக்குதிர்.
 ஊடினிரெல்லா...சாற்ற.
 நெறிதாழிருங்...சிறுபாகராக.
 195. நியுந்தவறிலே...புறங்கடை.
 நீயே, பிறர்...காலே புறம், 57.
 இன்றுணைப்...யுடையேயோநீ.
 ஒருவரொருவ...லாற்றின் நாலடியார், 309.
 197. வில்லோன்...கழலே.
 தொடியோன்...சிலம்பே.
 நல்லோர்...தாமே.
 கழனிநல்...தோயே.
 198. உடுவன்முதுமகன்...குமரி.
 199. அவளுஞ்...சாயே.
 204. அந்தணனை...யாமே.
 பாடுகம்வம்மின்போதுகம்.
 பாடுகம்...தோழி.

- சிறுகண்யானே...வருதும்.
 205. கழிந்தது...காப்பினும் புறம், 203.
 அழாற்கோ...கிறைவி குறுந்தொகை.
 நெடுந்தேர்...திழிந்தனன்.
 தாங்குநின்னவலமென்றீர்.
 நீகூறும்...கூறு.
 கூடாநீர்நின்ற...வேற்கு.
 206. காண்குவந்திசிம்பெரும புறம், 17.
 நோகோயானே ,, 234.
 209. எள்ளுமார்...யிங்கு.
 ஆர்த்தார்...வந்தார்.
 நிலவன்...புலவர்.
 பாடின...மாரெமரோ புறம், 375.
 நோய்மலி...மாரெமரோ.
 211. யானுமென்...சாறும்.
 212. ஊதைக்கூட்...வாராதவண்டு.
 213. வினவிநின்றந்தோனே.
 நல்லேமன்னென நகூஉப்பெயர்ந்தோளே.
 வாடாவள்ளியங்காடிற்றந்தோரே.
 214. வந்தோய்...சேர்ப்ப.
 216. எப்பொருளுமல்லனிறைவன்.
 எவ்வுயிர்க்கண் ணுமிறைவனுளன்.
 ஆற்றருந்...யுளன்.
 பொய்யர்நெஞ்சிம்புனிதனிலன்.
 219. தாலிகளைந்...மிலனே புறம், 77.
 வியந்தன்று...மிலனே ,, 77.
 222. குருகிபடிந்...முடைத்து.....
 அறிந்த...தில்ல.
 மெல்லிரன்.. மற்றே.
 அணித்தோ...னெமக்கே புறம், 173.
 223. கதவவா.. வனமுலை.
 வகைதெரிவானகட்டேயுலகு திருக்குறள், 27.
 எந்நாட்...போரோ.
 வேலியா...டாக.
 225. நன்றுமன்...கூறி.
 ஐயசிறி...பூக்கி.
 ஈதன்...பெருட.
 பிரிந்துறைகுழாந்.
 226. கானங்...கேட்பின்.
 அகையேல்.
 மாதோழியழேல்.
 228. கடாவுக...தேர்.
 யானுநின்...ஊரைக.
 வழாஅலோம்பல் தொல்,சொல்,13.
 இற்றெனக் கிளத்தல் ,, ,, 19.
 ஆக்கமொடு கூறல் ,, ,, 20.
 மரீஇயதொராஅல் ,, ,, 443.
 காணன்மாரெமர்.
 வாழ்தல்...வைகல்.
 அஞ்சாமை...தொன்றன்.

- மகனெனல்...யெனல். திருக்குறள், 196.
 நாடாகொன்றே...கொன்றே புறம், 187.
 229. ஒலதல்...மவர் திருக்குறள், 653.
 என்குறை...வலவ.
 230. விருந்தின்றி...பகலும் திரிகடுகம். (?)
 நாளன்று...போகி. புறம், 124.
 அகலிரு...தரும் பெரும்பாணறு.
 தலைப்பெயற்...பிடவழம் கலித்தொகை.
 படுமகன்...காணூஉ.
 நிலம்புடை...குஞ்சரம்.
 கல்லாக்கழிப்பர் நாலடியார், 366.
 நிலங்கிளை...ரேள் அகம், 16. (?)
 பல்கால்..வுண்டு
 புலராப்...தொடுத்த முருகாறு.
 வாடுபுவனப்போடி.
 நனவிற் மாங்கே.
 அற்ற...துண்க திருக்குறள், 943.
 வினையெஞ்...குறிய
 அவாவுண்டே லுண்டாம்.
 அவளெ...வரும்.
 ஒன்றூந் தீச்சொல் திருக்குறள், 128
 துணங்கிய ..தன்றி ,, 419. (?)
 வாழச்...யுலகம்.
 துன்னிப்...வுணரா புறம், 375.
 செவ்வன்...திற்பான்.
 புதுவதிரி...வணியன்.
 புதுவது...யாப்பு.
 பொய்கை...தீன.
 பெருங்கை...புலம்பு.
 சிறுநனி...பினும்.
 ஒல்லைக்கொண்டான்.
 கூறமற்...கூளி. கலித்தொகை.
 கூறமைநோக்கிக குறிப்பறிவான் திருக்குறள், 701.
 231. நீயிர்...யார்.
 இளமை...பின்னை.
 வருமுன்னர்...வாழ்க்கை திருக்குறள், 435.
 வலனாக...கால். கலித்தொகை.
 அகன்றவர்...கால்.
 தொடர்கூர...கடை.
 லெவழி...பசப்பே.
 அவளாடு...மனனே,
 களையுநர்...விடத்து. திருக்குறள், 879
 அலைப்பான்...குற்றம் நான்மணி.
 திருவிற்றான்...போல.
 புணர்தரு...சென்றான்.
 கொல்வான்...டெழுந்தான்.
 வேபாக்கறிந்து.
 232. தம்மின்...தருளி.
 தொல்லெழில்...நலிதலின்.
 233. கண்டியன்று...யாயும்

- தானொற்...பட்டார்.
அகனமர்ந்து...னில் திருக்குறள், 84.
காமன்...புலந்தாள்.
மாஅல்...சரம்.
உடம்பு...குற்ற
உரற்கால்...யயா குறுந்தொகை,
232.
- ஆகிடந்து...விளைந்தது.
பூணணி...மார்பு.
234. வவனாக...றுரைத்ததை கலித்தொகை.
235. பசந்த...வெய்யொளும்.
நெல்லரியு...தொழுவர் புறம் 24.
236. மற்றிந்தோய்...யொண்டொட.
நின்முகங்...மால்.
தேரொடும்...னேன்.
நிலம்பூத்தமரமாயின் கலித்தொகை
குண்டுகளை...கண்ணி.
நூலாக்...கொளீஇ.
பொச்சாவாக்...செயின் திருக்குறள், 537.
இன்னதன்மையின்.
அன்னதன்மை...யார் புறம், 136.
239. வல்ல மெறிந்த...வழுதி.
240. ஆம்பலூரு...மொழிமே.
சாரநாட...கலுழ்மே.
241. வறிதி நீந்தி...நினைப்பவும்.
242. வெங்கதிர்...வரைப்பு.
251. அதுகொரோழி காமநோயே.
வருகதில்...சேர.
252. அனையை...மாறே. புறம், 4, 20.
சிந்தோன்...மாறே.
கூராய்...மாறே.
மந்திரவிதி...வழா.
இயல்புளி...வன் திருக்குறள், 545.
253. கொன்னூர்...ஊம்
ஒஓவினிடே.
உடனாயிர்...தில்ல.
வருகதில்...சேர.
பண்டறியா...கொலோ.
254 சிறியகட்...மன்னே புறம், 235
பொதுமல...மன்னே.
பரிசில...மின்று.
255. வார்ந்திலங்...யானே.
வருகதில்...வல்லே புறம் 284.
வருகதில்...சேர.
256. கொன்முனை...போல.
கொன்னே...நிளமையும்.
கொன்வரல்வாடை.
கொன்னூர்...ஊம்
257. உப்பொடு...காய் நாலடியார், 116
குறவரு...படினே.

- ஊர்க்கு...பொய்கை.
 ஒன், நிரப்பான்...நெருவன்.
 பொய்கை...யாதே.
 யாதுமூரே.
 நாளுமன்...மன்னே.
 நிலனு நீரு...தமைந்து.
 மண்டிணிந்த...வளியும் புறம், 2.
 இருதிலமடி...ராகும்.
 ஐதேயந்...மன்று.
 258. யானோதேதே . கலரே.
 ஒலவுவமையு...யொத்ததே.
 259. நிலனே...வளியே.
 கடல்போ...தோரே.
 வாடாவள்...தோரே
 260. துண்ணென்...மனம்.
 அழுக்கா...பாவி திருக்குறள், 178.
 நெடுநீர்...டாய்ந்து புறம் 240.
 261. நனாவருமென்றெண்ணி நாலடியார், 11.
 விண்ணென்றுவிணைத்தது.
 ஒல்லென்...வாரற்கு.
 பாரியென்றெருவனுளன்.
 264. இனிமற்றென்றுரை.
 மற்றறிவா.. மினையம். நாலடியார், 19.
 மற்றுங்...துயிலே.
 அதுமற்...சொள்ளாது.
 265. எற்றெ...னலம்.
 எற்றேற்ற...மில்லாதேன்.
 267. மடவை...முருகே.
 268. முரசுகெழு...தஞ்சம் புறம் 73.
 269. வருமே...யந்தல.
 அந்திற்கச்...கழலினன்.
 270 யாதுகொன்...நிலையே.
 இதனள...வல்லோர்க்கே.
 271. எல்வனே...நீவரின்.
 273. பெயரினாகிய...ருளவே.
 எல்லாவுயி...முதலே.
 274. எளியிஃ...றன்னெடு புறம் 5.
 அளிதோ...குரைத்தே.
 பல்குரைத்...படும்.
 275. புற்கை...யோனே .
 276. கண்பனி...தோழி.
 காமஞ்...மொழிமோ. குறுந்தொகை.
 உலாமதி...வலவ.
 மெல்லம்...டிகும்.
 காப்பும...போகல்.
 277. கண்டிகுமல்லமோ.
 கண்ணும்...யானே .
 புகழ்ந்திகு...பெரிதே.
 யாரஃ...திகிதோ.
 விளிவின்...மலைகிழுவோனே முருகாறு

- ஊனுமுணுமுணையின் புறம், 381.
278. அம்மவாழிதோழி.
279. ஆங்கக்...யோளே.
280. மங்கலமென்...போலும்.
நெருப்பழம் . நோயாக்கும்.
281. இன்னுந்தோழி...வீங்கென.
புறநிழம்...காண்டிகா.
தான்பிற...தூக்கி புறம் 140.
நசைதர...கொழிய ,, 15.
நோதக...லாலுமரோ.
பிரியின்...தெய்ய.
விசரிந்ச்னறு...னெஞ்சே.
282. காரொகிர்...மாக புறம் 144.
இணைத...ளாக ,, 144.
சொல்லிம்...றன்கை ,, 144.
அருளா...கொடிதே ,, 144.
தன்பெய...னாணி ,, 4,20.
அணையை...மாறே.
நடுங்குநாய்...குறந்ததை.
எறிதிரை...குறந்ததை.
284. நின்றே...காண். நாலடியார், 24.
அந்தோ...பெயரியல் புறம் 261.
அன்னே...கொரூனே ,, 345.
அன்னு...மாருயிரும்.
ஏயிவ...வென்றார்.
அஆவிழந்தான் நாலடியார், 9.
ஐயாவென்...றணையே.
ஆவம்மா...றணையே.
286. அடகுபுலால்...வியவன்.
288. கடல்போ . தோரோ.
அகில்படு...தோரோ.
தண்கடல்...டற்றே.
அவரேஎள, ..தோரோ.
289. இசையினு...தோன்றி.
நிலனென...நான்கும்.
உயிரென...யமையா.
290. மலைநிலம்...வுடையோர்.
தோற்றமிசை...மொழிப.
293. குன்றிகோபங்...நின்னிறம்.
நிலநீர்...பரியை.
பாட்டுங்...வெர்ருவன்.
இசையினுங்...தோன்றி.
நீர்க்கோழி...குந்து புறம் 395.
நாரரிநற...தூங்குந்து.
295. உண்டு...யாமே புறம் 166.
296. விண்பகை...னெச்சம் கிருக்குறள், 674.
கண்ணிமை...யென.
பொருள்கரு...டைந்தும் கிருக்குறள், 675.
297. சென்றீ...யாரோ.
கலக்கொண்...டென்கோ.

- நீங்கினனோ...னோனே.
 ஊரெனப்...துறையூர்.
 ஓர்கமாதோ...குரலே.
 ஒக்கல்...மாகாலே புறம் 193.
 அதுமற்...றேரோ.
 காப்பி லென்பின்.
 நேரானோக்க...பருகி.
 வரும்முனே...பிண்டியும்.
 தண் ணென்...புனலே.
 விசம்புழித்...நிசினே.
 298. சிறிதுதவிர்...மார்.
 சொல்லென்...பெயர்ந்தே.
 அறிவார்...யிறுகென்.
 அஞ்சவ...மறனே திருக்குறள், 366.
 சொல்லீய...வெகுளி.
 செழுந்தே...வென்றி.
 காதனன்...நிசினே.
 பணியுமா...பெருமை.
 ஈங்காயி...யானே.
 புனற்கன்னி...தென்பவே.
 சேவடிசேர்...தமன்றே சீவகசிந்தாமணி.
 குன்றுதொ...பண்பே முருகாறு.
 நாடோறுநாடி திருக்குறள், 554.
 எப்பொரு...தாயினும் ,, 355.
 301. உறுகா...யாம்பல்.
 ஈயாது...பலவே புறம் 235.
 வந்துநனி...நெஞ்சே.
 302. உருகெழு...மிசைந்த.
 புரைய...கேண்மை.
 உருவக்...ரோட்டிய.
 உருவமென்...யாயின்.
 புரைதீர்...புலவரான.
 303. குருமணித்தாவி.
 நறுஞ்சாந்து...ரகலம்.
 குருத்துளி...பொம்மல்.
 304. மணங்கமழ்...செல்லல்.
 வெயில்...யககத்த.
 305. மல்லன்...றெவனோ.
 ஏகலடுக்...சிலம்பின்.
 306. விசம்புகந்...துண்ணுது.
 உவந்துவந்...னனேஇய.
 307. பயவாக்...தவர் திருக்குறள், 406.
 308. மையில்...பூரும்மே.
 309. வளமலி...கியரோ புறம் 190.
 310. வாயிற்...புக்கு
 311. அலமரலாயம்.
 தெருமர...துஞ்சாள்.
 312. வரைபுரை...ரோட்டிய.
 தடமருப்...குழவி.
 313. வயக்கஞ்சால்சீர்த்தி.

- இரவரன்மாலையனே.
 314. இயங்கா...ரெவ்வமொடு.
 சினனே...னோட்டம்.
 315. அண்டர்க...துறைவன்.
 துணைபரி...செலவின்.
 316. அகிர...நோய்.
 விதிர்ப்புற...பிணை புறம், 20.
 317. வார்ந்திலங்...வையை.
 தெள்ளம்...கரை.
 போகுகொடி...கூல்.
 திரிகாய...போகி.
 ஒழுகு...கூல்.
 மால்வரை...வாழை.
 318. துணையிற்...யானை.
 நங்கையை...கொண்டின்.
 319. கெடவரலாயமொடு.
 பண்ணைத்...பொருளும்.
 320. வலிதுஞ்சு...குட்டுவன் புறம் 150.
 இரும்பிடி...யானை.
 நளிமலை...னெனவே. புறம், 150.
 321. தடமருப்பெருமை.
 322. கயந்தலைமடப்பிடி.
 323. சிலைப்புவல்...றனளாகி.
 324. பழுதுகழிவாழ்நாள்.
 325. மயிற்சாயன்...வேண்டிய.
 சாயன்...தன்றே.
 அமிர்தன்னசாயல்.
 326. மண்முழு...போல
 327. வம்புமாரி...மதித்தே.
 328. மாதர்கொண்...நல்லாய்.
 329. தயந்து...நம்பி.
 பேரிசை...புண்டி.
 330. வேனிவழிந...களிறு.
 பாய்ந்தாய்...மைந்தனை.
 நிழத்த...படாஅ.
 கயலற...சாஅய்.
 331. புலிப்பற்...தாலி.
 332. ஆரியர்...யிமயம்.
 333. கோபெல...யாலத்து.
 334. எமவெங்...தாயினும்.
 குழைமா...யொளொடு.
 335. பெருவரை...மகள்.
 336. வறிது...வெள்ளி.
 337. கானலஞ்...யேற்றி.
 ஏற்றமி...முற்றள்.
 338. பெட்பநகும்.
 அரும்பிணை...ஞாட்பினும்.
 யானும்...மகிழ்ந.
 பெற்றேற்...யாகென.
 அமரர்ப்...யருத்தியும் புறம், 99.

- பெட்டவாயில்...பினும்
காய்தலு...பெட்டலும்.
339. அமர்க்கண...கரனவன்.
வேய்மருள்...நாட்டு.
340. வள்ளியோர்...யானும் புறம், 154.
பசந்த...வருந்தி ,, 159.
கறவை...படர.
341. பையுண்...படரிய.
சிறுமை...யலலோ.
342. எய்யா...வருந்துதி.
எய்த்து...மேகலை.
343. நன்று...பெரும.
344. தாவினன்...பாவை.
தாவாக்...சிறப்பின்.
கருங்கட்...துற்று.
தாவாத...களும்.
345. நீர்தெவு...தொழுவர்.
346. தெவ்வுப்...சிதறி.
347. விறந்த...யுறுத்து.
உறந்த...மாடத்து
வெறுத்த...கபிலன் புறம், 53.
348. அவலெறி...தயவ.
349. களிற்று...போல.
துளிமழை...ளாயம் முருகாறு.
கலிகொ...பெடுத்த.
உயவுப்...லூரோ.
கலிகொள்சும்மை.
350. பழங்க...மனனே.
குணனழங்...கட்கு.
351. கழுமிய...ரிட்ட.
கழுமழுடி...கூழை.
352. செழுஞ்...கதிர்.
செழுந்தடி...யேற்றை.
நிணங்...கிருப்பு.
353. விழுமியோர்...சிறப்பு.
வேற்றுமை...பிறந்து புறம், 27.
நின்னுறு...களைந்தோன்.
354. கருவி...சிதறி.
355. கார்கோண்...மாமழை முருகாறு
356. அரிமயிர்...முன்கை.
357. கவவுக்...பினன்.
கழுவிளங்...மார்பே புறம், 19.
358. முரசு...துவைப்பவும் ,, 158.
ஆமரநல்...சிலைப்ப ,, 36.
கடிமரந்...யியப்ப.
எறிந்...பெரான்.
359. செய்திரந்...புகழ் புறம், 10.
இனிநினைந்...நின்று ,, 243.
360. இலம்படு...நிறைய.
ஒக்கலொற்...ஊர்க புறம், 327.

- இலம்பாடு...தரும். *
361. கருமணன்...முற்றத்தி.
புண்ணுமிழ்...கிழிதர.
362. கவர்நடைப்புரவி.
கொள்ளைமாந்...கவரும்.
கருமறிக்...பேய்மகள்.
363. சேர்ந்துசெறிகுறங்கின்.
364. இருங்கல்...கின்று.
வியன்றானை...வேந்தே புறம், 38.
365. மன்றமார்த்த...கடவுள்.
நாமநல்...வுமிழ்ந்த.
உருயில்குறமொடு.
366. தன்னருந்...ரோன்றலை.
367. கண்ணை...தனவே.
368. தய்வற்றேய்யாமாக.
369. பருந்திருந்...நனந்தலை.
370. உசாத்துணை.
371. வயாவும்...னோவும் தரலடியார், 201.
வயவுறுமகளிர்.
372. நிற்கறுத்...போல
நீசிவந்...பாக்கம்.
373. கறுத்தகாயா.
சிவந்தகாந்தள்.
374. நொசிபடு...தொழா.
இழைமருந்...கலிங்கம்.
நுணங்கு...போல.
நுணங்குநுண்...மழையிசை.
375. புனிற்றுதீர்...போல புறம், 68.
புனிற்றூப்...கலங்கி.
376. நனவுப்...நாடன்.
நனந்தலை...வனோடிய.
377. பதவுமேய்ந்...நல்லான்.
கயிறறிடு...மிக்கு.
மதவுநடை.
378. போரார...யினள்.
மாதர்வாண்...நோக்கே.
379. வீகொடு...யாணரூர.
380. அகனமாந்...ஞறையும் திருக்குறள், 84.
381. யாணது...யென்றனென்.
382. கல்லே...யிலவே.
செறிவனோ...யொரீஇ.
383. கடிந்த...தார்க்கு திருக்குறள், 658.
கடிநுணைப்பகழி.
கடிமரந்தடியுமோசை புறம், 36.
கடியுண்...குரல்.
கடுந்தேர்...லாங்கண் புறம், 15.
கடும்பகல்கூராயிறு.
கடுங்கா...துருத்து.
அம்பு...யரணல் புறம், 20.
கடியுரு...முரசம்.

- கொடுஞ்சுழிப்...கானல்.
 384. கடுத்த...வன்னை.
 கடிமிளகு...மந்தி.
 385. ஐதேயம்மயானே.
 386. சேற்றுநில...காரான்.
 387. வைநனைப்...சாய்த்து.
 388. சிலைநவி...வளைபூ.
 389. போகு...மருங்குல்.
 திரிகாய்...போகி.
 உறுகால்.
 அணங்கியசெல்லல்.
 390. கடிநாறும்பூந்துணர்.
 மரம்புரைப்பட்டது.
 392. சிறியகட்...மன்னே புறம், 235.
 396. நொறிலியற்...கோமான்.
 நொறிலியற்...விளையோர்.
 402. அரமியம்...தியம்பும்.
 தசநான்...வேன்றாள் முருகாறு.
 வாதிசை...ரிமைஞ்சி.
 கடுத்தே...சீதையை.
 பேதையல்ல...குறுமகள்.
 வைப்பமைசருமத்து.
 403. முத்தை...தோன்றின்.
 குன்றியலுகரத்திறுதியாகும்.
 தண்ணந்...கொடுமை.
 இடையெனப்படுப.
 வெள்வளை...னுயிரோ.
 திருத்தார்...றியேன்.
 405. மாசுபோக...தொட்டு.
 கொடிகுவளை...மேனி.
 உடலுமுடைந்...சேத்து.
 களிற்றுந்...தோன்றும்.
 406. சுரையாழ...நாடன்சுனை.
 407. மாறக்காதலர்...வாழாமாதே.
 408. கூறாய்...மாதே.
 409. குரங்குளைப்...பரிய.
 இடைமுலைக்கிடந்து.
 கடற்படை...மண்டி.
 இரும்புதிரித்...தெறிப்ப. (எழுத். 111, q.v.) ... அகம், 4.
 பொன்னோடை...சாவா புறம், 3.
 ஆரியமன்னர்...தியம்பும்.
 410. தம்பொரு...மக்கள் திருக்குறள், 63.
 நம்மனோர்க்கே.
 நம்மனோரு...வலர்மாதோ புறம், 210.
 411. ஏள...மொழிந்தனள்.
 மற்றேமற்றே.
 வந்தது...கூற்று நாலடியார், 4.
 412. கேழற்பன்றி புறம், 152.
 வேழக்கரும்பு.
 கழுவிளங்...மார்பே புறம், 13.

- ஒற்றுமைக்...வழி.
முயங்கினெ...வே.
போற்றாய்.
தோன்றன்...நாட்டே.
சிறுகுர...நாட்டே.
தோன்றும்.
சேர்ந்தனைசெவினே.
வல்லே...யெம்மே.
பொன்னை...யானே புறம், 3.
413. பகடுநடந்...இன்க நாஸடியார், 2.
ஒருகுழை...போல.
உல்லவர்...செவி.
பருத்தி...பார்க்கும் புறம், 324.
வரையிழி...குவள்.
தின்மைந்...சுணங்கு.
மன்ற...மலைந்து புறம், 79.
414. முறிமேனி...ளவட்கு திருக்குறள், 1113
கண்மலர்ந்தகாவி.
தீயினன்ன...காந்தள்.
சயமுழ்கு...மானும்.
மாணோககு...யாயத்தார்.
எழிலி...ரேன்றல்.
வீங்குசரை...வீகை
என்போம்...புறக புறம், 83.
நம்மனே...ராயின் ,, 210.
415. அகன்றவர்...நாடுங்கால்
உறைப...சிறுகுடி.
செய்பொருட்...பெண்ணி.
வான்மடி...குளித்த.
வெல்வே...வாங்கே புறம், 141.
நெல்லரி...மழுங்கின ,, 379.
வெல்போர்ச்சோழன்.
416. சாயன்...குழைத்த.
தீங்கரும்பனுக்கிய.
தீம்புகைகமழலுட்டி.
உடைதிரை...புந்திரீர்.
தீந்தொடைநரம்பின்.
420. கரியமலர்...காரிகைமுள்.
முட்டி...கனி.
பெடைமயி...பாடினி.
கன்னிப்...ரமுதின.
குடியிடை...பொற்றொடி.
423. பாடுகோ...பாடுகோ.
427. ஊரானே...குலம்.
429. தின்ற...சென்றன் நாஸடியார், 29.
432. வேங்கை...ணியளே.
வில்லக...சிலமே.
434. கூரியதோர்வாண்மன்.
வருகதில்லம்ம.
436. வேங்கை...டன்றே.

440. இளைதாக...கொல்க திருக்குறள், 879.
அகரமுதல " 1.
441. கல்கெழு...வைப்பு.
குன்றங்...தட்டு.
442. ஆன்முன்வருஉமீகாரபகரம்.
கண்கழீஇவருதும்.
கருமுகமந்தி.
செம்பினேற்றை.
புலிதீன்றிறந்த நீரலீரத்து.
443. மெழுஞமு...தீரானே புறம், 249.
ஆப்பிதீ...சிறுகாலை.
பகல்கான்...பரிதி.
444. ஈச்சிறகு.
தாவினன்பொன்.
கொடுங்கோல்.
445. பெருமா...சோறி.
ஈயென்...நீயது புறம், 154.
சிறியகட்...மன்னே " 235.
இவற்கீத்துண்மதிகள்ளே " 290.
446. மாணலந்...கண்ணும்.
என்னலந்தாராய்.
நின்னது...றென்கோ புறம், 136.
449. ஒள்வாள்...னூரோ.
449. செழுந்...வாட்கண்.
யாட்டுளா...தாரான்.
யாற்றுட்...கடன்.
இல்வாழ்...பான் திருக்குறள், 41.
தினைத்...புகல் " 144.
நட்பர...யான் " 381.
வறிய...போல் கலித்தொகை.
450. எழுது...தார்.
அறியாய்...நீயே அகம்.
அறியாய்...யாணையொடு ஷே.
451. சென்றீ...யாரோ.
அட்டி...நின்மே.
452. சான்றோர்...நிற்பவே.
தையலாய்...யென்றதே.
453. மரையிதழ் . சிறடி.
வேதின...போத்து.
நீலுண்டு...வுடன்.
454. கண்டிசண்...வந்து.
சென்றூ...கோழி.
455. கண்ணிகார் ..ளேறே புறம், 1.
ஈந்தையோ...பகைஞன் " 180.
இழிபிறப்...மிசையும்... .. " 363.
எந்தெழின் ..சுணிகே.
வெற்பரா...யாணே.
455. குரங்குளைப்...செழியன்.
கூரியதோர்வாண்மன்.
கொள் ஊர்துஞ்சினும்.

- கொன்னே...நிளமையும்.
நின்னெடுதூக்கிய வென்வேற்செழிய ... புறம், 19.
456. கொன்னூர்துஞ்சினும்.
கொன்முனையிரஆர்போல.
கொன்னே...நிளமையும்.
457. பெயர்த்த...யானே.
வந்தனை...பாப்ப.
முகந்தனர்கொடுப்ப.
மோயின...காலே.
ஒவிசினே...சென்றுழி.
வறுவியேன்பெயர் கோவாண்மேம்படுந ... புறம், 209.
நன்னர்...நீவி.
வெள்வேல்...கிர்.
சுற்றமைவில்லா.
சரிவளர்பித்தையர்.
அற்றம்...மறவர்.
எஸ்வளை...ஊநீஇயர்.
உள்ளேன்...கண்ணே.
கேட்டவாயாயின்.
அவர்தம்...னென்பான்.
கச்சினன்...காணிரோ.
குவளையே...வளையே.
புரிமலை...னியரும்.
பெருவரை...ளருவி.
தெரிநடை...கருளியும்.
பெருவேட்கை...பிரிந்து.
கண்புரை...முள்ளான்.
உலங்கொ...நின்னூல்.
வினைவேட்...வம்மின்.
பாயுந்து புறம், 24.
தூங்குந்து.
சினேஇய...சிறுத்த.
கடைஇய நின்மார்பு.
கண்ணும்...யானே.
ஈங்குவந்தீத்தந்தாய்.
புகழ்ந் திகுமல்வரோ.
அளிதிலைபெறாஅது அகம்.
முற்றேயேச்ச மாகவழிந்தே.
458. ஆடிய...கொண்டு.
459. கச்சினன்...பண்பே முருகாறு.
நல்ல...மகன்.
460. குழல்வளர்...தூத.
பாடுதம்...பொற்பே.
461. அஃதை...சோழர்.
புலைய...கரிப்ப.
தினைத்தா...ஞானே.
கள்வன...டிவலை.
இரண்ட...சுடர்வேல்.
என்னீ...கூறல்.
இறப்பத்...மற்றைஇய.

- மன்ற...கடவுள்.
 462. கலம்பெறு...மலைவ ... மலைபடுகடாம்.
 463. இவன்யாரென்குவைவயாயினிவனே ... புறம், 13.
 நனிநீடு...யினியே,
 கடரிழாய்...மானும்.
 பிரிதல்...துறந்தோர்.
 கால்பொர...யருவி.
 தில்லாது...ருள்ளும்.
 முரசுமுழங்கு...பெரும ... புறம் 35.

2. தொல்காப்பியம்—கல்லாடனார் விருத்தி.

சொல்லதிகாரம்.

1.—கிளவியாக்கம்.

Beginning :

உயர்நிணையென்மனார் மக்கட்.சுட்டே
 யஃநிணையென்மனார் வரலபிறவே
 யாயிருநிணையி னிசைக்குமனசொல்லே.

என்பது - சூத்திரம்.

இவ்வதிகாரம் என்னுதலி யெடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதோ வெனி
 ன், அதிகார நுதலியதூஉம் அதிகாரத்தினது பெயருரைப்பவே விள
 ங்கும். இவ்வதிகாரம் என்னபெயர்த்தோவெனின் சொல்லதிகாரமெ
 ன்னும் பெயர்த்து. அஃது இடுகுறியோ காரணக்குறி யோவெனின்
 காரணக்குறி. என்னே காரணமெனின், சொல்லுணர்த்தினமை கார
 ணத்தினென்பது: என்னே, கிளவியாக்கமெழுவாயாக எச்சவியலிறுதி
 யாகக்கிடந்த ஒன்பது ஒத்துக்களுள்ளுஞ் சொல்லின்கட்கிடந்த விகற்
 பமெல்லாம் ஆராய்ந்தாரெனக்கொள்க.

அதிகாரமென்றபொருண்மை யென்னையெனின் முறைமை.

அவ்வோத்துகளுள்ளும் எனைத்துவகையா னுணர்த்தினாலே வெனி
 ன் எட்டுவகைப்பட்ட இலக்கணத்தினுண்டணர்த்தினுனென்பது. அவை
 யுணரச் சொல்லுணர்ந்தானும். அவையாவையெனின், இரண்டிதி
 னைவகுத்து, அத்திணைக்கண் ஐந்துபால்வகுத்து, எழுவழுவகுத்து,
 எட்டுவேற்றுமைவகுத்து, ஆறுதொகைவகுத்து, மூன்றுஇடம்வகுத்து,
 மூன்றுகாலம்வகுத்து, இரண்டிடத்தானாராய்ந்தான் என எட்டாவன.

இவற்றுள் வழுவென்பது சொல்லிற் கிலக்கணமா
 மாமென்னையோவெனின் இன்மை முகத்தானிலக்கணமாமென்றுண
 ர்க.

அவற்றுள் இரண்டு தீணையாவன: உயர்கிணையும் அஃறிணையுமாவன.

ஐந்துபாலாவன: ஒருவன், ஒருத்தி, பலர், ஒன்று, பல.

எழுவழுவாவன: திணைவழுவ, பால்வழுவ, இடவழுவ, காலவழுவ, மரபுவழுவ, செப்புவழுவ, வினாவழுவ எனவவை.

வேற்றுமை எட்டாவன:— எழுவாய்வேற்றுமை முதலாக விளிவேற்றுமை யீராகக் கிடந்தன.

நொகை ஆறாவன: வேற்றுமைத்தொகை, உவமத்தொகை, வினைத்தொகை, பண்புத்தொகை, உம்மைத்தொகை, அன்மொழித்தொகை.

மூன்று இடமாவன—தன்மை, முன்னிலை, படர்க்கை.

மூன்று காலமாவன—இறந்தகாலம், திகழ்காலம், எதிர்காலம்.

இரண்டு இடமாவன—

று சொல்லிக்கணங்களு ளெட்டென்றற்கு விதி யுரையிற்கோடவெனவுணர்க.

இனிப் பிறவிலக்கண முண்டெனினும் இவை பெரும்பான்மையவன்றாதல் அவையு மிவற்றுளடங்கு . . . மறுச்சொல்லென்ற பொரு . . . யென்றவாறு. ஆனால் கடலொலியும் காரொலியும் விண்ணொலியும் சொல்லாம், பிறவெனின்; அற்றன்று. ஒசையெனினும் அரவமெனினும் இசையெனினும் ஒலியெனினும் எழுத்தாறமோசைக்கும் எழுத்தல்லோசைக்கும்பொது.

கிளவியெனினு மாற்றமெனினு மொழியெனினு மிவையெல்லாமெழுத்தொடு புணர்ந்து பொருளறிவுறுக்குமோசை . . . யு முளவோவெனின் உள; அவை முற்கும் வீனையும்.

. . தொடக்கத்தன. அவை சொல்லெனப்படா, பொருளறிவுறுக்கும் எழுத்தொடு புணராவோசை மேலதென்றாய்ச்சி. எனவே, எழுத்தல்லோசையும் எழுத்தொடுபுணராது பொ . . . விக்குமோசையும் எழுத்தொடு புணர்ந்து பொருளையறிவிக்குமோசையும் எழுத்தொடு புணர்ந்தே பொருளையறிவுறுத்தாது இறிநி மிறிநி யென்றும்போல் வருமோசையுமென ஒசை நான்குவகைப்படும். அந்நான் கினுள்ளும் பின்னின்ற விரண்டும் இவ்வதிகாரத்தாராயப்படுகின்றது.

மேலதிகாரத்தோடு இவ்வதிகாரத்திடை இயைபென்னையோவெனின், மேற்பாயிரத்துள் “எழுத்துஞ்சொல்லும் பொருளும்” என நிறுத்தார், நிறுத்த முறையானே எழுத்துணர்த்திச் சொல்லுணர்த்திய எடுத்துக்கொண்டாரென்பது. எழுத்தோடு சொல்லிடைவேற்றுமையென்னையெனின், தன்னையுணர நின்றவழி எழுத்தெனப்படும்: தான் இடைநின்று பொருளுணர்த்தியவழிச் சொல்லெனப்படும்.

இம்முதலோத்து என்னுதலியெடுத்துக்கொள் எப்பட்டதோவெனின், ஒத்துநுதலியதுஉம் ஒத்தினது பெயருரைப்பவேவிளங்கும் . . . இவ்வோத்தென்னபெயர்த்தோவெனின், கிளவியாக்கமென்னும் பெயர்த்து. கிளவியென்பதுசொல், ஆக்கம் என்பது சொற்கள் பொருள்கண்மேலாமாறுணர்த்தினமையின் கிளவியாக்கமென்று பேர்பெற்றது, ஒருவன்மேலாமாறிது, ஒருத்திமேலாமாறிது, பலர்மேலாமாறிது, ஒன்றன்மேலாமாறிது, பலவற்றின்மேலாமாறிது, வழுவாமாறிது, வழுவமைதியாமாறிது எனப் பொருள்கண்மேலாமாறுணர்த்தினமையின் கிளவியாக்கமெனப் பெயராயிற்று. மற்றேனையோத்துக்களுள்ளும் பொருள்கண்மேலாமாதேயன்றே வுணர்த்தினது, பொருளல்லவற்றின்மேலாமாறுணர்த்தியதில்லையெனின், ஏனையோத்துக்களுட்பொருள்கண்மேலா.....றவற்றிலக்கண முணர்த்தினார். ஈண்டு அவை தம்மையாமாறுணர்த்தினாரென்பது.

மற்றுப் பெயர்ச்சொல்லும் வினைச்சொல்லும் இடைச்சொல்லும் உரிச்சொல்லுமெனச் சொல்லு நான்கேயாதலான் ஒத்தம் நான்கே யாகற்பாலவெனின், ஆகா. என்னை: நான்குவகைப்பட்ட சொல்லிற்குப் பொதுவிலக்கணம் இவ்வோத்தினுள் உணர்த்தினார். அவற்றுண் முதற்கண்ணது பெயர்ச்சொல், அதற்கு இலக்கணம் வேற்றுமையோத்துள்ளும் வேற்றுமை மயங்கியலுள்ளும் விளிமரபினுள்ளு முணர்த்தினார். உணர்த்திய இலக்கணமுடையபெயரைப் பெயரியலுள்ளுணர்த்தினார். உணர்த்தி, அதன்பின்னேகிடந்த வினையிலுள் உணர்த்தினார். உணர்த்தி, அதன்பின்னேகிடந்த இடைச்சொல்லு இடைச்சொல்லோத்தினுள் உணர்த்தினார். உணர்த்தி, அதன்பின்னேகிடந்த உரிச்சொல்லு உரிச்சொல்லோத்தினுள் உணர்த்தினார். பின்னை எல்லாவோத்தினுள்ளும் எஞ்சி நின்ற சொற்களை எச்சவியலுள்ளுணர்த்தினார். இவ்வகையான் எல்லாமுணர்த்தினாராகலின் இவ்வோத்தெல்லாம்வேண்டியதூஉம் இம்முறையே கிடந்ததூஉமாயிற்று.

இதன் முதற் சூத்திரம் என்னுதலிற்றோவெனின் சொல்லும் பொருளும் வரையறுத்துணர்த்துதனுதலிற்று.

உயர்திணையென்மனார் மக்கட்சுட்டே - எ-து - உயர்திணையென்று சொல்லுப வாசிரியர் மக்களாகிய நன்குமதிக்கப்படும் பொருளை யென்றவாறு.—அஃறிணையென்மனார் வரவரபிறவே-எ-து-அஃறிணையென்று சொல்லுபவாசிரியர் அவரின்கிய (வல்லவாகிய) பிறபொருளை. எ-து.—ஆயிருதிணையினிசைக்குமன சொல்லே - எ-து-அவ்விரண்டு பொருளையு முணர்த்துஞ் சொற்கள் என்றவாறு.

எனவே உயர்கிணைச்சொல்லும் உயர்கிணைப்பொருளும், அஃறிணைச் சொல்லும் அஃறிணைப்பொருளுமெனச்சொல்லும் பொருளுமடங்கின.

‘உயர்’ என்னுஞ்சொல்லின் முன்னர்த் ‘கிணை’ என்னுஞ்சொல்வந்தகியைந்த வாறியாதோவெனின், ஒரு சொன்முன் ஒரு சொல்வருங்காற் றொகைநிலைவகையான்வருதலும், எண்ணுநிலைவகையான்வருதலும், பயனிலைவகையான்வருதலுமென இம்முன்றுவகையல்லகில்லை. இதற்கு விதி உடையிற்கோடென்னுந் தந்திரவுத்தி. அவற்றுள் தொகைநிலைவகையான் வந்தது, யானைக்கோடென்பது. எண்ணுநிலைவகையான்வந்தது, நிலனு நீருமென்பது. பயனிலைவகையான் வந்தது, சாத்தனுண்டான் என்பது. மற்று எச்சவகை அடுக்குவகை பொருள் கோள்வகை ஆக்கவகை இடைச்சொல்வகை உரிச்சொல்வகை என்றும்போலப் பிறவும் வகையுளவெனின், நால்வகைச்சொல்லினும் சிறப்புடைப் பெயரினையும் வினையிற்சிறப்புடைய முற்றுச்சொல்லினையும் பற்றி வழக்கிடத்தப் பெரும்பான்மையும் வருவன அவையேயாகவின் அம்முன்றல்ல தில்லையென்றும்போலும். அவையாவன : எச்சவகை : உண்டு வந்தான், உண்ட சாத்தன் என்றும்போல்வன. அடுக்குவகை : ‘பாடுகோ பாடுகோ டாடுகோ பாடுகோ’ என்பன. பொருள்கோள்வகை : ‘சுடியாழ்வம்மிமிதப்ப’ என்பன. ஆக்கவகை : சாத்தன்மலைவறையினுன் என்பன. இடைச்சொல்வகை : ‘யாறோதைஞ்சம்பெரும’ என்பன. உரிச்சொல்வகை : ‘செய்யாதே எந்தேமால்லிப்ப’ என்பன. அவற்றுள்இது தொகை நிலைவகையான் வந்தது; தொகைநிலைவகையாறனுள்ளும் வினைத்தொகை ; வினைத்தொகை முன்றனுள்ளும் இறந்தகால வினைத்தொகை.

‘என்மொர்’ என்றது என்பவென்னு முற்றுச்சொல்லினைக் குறைக்கும்வழி குறைத்தவென்பதனால் பகரங்குறைத்து விரிக்கும்வழி விரித்தவென்பதனால் மன்னுமாரு மென்பன விரண்டிடைச்சொற் பெய்து விரித்து என்மொரென்றாயிற்று. இம்முற்றுச்சொற்குப் பெயராகியஆசிரியரென்பது செய்யுள்விகாரத்தாற்றொக்கது. இஃதெச்சவகை. ‘என்றார்’ எனப்பாதினைக் காலமயக்கத்தால் என்ப என்றொருவெணர்க.

இனி உயர்கிணையென்பதன்முன் என்ப என்னுஞ்சொல்முதனாலாசிரியனது கூற்றினைப் பின் நான் கூறுகிற மக்கட்சுட்டென்பதனோடையவித்தற்குக் கொண்டுகூறுநிலைமைக்கண் வந்ததாகவின் ‘உயர்கிணை’ யென்னுஞ்சொல்லும் ‘என்ப’ வென்னுஞ்சொல்லும் பின்வருகிற ‘மக்கட்சுட்’ டென்னுஞ்சொல்லினோடு வேற்றுமைத்தொகையுளியுறுபுத்தொகை நிலைவகையான் வந்ததென்ப. பொருளியையு கூறுவதல்லது தம்முட்சொல்லியை பிலவெனவுணர்க.

‘மக்கட்சுட’ டென்பது மக்களாகிய சுட்டென இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை. ஶ் சுட்டென்பதன்பொருள் நன்குமதிப்பு. அஃதொரு பெயரான் மக்கண்மேனின்றது. மக்களென்னுது சுட்டென்றது தான் உயர் திணையென் இடுகின்ற; குறியீட்டுக்குக் காரணமிது வென்பது விளக்கல்வேண்டிப்போலும்.

இனி ஆசிரியரென்பதனோடு மக்கட்சுட்டென்பது உம்பொருளியை பல்லது சொல்லியைபின் றெனவுணர்க.

ஏ - என்பதீற்றசை.

அஃறிணையென்பது அல்லாதாகிய திணையெனக் குணப்பண்புற்றறிவந்த பண்புத்தொகை. உயர் திணையல்லாதாகியதென மேனின்றவுயர் திணையென்னுஞ்சொல் வருவித்துக்கொள்க. உயர் திணையென்பதற்கேற்ப இழிதிணையென்னில் ... என்னும்பொருள் நோக்கும் என உணர்க. முன்னின்ற சுட்டென்பதன்முன் அஃறிணையென வந்த சொல்லும் சூத்திரத்துட்பொருட்படையென்னும் வினை முடிவினிறுதிக்கண் வந்ததாகலின் பொருளியை பல்லது சொல்லியை பின் றெனவுணர்க.

ஈண்டும் என்மனாரென்றது மேற்சொல்லியவாறே நின்றதெனவுணர்க.

அவரலவென்பது நீக்கப்பொருண்மைக்கட்டொக்க ஐந்தாம் வேற்றுமைத்தொகை.

அல்லபிறவென்பது அல்லவாகிய பிறவென விருபெயரொட்டுப்பண்புத்தொகையெனவுணர்க.

பிறவற்றையென்னும் இரண்டாம்வேற்றுமை இறுதிக்கட்டொக்கு நின்றது.

அவரலவென்னுது பிறவென்றது அஃறிணை உயிருடையவும் உயிரில்லவும் எனவிருகூறாய் அவ்விருகூறும் தத்தம் வகையானும் வேறுபட்டுநின்றமை விளக்கியவென்பது.

ஏ - என்பதீற்றசை.

அ - என்னுஞ்சுட்டு “நீடவருதல்செய்யுளுளுரித்தே” ஶ் என்பதனோன் னு பிறவும் வேண்டும்செய்கைப்பட்டு ஆயிரு திணையெனநின்றது. இரு திணையென்பதனோடு அவ்வென்பது பெயர்பற்றிவந்த தத்தங்குறிப்பிற் பொருள்செய்யுமிடைச்சொல்லென்பதல்லது ‘மூவகையுட்சொல்லியைபுகூறப்படாது.

‘இரு திணை’ என்பது இரண்டாகிய திணையென இருபெயரொட்டுப் பண்புத்தொகை.

பிறவென்பதனோடு ஆயிருதிணையென்பது உம்பொருட்படையாகிய வினைமுடிவீன்கண் வந்ததாகலிற் சொல்லியைபின்மென்பது.

திணையென்பதனோடு இசைக்கும் என்பது தொகைநிலையான் வந்தது; தொகையுள் இரண்டாம்வேற்றுமைத்தொகை; பொருணிற்ப உருபு தொகுதலி னுருபுத்தொகையெனப்படும்.

இனி “பெயருந்தொழிலு” மென்றெழுந்தபொதுவிதியை இரண்டாவதற்குவிளக்கிச் “சாரியையுள்வழித் தன்னுருபுநிலையலு” மென்று சிறப்புவிதியோதுதலின், செய்யுள்விகாரத்தாற் சாரியைநிற்பவுருபுதொக்கதுபோலும்.

ஆயிருதிணையுமென்னுமுற்றும்மையும் செய்யுள் விகாரத்தாற்றொக்கது.

இசைக்குமென்பது செய்யுமென்னுமுற்றுச்சொல், அதுபின் தின்ற சொல்லென்பதனோடு பயனிலைவகையான் வந்தது.

“இசைப்பிசையாகும்” என்பதனான் இசைக்குமென்பதன் பொருள் ஒலிக்குமென்பதேயாயினுஞ் சொல்லிற்குப் பொருளுணர்த்தும் வழியல்லது ஒலித்தல் கூடாமையின் உணர்த்துமென்னுந்தொழிலை இசைக்குமென்னுந்தொழிலாம் கூறியவாறுகக்கொள்க. இதுவுமோர் மரபு வழுவமைதிபோலும்.

பொருளையுணர்த்துவான் ஒரு சாத்தனையெனினும் அவர்க்கது கருவியாகவல்லதுணர்த்தலாகாமையின் அக்கருவிமேற் றொழிலேற்றிச் சொல் உணர்த்துமென்று கருவிகருத்தாவாகச் சொல்லிற்றுகவுணர்க.

மனவென்பது உம் வினைபற்றிய வசைநிலையிடைச்சொல்லாகலின் அதனோடியைபு கூறப்பட்டது. மன்னென்று பாடமோதுவாருமுளர்

இச்சூத்திரத்தாற்சொல்லிய பொருள் இவ்வதிகாரத்துச் சொல்லு கிற சொல்லது தொகைவரையறையும், அதனை வரையறுக்குங்காற்பொருளானல்லது வரையறையின்மையின் அப்பொருளது தொகை வரையறையும், பொருட்குநூலகத்தாட்சிபெற்ற குறியீடும் உணர்த்தினவாறாயிற்று.

* * * *

முதலாவது கிளவியாக்கமுற்றும்.

கல்லாடனார் விருத்தி.

* * * *

7. இடைச்சொல்லியல்.

இடையெனப்படுப பெயரொடுவினையொடு
நடைபெற்றியலுந் தமக்கியல்பிலவே.

இவ்வோத்தென்னபெயர்த்தோவேனின் இடைச்சொல்லின் இலக்கணமுணர்த்துதலான் இடைச்சொல் ஒத்தென்னும் பெயர்த்து. இடைச்சொல்லென்னும் பொருள் யென்னையெனின் பெயர்வினைகள் உணர்த்தும்பொருட்குத் தான் இடைநிற்றலான் இடைச்சொல்லாயிற்று. இச்சூத்திரம் என்னுதலிற்றேவெனின் இடைச்சொற்கெல்லாம் பொதுவாயது ஓர் இலக்கணமுணர் - ற்று. இடைச்சொல்லென்று சொல்லப்படுவன பெயர்ச்சொல்லோடும் வினைச்சொல்லோடும் வழக்குப்பெற்று நடக்கும். அவ்வாறு அவற்றோடு நடத்தலல்லது தாமாக நடக்குமியல்பிலவென்றவாறு. உ-ம். அதுமன், வருகதில்லமம், எனவரும். 'தமக்கியல்பில' என்றதனாற் பெயரோடும் வினையோடும் அவ்விடைச்சொற்கள்வருவழிச் சொல்புறத்துளவழி வருதலும் அச்சொல்லுளவழிவருதலும் என இருவகைத்தென்பது பெறப்பட்டது. உ-ம். வருகதில் உண்டான் எனவரும். இவைவினை. அதுமன், மற்றையது. இவைபெயர். மற்றும் இச்சூத்திரத்தின் பொருண்மையும் இலைசின் பொருண்மையும் "இடைச்சொற்களவியும் உரிச்சொற்களவியும்" என்ற சூத்திரத்துள்ளும் அதனிலைசினுள்ளும் அடங்குமாவெனின், அது நிரனிறைவாய்பாட்டதாகலால் பெயரெனப்பட்டு வருமென்றும் வினையொடு உரிவருமென்றுங் கொள்ளக்கிடந்தமையின் இடையும் இரண்டொடு வருமென்றற்குக் கூறினாரென்பது. இனி அவ்விலைசு நிரனிறைச் சூத்திரத்த தாகலாற் புறத்துவழிவருதல் இடச்சொற்காகவும் உள்வழிவருதல் உரிச்சொற்காகவுங்கொள்ளக்கிடக்குமென்பது கருதியீண்டு இருவகையானும் இடைவருமென்பதற்கு இலைசுகூறினார்போலும்.

*

*

*

*

வினையேகுறிப்பேஇசையேபண்பே

யெண்ணேபெயரோடவ்வுறுகிளவியுங்

கண்ணியநிலத்தேவெனவென்கிளவி.

என் - னின் இது பொருள்படுவதொன்றுணர் - ற்று.

முன்னின்ற வினைச்சொல்லைப் பின்வருஞ்சொல்லோடு இயைவித்தலென்னும் பொருண்மை குறிப்புப்பொருண்மைக்கண்வரும் உரிச்சொல்லினைப் பின்வருஞ்சொல்லோ.....

இசைப்பொருட்கண்வரும் உரிச்சொல்லினைப் ... வருஞ்சொல்லோடியைவித்தல் என்னும் பொருண்மை பண்புப்பொருட்கண்வரும் உரிச்சொல்லினைப்பின் வருஞ்சொல்லோடியைவித்த.....

[Incomplete.]

3. யாப்பருங்கலச்சூத்திரம்—விருத்தியுரை.

சிறப்புப்பாயிரம்.

Beginning :—

முழுதுலகிறைஞ்ச முற்றொருங்குணர்ந்தோன்
 செழுமலர்ச்சேவடி செவ்விதின்வணங்கிப்
 பாற்படுதென்றமிழ்ப் பரவையின்வாங்கி
 யாப்பருங்கலநனி யாப்புறவகுத்தோன்
 தனக்குவரம்பாகிய தவத்தொடுபுணர்ந்த
 துணக்கடற்பெயரோன் கொள்கையின்வழாஅத்
 துளக்கறு கேள்வித்துகடர்காட்சி
 யளப்பருங்கடற் பெயருந்தவத்தோனே.

என்பது பாயிரம்.

(இதன்பொருள்) முழுதுலகிறைஞ்ச - மூவகையுலகமும் வணங்க, முற்றொருங் குணர்ந்தோன்-முழுதுடனறிந்தோனது, செழுமலர்ச்சேவடி செவ்விதின் வணங்கி - மலர்போலுஞ்செய்வடிக்களை முறைமை யானிறைஞ்சி, பாற்படுதென்றமிழ்ப் பரவையின்வாங்கி - பாகுபடுதென்றமிழ்க்கடல்வயினின்றுவாங்கி, [இன் - ஐந்தாமுருபு, வாங்கல் - தன்வயிற்கோடல்], யாப்பருங்கலநனி யாப்புறவகுத்தோன் - யாப்பென்னுமருங்கலத்தை மிகவுந்திண்ணிதாகவகுத்தோன் [“நனியென்கிளவி மிகுகிப்பொருட்டே” என்றாராகலின்], தனக்குவரம்பாகிய தவத்தொடுபுணர்ந்த - தனக்கெல்லை தானேயாகிய துறவொடு பொருந்திய [ஒடு - உடனிகழ்ச்சி], குணக்கடற்பெயரோன் கொள்கையின்வழாஅத்-துணசாகரப்பெயரோனது கோட்பாட்டினின்றுவழுவாதுநிற்கும், துளக்கறுகேள்வி-மயக்கமற்ற கேள்வியினையும், துகடர்காட்சி - குற்றமற்றவறிவினையும், அளப்பருங்கடற்பெயர் - அளத்தற்கரிய கடலினது பெயரையுமுடைய, அருந்தவத்தோன் - அரியதவத்தினையுடையோன்.

வகுத்தோன் தவத்தோன் என்க. ஏகாரம் - ஈற்றசை.

பாயிரமுற்றிற்று.

முதலாவது - எழுத்தோத்து.

1. வெறிகமழ்தாமரை மீயிசையொதுங்கிய
வறிவனைவணங்கி யறைகுவன்யாப்பே.

என்பது சூத்திரம்.

நானுதலியதரைக்குமிடத்து I நூலின்விகற்பமும், II நூலென்ற சொல்லுக்குப்பொருளும், III நூலாற்பயனும் உரைத்துரைக்கற்பாற்று

நூலாவது—“முதனடுவிறுதி மறுதலைப்படாது
தொகைவகைவிரிய னுட்பொருடோன்ற
வுரையொடுபுணர்ந்த வொழுக்கிற்றுகிச்
சூத்திரமோத்துப் படலம்பிண்டமென்
றியாப்புடைத்தமைத்த வவயவத்ததா” நடப்பது.

என்னை—“நூலெனப்படுவது நுவலுங்காலை, முதலுமுடிவு மாறு
கோளின்றித், தொகையினும் வகையினும் பொருண்மைகாட்டி, உண்
ண்ணின்ற கன்றவுரையொடுபொருந்தி, துண்ணிதினவிலக்கவது வத
ன்பண்டே.” “அதுவேதானுமீ ரிருவகைத்தே.” “ஒருபொருணுதலிய
சூத்திரத்தானு, மினமொழிகிளந்தவோத்தினுனும், பொதுமொழி
தொடரிய படலத்தானு, மூன்றுறுப்படக்கிய பிண்டத்தானுமென்,
றங்களை மரபினியலுமென்ப.” என்றார் தொல்காப்பியனாராகலின்.
அவற்றுள்,

சூத்திரமாவது,—கருதியபொருளைக் கைக்கொண்டு கண்ணாடியினி
ழம்போலத் தெரிவுறத்தோன்றச் செய்யப்படுவது.

என்னை : “அவற்றுள், சூத்திரந்தானே, யாடிநிழலினறியத்தோன்
றி, நாடுதலன்றிப்பொருணனிவிளங்க, யாப்பினுட் டோன்றயாத்தமை
ப்பதுவே.” என்றாராகலின்.

ஓத்தாவது,—ஓப்புடைப் பொருளை யோரிடத்து ளொற்றுமைப்பட
வைப்பதாகும். என்னை . “நேரினமணியை நிரல்படவைத்தாம், கோ
ரினப்பொருளை யொருவழிவைப்ப, தோத்தெனமொழிப வுயர்மொழி
ப்புலவர்.” என்றாராகலின்.

படலமாவது,—வேற்றுமையுடைய பல்பொருள்களாம் றேற்றமு
டைத்தாகத் தொடரவைப்பது. என்னை : “ஒருநெறியின்றி விரவிய
பொருளாம், பொதுமொழி தொடரினது படலமாகும்” என்றாராக
லின்.

பிண்டமாவது,—உறுப்பு மூன்று முள்ளடக்கி நெறிப்பாடுடைத்தா
ய்க்கிடப்பது. என்னை : “மூன்றுறுப்படக்கிய தன்மைத்தாயிற், றே
ற்றுமொழிப்புலவரது பிண்டமென்ப” என்றாராகலின்.

I. இனி நூலின் விகற்பம்வருமாயு :—நூள் மூன்று வகைப்படும்.
முதலானும் வழிநூலுஞ் சார்புநூலுமென. என்னை : “முதல்வழிபு
டையென நான்மூன்றாகும்” என்றாராகலின்.

முதலாலாவது,—குற்றங்கெடுத்து முற்றவுணர்ந்த நற்றவத்தோன்
சொற்றதாமே. என்னை : “வினையின்கி விளங்கியவறிவின், முனைவன்
கண்டது முதலாலாகும்” என்றாராகலின்.

வழிநூலாவது,—முதலாலோடொத்த முடிவற்றாய்த் தனதோர்விக
ற்பம்படக்கிடப்பது. என்னை : “முன்னோர்நூலின் முடிபொருங்கொத்

துப், பின்னேன்வேண்டும் விகற்பங்கூறி, யழியாமரபினது வழிநூலாகும்” என்றராகலின்.

சார்புநூலாவது,—அவ்வருவர் நூலுள்ளுமொருவழி முடிந்தபொருளை யோராசிரியன்யாதானுமோருபகாரநோக்கியொரு கோவைப்படைவப்பது. என்னை: “இருவர்நூற்கு மொருசிறை தொடங்கித், திரிபுவேறுடையது புடைநூலாகும்” என்றராகலின்.

எதிர்நூலென்பது மொன்றுண்டு,—யாதது முதலவனுலின் முடிந்தபொருளை யொருசாராசிரியன் தானுமோர்காரணத்தாற்பிறழுவைத்தாலதனைக்கருவியாம் நிரிபுகாட்டி யொருவாமை வைத்தம் கொள்ளியோ நெருவனுய்க்கப்படுவது. என்னை: “தன்கோணிநீஇப்பிறன்கோண்மறுப்ப, தெதிர்நூலென்ப ஒரு சாரோரோ” என்றராகலின்.

II. இனி நூலென்ற சொத்துப் பொருளுரைக்குமாறு: நூல்போறவினூலெனப்படுமீ. என்னை, பாவைபோல்வானைப் பாவையென்றும் போல. யாதோநூல்போலு மாறெனின், நுண்ணியபலவாகி பஞ்சினுனிகளாம் கைவன்மகடேஉத்தனதுசெய்கைநலந்தோன்ற மாண்பினுலோரிழைப்படுத்தலன்றே உலகத்து நூலுற்றலென்ப. அவ்வாறே சுகிர்ந்து பரந்த சொற்பாவைகளால் பெரும்புலவன் றனதுணர்வுமாட்சியிற் சூத்திரமோத்தப்படலம் பிண்டமென்னும் யாப்புநடைபடக்கோத்தலாயிற்று நூல்செய்தலாவது. அவ்வகை நூற்கப்படுதலினூலெனப்படுமீ.

III. இனி நூலாற் பயனுரைக்குமாறு: நூல்கேட்டு விளங்கிய நுண்ணுணர்வினூ னபாயமில்லாததோ ருபாயத்தினுள்அறம்பொருளின்பம்வீடெனவிவற்றை நிரம்புமாறறிந்த நிகழ்த்துவாரும். அதனும் பகரப்பட்ட நான்கினையும் பாரம்பரத்தாற்பனுவலே பயப்பதாயிற்றெனக்கொள்க.

இனி நூலுதலிய துரைக்குமாறு: சிறப்பெழுத்தறுப்பெழுத்தென்னுந்தோகையானும், ஒற்று உயிர் உயிர்மெய்யென்னும் வகையானும், உயிரும் மெய்யும் உயிர்மெய்யும் குறிலும் நெடிலும் அளபெடையும் வன்மையும் மென்மையும் இடைமையும் குற்றியலிகரமும் குற்றிலுகரமும் ஆய்தமும் ஐகாரக்குறுக்கமும் ஒளகாரக் குறுக்கமும் மகரக் குறுக்கமும் என்னும் விரியானும்;—

நேரசை நிரையசையென்னுந்தோகையானும்; சிறப்புடைநேரசை, சிறப்பில் நேரசை, சிறப்புடைநிரையசை, சிறப்பில்நிரையசை, என்னும்வகையானும்; சிறப்புடைநேர்பசை, சிறப்பில்நேர்பசை, சிறப்புடை நிரைபசை, சிறப்பில் நிரைபசை யென்னும் விரியானும்;—

இயற்சீர், உரிச்சீர், பொதுச்சீரென்னுந்தோகையானும்; நேரீற்றியற்சீர், நிரையீற்றியற்சீர், நேரீற்றுரிச்சீர், நிரையீற்றுரிச்சீர், நேரீற்

றுப்பொதுச்சீர், நிரையீற்றுப்பொதுச்சீர் என்னும் வகையானும்; சிறப்புடை நேரீற்றியற்சீர், சிறப்பில் நேரீற்றியற்சீர், சிறப்புடைநிரையீற்றியற்சீர், சிறப்பில்நிரையீற்றியற்சீர், சிறப்புடை நேரீற்றுரிச்சீர், சிறப்பில் நேரீற்றுரிச்சீர், சிறப்புடை நிரையீற்றுரிச்சீர், சிறப்பில் நிரையீற்றுரிச்சீர், சிறப்புடை நிரையீற்றுப் பொதுச்சீர், சிறப்பில் நிரையீற்றுப்பொதுச்சீர், சிறப்புடைநேரீற்றுப்பொதுச்சீர், சிறப்பில் நேரீற்றுப்பொதுச்சீர் என்னும் விரியானும்;

வெண்டளை, ஆசிரியத்தளை, கலித்தளை, வஞ்சித்தளை யென்னுந் தோகையானும்; இயற்சீர்வெண்டளை, உரிச்சீர்வெண்டளை, பொதுச்சீர்வெண்டளை, நேரொன்றாசிரியத்தளை, நிரையொன்றாசிரியத்தளை, கலித்தளை, ஒன்றியவஞ்சித்தளை, ஒன்றாதவஞ்சித்தளை யென்னும் வகையானும்; இயற்சீர்சிறப்புடைவெண்டளை, இயற்சீர்சிறப்பில்வெண்டளை, உரிச்சீர்சிறப்புடைவெண்டளை, உரிச்சீர்சிறப்பில்வெண்டளை, பொதுச்சீர்சிறப்புடைவெண்டளை, பொதுச்சீர்சிறப்பில்வெண்டளை, நேரொன்றிய சிறப்புடையாசிரியத்தளை, நேரொன்றிய சிறப்பிலாசிரியத்தளை, நிரையொன்றிய சிறப்புடையாசிரியத்தளை, நிரையொன்றிய சிறப்பிலாசிரியத்தளை, சிறப்புடைக்கலித்தளை, சிறப்பில்வெண்டளை, ஒன்றியசிறப்புடைவஞ்சித்தளை, ஒன்றியசிறப்பில்வஞ்சித்தளை, ஒன்றாதசிறப்புடைவஞ்சித்தளை, ஒன்றாதசிறப்பில்வஞ்சித்தளை யென்னும் விரியானும்;

இயலடி, உரியடி, பொதுவடியென்னுந் தோகையானும்; குறளடி, சிந்தடி, அளவடி, நெடிவடி, கழிநெடிவடியென்னும் வகையானும்; இயற்குறளடி, உரிக்குறளடி, பொதுக்குறளடி, இயற்சிந்தடி, உரிச்சிந்தடி, பொதுச்சிந்தடி, இயலளவடி, உரியளவடி, பொதுவளவடி, இயல்நெடிவடி, உரிநெடிவடி, பொதுநெடிவடி, இயற்கழிநெடிவடி, உரிக்கழிநெடிவடி, பொதுக்கழிநெடிவடி என்னும் விரியானும்;

மோனை, எதுகை, முரண், இயைபு, அளபெடை, செந்தொடை, இரட்டைத்தொடை, அந்தாதித்தொடை யென்னுந் தோகையானும்; தலையாகுமோனை, இடையாகுமோனை, கடையாகுமோனை, தலையாகெதுகை, இடையாகெதுகை, கடையாகெதுகை, சொன்முரண், பொருண்முரண், சொம்பொருண்முரண், மோனைமுரண், எதுகைமுரண், செம்முரண், மோனையியைபு, எதுகையியைபு, முரணியைபு, அளபெடையியைபு, மயக்கியைபு, மோனையளபெடை, எதுகையளபெடை, முரணளபெடை, மயக்களபெடை, செவ்வளபெடை, இயற்செந்தொடை, மருட்செந்தொடை, ஒருபொருளிரட்டை, இருபொருளிரட்டை, பலபொருளிரட்டை, இருமுற்றிரட்டை, எழுத்தந்தாதி, அசையந்தாதி, சீரந்தாதி, அடியந்தாதி, மயக்கந்தாதி, இடையீட்டந்தாதி யென்

னும் வகையானும்; அடிமோனை, இணைமோனை, பொழிப்புமோனை, ஒருஉமோனை, கூழைமோனை, மேற்கதுவாய்மோனை, கீழ்க்கதுவாய்மோனை, முற்றுமோனை, அடியெதுகை, இணையெதுகை, பொழிப்பெதுகை, ஒருஉவெதுகை, கூழையெதுகை, மேற்கதுவாயெதுகை, கீழ்க்கதுவாயெதுகை, முற்றெதுகை, அடிமுரண், இணைமுரண், பொழிப்புமுரண், ஒருஉமுரண், கூழைமுரண், மேற்கதுவாய்முரண், கீழ்க்கதுவாய்முரண், முற்றுமுரண், அடியியைபு, இணையியைபு, பொழிப்பியைபு, ஒருஉவியைபு, கூழையியைபு, மேற்கதுவாயியைபு, கீழ்க்கதுவாயியைபு, முற்றியைபு, அடியளபெடை, இணையளபெடை, பொழிப்பளபெடை, ஒருஉவளபெடை, கூழையளபெடை, மேற்கதுவாயளபெடை, கீழ்க்கதுவாயளபெடை, முற்றளபெடை எனவும், கடையிணைமோனை, பின்மோனை, இடைப்புணர்மோனை, கடைக்கூழைமோனை, கடைமோனை எனவும், கடையிணையெதுகை, பின்னெதுகை, இடைப்புணரெதுகை, கடைக்கூழையெதுகை, கடையெதுகை எனவும், கடையிணைமுரண், பின்முரண், இடைப்புணர்முரண், கடைக்கூழைமுரண், கடைமுரண் எனவும், கடையிணையியைபு, பின்னியைபு, இடைப்புணரியைபு, கடைக்கூழையியைபு, கடையியைபு எனவும், கடையிணையளபெடை, பின்னியளபெடை, இடைப்புணரளபெடை, கடைக்கூழையளபெடை, கடையளபெடை எனவும், அசைவிரளச்செந்தொடை, சீர்விரளச்செந்தொடை, இசைவிரளச்செந்தொடை, முற்றுவிரளச்செந்தொடை எனவும், குறையிற்றொருபொருளிரட்டை, குறையிற்றுப்பலபொருளிரட்டை, நிறையிற்றொரு பொருளிரட்டை, நிறையிற்றுப்பலபொருளிரட்டை, நிறையிருமுற்றிரட்டை, குறையிருமுற்றிரட்டை எனவும், மண்டலவெழுத்தந்தாதி, சென்னடையெழுத்தந்தாதி, மண்டலவசையந்தாதி, சென்னடையசையந்தாதி, மண்டலச்சீரந்தாதி, சென்னடைச்சீரந்தாதி, மண்டலவடியந்தாதி, சென்னடையடியந்தாதி, மண்டலமயக்கந்தாதி, சென்னடைமயக்கந்தாதி, மண்டலவிடையிட்டந்தாதி, சென்னடையிடையிட்டந்தாதி, என்னும் விரியானும்;

வெண்பா, ஆசிரியப்பா, கலிப்பா, வஞ்சிப்பா, மருட்பா என்னுந் தொகையானும்;

குறள்வெண்பா, சிந்தியல்வெண்பா, இன்னிசைவெண்பா, நேரிசைவெண்பா, பஃறொடைவெண்பா எனவும்,

நேரிசையாசிரியப்பா, இணைக்குறளாசிரியப்பா, நிலமண்டிலவாசிரியப்பா, அடிமநிலமண்டிலவாசிரியப்பா எனவும்,

நேரிசையொத்தாழிசைக்கலிப்பா, அம்போதாங்கவொத்தாழிசைக்கலிப்பா, வண்ணகவொத்தாழிசைக்கலிப்பா, வெண்கலிப்பா, தரவுக்கொச்சகக்கலிப்பா, தாவிணைக்கொச்சகக்கலிப்பா, சிற்றாழிசைக்

கொச்சகக்கலிப்பா, பஃருழிசைக்கொச்சகக்கலிப்பா, மயங்கிசைக்கொச்சகக்கலிப்பா எனவும்,

குறளடிவஞ்சிப்பா, சிந்தடிவஞ்சிப்பா, புறநிலைவாழ்த்துமருட்பா, வாயுறைவாழ்த்துமருட்பா, செவியறிவுறுஉமருட்பா, கைக்கிளைமருட்பா என்னும் வகையானும்;

இனி, குறள்வெண்பா

ஒருவிகற்பக்குறள்வெண்பா

இருவிகற்பக்குறள்வெண்பா

நேரிசைச்சிந்தியல்வெண்பா

இன்னிசைச்சிந்தியல்வெண்பா

ஒருவிகற்பநேரிசைச்சிந்தியல்வெண்பா

இருவிகற்பநேரிசைச்சிந்தியல்வெண்பா

ஒருவிகற்ப இன்னிசைச்சிந்தியல்வெண்பா

இருவிகற்ப இன்னிசைச்சிந்தியல்வெண்பா

ஒருவிகற்பநேரிசைவெண்பா

இருவிகற்பநேரிசைவெண்பா

பலவிகற்ப இன்னிசைவெண்பா

ஒத்தவிகற்பப்பஃருடைவெண்பா

ஒவ்வாவிகற்பப்பஃருடைவெண்பா எனவும்,

இன்னியல்நேரிசையாசிரியப்பா

விரவியல்நேரிசையாசிரியப்பா

இன்னியலிணைக்குறளாசிரியப்பா

விரவியலிணைக்குறளாசிரியப்பா

இன்னியனிமைண்டிலவாசிரியப்பா

விரவியனிமைண்டிலவாசிரியப்பா

இன்னியலடிமறிமண்டிலவாசிரியப்பா

விரவியலடிமறிமண்டிலவாசிரியப்பா எனவும்,

வெள்ளைச்சுரிதகநேரிசையொத்தாழிசைக்கலிப்பா

அகவற்சுரிதகநேரிசையொத்தாழிசைக்கலிப்பா

அளவியலம்போதரங்கவொத்தாழிசைக்கலிப்பா

அளவழியம்போதரங்கவொத்தாழிசைக்கலிப்பா

விரவியலம்போதரங்கவொத்தாழிசைக்கலிப்பா

அளவியல்வண்ணகவொத்தாழிசைக்கலிப்பா

அளவழிவண்ணகவொத்தாழிசைக்கலிப்பா.

கவிவெண்பா

வெண்கலிப்பா.

இயற்றரவுகொச்சகக்கலிப்பா

சுரிதகத்தரவுகொச்சகக்கலிப்பா

இயற்றாவிணைக்கொச்சகக்கலிப்பா
 சுரிதகத்தரவிணைக்கொச்சகக்கலிப்பா
 இயற்சிஃறாழிசைக்கொச்சகக்கலிப்பா
 குறைச்சிஃறாழிசைக்கொச்சகக்கலிப்பா
 இயற்பஃறாழிசைக் காச் கக்கலிப்பா
 குறைப்பஃறாழிசைக்கொச்சகக்கலிப்பா
 இயன்மயங்கிசைக்கொச்சகக்கலிப்பா
 அயன்மயங்கிசைக்கொச்சகக்கலிப்பா.
 இன்னியற்குறளடிவஞ்சிப்பா
 விரவியற்குறளடிவஞ்சிப்பா
 இன்னியற் சிந்தடிவஞ்சிப்பா
 விரவியற் சிந்தடிவஞ்சிப்பா
 புறநிலைவாழ்த்துச் சமநிலைமருட்பா
 புறநிலைவாழ்த்தியன்சமநிலைமருட்பா
 வாயுறைவாழ்த்துச்சமநிலைமருட்பா
 வாயுறைவாழ்த்தியன் சமநிலைமருட்பா
 செவியறியுறாஉச்சமநிலைமருட்டா
 செவியறியுறாஉவியன்சமநிலைமருட்பா
 கைக்கிளைச்சமநிலைமருட்பா
 கைக்கிளைவியன்சமநிலைமருட்பா.

என்னும்விரியானும் ;—

தாழிசை, துறை, விருத்தம் என்னும் தொகையானும் ;—
 வெண்டாழிசை, வெண்டுறை, வெளிவிருத்தம்,
 ஆசிரியத்தாழிசை, ஆசிரியத்துறை, ஆசிரியவிருத்தம்,
 கவித்தாழிசை, கவித்துறை, கவிவிருத்தம்,
 வஞ்சித்தாழிசை, வஞ்சித்துறை, வஞ்சிவிருத்தம்,

என்னும்வகையானும் ;—

குறட்டாழிசை
 வெள்ளொத்தாழிசை
 வெண்டாழிசை
 வெண்டெந்துறை
 ஓரொலிவெண்டுறை
 வேற்றொலிவெண்டுறை
 ஆசிரியவொத்தாழிசை
 ஆசிரியத்தாழிசை
 ஆசிரியநேர்த்துறை
 ஆசிரியவிணைக்குறட்டுறை

ஆசிரியநிலைவிருத்தம்
 ஆசிரியமண்டிலவிருத்தம்
 கலியொத்தாழிசை
 கலித்தாழிசை
 கலிநிலைத்துறை
 கலிமண்டிலத்துறை
 கட்டளைக்கலித்துறை
 கலிநிலைவிருத்தம்
 கலிமண்டிலவிருத்தம்
 வஞ்சிநிலைத்தாழிசை
 வஞ்சிமண்டிலத்தாழிசை
 வஞ்சிநிலைத்துறை
 வஞ்சிமண்டிலத்துறை
 வஞ்சிநிலைவிருத்தம்
 வஞ்சிமண்டிலவிருத்தம்.

என்னும் விரியானும் ;—

செப்பல், அகவல், துள்ளல், தூங்கல் என்னும் தொகையானும்;—

‘பாஅவண்ணம், தாஅவண்ணம், வல்விசைவண்ணம், மெல்லிசைவண்ணம், இயைபுவண்ணம், அளபெடைவண்ணம், நெடிஞ்சீர்வண்ணம், குறுஞ்சீர்வண்ணம், சித்திரவண்ணம், நலிபுவண்ணம், அகப்பாட்டுவண்ணம், புறப்பாட்டுவண்ணம், ஒழுகுவண்ணம், ஒருஉவண்ணம், எண்ணுவண்ணம், அகைப்புவண்ணம், தூங்கல்வண்ணம் ஏந்தல்வண்ணம், உருட்டுவண்ணம், முடுகு வண்ணமோடாங்கையென்பவறிந்திசினோ” என்னும் பாஅவண்ணமுதலாகிய வண்ணமிருபதென்னும் வகையானும்;—

குறிலகவற்றுங்கிசைவண்ண முதலாகியவண்ணம் நூறென்னும் விரியானும் பிறவாற்றினும்;—

சுருங்கியும் பெருகியுங் கிடந்ததொன் னூல்யாப்புக்களினது துணிபு நோக்கியரும்பொருட் பெருங்கேள்வியாசிரியவசனங்களே யாலம்பனமாக அருங்கலவணி ஒருங்குகோத்தாற்போலவும், அலைகடல்கடைந்த மிர்துகொண்டாற்போலவும் ஒருங்குகொகுத்து ஒருகோவைப்படுத்து எல்லார்க்கு முணர்வு புலன்கொள்ளுமாற்றால் யாப்புணர்த்துதனுதலிற்று. இதனாவிது சார்புநூலென்பது முடிந்தது.

இனியிவ்வோத்து என்னுதலிற்றோ வெனின் ;—

அசைக்குறுப்பா மெழுத்துக்களது பெயர்வேறுபாடுணர்த்துத னுதலிற்று. அதனானே யெழுத்தோத் தென்பதாயிற்று.

இச்சூத்திரமென்னுதலிற்றே வெனின்;—சிறப்புப்பாயிர முணர்த்துதனுதலிற்று. என்னை “வணக்கமதிகாரமென்றிரண்டுஞ்சொல்லச், சிறப்பெனும்பாயிரமாம்” என்றராகலின்.

சூத்திரப்பொருளுரைக்கின்றழிச் சூத்திரத்தின்விகற்பமும், சூத்திரமென்றசொற்குப் பொருளுமுரைத்துரைக்கப்படும்.

சூத்திரம் ஆறுவகைப்படும்: பெயர்ச்சூத்திரம், விதிச்சூத்திரம் விலக்கியற்சூத்திரம், நியமச்சூத்திரம், அதிகாரச்சூத்திரம், ரூபகச்சூத்திரம் என. (பெயரே தொகையென்பவாகலின்). அவற்றுள்,

பெயர்ச் சூத்திரமாவது;—இடுகுறியானும், காரணக்குறியானும் இலக்கணங்கட் கோருபகார நோக்கி யிஃதிறகுப்பெயரென்றிடுவது.

விதிச்சூத்திரமாவது;—இன்னதொன்றிற் கிதுவாமென்றுமுன்னில, தனைமொழிவதாகும்.

விலக்கியற்சூத்திரமாவது;—பொதுவகையான் விதிக்கப்பட்டதனையிவ்வழியாகாதென்பது.

நியமச்சூத்திரமாவது;—முன்னொன்றொன் முடியவைத்துப் பின்னுமதனையெடுத்துக்கொண்டு விதிமுகத்தால் விலக்குவதுஉம், விலக்குதலைவகையால் விதிப்பதுஉமெனக்கொள்க.

அதிகாரச்சூத்திரமாவது;—ஆற்றொழுக்கு அரிமானோக்குச் சார்ச்சிவழியொழுகுதலும் தவளைப்பாய்த்துளும்போன்று ஏற்கும்வகையாலியைந்துபொருள்விளைப்பது.

ரூபகச்சூத்திரமாவது;—எளிதுஞ் சிறிதுமாக வியற்றற் பாலதனையரிதும்பெரிதுமாக வியற்றிப் பிறிதொருபொருளையறிவிப்பது.

பரிபாடைச் சூத்திரமென்பனவுமுள். அவையிண்டுத் தந்திரவுத்தியுள்ளே பட்டடங்கும் என்க. இவற்றைவிகற்பித்தும் பலவிதப்படுத்துச் சொல்லுவாரமுளர்.

முதற்சூத்திரம் நான்குவகைப்படும்: வழிபடுத்தெய்வ வணக்கஞ்செய்தலும், மங்கலமொழிமுதல் வகுத்தெடுத்தலும், தொகைவகை விரியான்றுதலிப்புகுதலும், சொலத்தகும் பொருளையெடுத்துரைத்தலும் என.

இனிச் சூத்திரமென்ற சொற்குப் பொருளுரைக்குமாறு: ஏற்புடைப்பொருளெல்லாந் தோற்றுமாறு சூத்திரித்து நடாத்துதலிற் சூத்திரமெனப்படும். அது வடமொழித்திரிசொல்லெனக்கொள்க.

சூத்திரப்பொருளுரைக்கின்றழிப் பலதிறத்தானுமுரைப்ப. என்னை: “முத்திரத்தானுமூலிருவிகற்பினும், பத்துவிதத்தானும் பதின்மூன்றுதிறத்தானு, மெழுவகையானு மிரண்டுகூற்றானும், வழுவூனி

நீங்க மாண்பொடுமதத்தொடும், யாப்புறுத் துரைப்பது சூத்திரவுரையே” என்பதாதலின். அவற்றுள்,—

முத்தீறமாவன்,—பொழிப்பகலநுட்பமெனவிலை.

முவிநுவிகற்பமாவன்,—எடுத்துக்காட்டல், பதம்விரித்தல், பதபொருளுரைத்தல், வினாதல், விடுத்தல், விசேடங்கூறல் எனவிலை.

பத்துவிதமாவன்,—“சொல்லேசொற்பொருள் சோதனைமறைநிலை, யிலேசெயெச்ச நோக்கேதுணிபே, கருத்தே செலுத்துத் தென்றீரைந்து, கிளவியு நெறிப்படவருவது, பனுவலுரையென்ப பகர்ந்தனர் சான்றோர்” எனவிலை.

பதினாறுவிதமாவன்,—சூத்திரந்தோற்றல், சொல்வகுத்தல், சொற்பொருளுரைத்தல், வினாதல், விடுத்தல், விசேடங்காட்டல், உதாரணங்காட்டல், ஆசிரியவசனங்காட்டல், அதிகாரவரவு காட்டல், தொகுத்துமுடித்தல், விரித்துக்காட்டல், துணிவுகூறல், பயனெடுபுணர்தல், எனவிலை.

எழுவகையாவன்,—பொழிப்பு, அகலம், நுட்பம், நூலெச்சம், பதப்பொருளுரைத்தல், ஏற்புழிக்காட்டல், எண்ணல் எனவிலை.

இரண்டு கூறுவன்,—தொகுத்துக்கண்ணித்தல், விரித்துக்கொணர்ந்துரைத்தல் எனவிலை.

வழுவாவன்,—குன்றக்கூறல், மிகைபடக்கூறல், கூறியது கூறல், மாறுகொளக்கூறல், வழுவச்சொற்புணர்த்தல், மயங்கவைத்தல், வெற்றெனத்தொடுத்தல், மன்றொன்றுவிரித்தல், சென்றுதேய்ந்திறுத்தல், நின்றுபயனின்மை எனவிலை.

மாண்பாவன்,—சுருங்கச்சொல்லல், விளங்கவைத்தல், நவீன்றோர்க்கினிமை, நன்மொழிபுணர்த்தல், ஓசையுடைமை, ஆழமுடைத்தாதல், முறையின்வைத்தல், உலகமலையாமை, விழுமியதுபயத்தல், விளங்கியவுதாரணத்தாதல் எனவிலை.

எழுவகையாசிரியாமதமாவன்,—உடன்படுதல், மறுத்தல், பிறமதமேற்கொண்டு களைதல், தாஅனாட்டித்தன்மதநிறுத்தல், இருவர்மாறுகொண்டதொருதலைதுணிதல், பிறநூற்குற்றங்காட்டல், பிறிதொடுபடாஅன்றன்மதம்வகுத்தல் எனவிலை.

இவ்வகையேபுகுந்தன புகுந்தன பரப்பியுரைப்பான்புகிவிறந்துபட்டவுரையிற்றும். எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட⁴பொருளவற்றுள் யாதானுமொருவகையாற் கேட்போருணர்வு புலன்கொள்ளுமாற்றலெடுத்துக்கொண்டசூத்திரப்பொருளுரைக்கவென்பதீண்டுத்துணிபு,

அஃதாமாறு 'வெறிகமழ்.....யாப்பே' என்பது நறுநாற்றங்கமழ் ந்தாமரைமேனடந்தவறிவனை யிறைஞ்சிச் சொல்லுவன் யாப்பென்ற வாறு.

இப்பொருளைச் சொல்லுமோவிச்சூத்திரத்துத்தொடர்மொழியெனின், சொல்லும். என்னை; 'வெறி' என்பது நறுநாற்றம் என்றவாறு. 'கமழ்த'லென்பது நாறுதல் என்றவாறு. அது "வெறிகமழ்சந்தனம்", "வெறிகமழ்தழாய்" என்றும்போலக்கொள்க. 'தாமரை' என்பது தாமரைப்பூவென்றவாறு. இது முதலைக்கூறுஞ் சினையறிகிளவி. "தாமரைபுரையுங்காமர் சேவடி" என்றும்போலவெனக்கொள்க. 'மீமிசை' என்பது மேன்மேல் என்றவாறு. மீமிசையென்னு மொருபொருட்பன்மொழி சிறப்புப்பற்றி வந்தது. என்னை "ஒரு பொருட்பன்மொழி சிறப்பினின் வழாஅ" என்றாராகலின்; அஃது "அடுக்கன் மீமிசையருப்பம்பேனாது" என்றும்போலக்கொள்க. 'ஒதுங்கல்' என்பது நடத்தல். அது "போதியங்கிழவனைப்பூமிசை யொதுங்கினே" என்றும்போலக்கொள்க. எல்லாப்பொருளையு மொருகணத்திற்குறானே ஒதாதுணர்ந்தமை யின் அறிவனென்பது காரணக்குறி. ஐ என்பது இரண்டாம்வேற்றுமை. 'உணங்கி' என்பது இறைஞ்சியென்றவாறு. வணங்கியெனினும் இறைஞ்சியெனினும் பணிந்தெனினும் ஒக்கும். 'அறைகுவன்' என்பது சொல்லுவன் என்றவாறு. அறைகுவனெனினும் சொல்லுவனெனினும் மொழிகுவனெனினும் ஒக்கும். 'யாப்பு' என்பது யாப்பென்னுமதிகாரம் என்றவாறு. யாப்பெனினும் பாட்டெனினும் தூக்கெனினும் செய்யுளெனினும் ஒக்கும். ஏகாரம்-தேற்றேகாரம்; பிரிநிலையெனினுமமையும். என்னை: "தேற்றம்வினாவே பிரிநிலையெண்ணே, யீற்றசையிவ்வந்தேகாரம்மே" என்றாராகலின். "வழிபடுதெய்வவணக்கஞ்செய்து மங்கலமொழிமுதல் வகுத்தெடுத்துக்கொண்ட விலக்கணவிலக்கிய மிடுக்கணின்றியினிதமுடியு" மென்பவாகலிச்சூத்திர மிவ்வாறு கூறப்பட்டதெனக்கொள்க.

"ஆதியங்கடவுளை யருமழையருகளை
போதியங்கிழவனைப் பூமிசையொதுங்கினே
சேதியஞ்செல்வநின் றிருவடிபரவதும்"

"காமனைக்கடிந்தனை காலனைக்காய்ந்தனை
தேமலர்மாரியை திருமறுமார்பினை
மாமலர் வண்ணநின்மலரடிவணங்குதும்"

“ஆரூள்பயந்தனை யாழ்துயர்சுவிர்த்தனை
 ஓரூளாழியை யுலருடையொருவனைச்
 சேருண்மொழியை நின் திருவடிபரவுதும்.”

எனக்கொள்க.

இனி முப்பத்திருவகையுத்தியாவன :—முன் கூறியவே. தருக்கமா
 வன :—ஏகாந்தவாதமும் அனேகாந்தவாதமுமென்பன. அவை குண்
 டல நீல பிங்கல அஞ்சனம் தத்து மகரிசன காலகேசிமுதலிய செய்யுட்
 களுள்ளுஞ் சாங்கியவாறுதெரிசனங்களுள்ளுங்காண்க.

இனிச் செய்யுளாவன :—“ வரியே குரவை மதிலை வேட, முரியே
 தாழிசை முன்னிலைவாழ்த்தே, தேவபாணி சிற்றிசை நேரிசை, பாவை
 நனிநிலை பாங்கமை மடலே ” என்றேர்தப்பட்டன. அவை மணியா
 ரத்தள்ளும் பிறவற்றுள்ளுங் கண்டுகொள்க.

இனி இவற்றினுறுப்பு ஐம்பத்தமுன்றாவன :—அல்லியவுறுப்பு
 கூ ; கொட்டியுறுப்பு கூ ; குடையினுறுப்பு ச ; குடத்தினுறுப்பு டு ; பா
 ண்டாங்கவுறுப்பு கூ ; மல்லாடலுறுப்பு டு ; கண்டத்துறுப்பு கூ ; பெ
 ட்டினுறுப்பு ச ; மரக்காலாடலுறுப்பு ச ; பாவையுறுப்பு கூ ; என
 விவை. இவற்றின் மன்மை செயிற்றியமுஞ் சயித்தழம் போய்கை
 யார்தாலு முதலியவற்றுட்காண்க. ஈண்டுரைப்பிற் பெருகும். “முந்
 துநூன்முடிந்தமுறைமையின் வழாமை, வந்தனபிறவும் வரையறைந்
 துரைப்போ, னந்தமில்லேள்வியாசிரியன்னே ” “மேனூன்முடிந்த மு
 றைமையின்வழாமை, சொன்னவும் சித்திரமைட்பயத்திர சேதக்களி
 தகத்தவுத்திமுதலிய பிறவுமறிந் திடத்திற்கேற்றவாற்றானுரைக்கவல்
 லோன் கேள்வி முற்றியவாசிரியனென்று கூறப்படுவா னென்றவாறு.

சொல்லிற் சுருங்கிப் பொருள்பெருகித் தொல்லால்
 மெல்லாம் விளக்கி யிருளாகற்று—நல் யாப்
 பநூங்கலம் வல்லார் தாமன்றே நற்கேள்வி
 யொருங்கறிய வல்லா ருணர்ந்து.

யாப்பருங்கலவிருத்தி முற்றும்.

4. பிங்கல நிகண்டு.

காப்பு.

Beginning :

மதியாய் சடைமுடித்து மாசணப்பைம் பூட்டுச்
சதிபாய் குறுந்தாட்டுத் தான—நதிபா
யிருகவுட்டு முக்கட்டு நால்வாய்த்தென் னுள்ள
முருகவிட்டு நின்ற வொளி.

சிறப்புப்பாயிரம்.

இருங்கடலுடுத்த விம்மாநிலம்விளங்க
வரும்பொருடெரித்த வகன்றமிழ்வரைப்பி
னியற்சொற்றிரிசொற் நிசைச்சொல்வடசொலென்
றனைத்தேசெய்யுட் கணிகலனாதலிற்
செந்தமிழ்நிலத்து வழக்கொடுசிவணித்
தம்பொருள்வழாம விசைக்குமியற்சொ
லொருபொருள்குறித்த வேறுசொல்லாகியும்
வேறுபொருள்குறித்த வொருசொல்லாகியு
மிருபாற்றென்ப திரிசொற்கிளவி
செந்தமிழ்சேர்ந்த திசைதிசைதோறுந்
தங்குறிப்பினவே திசைச்சொற்கிளவி
வடசொற்கிளவி வடவெழுத்தொரிஇ
யெழுத்தொடுணர்ந்த சொற்றொகுஞ்
சிதைந்தனவரினு மியைந்தனவரையா
ரந்தாற்சொற்றிற மறிவுறமெனது
செங்கதிர்வரத்தாற் நிவாகரண்பயந்த
பீங்கலமுனிவ னெனப்பெயர்நீநீடுய
யுரிச்சொற்கிளவி யுரைக்குங்காலை
விருப்புடனிலைய வீறுசால்சிறப்பின
வானின்வகையும், வானவீவகையும்,
வானினுமண்ணினும் வழங்கல்வழாஅ
வீனம்லைய ரியல்புனிவகையு,
மவள்வகையு, மடவீவகையு,
மவர் திறத்தமைந்த வனுபோகவகையும்,
வையத்தடைத்த வானுவியல்பிற்
பண்பிற்செயலிற் பகுதியின்வகையும்,
புள்ளின்வகையு, மாப்பெயர்வகையு,

மொருசொல்பலபொரு ளோங்கியவகையுமென்
 மிருளறவீரைந்தாக்கி
 மருளறவகுத்தனன் மதியினின்விரைந்தே.

பாபிர முற்றும்.

முதலாவது—வானின்வகைத்தொகுதி.

பொன்னுலகுந்துறக்கமும் புத்தேளுவகும், விண்ணுலகுமேலையுல
 கும்விசம்பு, நாகமுங்கற்பமும் வானுலகும், வியனுலகுவிதானமு மு
 வணையுஞ்சுவவும், சூரிடமுமுயர்நிலையுஞ் சுவர்க்கப்பெயரோ.

* * * *

அமரர்சித்தரசுரர்தைத்தியர், கருடர்கின்னரர்கிம்புருடர்காந்தரு
 வர், இயக்கர்விஞ்சையிராக்கதர்பூதம், பிசாசந்தாரகைமுனிவருரகர்,
 ஆகாசவாசிகள்போகபூமியரெனப், பாகுபட்டதுபதினெண்கணமே.

முதலாவது வானின்வகைத்தொகுதி முற்றும்.

இரண்டாவது—வானவர்வகைத்தொகுதி.

ஏகதந்தனிமைமகனேரம்பன், ஆகுவாகனனைந்துகரத்தோன், பாற
 நிவிநாயகன் முன்னவன்கரிமுகன், அத்திக்கடவுளரிமருகன்னே, கவு
 ரிசேயெனக்கணபதிப்பெயரோ.

* * * *

பசுவயிர்சேதனன் புற்கலன்சீவன், அனுவியமானனன்மா வென்ப.

இரண்டாவது வானவர்வகைத்தொகுதி முற்றும்.

மூன்றாவது—ஐயர்வகை.

முனிவர்மாதவரிலிங்கியர்முனிவர், படிவருறுவர்பண்ணவரையத்
 தா, அறவோர்தாபதரிருடிகளாகும்.

* * * *

மனுவேயத்திரி விண்வொசிட்டு, மமியமதமாபத்தம்பமிரேவத,
 மசூரவவங்கேசவமங்கிராப்பராசரம், வியாதமரிநந்துவசுதங்கவுதமங்,
 கார்த்திகேயம்பிரகற்பதிசங்கவதமெனப், பாகுபட்டதுபதினெண்டரு
 மதூல்.

மூன்றாவது ஐயர்வகை முற்றிற்று.

நான்காவது—அவனிவகை.

அவ்னிவைய மகலிடங்காசினி, புவனிபுடவி பூதலம்பூமி, புவனம் படர்புவி பொழில்பூநேமி, மேகினிகோத்திரா குவலயங்கோமகி, யுகம்பார்தராத்திரி தரித்திரிதரணி, தலம்புலங்கிடக்கை தராதலந்தால, மனிலம்பிருதுவிதரை நிலைதிணைஞாலம், அசலைபூவலைய மளக்கர்வசமதி, வசந்தவைவசுதை மண்ணுலகென்ப, பூதியம்பராகம் பாரிபொறையென, ஓதியிறவு மப்பெயர்க்குரித்தே.

* * * *

சங்கமுமவையுஞ் சமுகமுங்கோட்டியும், என்பவைபலர்தொகுஞ்சையெனப்படுமே.

நான்காவது அவனிவகை முற்றிற்று.

ஐந்தாவது—ஆடவர்வகை.

அறவோர்பூசர ரறுதொழிலாளர், இருபிறப்பாள ரெரிவளர்ப்போரே, ஆதிவருணர் வேதியரந்தணர், வேள்வியாளர் மறையவர்விப்பிரர், மேற்குலத்தோரோ வேதபாரகர், பார்ப்பாருதியரும் பனவருமாமே, மறையோர்தமக்கு வன்னியெனும்பெயர், பிரமசாரியர் பெயரொனலாகும்.

* * * *

மூவடிவென்பது பெண்ணுணவியே.

ஐந்தாவது ஆடவர்வகை முற்றும்.

ஆறாவது—அநுபோகவகை.

அன்னமயினியடிசிலோதனம், பொம்மல்போனக மடையேபுனகம், மூரல்புமுக்கல் மிதவையவியே, சொன்றிபாத்துக் கூழ்பதஞ்சோறே.

* * * *

கரிலேகாயங் கடுகங்காழ்த்தல்.

ஆறாவது அநுபோகவகை முற்றும்.

ஏழாவது—பண்பிற்செயலிற்பகுதியின்வகை.

பூணணியணிகலம் பூணடம்வள்ளி.

* * * *

கலவைகலத்தலாகும்.

ஏழாவது பண்பிற்செயலிற்பகுதியின்வகை முற்றும்.

எட்டாவது—பட்சிவகை [புள்ளின்வகை?]

அன்னமெகினம் வக்கிராங்கமோதிமம், மென்னடையஞ்ச மராள
மும் விளம்புவர்.

* * * *

பிள்ளையும்பறழு மெனவரும்பெயர்கள், தள்ளருஞ்சிறப்பிற்றவழ்
வனபெறுமே.

எட்டாவது பட்சிவகை முற்றும்.

ஒன்பதாவது—மரப்பெயர்வகை.

சந்தானங்கம்பக தாருவுடனே, பாரிசாதம் பகர்மந்தாரமும், தேவ
தாரமுந் தெய்வமரமே.

* * * *

அமுதமயிழ்துஞ் சீவனியுமென்ன, வயிர்தருமருந்தி னுறுபெய
ராகும், அதகமென்பது மப்பெயர்க்குரித்தே.

ஒன்பதாவது மரப்பெயர்வகை முற்றும்.

End:

பத்தாவது ஒருசொற்பலபொருட்பெயர்த்தொகுதி
[வகை].

துங்கமலையு நிலையுந்தாணுவுஞ், சங்கரன்பெயரும் தாணுவாகும்.

* * * *

மலருந்தளிரு மஞ்சரியென்ப.

பத்தாவது ஒருசொற்பலபொருட்பெயர்த்தொகுதி முற்றும்.

பிங்கலநிகண்டு முற்றிற்று.

5. சிலப்பதிகாரம்.

பதிகம்.

Beginning :

குணவரயிநீ கோட்டீ தரசுதறந்திருந்த
குடக்கோசி சேர லிளங்கோ வடிகட்குக்
குன்றக் குறவ ரொருங்குடன் கூடிப்
பொலம்பூ வேங்கை நலங்கிளர் கொழுநிழ
லொருமுலை யிழந்தானோர் திருமா பத்தினிக்
கமரர்க் கரசன் மமர்வந் தீண்டியவள்

காதற் கொழுநனைக் காட்டி யவளோடெங்
 கட்டிலங் காண விட்புலம் போய
 திறும்புது போலுமஃ தந்ந்தரு னீயென
 வவனுழை யிருந்த தண்டமிழ்சீ சாத்தன்
 யானறி குவனது பட்டதென் றுரைப்போ
 னரங் கண்ணிச் சோழன் மூதூர்ப்
 பேராச் சிறப்பிற் புகார்நக ரத்துக்
 கோவல னென்பானேர் வாணிக னவ்வூர்
 நாடக மேத்து நாடகக் கணிகையோ
 டாடிய கொள்கையி னரும்பொருள் கேடுறக்
 கண்ணகி யென்பான் மனைவி யவள்காற்
 பண்ணமை சிலம்பு பகர்தல் வேண்டிப்
 பாடல்சால் சிறப்பிற் பாண்டியன் பெருஞ்சீர்
 மாட மதுரை புதுத்தன் னதுகொண்டு
 மன்பெரும் பீடிகை மறுசிற் செல்வோன்
 பொன்செய் கொல்லன் றன்கைக் காட்டக்
 கோப்பெருந் தேவிக் கல்லதை யிச்சிலம்
 பியாப்புற வில்லையிங் கிருக்கென் றேகிப்
 பண்டுதான் கொண்ட சில்லரிச் சிலம்பினைக்
 கண்டனன் பிறனேர் கள்வன் கையென
 வினைவினை கால மாதலின் யாவதஞ்
 சினையலர் வேம்பன் றேரா னுகிக்
 கன்றிய காவலர்க்குடையக் கள்வனைக்
 கொன்றச் சிலம்பு கொணர்க வீங்கெனக்
 கொலைக்களம் பட்ட கோவலன் மனைவி
 நிலைக்களங் காணு னெடுங்கணீ ருகுத்துப்
 பத்தினி யாகலிற் பாண்டியன் கேடுற
 முத்தார மார்பின் முலைமுகந் திருகி
 நிலைகிளர் கூட னீளெரி யூட்டிய
 பலர்புகழ் பத்தினி யாகு மிவளென ;
 வினைவினை கால மென்றீர் யாதவர்
 வினைவினை வென்ன விறலோய் கேட்டி
 யதிராச் சிறப்பின் மதுரை மூதூர்க்
 கொன்றையஞ் சடைமுடி மன்றப் பொதியிலிவ்
 வெள்ளியம் பலத்து நள்ளிருட் கிடந்தே
 னாரகு ருற்ற வீரபத் தினிமுன்
 மதுரைமா தெய்வம் வந்து தோன்றிக்
 கொதியழற் சீற்றங் கொங்கையின் வினைத்தோய்

முதிர்வினை நுங்கட்கு முடிந்த தாகலின்
 முந்தைப் பிறப்பிற் பைந்தொடி கணவனொடு
 சிங்கா வண்புகழ்ச் சிங்க புரத்துச்
 சங்கம னென்னும் வாணிகன் மனைவி
 யிட்ட சாபங் கட்டிய தாகலின்
 வாரொலி கூந்தனின் மணமகன் றன்னை
 யீரேழ் நாளகத் தெல்லை நீங்கி
 வாறோர் தங்கள் வடிவி னல்லதை
 யீறோர் வடிவிற் காண்ட வில்லெனக்
 கோட்டமில் கட்டுரை கேட்டனன் யானென
 வரசியல் பிழைத்தோர்க் கறங்கூற் றுவதுஉ
 முரைசால் பத்தினிக் குயர்ந்தோ ரோத்தலு
 மூழ்வினை யுருத்துவந் தூட்டு மென்பதூஉஞ்
 சூழ்வினைச் சிலம்பு காரண மாகச்
 சிலப்பதி கார மென்னும் பெயரா
 னுட்டுதம் யாமோர் பாட்டுடைச் செய்யுளென
 முடிகெழு வேந்தர் மூவர்க்கு முரிய
 தடிக ணீரே யருளுகென் றற்கவர்
 மங்கல! வாழ்த்துப் பாடலுங் குரவர்
 மனையறம் படுத்த காதையு நடனவின்
 மங்கை மாதவி யரங்கேற்று காதையு
 மந்தி மாலைச் சிறப்புச்செய் காதையு
 மிந்திர விழஞ் சொடுத்த காதையுங்
 கடலாடு காதையும், மடலவிழ்
 கானல் வரியும் வேனில்வந் திறுத்தென
 மாதவி யிரங்கிய காதையுந் தீதுடைக்
 கனாத்திற முரைத்த காதையும் வினாத்திறத்து
 நாடுகாண் காதையுங் காடுகாண் காதையும்
 வேட்டுவ வரியுந் தோட்டலர் கோதையொடு
 புறஞ்சேரி யிறுத்த காதையுங் கறங்கிசை
 பூர்காண் காதையுஞ் சீர்சானங்கை
 யடைக்கலக் காதையுந் கொலைக்களக் காதையு
 மாய்ச்சியர் குரவையுந் தீத்திறங் கேட்ட
 துன்ப மாலையு நண்பக னடுங்கிய
 மூர்கூழ் வரியுஞ் சீர்சால் வேந்தனொடு
 வழக்குரை காதையும் வஞ்சின மாலையு
 மழற்படு காதையு மருந்தெய்வந் தோன்றிக்
 கட்டுரை காதையு மட்டலர் கோதையர்

குன்றக் குரவையு மென்றிவையனைத்தடன்
காட்சி கால்கோ ணீர்ப்படை நடுகல்
வாழ்த்து வரந்தரு காதையொ
டிவ்வாறைந்த
முரையிடையிட்ட பாட்டுடைச் செய்யு
ளுரைசா லடிக ளருள மதுரைக்
கூல வாணிகள் சாத்தன் கேட்டனன், இது
பால்வகை தெரிந்த பதிகத்தின் மரபென.

* * * * *

அன்றுதொட்டுப்பாண்டியனாடு மழைவறங்கூர்ந்து வறுமையெய்தி
வெப்புநோயுள் குருவுந்தொடரக் கோங்கையிலிருந்த வெற்றிவேற்
செழியன் நங்கைக்குப்பொற்கொல்லராயிரவரைக்கொன்று களவேள்
வியால் விழுவொடு சாந்திசெய்ய நாடுமலிய மழைபெய்து நோயுந்
தன்பமுநீங்கியது.

அதுகேட்டுக் கொங்கிளங்கோசர் தங்கனாட்டகத்து நங்கைக்கு
விழுவொடு சாந்திசெய்ய மழைதொழிலென்றும் மாறாதாயிற்று.

அதுகேட்டுக் கடல்தூழலங்கைக் கயவாதுவேன்பாண் நங்கைக்கு
நாட்பலிபீடிகை கோட்டமுந்துறுத்தாங்கு அரந்தைகெடுத்து வரந்தரு
மிவளென ஆடித்திங்களகவையினாங்கோர் பாடிவிழாக்கோள் பன்மு
றையெடுப்ப மழைவீற்றிருந்து வளம்பலபெருகிப் பிழையாவினாயுண
டாயிற்று.

அதுகேட்டுச் சோழன் பெருங்கிள்ளி கோழியகத்து எத்திறத்தானு
ம் வரந்தருமிவளோர் பத்தினிக்கடவுளாகுமென நங்கைக்குப்பத்தி
னிக் கோட்டமுஞ்சமைத்து நித்தல்விழாவணி நிகழ்வித்தோனே.

க.—புகார் காண்டம்.

திங்களைப் போற்றுதுந் திங்களைப் போற்றுதுந்
கொங்கலர்தார்ச் சென்னிகுளிர்வெண் குடைபோன்றிவ்
வங்க ணுலகளித்த லான்
ஞாயிறு போற்றுதும் ஞாயிறு போற்றுதுந்
காவிரி நாடன் நிகிரிபோற் பொற்கோட்டு
மேரு வலந்திரித லான்
மாமழை போற்றுது மாமழை போற்றுது
நாமநீர் வேலி யுலகிற் கவனளிபோன்
மேனின்று தான்சுரத்த லான்
பூம்புகார் போற்றுதும் பூம்புகார் போற்றுதும்
வீங்குநீர் வேலி யுலகிற் சவன்குலத்தோ
டோங்கிப் பரந்தொழுக லான்
ஆங்கு,

பொதியி லாயினு மிமய மாயினும்
 பதியெழு வறியாப் பழங்குடி கெழீஇய
 பொதுவறு சிறப்பிற் புகாரோ யாயினு
 நடுக்கின்றி நிலைஇய வென்ப தல்லதை
 யொடுக்கங் கூறா ருயர்ந்தோ ருண்மையின்
 முடித்த கேள்வி முழுதுணர்ந் தோரோ

அதனால்,

நாகநீ ணகரொடு நாகநா டதனெடு

போகநீள் புகழ்மன்னும் புகார்நக ரதுதன்னின்
 மாகவா னிகர்வண் கை மாநாய்கன் குலக்கொம்ப
 ரீகைவான் கொடியன்னு ளீராறாண் டகவையாள்
 அவளுந்தான்,

போதிலார் திருவினாள் புகழுடை வடிவென்றுந்

தீதிலா வடமீனின் றிறமிவ டிறமென்று

மாதரார் தொழுதேத்த வயங்கிய பெருங்குணத்துக்

காதலாள் பெயர்மன்னுங் கண்ணகியென்பாண்மன்னே

ஆங்கு,

பெருநில முழுதாளும் பெருமகன் றலைவைத்த

வொருதனிக்குடிகளோ டியர்ந்தோங்கு செல்வத்தான்

வருநிதி பிறர்கார்த்து மாசாத்து வானேன்பா

லிருநிதிக் கிழவன்மக னீரொட்டாண் டகவையான்

அவனுந்தான்,

மண்டேய்த்த புகழினுன் மதிமுக மடவார்தம்

பண்டேய்த்த மொழியினு ராயத்துப் பாராட்டிக்

கண்டேத்துஞ் செவ்வேனென் றிசைபோக்கிக் காதலாற்

கொண்டேத்துங் கிழமையான் கோவலனென் பான்மன்னே

அவரை,

இருபெருங் குரவரு மொருபெரு நாளான்

மணவணி காண மகிழ்ந்தனர் மகிழ்ந்துழி

யானையெருத்தத் தணியிழையார் மேவிரீஇ

மாநகர்க் கீந்தார் மணம்

அவ்வழி,

முரசியம்பின முருடதீர்ந்தன முறையெழுந்தனபணிலம்வெண்குடைய
 யரசெழுந்ததொர் படியெழுந்தன வகலுண்மங்கல வணியெழுந்தது.

மாலேதாழ் சென்னி வயிரமணித் தூணத்து

நீல விதானத்து நீத்திலப்பும் பந்தர்க்கீழ்

வானூர் மதியஞ் சகடனைய வானத்துச்

சாலி யொருமீன் றகையானைக் கோவலன்

மாமுது பார்ப்பான் மறைவழி காட்டிடத்
 தீவலஞ் செய்வது காண்பார்க ணேன் பெண்ணை
 விராயினர் மலரினர் விளங்கு மேனிய
 ருராயினர் பரிட்டின ரொசிந்த நோக்கினர்
 சாந்தினர் புகையினர் தயங்கு கோதைய
 ரோந்தின முலையின ரிடித்த சுண்ணத்தர்
 விளக்கினர் கலத்தினர் விரிந்த பாலிகை
 முளைக்குட திராயினர் முகிழ்த்த மூரலர்
 போதொடு விரிகூந்தம் பொலனறுங் கொடியனார்
 காதலம் பிரியாமம் கவவுக்கை ஞெகிழாமம்
 மீதறு கெனவேத்திச் சின்மலர் கொடுதாவி
 யங்க ணுலகி னருந்ததி யன்னுளை
 மங்கல நல்லமளி யேற்றினார் தங்கிய
 விப்பா விமயத் திருத்திய வாள்வேங்கை
 யுப்பாலைப் பொற்கோட் டெழையதா வெப்பாலுஞ்
 செருமிகு சினவேற் செம்பிய
 னெருதனி யாழி யுருட்டுவோ னெவே.

*

*

*

முடியுடை வேந்தர் மூவ ருள்ளந்
 தொடிவிளங்கு தடக்கைச் சோழர்குலத் துதித்தோ
 ரமனு மறனு மாற்றலு மவர்தம்
 பழவிறன் மூதூர்ப் பண்புமேம் படுதலும்
 விழவுமலி சிறப்பும் விண்ணவர் வரவு
 மொடியா விற்பத் தவருறை நாட்டுக்
 குடியிங் கூழின் பெருக்கமு மவர்தந்
 தெய்வக் காவிரித் தீததீர் சிறப்புந்
 பொய்யா வானம் புதுப்புனல் பொழிதலு
 மரங்கு மாடலுந் தூக்கும் வரியும்
 பரந்திசை யெய்திய பாரதி விருத்தியுந்
 திணைநிலை வரியு மிணைநிலை வரியு
 மணைவுறக் கிடந்த யாழின் றெகுதிபு
 மீரோழ் சகோடமு மிடநிலைப் பாலையுந்
 தாரத் தாக்கமுந் தான்றெரி பண்ணு
 மூரகத் தேரு மொளியுடைப் பாணியு
 மென்றிவை யனைத்தும் பிறபொருள் வைப்போ
 டொன்றித் தோன்றுந் தனிக்கோ ணிலைமையு
 மொரு பரிசா நோக்கிக் கிடந்த
 புகார்காண்டம் முற்றிற்று.

காலையரும்பி மலருங் கதிரவனு
 மாலை மதியமும்போல் வாழியரோ—வேலை
 யகழா லமைந்த வவனிக்கு மாலைப்
 புகழா லமைந்த புகார்.

உ.—மதுரைக்காண்டம்.

தின்கண்மூன் றடுக்கிய திருமுகக் குடைக்கீழ்ச்
 செங்கதிர் ஞாயிற்றுத் திகழொளி சிறந்து
 கோதைதாழ் பிண்டிக் கொழுநிழ லிருந்த
 வாதியி றேற்றத்த தறிவனை வணங்கிக்
 கந்தன் பள்ளிக் கடவுளர்க் கெல்லா
 மந்தி லரங்கத் தகன்பொழி லகவயிற்
 சாரணர் கூறிய தகைசா னன்மொழி
 மாதவத் தாட்டியு மாண்புற மொழிந்தாங்
 கன்றவ ருறைவிடத் தல்கின ரடங்கித்
 தென்றிசை மருங்கிற் செவவுவிருப் புற்று
 வைகறை யாமத்து வாரணங் கழிந்து
 வெய்யவன் குணதிசை விளங்கித் தோன்ற
 வளநீர்ப் பண்ணையும் வாவியும் பொலிந்த
 விளமரக் கானத் திருக்கை புக்குழி
 வாழ்க வெங்கோ மன்னவர் பெருந்தகை
 பூழிதொ ழாழிதொ றுலகங் காக்க
 வடியிற் மன்னள வரசர்க் குணர்த்தி
 வடிவே லெறிந்த வான்பகை பொழுது
 பஃறுளி யாற்றுடன் பன்மலை யடுக்கத்துக்
 குமரிக் கோடுங் கொடுங்கடல் கொள்ள
 வடதிசைக் கங்கையு மிமயமுங் கொண்டி
 தென்றிசை யாண்ட தென்னவன் வாழி
 திங்கட் செல்வன் நிருக்குலம் விளங்கச்
 செங்கனா யிரத்தோன் நிறல்விளங் காரம்
 பொங்கொளி மார்பிற் பூண்டோன் வாழி

* * * *

கடிபொழி லுடுத்த கலிங்கநன் னுட்டு
 வடிவேற் றடக்கை வ்சுவங் குமானுந்
 தீம்புனம் பழனச் சீங்க புரத்தினுங்
 காம்பெழு கானக் கபில புரத்தினு

மரசாள் செல்வத்து நிரைதார் வேந்தர்
 வீயாத் திருவின் விழுக்குடிப் பிறந்த
 தாயர் வேந்தர் தம்முட் பகையுற
 விருமுகக் காவதத் திடநிலத் தியாங்கணுஞ்
 செருவெல் வென்றியிற் செல்வோ ரின்மையி
 னரும்பொருள் வேட்கையிற் பெருங்கலன் சமந்து
 கரந்துறை மாக்களிற் காதலி தன்னேடு
 சிங்கா வண்புகழ்ச் சிங்க புரத்தினு
 ரங்கா டிப்பட்டருங்கலன் பசருஞ்
 சங்கம னென்னும் வாணிகள் றன்னை
 முந்தைப் பிறப்பிற் பைந்தொடி கணவன்
 வெந்திரல் வேந்தற்குக் கோத்தொழில் செய்வோன்
 பரத னென்னும் பெயரனக் கோவலன்
 விரத நீங்கிய வெறுப்பின னாதலி
 னொற்ற னிவனெனப் பற்றினன் கொண்டு
 வெற்றிவேன் மன்னற்குக் காட்டிக் கொல்வழிஇக்
 கொலைக்களப் பட்ட சங்கமன் மனைவி
 நிலைக்களங் காண ணீலி யென்போ
 ளரசர் முறையோ பரதர் முறையோ
 ழூர் முறையோ சேரியிர் முறையோவென
 மன்றினு மறுகினுஞ் சென்றனள் பூசலிட்
 டெழுநா ளிரட்டி யெல்லை சென்றபின்
 ரெழுநா ளிதுவெனத் தோன்ற வாழ்த்தி
 மலைத்தலை யேறியோர் மால்விசும் பேணியிற்
 கொலைத்தலை மகனைக் கூடுபு நின்றோ
 ளெம்முறு தயராஞ் செய்தோரி யாவதற்
 தம்முறு தயரமிற் ருகுக வென்றே
 விழுவோ ளிட்ட வழுவில் சாபம்
 பட்டனி ராதலிற் கட்டுரை கேணீ
 யும்மை வினைவந் துருத்த காலைச்
 செம்மையி லோர்க்குச் செய்தவ முதவாது
 வாரொலி கூந்தனின் மணமகன் றன்னை
 யீடுந் நாளாகத் தெல்லை நீங்கி
 வானோர் தங்கள் வடிவி னல்ல
 தீனோர் வடிவிற் காண்ட லில்லென
 மதுரைமா தெய்வ மாபத் தினிக்கு
 விதிமுறை சொல்லி யழல்வீடு கொண்டபின்
 கருத்துறு கணவற் கண்டபி னல்ல

திருத்தலு மில்லே னிற்றலு மிலனெனக்
 கொற்றவை வாயிற் பொற்றொடி தகர்த்துக்
 கீழ்த்திசை வாயிற் கணவனொடு புருந்தேன்
 மேற்றிசை வாயில் வறியேன் பெயர்கென
 விரவும் பகலு மயங்கினள் கையற்
 றூரவுநீர் வையை யொருகரைக் கொண்டாங்
 கவல வென்றோ ளவலித் திழிதலின்
 மிசைய வென்றான் மிசைவைத் தேறலிற்
 கடல்வயிறு கிழித்து மலைநெஞ்சு பிளந்தாங்
 கவுணரைக் கடந்த சுடரிலை நெடுவே
 னெடுவேள் குன்ற மடிவைத் தேறிப்
 பூத்த வேங்கைப் பொங்கர்க் கீழோர்
 தீத்தொழி லாட்டியேன் யானென் றேங்கி
 யெழுநா ளிரட்டி யெல்லை சென்றபின்
 ரொழுநா ளிதுவெனத் தோன்ற வாழ்த்திப்
 பீடுகெழு நங்கை பெரும்பெய ரேத்தி
 வாடா மாமலர் மாரி பெய்தாங்
 கமரர்க் கரசன் றமர்வந் தேத்தக்
 கோநகர் பிழைத்த கோவலன் றன்றொடு
 வானவூர்தி யேறினண் மாதோ
 கானமர் புரிசூழற் கண்ணகி தானென.

தெய்வந் தொழாஅள் கொழுநம்—ரொழுவானைத்
 தெய்வந் தொழுந்தகைமை திண்ணமால்—தெய்வமாய்
 மண்ணக மாதர்க் கணியாய கண்ணகி
 விண்ணக மாதர்க்கு விருந்து.

முடிகெழு வேந்தர் மூவ ருள்ளும்
 படைவிளங்கு தடக்கைப் பாண்டியர் குலத்தோ
 ரறனு மறனு மாற்றலு மவர்தம்
 பழவிறன் மூதூர்ப் பண்புமேம் பதெலும்
 விழவுமலி சிறப்பும் விண்ணவர் வரவு
 மொடியா விற்பத் தவருறை நாட்டுக்
 குடியுங் கூழின் பெருக்கமு மவர்தம்
 வையைப் பேரியாறு வளஞ்சுரந் தூட்டலும்

பொய்யா வானம் புதுப்பெயல் பொழிதலு
 மாரபடி சாத்துவதி யென்றிரு விருத்தியு
 நேரத் தோன்றும் வரியுங் குரவையு
 மென்றிவை யனைத்தும் பிற்பொருள் வைப்போ
 டொன்றித் தோன்றுந் தனிக்கோ ணிலைமையும்
 வட வாரியர் படைகடந்து
 தென்மயிழ்நா டொருங்குகாணப்
 புரைதீர் கற்பிற் தேவி தன்னுட
 னரசு கட்டிலிற் றுஞ்சிய பாண்டிய
 னேடுஞ்செழியனே டொரு பரிசா
 நோக்கிக் கிடந்த
 மதுரைக்காண்ட முற்றிற்று.

Incomplete.

6. சிலப்பதிகாரம்—அரும்பதவுரை.

Beginning :

குணவாயிற்கோட்டம் - திருக்குணவாயிற்கோயில். சேரலென்ப
 து-செங்குட்டுவனை. சேரனுக்கினங்கோவாகியவடிகளை இளங்கோவடி
 கடாந்துறந் திருந்திக்காவியஞ் செய்தார். கொழு நீழற்கணின்று காட்
 டக் கணென்கின்ற புலங்காண. விட்புலம்-விண்ணென்கின்ற விடம் -
 அதுபட்டது. பேராச்சிறப்பு - நீங்காதபெருமை. நாடகமேத்து நாட
 கக்கணிகை - நாடகத்தையாடிச் சிறப்பிக்குங்கணிகை. ஆடிய கொ
 ள்கையின் - ஆடியகோட்பாட்டால். புகுந்தனனாய். பீடிகை - வணிகர்
 தெரு. யாப்புறவில்லை - பொருத்தமில்லை. பண்டுதான்கொண்ட -
 முன்புதான்களவிற்கொண்ட. பிறனோர்கள்வன். கன்றிய காவலர் -
 காவலிற்றழும்பியவர். நிலைக்களம் - நிலையிடம். நெடுங்கண்ணுனது
 நீருகநிற்ப. பத்தினியாதலில் - ஆக்கலுமழித்தலும் வல்லனாதலில்.
 முலைமுகம் - முலையிடம். பலர்புகழ் பத்தினியாகுமென்று சாத்தன்
 சொல்ல. அகிராச்சிறப்பு - பகைவராலதீர்ச்சியில்லாத சிறப்பு. கொ
 ன்றையஞ்சடை - ஆகுபெயர். மன்றப்பொதியில் - மன்றத்தின் கட்
 பொதியிலாகிய வெள்ளியம்பலம். வீரபத்தினி - சீரிய கற்புடையா
 ள். பைந்தொடி - முன்னிலைப்பெயர். சிக்காமை - சுருங்காமை.
 கணவனோடுகாட்டியதென்க. கூந்தல் - கூந்தல். ஈனோர் - இவ்வலு
 கத்தினம்மக்கள். காண்டலில்லென. உரைசால் பத்தினிக்கு - புகழ
 மைந்த பத்தினியை. முறைமையாகிய பழவினை வழிபட்டுவந்தது.

சூழ்வினை-சூழ்ந்த சிற்பத்தொழில். பாட்டுடைச்செய்யுள் - உருவாகிய பாட்டுக்களையுடையகாவியம். முடிசெழுவேந்தர் மூவர்க்குமுரியது - புகாரினு மதுரையினும்வஞ்சியினு நிகழ்தலான் மூவர்க்குமுரியது. அடிகளென்றது-இளங்கோவடிகளை. என்றாகு-என்றுசொன்னாகு-மங்கலவாழ்த்து - கலியாணவாழ்த்து. மடல் - பூ. வினாத்திறந்து - கவுந்தியடிகள்வினாவிய திறத்தையுடைய. தோடலர் நண்பகனெங்கிய-கண்ணகி நண்பகற்கண்ணே நடுங்கிய. கட்டுரை - விளங்கச் சொல்லுதல். மட்டலர்கோதையர் குன்றக்குரவை-குறத்தியராடிய குரவை பாட்டுமுரையுங் கலந்துவந்தகாவியம். வஞ்சிமூதூர் மணிமண்டபத்திடைத் தந்தையோடிருந்துழி யரசுவீற்றிருக்குந் திருப்பொறியுண்டென்றோர் நிமித்திகன்சொல்ல முன்னேனாகிய யரசுவீற்றிருக்கும் செங்குட்டவனிருப்பவ்வாறு முறைபிறழ்கூறியது பொருதுகுணவாயிற் கோட்டத்துக் கடவுளர்முன்னர்த்துறந் திருந்தவிளங்கோவடிகளுக்க்குக் கண்ணகி வானவர்போற்றத்தன்கணவனோடு கூடியதுகண்டு செங்குட்டுவனுக்குரைத்தகுறவர் வந்தெல்லாமறிந்தோ யிதனையறிந்தருளென்று கூறிப்போகப் பின்பு செங்குட்டுவனைக்கண்டு போந்தடிகளுடன் வந்த சாத்தனது பட்டவாறெல்லாங் கூற வதுகேட்டவடிகளரசியல் பிழைத்தோர்க் கறங்கூற்றென்பது உம்பத்தினிமகளிர் பெய்யென்ப பெய்யுமழை யென்பது உம் முழுவினையுருத்து வந்தூட்டுமென்பது உமிக்கை யகத்துண்மையினதனை யாமொருசெய்யுளாகச் செய்வோமென்று இளங்கோவடிகள் கூற மூவேந்தர் நாட்டினு நிகழ்ந்த கதையாகலானேனையிருவேந்தரியல்பு வேத்தியலும் பொதுவியலு மெல்லாமுணர்ந்த நீரேயருளவேண்டுமென்று சாத்தன் சொல்ல விம்முப்பதுவகைத்தாகிய செய்யுளை யிளங்கோவடிகளருள க்கூலவாணிகள் சாத்தன் கேட்டான் என்க. பதிகமுற்றும். கொங்கிளங்கோசர் - குறும்பு செலுத்துவார் சிலவீரர். நாட்பலிபீடிகை நித்தலும் பலியிடுமிடத்தையுடைய கோட்டம். அரந்தை - துக்கம். பிழையாவினையுள் - குன்றுவினையுள். எத்திறத்தானும் - வேண்டினார் வேண்டியவாறெல்லாம். நித்தல் விழாவணி - நித்தியமாகிய வணிவிழா. உரைபெறு கட்டுரை - உரைத்துப்போதுகின்ற கட்டுரை.

*

*

*

*

End:

ஆடுஉக்குணம்-அறிவு நிறை.....ப்புக்கடைப்பிடி. அறிவாவது - பலநூல்களையுங் கற்றறியப்படுவது - நிறையாவது - காப்பனகாத்துக்கடிவன கடிந்தொழுகல். ஒர்ப்பாவது ஐயப்பட்டபொருண்... ..பொருளெனத்துணிந்தறிதல். கடைப்பிடியாவது - கற்றுங்கேட்டுமுள்ள பொருளை மறவாமை. கற்றலுங்கேட்டலும். கடுஉநாற்

குணம் நாணமடமச்சம்பயிர்ப்பு. நாணமாவது - பெண்டிர்க்கியல் பாகிய குணம். மடமாவது - கொளுத்தக்கொண்டு கொண்டதுவிடாம. அச்சமாவது-கணவர்காணொணாத பொருளைக்கண்டாலஞ்சுவது. பயிர்ப்பாவது - பயிலாதபொருட்கணருவருத்த நீற்கு நிலைமை.

சிலப்பதிகார அரும்பதவுரை முற்றிற்று.

8. கார்நாற்பது.

Beginning :-

1. பொருகடல்வண்ணன் புனைமார்பிற்றார்போம்
நிருவில்லங்கூன்றித் தீம்பெயரூம்வீழ
வருதமெனமொழிந்தார் வாரார்கொல்வானங்
கருவிருந்தாலிக்கும்பொழுது.

எ-து [தோழிதலைமகட்குப் பருவங்காட்டிவற்புறியது] பொருகடலினது நிறம்போன்ற நிறத்தினையுடையான் புனைந்தமார்பிற் பூமலைபோல விந்திரவில்லங்கூன்றி யினிய பெயல்விழாநிற்கவருவே மென்றுசொல்லினூர்வாராரோ? -ஈழகருக்கொண்டிருந்து துளி களைவிடாநின்றதாதலான். (எ-று).

2. கடுங்கதிர்நல்கூரக் கார்செல்வமெய்த
நெடுங்காடு நேர்சினையினக்—கொடுங்குழை
யின்னேவருவர் நமரென்மெழில்வான
மின்னுமவர் தூதுரைத்து.

எ-து [இதுவுமது] பகலோனுடைய கடுங்கதிர்கள்வறுமையுறக், கர்காலஞ்செல்வமுற, நெடியகாடெல்லாமிகப்பயன்றாக், கொழுங்குழையையுடையாய்! நமரிப்பொழுதே வருவரென்று எழிலையுடையமுகிள்மின்னுநின்றதவர்தூதாயறிவித்து. (எ-று).

3. வரிநிறப்பாதிரி வாடவளிபோழ்ந்த
யிரமணற்றண்புறவினாலி—புரள
வுருமிடிவானமிழியவெழுமே
நெருநலொருத்திதிறத்து'

எ-து [பருவங்கண்டழிந் ததலைமகளாற்றல்வேண்டிதோழி தனதாற்றாமதோன்ற வுரைத்தது] வரிநிறத்தைகூடைய பாதிரிப் பூவாடும் வகை காற்றூடறுக்கப்பட்ட இளமணலையுடைய தன்புறவின் கணலங்கட்டிபுரளவுருமிடிக்கு முகிவிழிதராநின்றதெழாநின்றதெருநற்றையலா ளொருத்திமாட்டு வருந்துவான்வேண்டி. எ-று. [அல்லது உடம் நெருநற்றொடங்கித் தனியாண்மாட்டென்றுமாம்.]

4. ஆடுமகளிரென மஞ்ஞையணிகொள
காடுங்கடுக்கை கவின் பெறப்பூத்தன
பாடுவண் தேம் பருவம்பீணத்தோளி
வாடும்பசலை மருந்த.

எ-து [பருவங்காட்டித் தலைமகளை வற்புறுத்தியது] கூத்தாடுமகளி
ரேபோல மயில்களழகுபெறக், காடுகளுங்கொன்மைகளா னழகுபெற
ப்பூத்தன, அப்பூக்களைப் பாடுவண்டுகளு முதாநின்மன; ஆதலால்,
பீணத்தோளி வாடும் பசலைக்குமருந்திப்பருவம். (எ-று.)

5. இகழுநர்ச்சொல்லஞ்சிச் சென்றூர்வருதல்
பகழிபோலுண் கண்ணாய் பொய்யன்மையீண்டைப்
பவழுஞ்சிதறியவைபோலக் போபம்
தவழுந்தகையபுறவு.

எ-து [இதுவுமது] இகழ்வார்சொல்லஞ்சிப்பொருட்டுச்சென்றூர்
வருதலம்புபோன்றவுண் கண்ணாய் பொய்யன்மையாம். இவ்விடத்து
ச் சிதறியபவழம்போலக் கோபங்கள்பறக்குந் தகைமையையுடையவா
யினகாடுகளாதலின், (எ-று.)

End ;

40. வந்தனஞ்செய்குறி வாராரவரென்று
நொந்தவொருத்திக்கு நோய்தீர்மருந்தாகி
யீந்தின்கனிவண்ணங்கொண்டன் மெழில்வான்
நந்துமென்பேதை நுதல்.

எ-து [பருவங்காட்டித் தலைமகளைத்தோழிவற்புறுத்தியது] அவர்
செய்குறிகளாறுந்தன, அவர்வருகிலரென்று தேர்ந்தவொருத்தியாகிய
நினக்குநோய் தீர்க்குமருந்தாகி யீந்தின்கனியினிமம்போலக் கருநிற
த்தைக்கொண்ட தெழில்வான், மெல்லியபேதாய் நின்னுடையநுதலி
னி யொளிபெறநந்தும், (எ-று) [எந்தென்பதனை இத்தென்று குறுக்கி
யது.]

மதுரைக் கண்ணங்கூத்தனூர்செய்த
கார்நாற்பது முற்றிற்று.

9. திணைமலை நூற்றைம்பது.

குறிஞ்சி.

Beginning :

1. நறைபடர்சாந்த மறவெறிந்துநாளா
லுறையெதிர்த்து வித்தியலுமுன்ற—பிறையெதிர்த்த
தாமரைபோய்வாண்முகத்துத் தாழ்குமுலீர்காணீரோ
வேமரைபோந்தனவீண்டு.

எ-து.—[தலைமகளுந் தோழியு மொருங்கிருந்தவழிச்சென்று தலைமகன் றோழியைமதியுடம்படுத்தது]—நறைக்கொடி படர்ந்த துயர்ந்த சந்தனங்களையறவெட்டி நல்லநாளான் மழைபெய்யுங்காலத்தை யேற்றுக்கொண்டு வித்திமுதிர்ந்த வேனலின்கட்பிறையையேற்றுக்கொண்டதொரு தாமரை மலரைப்போலும் வாண்முகத்தையுந் தாழ்ந்தகுழலினையு முடையீர்கண்டிலீரோயேவுண்டமரைபோந்தனவவற்றையிவ் விடத்து. (எ-று.)

2. சுள்ளிசுனைநீலஞ்சோபாலிகைசெயலை
யள்ளியளகத்தின்மேலாய்ந்து—தெள்ளி
யிதனாகடியொடுங் காவீர்கடாயானை
யுதனாகடிந்தானுளன்.

எ-து.—[தோழி செவிலிக்கறத்தொடு நின்றது]—நறவமலரையுஞ் சுனைநீலமலரையும் அடப்பமலரையும் அசோகமலரையுங் கொய்து முகந்து நின்மகள் குழலின்மேலேயாராய்ந்து புனைவதுஞ்செய்த பின் னொருநாட்டுணிந்து பறணற் காவலமையாத வீரங்கடாயானையை மீட்டம்பாற்கடிந்து காத்துமிப்பெற்றி யுதவிசெய்தானொருவனுளன். (எ-று.)

3. சாந்தமெறிந்துமுத சாரற்சிறுதினைச்
சாந்தமெறிந்தவிதண்மிசைச்—சாந்தங்
கமழக்கிளிகடியுங் கார்மயிலன்னு
ளமழக்கிளியெழுவார்த்து.

எ-து.—[பகற்குறிக்கண் வந்த தலைமகளைக்கண்டு தோழி செறிப்பறிவுறியது]—சந்தனங்களை வெட்டியுமுத சாரலின்கண் வித்தியவேனலின்கட் படிந்த கிளிகளைச் சந்தனங்களைக் காலாகவெறிந்து செய்த பறண்மிசை யிருந்துபூசிய சாந்தமெங்கும்புரந்து கமழவுலாவிக்கடிகின்ற கார்மயிலன்னுடன் வாய்திறந்தாயோ வென்றியபுதலாற்றம்மினமென்று கிளிகளார்த்துப்போக. (எ-று.)

4. கோடாப்புக்கழ்மாறன் கூடலனையானை
யாடாவடகினுளுங் காணேன்போர்—வாடாக்
கருங்கொல்வேன்மன்னர் கலம்புக்ககொல்லோ
மருங்குல்கொம்பன்னுள்மயிர்.

எ-து [தலைமகளிற்செறிந்தகாலத்துப் புனத்தின்கண் வந்த தலைமகன் தலைமகளைக்காணாதாற்றாதுபெயர்கின்றான்சொல்லியது]—கோடா தபுகழையுடைய மாறன்மதுரையனையானை யாடாத பண்ணையுளுங்காண்கின்றிலேன், போரின்கண் வாடாத கருங் கொற்றொழிலை யுடைய வேல்மன்னரணிகலனாகிய முடிகூடிகொல்லோ விடையாற்கொம்பையனையான் மயிர்கள். (எ-று).—ஆடாவடகென்று வினையாட்டிற்று வெளி

ப்படை. நிலையென்னு மலங்காரத்தாற் பெயராயிற்று. அடாவென்ப தனை ஆடாவென்று நீட்டியது. மன்னர் கலமென்பது மன்னரணியுமணி முடியாதலான முடியின்பெயராற் கூந்தற்குச்சேர்த்திகூடிற்றுக் கொல் லோவென்றதாகக்கொள்க.

5. வினைவினையச்செல்வம் விளைவதுபோல்வீடாப்
பனையளவுநாமெண்ணிப் பாத்தித்—தனைவிழைய
மையார்தடங்கண் மடநல்லாய்தீத்தீண்டு
கையார்பிரிவித்தல்காண்.

எ-து—[தலைமகன் சிறைப்புறத்தானாகத் தலைமகட்குச்சொல்லுவா ளாய்த் தோழி செறிப்பறிவுறியது]—கெடாதபனையென்னு மளவுபோ ன்றவளவினையுடைய வின்பவளவினை நாமெண்ணி யிருப்பவதற்கிடை யூரூக நல்வினைவினையச் செல்வம் விளைவதுபோலப் பாத்தியின்கட் டினைவிளைதலான மையார் தடங்கண் மயிலன்றாய் தினைகொய்ய நாட் சொல்லி வேங்கையார் நம்மை யிங்குதின்றும் பிரிவித்தலைப்பாராய். (எ-து).

End :

153. துனிபுலவி யூடலினோக்கென்றுடர்ந்த
கனிவலவி காதலினுங்காணேன்—முனிவகலி
னானடுக்கு நளியவலுரனைக்
காணவெப்போதுமோகண்.

154. முனிந்தார் முனிவொழியச் செய்யுட்கண்முத்துக்
கனிந்தார் களவியல் கொள்கைக்—கனிந்தா
ரிணைமாலே யீடிலா வின்றமிழாயாத்த
திணைமாலே கைவரத்தேர்ந்து.

மதுரைத் தமிழாசிரியர் மாக்காயனார் மாணுக்கர் கனிமேநாவியார் அருளிய திணைமாலே நூற்றைம்பது முற்றும்.

10. திணைமொழி ஐம்பது.

குறிஞ்சி.

Beginning :

1. *	*	*	*	*	*
2. *	*	*	*	*	*

3. கணமுக்கையெனக் காந்தள்கவின
மணமுக்கையெண்ணி மந்திகொண்டாடும்
விறன்மலைநாட வரவரிதாங்கொல்லோ
புனமுமடங்கினகாப்பு.

எ-து—[செறிப்பறிவுநீடுவரைவுகடாயது] — திரட்சியை யுடைய
மொட்டுகளைக் கையென்று கருதும்படி காந்தள்களழகுபெறவரும்பவ
தன்மணத்தையுடைய முக்கைகொன்று கருதி மந்திகள்கொண்டாடுகி
ன்ற மிகுதியையுடையமலைநாடனே ! நீயிங்குவருதலரிதாங் கொல்
லோ புனங்களுந்தினையரியப்பட்டுக் காவலொழிந்தன. (எ-று).

4. ஒங்கலிறுவரை மேற்காந்தள்கடிக்கெனப்
பாம்பெனவோடியுருமிடிப் பக்கண்டிரங்கும்
பூங்குன்றநாடன் புணர்ந்தவந்நாள்போலா
வீங்குநெகிழ்ந்தவனே.

எ-து.—[தலைமகன் சிறைப்புறத்தானாகத்தலைமகக்குச்சொல்லுவா
ளாய்த் தோழிசொல்லியது]—தலையினது பக்கமலைமேற் காந்தள் புதி
தாகவழகுபெறுதலாலவற்றின் முக்கைகளைப் பாம்பென்று கருதிச்செ
ன்றுரு மிடித்தலானவற்றைப் பிறர்கண்டிரங்குகின்ற பூங்குன்றநாடன்
புணர்ந்தவந்நாள்போலவாயிக்காலத்து நெகிழ்ந்து கழன்ற வெள்வ
ளைகள். (எ-று).

5. எனலிடத்திட்ட வீர்மணிகொண்டெல்லிடைக்
கானவர்மக்கள் கனலெனக்கைகாய்த்தும்
வானுயர்வெற்பன் வருவான்கொலென்றோழி
மேனிபசப்புக்கெட.

எ-து.—[தலைமகனைத் தோழியிரவுக்குறி நயப்பித்தது]—எனலிடத்
கிட்ட குளிர்ந்தமணிகளைக்கொண்டிரவின்கட் குறவர்மக்கள் தங்குளிர்
நீங்கநொ...வெற்பனிங்குவருவான் கொல்லோ வென்னுடையதோழி
மேனியின்பசப்புக்கெட. (எ-று).

End :

49. மயில்கொன்மடவாள்கொன்மாநீர்த்திரையுட்
பயில்வதோர்தெய்வங் கொல்கேளீர்—குயில்பயிலுங்
கன்னியிளஞாழற் பூம்பொழினைக்கிய
கண்ணின்வருந்து மென்னெஞ்சு.

எ-து—[தலைமகன்பாங்கற்குச்சொல்லியது]—மயிலோமடவாளோ
மாநீர்த்திரையின்கடல்பயின்றுறைவதோர் தெய்வங்கொல்கேளீரோ !
குயில்கள்கூவாநின்ற கன்னியிளஞாழற்பூம் பொழிலின்கண் அவரை
நோக்கியவென்கண்ணினு மிகவருந்தாநின்ற தென்னெஞ்சு. (எ-று).

50. பவழமுமுத்தும் பளிங்கும்விரைஇப்
புகழக்கொணர்ந்து புறவடுக்குமுன்றிற்
றவழ்திரைச்சேர்ப்பன் வருவான்கொரோழி
கிகழுந்திருவமர்மாப்பு.

எ-து—[பகற்குறிக்கட்டலைமகன் சிறைப்புறத்கானாகத்தலைமகட்குச் சொல்லுவாளாய்த் தோழிவரவுகடாயது]—பவழத்தினையும் முத்தினையும் பளிங்கினையுங்கலந்து பிறர்புகழக்கொண்டுவந்து மனைசூழ்ந்தபட்ப்பையையிணைந்த முற்றத்தின்கண்வந்து வழங்குகின்ற திரையையுடைய சேர்ப்பன்விரைந்துவருவான் கொல்லோ தோழிமுன்புபோற் பொலிவுழிந்திரா, நினதழகமைந்தமார்பு, பொலிவுடைத்தா யிருந்ததாதலானெம்பெருமான் விரைந்து வருமென்றுமுற்கொண்டெக்கறிவிக்கின்றதுபோலும். (எ-று).

சாத்தந்தையனாரீமகனார் கண்ணன்சேந்தனார்செய்த
நீனைமொழி ஐம்பது முற்றும்.

11. இன்னொ நாற்பது.

Beginning :

முக்கட் பகவ னடிதொழா தார்க்கின்னொ
பொற்பன வெள்ளியை யுள்ளா தொழுகின்னொ
சக்கரத் தானை மறப்பின்னொ தாங்கின்னொ
சத்தியான் றுடொழா தார்க்கு.

என்பது—முக்கண்ணினையுடைய பகவனடிதொழாதார்க்கின்னொ வாம் ; பொற்பனக்கொடியையுடைய வெள்ளியோனை நினையாதொழுகுதலின்னொவாம் ; சக்கரப்படையையுடையானை மறத்தலின்னொதாம் ; அவைபோல,—வேற்படையையுடைய முருகன்றொழாதார்க்கின்னொவாம்—என்றவாறு.

End :

கொடுக்கும் பொருளிலான் வள்ளன்மை யின்னொ
கடித்தமைந்த பாக்கினுட் கற்படுத லின்னொ
கொடுத்து விடாமை கவிக்கின்னொ வின்னொ
மடுத்துழிப் பாடா விடல்.

எ - து—பிறர்க்குகொடுக்கும் பொருளில்லாதான்கொடைபூணுத் தலின்னொவாம் ; பிளந்தமைந்தபாக்கின்கட் கற்படுதலின்னொவாம் ; கொடையமையக் கொடுத்துவிடாதொழிதல் கவிசெய்வானது கவிக்கின்னொவாம் ; கொண்டதானத்துக்காகப் பாடாதொழிதலின்னொவாம். எ-று.

அடக்க முடையவன் மீளிமையின்னா
 துடக்க மிலாதவன் றற்செருக்கின்னா
 வடைக்கலம் வவ்வுத லின்னாவாங் கின்னா
 வடக்க வடங்காதார் சொல்.

எ - து—ஐம்பொறிகளை யடக்கியவொருவன் சொல்வலியின்னாவா
 ம்; துணிந்து துடங்கி யொன்றைச்செய்யமாட்டாதவன் தன்னைமதித்த
 லின்னாவாம்; ஒருவனடைக்கலம் வைத்தபொருளைக்கொடா தொழித
 லின்னாவாம்; அவைபால,—இன்னா வாங் கம்பினைக்கொள்ளாதார்க்கு
 ச்சொல்லுஞ்சொல். எ-று. (40)

கபிலதேவர்செய்த இன்னுநாற்பது முற்றிற்று.

13. அகநானூறு.

Beginning:

கார்விரி கொன்றைப் பொன்னேர் புதுமலர்த்
 தாரன்மாலையன் மிலைந்தகண்ணியன்
 மார்பின்ஃதே மையினுண்ணா
 னுதலதிமையா நாட்டமிகலட்டுக்
 கையதுகணிச்சியொடு மழுவேழுவாய்
 வேலுமுண்டந் தோலாதோற்கே
 யூர்ந்ததேறே சேர்ந்தோளுமையே
 செவ்வானன்ன மேனியவ்வா
 னிலங்குபிறையன்ன விளங்கு வால்வையெயிற்
 றெரியகைந்தன்ன வவிர்த்துவிளங்குபுரிசடை
 முதிராத்திங்களொடு சடருஞ்சென்னி
 மூவாவமரரு முனிவரும்பிறரும்
 யாவருமறியாத் தொன்முறைமரபின்
 வரிசினர்வயமா னுரிவைதைஇய
 யாகெழுமணிமிடம் றந்தணன்
 ரூவிரூணிழற் றவிர்த்தன்றூலுகே.

வாழ்த்து—பாரதம்பாடிய - பெருந்தேவனு பாடியது.

வண்டுபடத்துதைநக கண்ணியொண்கழ
 லுருவக்குதிரை மழுவரோட்டிய
 முருகநற்போர் நெடுவேளாவி
 யறுகோட்டியானைப் பொதுளியாங்கட்
 சிறுகாரோடன் பயினொடுசேர்த்திய

கற்போற்பிரியல மென்றசொற்றூ
 மறந்தனர்கொல்லோ தோழிசிறந்த
 வேய்மருள்பிணத்தோ ணெகிழச்சேய்நாட்டுப்
 பொலங்கலவெறுக்கை தருமார்நிலம்பக
 வழல்போல்வெங்கதிர் பைதறத்தெறுதலி
 னிழறேய்ந்துலறிய மரத்தவறைகாய்
 பறுநீர்ப்பைஞ்சுனை யாமறப்புலர்தலி
 னுகுநெற்பொரியும் வெம்மையாவரும்
 வழங்குநரின்மையின் வெளவுநர்மடியச்
 சுரம்புல்வென்ற வாற்றவலங்குசுனை
 நாரின்முருங்கை நவிரல்வான் பூச்
 சூரலங்கடுவளி யெடுப்பவாருந்
 றுடைதிரைப்பி திர் விற்பொங்கிமுன்
 கடல்போற்றோன்மல் காடிதந்தோரே.

எ - து—பிரிவிடையாற்றாளாய தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லி
 யது.—மாழலன்.

End :

பாலேவியமெல்லாம் பத்தாம்பனிநெய்த
 னாலுநனிமுல்லை நாடுங்கான்—மேலையோர்
 தேறுமிரண்டெட்டிவை குறிஞ்சிசெந்தமிழ்
 னூறுமருதபவை.

இத்தொகையிற் பாட்டிற்கு அடியளவு பதின்மூன்றிற்கொண்டு முப
 பத்தேழளவுமுயரப்பெறும்.

“வண்டுபடத்துதைந்த” என்பது முதலாக “நெடுவெண்மார்
 பின்” என்பதீராகக்கிடந்த நூற்றிருபதுபாட்டும் களிற்றியானைநீரை.
 இப்பெயர் காரணப்பெயர்; செய்யுட்காரணமோ பொருட்காரணமோ
 வெனின், பொருட்காரணமெனவுணர்க. “நாநகையுடையநெஞ்சே”
 என்பதுமுதலாக “நாள்வலை” என்பதீராகக்கிடந்த நூற்றெண்பதும்
 மணிமீடைபவளம். இப்பெயர் உவமையாற் பெற்றபெயர்; செய்
 யுளும் பொருளுந் தம்முளொவ்வாமையால். “வானூறு” என்பது
 முதலாக “நகைநன்றே” என்பதீராகக்கிடந்த பாட்டு நூறும் நீந்தி
 லக்கோவை. இவை செய்யுளும் பொருளுந் தம்முளொக்குமாகவின்
 (வழக்கத்தால்).....

இப்பாட்டாராய்ந்து தொகுத்தான் மதுரை - உப்புரிதடிசீழான் மக
 னுவான் உருத்திரசன்மன். தொகுப்பித்தான் பாண்டியன் உக்கிரப்
 பெருவழி.

14. குறுந்தொகை.

Beginning :

தாமரைபுரையுங் காமர்சேவடி
பவளத்தன்ன மேனித்திகழொளிக்
குன்றியேய்க்கு முடுக்கைக்குன்றி
னஞ்சபகவெறிந்த வஞ்சுடர்நெடுவேற்
சேவலங் கொடியோன்காப்ப
வேமம்வைக வெய்தினரூலுகே.

என்பது—கடவுள்வாழ்த்து. பாரதம்பாடிய பெருந்தேவனார்.

செங்களம்படக்கொன் றவுணர்த்தேய்த்த
செங்கோலம்பின் செங்கோட்டியானைக்
கழறொ(இஇ)ச் சேய்குன்றங்
சூருகிப்பூவின் குலைக்காந்தட்டே.

எ - து—தோழிகையுறை மறுத்தது.—தீப்புத்தோளார். (1)

கொங்குதேர்வாழ்க்கை யஞ்சிறைத்தும்பி
காமஞ்செப்பாது கண்டதுமொழிமோ
பயிலியதுகெழீஇய நட்பின்மயிலியற்
செறியெயிற்றரிவை கூந்தலின்
நறியவுமுளவோ நியறியும்பூவே.

எ - து—இயற்கைப்புணர்ச்சி புணர்ந்தவழித் தலைமகளை யியற்கைப்
புணர்ச்சிக்க ணிடையீடுபெட்டுநின்ற தலைமகனானினீக்குதற்பொருட்டு
மெய்தொட்டுப் பயிறல் முதலாயினவவன்மாட்டுநிகழ்த்திப் பாடுமாற்
றற்கூடிய தலைமகன் தனதன்பு தோற்ற நலம்பாராட்டியது.—இறை
யனார். (2)

End :

அடும்பினார்(ய்)மலர் விரைஇநெய்த
னெடுந்தொடையேய்ந்த நீர்வார்கூந்த
லோரைமகளிரஞ்சியீர்ஞெண்டு
கடலிற்பரிக்குந் துறைவனோடொருநா
ணக்குவிளையாடலுங்கடிதன்
றைதெமக்கம்மமெய்தோய்நட்டே.

எ - து—வேறுபாடு கண்டிற் செறிக்கப்பட்ட தலைமகடன்னுள்ளே
சொல்லியது. அழ்வன்.

குறுந்தொகைமுற்றும்.

இத்தொகை முடித்தான் பூரீக்கோ.

இத்தொகை பாடியவர்கள் இருநூற்றைவர்.

இத்தொகை நாலடிச் சிற்றெல்லையாகவும் எட்டடிப்பேரெல்லையாகவு
ந்தொடுக்கப்பட்டது.

15. நற்றிணை.

Beginning :

* * *
 அழிவிலர் (ர) முயலு மார்வ மாக்கள்
 வழிபடு தெய்வங் கட்கண் டாஅங்
 கலமரல் வருத்தந் தீர யாழநின்
 னலமென் பணைத்தோ ளெய்தின மாகலி(ப்)
 பொரிப்பூம் புன்கி னெழிற்றகை யொண்முறி
 சுணங்கணி வனமுலை யணங்குகொளத் திமிரி
 நிழல்காண் டோறு நெடிது(ய) வைகி
 மணல்காண் டோறும் வண்ட றைஇ
 வருந்தா தேகுமதி வாலெயிற்றேயே
 மாநனை கொழுதி மகிழ்குயி லாலு
 நறுந்தண் பொழில காணங்
 குறும்ப லூரயா(நா)ஞ் செல்லு மாறே.

இது உடன்போகாநின்ற தலைவன் தலைமகட்குரைத்தது.—பாலை
பாடிய பெருங்கடுங்கோ. (9)

End ;

யாரை யெலுவ யாமே நீயெமக்
 கியாராயு மல்லை நொதம லாளனை
 யனைத்தாற் கொண்கவெம் மிடையே நினைப்பிற்
 கடும்பகட் டியானை நெடுந்தேர்க் குட்டுவன்
 வேந்தடு களத்தின் முரசுதிர்ந் தன்ன
 வேங்கற் புணரிபாய்ந் தாடு மகளீ
 ரணைந்திடு பல்பு மரீஇ யார்ந்த
 வாபுலம் புகுதரு தீரிசை மாலைந்
 கடல்கெழு மாந்தை யன்னவெம்
 பெட்டணை யல்லையா னலந்தந்து சென்மே.

* * * *

இத்தொகை ஒன்பதடிச் சிறுமையாகப் பன்னிரடிகாறு முயரப்பெற்
 றது.


இத்தொகை தொகுப்பித்தான் பன்னாடுதந்த பாண்டியன் மாறன்
 வழிநீ.

NOTES.

Page 24.—I am obliged to Mahāmahōpādhyāya Hara-prasada Sastri, the learned Professor of Sanskrit, Presidency College, Calcutta, for the following information. The word वन्दिघटी is modified as बादुरी and is the name of a village lying in the Rādha country in the Murshadabad district. This village was granted to one of the fifty-six descendants of the five Brahmans brought by Ādisura from Kanauje about a thousand years ago. The higher class of the descendants of the Bandighaṭi Brahmans are known by their titles as Banarjis. Raghunandana, one of the greatest Smṛti compilers of Bengal, styles himself Bandighaṭiya Hariharātmaja.

The term Ārtihara, which occurs among the titles of Sarvānandā, the author of the Ṭikāsarvasva, is well known in Bengal and occurs in the Kulapanjis or family records of those families and denotes a person who has married a girl of superior status. The corresponding words are Khemahara, which denotes a person who has married a girl of equal position, and Uchitahara, which is applied to a person who has married a girl of lower position.

The word Banarji is to be derived from Bāduri oja. Bāduri has been already shown to be a corruption of Bandighaṭi; and Oja is a contraction of the Sanskrit word Upādhyāya and is, as such, connected with the Tamil and Malayalam word Ochchan, a temple priest, Kan. ója and Tel. ojja.



INDEX OF THE NAMES OF WORKS, AUTHORS, KINGS AND OTHER HISTORICAL PERSONAGES.

[The numbers refer to pages; those marked with a † (dagger) occur in the Tamil portion; those underlined are names of works that are noticed or have extracts from them included in the volume.]

	PAGE		PAGE
Abhidhānacintāmaṇi ...	12	† Aingurunūru ...	128, 131
Abhidhānamālā ...	24	Ajaya ...	24, 33, 43
<u>Abhidhānaratnamālā</u> . 23, 182, 183, 184		Ajayapāla ...	88
Abhiñāna Śakuntalā ...	24	Ajitasēnadēvayatiśvara ...	83, 234
Abhinandana ...	24	<u>Ākhyātacandrikā</u> . 20, 21, 22, 178, 182	
Abhinavaguptapāda ...	64, 90	† Ālam Perisāttanār ...	132, 137
Abhinava Narasimhabhā- rati ...	100, 257	† Ālaṅguḍi Vaṅganār ...	132, 134, 137
Abhinava Saccidānanda- bhārati ...	100, 257	<u>Alaṅkārakaustubha</u> ...	80, 221
Abhinava Śakāṭāyana ...	12	Alaṅkārārāghava ...	65
Abhiyuktōkti ...	90	Alaṅkārasarvasvam ...	66
† Ācārakkōvai ...	108, 276	Alaṅkārasūryōdaya ...	65
Ācādikṣita ...	65, 206	† Ālattūr Kiḷār ...	134
Aĉcātenugu Rāmāyaṇamu	16	† Aḷaviyaṅār ...	116
† Adaṅkōṭṭāśāṅ ...	105, 108	† Aḷiśil Kiḷār ...	134
† Āḍi (July) ...	122	† Aḷiśil Naccāttanār ...	134
† Ādimandi ...	134	† Allaṅkiranār ...	137
† Aḍinūl ...	116	† Aḷḷūr Naṅmūlan ...	134
Āḍiyāmaḷa ...	245	† Aḷḷūr Naṅmullai ...	132, 134
† Aḍiyaṅviṇṇattanār ...	132	† Aḷundūr ...	123
† Aḍiyārkunallār ...	118, 120, 124, 125, 126	Amara ...	32, 43, 46
<u>Aḍiyārkunallarurai</u> ...	125	Amaradatta ...	23, 43, 183
Advaitadīpikā ...	84	Amarakōśa ...	24, 33, 184, 187
† <u>Aganānūru</u> . 108, 111, 126, 127, 128, 131, 132, 134, 137, 272, 274, 275, 276, 280, 288, 290, 291, 331		Amarakōśapadavivṛti ...	186
† Agastya ...	105, 108, 109	<u>Amarakōśavyākhyāna</u> ...	184, 186
Agastyam ...	7	Amaramālā ...	25, 33
† Agattiyam ...	116, 267, 277	Amaraśeṣa ...	64
† Agattiyaṅār ...	116	Amarasiṁha ...	17, 22, 23, 33, 41, 49
Agni ...	2	† Amarasīṁha ...	118
Agnikumāra ...	13, 171	Amarēndrayatiśvara ...	92
Agnivēśyam ...	7	Amaru ...	47, 48
† Aindiram ...	105	<u>Amarukavyākhyā</u> ...	193
		Amaruśataka ...	47
		<u>Amaruśatakavyākhyā</u> ...	48
		Ambariṣa ...	50, 51
		Ambikāmba ...	63
		† Ammeyyanāyaṅār ...	137

	PAGE		PAGE
† Ammāvanār ...	132, 134, 137, 333	† Āriyavarasāṇ Yaḷppira-	
<u>Amōghavṛtti</u>	11, 169	madattan	134
Amradōva	88	Arjunabhūpāla	80
Amṛtānandanātha	91	Arthaśāstra	25
Amṛtānandayōgi	90	Ārtihara	184
† Amṛtapati	116	† Arumpadavurai (Śilap-	
† Amṛtasāgaranār	111, 112	padhikāram)	124
Ānandavardhana	48	† Arumpadavurairaiśiriyar	
Ānandavōttu	116	(Śilappadhikāram)	127
Anaṅgānanda	90	Arunadatta	25
Anargharāghava. 65, 66, 67, 69, 207, 209		† Aruvaiṅiganār ḷlavēṭ-	
<u>Anargharāghavavākhyā.</u> 67, 209, 210		ṭanār	132
† Anḍarmagan Kuruvaḷudi	134	† Aruvālar	108, 109
Āndhrabhīma	50	Āryavajra	11
† Andil ḷḷakkiraṅ	132	Āśādhara	82
† Anilaḍumunḷilār	134	Asaṅga	20
† Aniyiyal	116, 126	Āścāryamañjari	25
† Aniyiyaluḍaiyār	116	† Āśiriyamālai	124
† Anḷiyāndai Magaṅār	132	† Āśiriyamūri	116
† Anḷiyāndaiyār	134, 137	† Āśiriyān Peruṅkaṅṅan.	134
Anunula	3, 4	Aṣṭādhyāyi	11
Aparājita	13	<u>Aṣṭapadiṅvākhyā</u>	202
Āpastamba 5, 7, 9, 11, 16, 70, 148		Āśvalāyana	9
Āpastambagrhya	169	Āśvalāyanam	7
Āpastambam	7	Ātharvaṅādi	25
<u>Āpastambapravarasūtra.</u>	4	Ātharvaṅika	33
<u>Āpastambapravarabhāg-</u>		Atharvaśiras	90
<u>yam</u>	147	Atharva Vēda	9
Āpastambasmṛti	7	Ātrēya	2
Āpastambaśrautasūtra	4	Ātrēyaśākha	2
Āpastambasūtram	16	Ātrēyi	144
<u>Āpastambasūtra—Dhūrta</u>		Aucityavicāracarā	18, 20
<u>Svāmi Bhāṣyavṛtti</u>	5, 148, 149	Audgāhamāni	6
Āpastambiyasūtra	33	Auṅādikasūtra	25
Āpiśali	174, 175	Aupagavaka	33
Appayyadīkṣita. 65, 66, 68, 69, 81,		† Auvaiyār	116, 132, 135, 137
82, 206, 227, 230		Avadānaśataka	53
Āraṅyaparva	25	Avantivarma	48, 66
† Araśaccaṭṭam	116	Avantivarma Mahārāja...	49
Ardhanārīśvara	25	† Āvemperiśāttan	132
† Arha	119	† Avinandamālai	116
Arirāya	221	† Avinayam	116
† Arivudainambi	116, 134, 137	† Avinayaṅār	116

	PAGE		PAGE
† Āvūr Gautaman̄ Sadēvan	132	Bhāravi	17, 28, 36
† Āvūr Kāvīḍigal̄ Sadēva-		Bhart̄rhari	162
nār	137	Bhāsa	68, 215
† Āvūr kiḷār Magan̄ār		Bhāsakavi	29
Kaṇṇan̄ār	132	Bhāṣāvrtti	28
† Āvūr Mūlan̄kiḷār Maga-		Bhāskara	42
nār Perundalaiccātta-		Bhāṣya (Mahā)	17, 29
nār	132	Bhāṣyakāra (Patanjali) ...	18, 64, 173
† Āy	119	Bhāṣyakrt	175
Āyurvēda	33	Bhaṭṭabhāskara	1, 2, 3, 4
Āyurvēdanighan̄ṭu	33	<u>Bhaṭṭabhāskarahāṣya</u> ...	1
		Bhaṭṭabhāskaramiśra ...	145, 146
Badabānalam	245, 246	<u>Bhaṭṭabhāskarivam</u> ...	141
Bādarāyaṇa	236	Bhaṭṭacandra	28
Bāhaṭa	28, 64, 80, 81	† Bhaṭṭacārya	119
Bālabhārata	36	Bhaṭṭamalla	20, 21, 28, 178, 182
Bālarāmāyaṇa	28	Bhaṭṭasivasvāmin	49, 195, 199
Bālavālmiki	66	Bhaṭṭasrivardhamāna ...	208
Bāṇa	68, 215	Bhaṭṭavāmana	28
Bhagavadgītā	28, 90, 91	Bhaṭṭavardhamāna ...	65
Bhāgavata	8, 36	Bhaṭṭi	17, 28, 36
Bhāgavrtti	28	Bhaṭṭikāvya	36
Bhāgirathistavam	64	Bhaṭṭojidikṣita	11
Bhāguri	23, 43, 46, 183	Bhavabhūti. 28, 36, 66, 89, 216, 217, 218	
Bhairava	119	Bhāvanōpaniṣad	90
Bhaktasānkarabhārati ...	100, 256	Bhāvapradīpikā	216
Bhāmaḥa	83, 230, 231	Bhāvaprakāśa	64
Bhānudikṣita	12	Bhavasvāmi	142
Bhāradvāja	65	Bhaviṣyōttarapurāṇa ...	13, 14, 16
Bhāradvājam	7	<u>Bhēdadhikkāra</u>	83, 234
† Bhāradvāji Naccin̄ark-		<u>Bhēdadhikkārasatkriyā</u> ...	83, 84, 235
kiṇiyān	107	Bhikṣudēva	29
Bharata	28	Bhīma	51
Bhārata	28, 175	Bhimadhanvā	51
Bharatācārya	28	Bhīmasēna	29
Bharatādhirāja	68	Bhīṣma	50
† Bharatam	127	Bhīṣmaka	51
† Bhāratampāḍiya Perun-		Bhōgindra	46
devan̄ār	133, 136, 333	Bhōja	110
† Bharatasēnāpatiyam ...	127	Bhōjadēva	36, 59
Bhāratikṣṇatīrtha	100, 256	Bhōjarāja	36, 202, 260
Bhāratitīrtha	84, 237, 238, 240	† Bhōjarajaṇ	110
Bhāratīya	28	Bhīrjaślōka	177

	PAGE		PAGE
Bhūbala	245	Carakatantra	44
Bhūdhara	62	Carncarya	100, 102, 260
Bhūmidēvi	206	Čarvākaśāstra	26
Bilhana	68	Catuśśati	90
Black Yajur Vēda	1, 2	Caunḍappa	4
Bōdhāyana	9, 142	Chalukya	119
Bōdhāyanam	7	Chandella	67
Bommakaṭṭiyappayā- cārya	186	Chāndōgya	90
Bommanakaṭṭiyappayā- carya	186	Cherukūri	63, 65
† Boppaṇa Gaṅgēya	125, 126	Cidāmbararahasyōpaniṣat	91
Brahmayāmala	88, 245	Cidānandavāsana	90
Brahmōpaniṣat	90	Cidvilāsa	90
Bṛhadāraṇyaka	90	Cintāmaṇi	11, 57, 58, 200
Bṛhatkathā	28	† Cintāmaṇi (Jivakaciṅtā- maṇi)	111, 117, 119, 124, 126
Bṛhadāvanayamaka	28	Citramimāmsā	82, 228, 230
Buddha	52	Cōra	68, 215
Buddhacandra	28	† Cūḍamaṇi	118
Buddhacarita	28, 36	† Cuḷamaṇi	117, 126
† Buddhamitra	113	Dakṣiṇāvartanātha	35
Bukka	75, 76	Dambha	35
Čalukya	88	† Dāmōdaraṇ	135
Čalukyaviṣṇudēva	80	Damōdhara	45, 46
Čampurāmāyana	20, 208	Daṇḍi	27, 35, 231
Čamuṇḍarāya	83	† Daṇḍiyalaṅkāram	126
Čanākya	26	Daśakumāracaritra	86
Čanakyatīkākt	26	Daśamśa	64
Čaṇḍēśānāyanār	93, 98	Daśaṭikāsarvasyakāra	35
Čaṇḍipātha	26	Dattila	27
Čandra	12, 36, 34	† Dēvakulattār	136
Čandradhātu	34	† Dēvanār	138
Čandragōmi	26, 43	Dēvaṇavibhu	80
Čandrakalāpa	81, 225	Dēva Rāya I	42
Čandraliṅgānuśāsana	26	Dēvēndra	92
Čandraliṅgavṛtti	26	Dēvēśvarakavi	80, 224
Čandrālōka. 68, 69, 81, 82, 86, 228		Dēvimāhātmya	27, 35
Čandramitra	52	Dēviśataka	27
Čandrasēkharabhārati	100, 256	Dēvīyāmala	245
Čandrasūtra	26	Dhanaūjaya	64
Čandrika	67, 82	Dhanvantari	27
Čaraka	26, 46	Dhanvin	6
		† Dhāra	110

	PAGE		PAGE
Dharaṇi	27, 43	Gādhipura	46
Dharma	43	Gādhipurādhipa	45
Dharmābhyudaya	35	† Gajābāhu	123, 124
Dharmadāsa	27	† Gajābāhūs	122
Dhātupārāyaṇa	27, 35	Gaṇakāra	17
Dhātupradīpikā	27, 35	Gaṇapatinrpati	80
Dhātavr̥tti	35, 75	Gaṇaratnamahōdadhi	34
Dhōyi	59	Gaṅgādihara	43, 185
Dhṛtisīmha	41	† Gaṅgaiyār (The Ganges)	108
Dhūrtasvāmi	4, 5, 148	Gaṇita	26
Dīḍḍima	99	Gaṇitāśāstra	34
Diñnāga	20	Gāraḍaka	26
Dīpikā	82	Gāruḍam	245
† Divākara (Tivākara) ...	126	Gauḍapādācārya	100, 102, 256
† Divākaraṇ	311	† Gautamaṇ	131
Drāhyāyaṇa	6	Ghaṭākarpāra	26
Drāhyāyaṇam	7	Gīrvāṇendra	92, 253
Drōṇaparva	35	Gīrvāṇēndrasarasvatī ...	84
Durgādāsa	12, 20	Gītābhāṣya	90
Durgācārya	35	Gītagaṅgādhamam	62
Duṣṣeṇa	50	Gitagṛisam	62
Dvādaśalakṣaṇīmīmāṃsa.	35	Gitagōvinda. 57, 61, 62, 63, 67, 69, 203	
Dvārapāla	27	Gītāgōvindavyākhyā ...	205
Dvirūpakōśa	27	Gītāgōvinda with com- mentary	59
Eccadattaṇ	94	Gītārāghava	62
Ēkāgnikāṇḍa	143	Gītāratnamālā	64
Ekaśilā	82	Gītāśāra	91, 250, 251
Ekaślōkivyākhyā	102	Gōpadatta	26
† Elīli	119	Gōpāla	34, 67, 80, 212
† Elūmpanṛi Nāgaṇ Kum- araṇ	132	Gōpālaka	34
† Erukkāṭṭūr Tāyaṅkaṇ- ṇaṇ	132	Gōpālavipaścit	224
† Erumaiveḷiyaṇār	132	Gōvardhana	26, 34, 43, 59
† Erumaiveḷiyaṇār Mōha- manakkāḍalār	132	Gōvardhaniyōṇādivṛtti ...	26
† Eṭṭuttogai	131, 134	Gōvinda	256
† Eyiṇandaimagaṇ Ṇāṅki- raṇār	132, 137	Gōvindabhagavatpāda ...	100
† Eyiṇandaiyār	137	Gōvindaṇātha	101, 259
† Eyiṇiyaṇār	135	Gōvinda-yōgindra	102
		Gṛhyātātparyadarśana ...	5, 16
		Gulabrāya	87
		Gulāvarāyavarma	242, 244
		† Guṇakkāḍarpeyarōṇ ...	112, 299
		† Guṇaṇūl	126

	PAGE		PAGE
Gunārāma	68	† Isaittamiḷ Padinārupa-	
Gurusāṅgitasāstra	34	dalam	125
		Īśāvāsya	90
Īlāla	43	Iṣṭārthakalpavalli	209
Īlālayudha. 23, 32, 40, 43, 183, 184		Īśvaratīrtha	100
Īlaṅsaparamēśvara	91	Īśvaratīrthacārya	256
Īlāra	43	† Iyarpa	113
Īlāracāpārōpaṇa	68, 214	Iyarpagaināyanār	93, 98
Īlāradatta. 13, 15 16, 17, 18, 32, 171		Jagaddhara	75
Īlārāvāli	32, 41, 43	Jagannāthāśrama	83, 235
Īlāri	32	Jaimini	6
Īlāricandra	44, 46 73	Jaiminigr̥hyasūtra	5
Īlārihara	41, 42 188	Jaiminigr̥hyasūtravyā-	
Īlāriharatāratāmyastuti... ..	17	khyā	5, 150
Īlārimiśra	68	Jaiminisūtravyākhyā	151
Īlāriprabōdhayamaka	32	Jaiminiya	5
Īlārivaṅśa	32	Jaimintyagr̥hyasūtra	6
Īlārivijaya	66	Jaimintyam	7
Īlārṣa	68, 215	Jainōlābhādīn	24
Īlārṣacarita	32	Jālbhaṇa	18
Īlārṣamalaka	101, 102, 258	Jāmbha	50, 51
Īlāvayāha	2	Jānakiharāṇa	18, 19, 20, 27
Īlāmacandra	12, 109	† Jāṅgamaḷ	316
Īlādayasūtra	90	Jayadēva. 57, 58, 59, 60, 68, 69,	
		82, 204, 215	
† Īlāikkāḍar	116	Jayadēvatarkālāṅkāramiś-	
† Īlāmpūraṇar	104, 105, 125, 127	ra Mahāmahōpādhyaya	68
† Īlāṅgōvaḍigaḷ	119, 120, 122,	Jayāditya	12, 13, 17, 27
124, 314, 324		Jayakōśa	27
† Īlāṅjētcenni	123	Jayapaddhati	245
† Īlāṅkai (Ceylon)	121, 317	Jayarṇava	245
† Īlāirakāḷiyam	126	† Jīnēndramālai	124
Īlāira	12	Jiṣṇu	50
† Īlānārpadu	128, 330, 331	† Jīvakacintāmaṇi 107, 108, 111, 275,	
Īlāiyanār	115, 135, 333	276, 277, 284	
† Īlāiyanāragapporuḷ	110	Jñānaghanācārya	100, 256
† Īlāiyanārporuḷurai	107	Jñānagiriyācārya	100, 256
Īlāigapa	42	Jñānasambandha	97, 98
Īlāigapadaṅḍādhinātha	41, 190	Jñānayaḷḷā	145, 146
Īlāigapadaṅḍānātha	188	Jñānōttamācārya	100, 256
Īlāigapadaṅḍēśa	189	Jyautiṣadarpāṇa	89, 248, 249
† Īlāinūpukkam	126	Jyautiṣam	245

	PAGE		PAGE
† Kaccipet̃tu Ilantaccañar.	137	† Kaḷḷiyattiraiyan ...	135
† Kaccipet̃tu Kāñjik- korran	135	† Kalporu Siḡunaraiyar..	135
† Kaccipet̃tu Nannā- gaiyār	135	† Kaḷḡmalam	117, 130
† Kadakkannan	135	Kalyāṇa	62
† Kaḍambañur Śāṇḍiliyan.	135	† Kalyāṇakadai	116
Kadambari	25	Kalyāṇa Subrahmaṇya ...	80
† Kadappillaiyar... ..	137	Kalyāṇa Subrahmaṇya Sūri	224
† Kaḍiyalūr Urutti- raūkañañar	132, 135	Kāmadeviya	64
† Kaḍiyanalliyār... ..	116	<u>Kāmakalāsūtra</u>	89, 90, 249, 250
† Kaḍuḡu Perundēvan ...	135	† Kāmakannippaśalaiyar	137
† Kadundoḍaik — Kaviyañar	132	Kāmandaka	25
† Kadūtōtkaraviraṇ ...	135	Kāmandakinti	25
† Kaḍuvaṇ Maḷḷañar ...	137	† Kāmañjerkulattār ...	135
Kaivalyananda Sarasvati.	91	† Kāmappodiyār	135
† Kaiyañar	116	Kāmasūtra ... 25, 70, 71, 73, 74, 75	
Kaiyata	81	Kāmirāya	83, 223
† Kakkaiḷaḍiṇi Naccen- ṇaiyar	135	Kampa	75
† Kakkaiḷaḍiṇiyār	116	Kampaṇa	80
† Kālakēsi... ..	117	Kamparāja	79, 218, 219, 221
† Kālamukha	119	Kaṇāda	33
Kālāpa	33	Kaṇādatantra	33
† Kālārikāḍigaiyar	135	† Kaṇaikkalirumporai ...	113
† Kaḷariyāviraī	126	† Kaṇakkāyañar	107, 110
† Kaḷavaliñarḷpadu	113	† Kaṇakkāyañar Tartañ ...	135
† Kali	126	† Kaṇakkīyal	116
Kālidāsa 9, 17, 18, 19, 20, 25, 33, 64, 68, 215		† Kaṇānūl	126
† Kaḷimaṅgalañkīḷār	135	† Kaṇappertanda Uḡgi- rapperuvaḷudi	133
† Kaḷiṅgattupparaṇi	126	Kāñcanayallaiyārya	89, 249
Kalisamvatsaranirṇaya ...	25	† Kañci	119
† Kalittogai. 107, 108, 111, 117, 124, 126, 132, 272, 277, 280, 281, 290		† Kandarattañar	137
† Kallaḍam	111	Kāndram	245
† Kallaḍar. 105, 111, 116, 133, 135		† Kaṅgulveḷlattār	135
Kallaḍararai	111	† Kaṇipuñ Kuñraṇ̃ar	137
Kallaḍañar-virutti	292, 297	† Kāñjippulavañar	137
† Kaḷḷambāḷañar	137	† Kaṇṇāḡañar	137
† Kaḷḷikkuñḍi Pūḍambul- lañar	137	† Kaṇṇaḡi	119, 120, 121, 122, 315, 318, 324
		† Kaṇṇampullañar	137
		† Kaṇṇañ	135
		† Kaṇṇaṇḷēndañar	128
		† Kaṇṇañ Koṇṇañar	137

	PAGE		PAGE
† Kannan Kūttanār, Ma- durai	127	Kāsmīravallabhadēva ...	26
Kaṇṇappanāyanār	95, 98	† Kāsupan Kīraṇār	137
Kapardi	11, 148, 168, 169	Kāśyapa	89
<u>Kapardibhāsyam</u>	4	Kāśyapagōṭra	63
† <u>Kapardikārikā</u>	11, 111, 116	Kāṭhaka	143
Kapardiśiṣya	168	† Kāṭṭurkīlār-maganār Kannanār	133
† Kapardiśvāmi	4, 5, 111	Kātyāyana. 25, 43, 46, 172, 176, 177	177
† Kapila	25, 133	Kātyāyanam	7
† Kapiladēvar 128, 132, 135, 137, 331		Kauṇḍīnyam	7, 68
† Kapilar	116	Kauravya	50
<u>Kapphanābhyaṇḍya.</u> 25, 33, 49, 52, 54, 55, 195, 196, 197, 198, 199		Kauśika	1
† Kāppiyam Śendaṇār	137	Kauśikarāma	5, 148, 149
† Kāriḡai	117	Kauśitakam	7
† Kārikāla I.	123, 124	Kauṭīlya	34
† Kārikālacōla	129	† Kauthuma	5
† Kārikārcōla	122	† Kavaimagan	135
† Kārikārperuvaḷattān	123	† Kāvāṇmullai Maḷukkāt- tanār	137
† Kārikānṇan	135, 137	† Kāvāṇmullai Pūdanār... ..	133, 135
Karṇa	67	† Kāvattanār	133
Karṇāṃpta	58, 199	Kavikalpadruma	12
† <u>Kārnāpadu</u>	127, 325, 326	<u>Kavikalpalatā</u>	44, 80, 81, 224, 225, 226, 227
† Karuvūr Kadappiḷlai	135	Kavikaṇṭhapāsa	64
† Karuvūr Kadappiḷlai Śāttanār	132, 137	Kavikarṇapura	80
† Karuvūr Kalīṅgattār	132	† Kavimayakkarai	117
Karuvūr Kaṇṇampulla- nār	132	Kavirahasya	23, 25
† Karuvūr Kannan Para- nanār	132	† Kāviri	109
† Karuvūr Kīlār	135	† Kāviriṇṇāmpaṭṭinam	119, 130
† Karuvūr Kōtamanār	137	† Kāviriṇṇāmpaṭṭinattu Kandarattanār	135
† Karuvūr Naṇmārpaṇ	133	† Kāviriṇṇāmpaṭṭinattu Kannanār	133
† Karuvūr Pavuttirai	135	† Kāviriṇṇāmpaṭṭinattu Kārikānṇanār	133, 135
† Karuvūr Pūcattanār	133	† Kāviriṇṇāmpaṭṭinattu Śendan Kannan	135
† Karuvūr Śeramāṇ Śāt- tan	135	† Kāviriṇṇār (The Cauvery)	108
Kāśikā	33, 172	Kavisāṅgraha	21
Kāśikākāra	33	† Kavundiyāḍigaḷ	324
Kāśikāvṛtti	11, 12, 13, 18, 34	Kāvyaḍarsa	25
<u>Kāśikāvākhya</u>	171		
Kāsmīravallabha	24		

	PAGE		PAGE
Kāvya-paricchēda ...	25	Koṇḍubhaṭṭōpādhyaya ...	63, 65, 205
Kāvya-prakāśa	33, 64, 230	† Koṅḡilāṅgōśar ...	121, 317
Kāvya-prakāśika	33	† Koṅḡu	121
† Kayamaṅār	132, 135, 137	† Koṅḡunāḍu	121
† Kayattūr Kiḷār	135	† Kōpperuḍcōḷaṅ	135
† Kayavāhu (Gajābāhu)... ..	121, 317	† Korḡai	121, 317
Kēsaramālā	26	† Korraṅār	133, 138
Kēsava	26, 45, 46	† Korraḡ Korraṅār	133, 138
Kēsavasvāmi	34	† Koṭṭaiyūr Nallandaiyār	138
Khādirasūtra	6	† Kōṭṭambalattuttuḡjiya	
Kicakavadhayamaka	26	Śeramāṅ	133
† Kiḷaṅḡir-Kulapadinaiik- kaṅṅaṅ	135	† Kōṭṭambalavaṅār	138
† Kiḷaṅkāviḍi Kiran		† Kōvadattaṅ	135
Kaṅṅaṅār	138	† Kōvalaṅ... ..	119, 122, 315, 318
† Kiḷaṅkāviḍi Peruḡ-		† Kōvaṅār	133
korraṅār	138	† Kōvēṅḡaipperuḡkadavaṅ	135
† Kiḷār Ktraneyiriyār	133, 135, 138	† Kōvūr-Kiḷār	135, 138
† Kiḷḷi-Kiḷār	135	Kramadīpikā	64, 92, 252
† Kiḷḷimaṅgalaṅkiḷār	135	Kriyakōśa	21
† Kiḷḷimaṅgalaṅkiḷārmagaṅ.	138	Kṛṣṇa	23
Kiraṅāvalikāra	34	Kṛṣṇadēvarāya	67
† Kiraṅḡiraṅār	138	Kṛṣṇakarnāmtam	57, 201
† Kiraṅiyam	117	<u>Kṛṣṇakarnāmtavyakhyā.</u>	58
Kirātārjunīya	26, 49	Kṛṣṇallātaraṅḡinī	57
† Kirattaṅār	133, 138	Kṛṣṇamiśra	212
Kirmira	50	Kṛṣṇānandavārya	90
Kirtimātalaṅkāra	26	Kṛṣṇa Paḡḍita	21
Kirtivarmaṅ	67, 212, 213	Kṛṣṇaśarma	67
† Kōcceaṅḡaṅ	113	Kṛṣṇaśrama	211
† Koḷḷimaṅḡalattu Vāḍuḷiṅ		<u>Kṛṣṇavajurvēda</u>	141
Śēndaṅār	133	Kṣēmēndra	18, 20
Kōhalaka	26, 34	Kṣīrasvāmi	34
† Kōkkuḷamurraṅār	135, 138	Kūcimaṅci	16
† Kōḷambakkaṅār	138	† Kuḷakkōccēral	314
† Kōḷi (Urāiyūr)	121, 122, 317	† Kūḷalūr-Kiḷār	135
† Kōḷiyūr-kiḷār-magaṅ		† Kūḷalūr Palkaṅṅaṅār... ..	138
Śēḷiyaṅār	138	† Kuḷamūkkirpaḡavar	116
Kollam	106	† Kuḷavāyil Kirattaṅār... ..	133, 135, 138
† Kollanaḷiśi	135	† Kudiraittiyaṅār	138
† Kōḷḷikkaṅṅaṅ	135	† Kuḷambaṅār	138
† Koṅamaṅēḍuṅkōṭṭaṅār	138	Kulapadmāḍiyadēvakavi	88, 246
Koṅḍubhaṭṭa	203, 207	† Kuḷarrattaṅ	135
		† Kulavaṅikaṅ Śāttaṅ	324

	PAGE		PAGE
† Kūlikkorraṇ	135	<u>Kuvalayananda</u> ...	66, 68, 81, 82, 86, 227
Kullōkabhaṭṭa	8	† Kūvaṇmaindan ...	135
Kulōtṭaṅga	30	Laghubhaṭṭāraka ...	90
Kumāracarita	26	Laghuvṛtti	37
Kumārādāsa	18, 19, 20	Lakṣmīdhara ... 63, 67, 69, 203, 210	
Kumārasambhava	26, 34	Lakṣmaṇa	63, 64
Kumārasambhavavyākhyā.	34	Lakṣmaṇasēna	59
Kumārasvāmīsōmapīthi.	20	Lakṣmaṇasūri	205
Kumari	105, 106	Lalitākhyāna	91
Kumārikauśala	88	Lalitōpākhyāna	90
Kumārikauśalam	245	<u>Laukikanyāyaratnākara.</u>	85, 87, 241, 242
† Kumariyār (Lōpāmudra)	108	Laukikanyāyasaṅgraha ...	87
† Kumīlināḷāṇ-Nappa-		Lilāśuka	57, 58, 201
śalaiyār	133	Lilāvati	38
† Kuṇākaraṇāḍu	106	Liṅgabhaṭṭa	32
† Kuṇavayirkōṭṭam	314	Liṅgabhaṭṭiya	12, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40
† Kuṇḍalakēsi	117, 119	Liṅgabhaṭṭiyam	32, 186
† Kuṇḍala-Nīla-Piṅgaḷa-		Liṅgākārikā	30
Kāla-kēsi	310	Liṅgānūsāsana	30, 37
Kuṇi	17, 18, 172	† Lōkāyatika	119
† Kuṇṇāḍu	106	† Lōpamuṭṭaraiyār	109
† Kuṇriyanār	133, 135, 138	† Mādalanār	116
† Kuṇṛukaṭṭpāliyādanār ...	138	† Mādālūr Kiḷār	136
† Kuṇrūr-Kiḷārmagan		Mādhava	3, 13, 17, 29, 43, 75, 76, 79, 221
Kaṇṇattanār	138	† Mādhavācārya	107
† Kuraiyiraiyār	135	† Mādhavi	119, 122
† Kurāḷ	110, 128	† Mādhyandina	7
† Kuriṇḍippaṭṭu	107	† Mādīrttan	136
Kūrmapurāṇa	34	† Madiyāṇār Nāḍagat-	
Kūrmayāmaḷa	245	tamiḷnūl	127
† Kūrṇaṇ Kumaraṇār	138	† Madurai	315
† Kurugu	126	† Madurai Aḷakkarūḷār	
† Kurumbanaiṇāḍu	106	Maḡar Mallaṇār ... 133, 136, 138	
† Kurundōgai. 107, 108, 111, 126, 129, 131, 134, 279, 281, 282, 333		† M. * Āṇḷaviyanāṭṭu-	
† Kurūṅḡḍi Marndaṇār ...	133, 135	Ālamperisāttanār ...	138
† Kurūṅkiran	135	† M. Āṇḷaviyāṇikaṇ Iḷa-	
† Kuruvaḷḷudiyār... ..	133	vēṭṭanār	133, 136, 138
Kuśika	145		
† Kūttanūl	126		
† Kūttarāṅruppaḍai	107		
† Kuṭṭuvan	117, 131		
† Kuṭṭuvan-Kaṇṇan	135		

* M. stands for Madurai.

PAGE	PAGE
† M.* Āsiriyaṅ Kōḍaṅkor- raṅ 136	† M. Olaikka 'ai Attar Nalavellaiyar ... 130
† M. Āsiriyaṅ Nallandu- vaṅ 133	† M. Palāśiriyaṅ Nambā- vaṅ 134
† M. Eluttalaṅ 133	† M. Palāśiriyaṅ Narrā- maṅ 134
† M. Eluttalaṅ-Śendaṅ Pūdaṅar 133, 136	† M. Palāśiriyaṅ Śēnaṅ- kūttāṅ 134
† M. Ṇampalāśiriyaṅ-Śēn- daṅkūttāṅ 133, 138	† M. Palāśiriyaṅ-Śendaṅ Korṅṅar 139
† M. Ṇaṅkaṅsikaṅar ... 133	† M. Paṭṭimarudaṅkiṅār- magaṅar Śōguttaṅar. 139
† M. Ṇattup Pūdaṅrēvaṅar. 133, 136, 138	† M. Paṅḍavaṅikaṅ Ṇaṅā- gaṅrēvaṅ 134
† M. Kaḍaiyattār Magaṅ Veṅṅagaṅ 136	† M. Paṅḍavaṅikaṅ Ṇan- dēvaṅ 134
† M. Kadakkappaṅ ... 136	† M. Pēralāvāyār ... 134, 139
† M. Kaḍarattaṅar ... 133	† M. Perumarudaṅar ... 139
† M. Kaḷṅirkaḍaiyattaṅ Veṅṅagaṅ 133	† M. Perumarudilaṅā- gaṅar 139
† M. Kamakkappaṅi Nap- pālattaṅar 133	† M. Peruṅkollaṅ ... 136
† M. Kaṅakkāyaṅmagaṅ. 136	† M. Ponkollaṅ Veṅṅaga- ṅar 134
† M. Kaṅḍagattaṅ ... 136	† M. Pōttaṅar 134
† M. Kaṅḷippulavaṅ ... 133, 136	† M. Pullaṅkappaṅar ... 134
† M. Kaṅṅaṅar 136	† M. Pūvaṅḍaṅagaṅ Vēṅ- ṅaṅar 139
† M. Kaṅṅaṅkūttāṅar ... 127, 326	† M. Seṅgaṅṅaṅar ... 133
† M. Kaṅṅattaṅar ... 133, 139	† M. Suḷḷampōdaṅar ... 139
† M. Kāruṅaviyaṅkūṅra- ṅar 139	† M. Tamiḷkūttāṅ Kaḍu- vaṅ Maḷḷaṅar ... 133
† M. Kavṅuṅiyar Muṅttaṅar. 133	† M. Tamiḷkūttāṅ Nāgaṅ- rēvaṅ 133
† M. Kiraṅar 133	† M. Tamiḷāśṅriyaṅ Mak- kāyaṅar Maṅḷakkar Kaṅimēdhāviyaṅ ... 328
† M. Kolampulla ... 136	† M. Tattakaṅkappaṅar. 133
† M. Kollaṅ Veṅṅagaṅar. 139	† M. Uppūrikiṅār Maga- ṅaṅvaṅ Urntṅiraṅmaṅ 131, 332
† M. Kūṅlaviṅagaṅ Śitta- laiccāttaṅar 133, 136, 317	Māgha 29, 64
† Maduraikkāṅḷi ... 107, 125, 127	Māghakāvya 36
† M. Marudaṅ Ṇaṅagaṅ. 134, 136, 139	Māghavyākhyākṅṅt ... 37, 38
† M. Marudaṅ Ṇaṅkaṅṅa- ṅar 139	Mahābhārata ... 36, 64, 91, 251
† M. Marudaṅkiṅārmagaṅ Peruṅkappaṅar ... 134, 136, 139	
† Maduraṅḍu 106	
† M. Nakkiraṅ 133	
† M. Nalavelli 136	

* M. stands for Madurai.

	PAGE		PAGE
Mahābhāṣya. 18, 20, 29, 36, 58, 86, 199		Mantrakalpa	252
Mahābhāṣyakara	36	Mantrasamhitā	6
Mahādēva	68, 215	Mantrasāra	92, 252
Mahāvaiśṇavo	123	Mantrōpaniṣad	90
Mahāvīracarita	36	Manu	8, 29, 36, 69, 141, 150
Mahēśvara	43, 44, 45, 46, 47	Mannmanarapati	80
Mahimnasstōtra	29	Mannsmṛti	8
Maithila Kṛṣṇadatta	64	Maṅyalōka	68
Maitrēya	29	† Māpuraṇam	108, 117, 271
† Makirti	107	† Māpuraṇamudaiyār	116
† Mālaināṇ	136	† Māraṇvaḷudi	139
† Malaipadukadāṁ. 107, 108, 117, 127, 271, 274, 292		Mārkaṇḍeyapurāṇa	29, 37
<u>Mālatimādhava.</u> 37, 64, 66, 69, 74, 75, 216, 217		† Mārkaṇḍeyanār	116
<u>Mālatimādhavapradīpikā.</u> 217		† Mārkaṇḍeyanār Kāñji. 117	
<u>Mālatimādhavavyākhyā.</u> 73, 216		† Mārōkkattu Nappaśa- laiyār	139
† Malayamādhavau (Aga- stya)	109	† Mārōkkattut Tāmak- kaṇṇi Nappālattanār. 134	
† Malayan	119	Mārtāṇḍa	37
Malhaṇa	46	† Marudai Perumaṅgan Iḷanāganār	139
† Maḷḷanār	134, 136, 139	† Marudampāḍiya Iḷāṅka- ḍuṅkō	134, 139
Mallinātha	12, 20, 58, 59	† Marudampāḍiya Neduṅ- kō	134
Mallināthasūri	107	† Maruṅgūr Pāgaiccātan Pūdanār	134
† Māmilaḍan	136	† Maruṅgūrppaṭṭinattu Śōndan kumaranār	139
Mammata	81	† Māsattuvāṇ	318
† Māmūlanār. 116, 134, 136, 139, 332		Mātrigupta	29
† Māmūlar	116	Maudgala	13
Mānasa	29	Maudgalyagōtra	66
† Mānāygan	318	† Māvalattan	136
Maṇḍanamīśra	47	† Māvita	119
Maṇḍapa Kauśika	72	Māyaṇa	75, 79, 219, 221
† Mandiranūl	117	† Mayēccurar	116
Maṅgala	46	† Mayēḍan	136
† Māṅguḍi Kīḷār	136, 139	Mayūra	68, 215
† Māṅguḍi Marudan	136	Mayūrarāja	29
Maṇi	58, 199	Medinīkāra	42, 43, 191
† Maṇimēkhalai. 108, 119, 127, 272, 276		<u>Medinīkōśa</u>	42, 47, 190
Maniśāpañcakavyākhyā. 102		Mēghasandēśa	37
† Maṇiyāram	117, 310		
Maṅkhuka	66		
Mantradēvatāprakāśika. 92, 252			

	PAGE		PAGE
† Méru	108, 109	† Muruval	126, 127
† Milaikilān	136	† Multollāyiram ...	113, 117, 127
† Milaikkanḍan	136	† Naccēndanār	138
† Milaikkilānalvēttanār.	139	† Naccinārkkiniyar.	104, 105, 107, 108,
† Milaipperuṅkandan ...	136	110, 113, 115, 123, 125, 127, 128, 263,	
† Milaipperuṅkanṇan ...	136	271.	
† Milaivēdittan	136	Naccinārkkiniyarurāi ...	104
† Milipperumpadumanār.	139	† Nāgampōita	136
† Mineritūṅḍilār	136	Nāgan	96
† Mōḍāsanār	136	Nāgananda	35, 51
† Mohānāman	123	Nāgavarma	83
Mōkṣadharmā	29	Naiśadha	35
† Mōnakakkārtaiyanār ...	134	Naiśadhiyacarita... ..	58
† Mōsikannattanār	139	† Nakkannan	133, 138
† Mōsi Kiran	134, 136, 139	† Nakkiranār (Nakkirar).	107, 110, 115,
† Mōsi Korran	136	116, 127, 133, 136, 138	
Mṛḍukrtīḍāvivēka	64	Nakulīśapāśupatadarśana	13
† Muḍamōṣiyār	269	† Nālaḍināppadu	117
† Muḍaṅgikkadanda Nāñ-		† Nālaḍiyār. 108, 117, 126, 271, 272,	
jēralāḍan	134	274, 275, 278, 280, 281, 282,	
† Muḍattirumāṅṅan (Kūn		283, 287, 288, 289.	
Pāṅḍiyan)	139	† Nalavūr Kilār	138
† Mūḍeyinanār	134	† Nallanduvanār	132
† Mūḍukūṛṅṅanār	139	† Nallarānār	116
† Mūḍuveṅkanṇanār	139	† Nallar Pūranḱilār	133
† Mukkālarāsan Nalvel-		† Nallāsiriyaṅ	115, 116
laiyār	139	† Nalli	119
Mukunda	58	† Nallūr Śirumēḍāviyār.	138
† Mūlaṅkiranār	139	† Nal Vēllyār	138
† Mūlar	116	† Nalvēttanār	138
† Mullaippāṭṭu	107, 108, 275	† Nalviḷakkanār	138
† Muḷliyūr Pūdi	134	† Nāmalārmagan Ilāṅkan-	
† Muṁmaṅṅikkōvai	117	ṅan	136
Muṅḍakōpaniśadvyākhyā.	102	Nāmaliṅgānuśāsana. 22, 23, 24, 27, 32,	
† Muṅpālaināḍu	106	41, 44, 49, 56, 118, 186	
† Muṅṅurai	129	Nāmaliṅgānuśāsanavyā-	
† Muṅṅurai Araiyan	129	khyaṅa	23
† Muppēr Nāganār	139	Nāmamāla	27, 35, 43
† Mūppeṭṭuceyyuḷ	117	Nāmāvali	35
Murāri. 29, 64, 65, 66, 67, 208, 209,	210	† Nambikuṭṭuvanār	136, 138
Murārināṭaka	37	Nānārthadīpikā	64
† Murugaṅu	275, 280, 282, 284,	Nānārtharatnamāla. 41, 42, 188, 189, 190	
286, 288, 291			

	PAGE		PAGE
Nānārthasaṅgraha ...	35	† Nilakēśi	117
† Nāṅbalūr Śīrumédāviyār.	133	† Nilakāṇḍandaneḍmuḍi-	
Nanda	54	yannal (Kṛṣṇa) ...	108, 109
† Nandi	117	† Nilantaruttruvir Paṅḍi-	
† Nāṅgūr	123	yan (Paṅḍiyan Makirti).	105
† Nāṁmaṅkkaḍigai ...	108, 125, 126	† Nirambai	125
	274, 277, 280	† Nirambaiyarkāvalan ...	125
† Nannāgaiyār	136	Niṣpāvaka	145
† Nannan	117	Nityabōdhaghanācārya ...	100, 256
† Nannūl	118	† Nivirai Eḷiyandiyanār...	133
Nānyadēva	73	† Nocciniyamaṅkiḷār ...	133
† Nappalattanār ...	138	† Noypāḍiyār	133
Nārada	27, 88	Nṛṣimha	80
Nāradapāṇicarātrāgama.	7	Nṛṣimhāśrēma	83, 84, 235
Nāradasaṁhitā	88, 246	† Nūl	126
Narapati	87, 88, 245	Nyāsakāra	28, 35
Narapatijayacarya. 87, 88, 244, 245, 246		Nyāsakṛtānūsāsana ...	28
Narasimha	92	Ōraṅgallu	82
Narasimhabhārati ...	100, 256, 257	† Ōri	119
Narasimbatirtha ...	100, 256	Ōṣṭhyakārika	25
Nārāyaṇadikṣita ...	65, 206	† Ōviyanul	126
Nārāyaṇatirtha ...	57, 58	Padacandrikā	24
† Nariverū Uttalaiyār ...	136	† Padaḍivaiḅgalār ...	136
† Narrāmanār	138	Padakāravākya	35
† Narrāṅkorraṅnār ...	138	Padamaṅjarī. 13, 16, 17, 20, 35, 171	
† Narrinai	108, 113, 128, 131,	† Paḍirūppattu	127, 128, 129, 132
	137, 273, 275, 334	† Paḍiṅṅkiḷkkaṅakku ...	128
Nāthānanda	89, 90, 91	Padmāḍityadēvakavi ...	87
† Naṭṭattanār	116	Padmapāda	102
† Neḍiyōṅ	106	Pādma Purāṇa	7
† Neḍumāṅtērkkilḷi ...	117	Padmanābha	80
† Neḍumpalliyeṭṭai ...	136	Padmāvati	59
† Neḍunalyāḍai	107, 108, 126,	† Padumaṅnār	136
	274	† Paḍumāttu-Mōśi-Kīra-	
† Neḍuvēṅṅilavinār ...	136	nār	136
† Neydal Kārkkian ...	136	† Paḍumāṅru-Mōśi-Korṅan.	136
† Neydal Tattanār ...	133, 138	† Pahrūḷi	106, 320
Nidāna	81	Pakṣadhara	68
† Nilakāṇḍaṅkalaiḅkōṭṭut-		Pala	43
tan ¹ anār	138	† Pālaiḅḍiḅya Peruṅka-	
Nilakāṅṭha	91	duṅkō	133, 136, 334
Nilakāṅṭhadikṣita ...	65, 206		
Nilakāṅṭhavijayam ...	65, 205		

	PAGE		PAGE
† Peruvaṇḍi	138	<u>Prapañcasārasaṅgraha</u> ...	92, 252, 253
† Pēyaṅ-Pēyaṅār-Pēyar...	136	<u>Prasannarāghava</u> . 63, 68, 69, 82, 86, 214	
† Pēyālvār	114	<u>Prasannarāghavavyākhyā</u> . 63, 69, 203	
† Piḍartta'aippērāṅ	130	Pratāpa	36
† Piṅgalakēśi	117	Pratāpamārtāṇḍa	64
† Piṅgalam (Chandōviciti).	117	Pratāparudra	82
Piṅgalanāga	17	Pratāparudradēva	230
† <u>Piṅgalandai</u>	118, 314	<u>Pratāparudrayasōbhṣāṇa</u>	82
† Piṅgalar (Piṅgalamuni).	118, 311	<u>Pratāparudriya</u>	82, 230
† Pinṇalaināḍu	106	Pratāpayaśōbhūṣana	231
Piyūṣavarṣa	68	Praudhamaṅōramā	12
† Podiyil	108, 109	Pravarasūtra	4, 5
† Pīramacāri	138	Pravarasūtrabhāṣya	148
† Pīrāśāttanār	138	Prayōgaratnamālā	4
† Piṣīrandaiyār	138	Prayuktākhyātamañjarī.	21, 22
† Pōḍāṅār	138	Prōta	51
† Podukkayattukkirandai.	136	† Pūḍampullaṅ	136
† Podumbilkiḷār	138	† Pūḍanār	138
† Podumbilkiḷār Magaṅ		† Pūḍaṅkaṅṅanār	138
Veṅgaṅni	138	† Pūḍaṅṅēvanār	136, 138
† Podumbil Pullāḷaṅkaṅ-		† Pūḍattālvār	114
iyār	35	† Pudukkayattuvaṅṅak-	
† Pōkkiyam	117	kaṅ-Kampūrkilāṅ	138
† Pōṅḍaiṅpaṣalaiyār	133	† Puṅār (Kāvīrippūmpaṭ-	
† Poṅṅaiyār	136	ṭiṅam).	130, 315
† Poṅṅāgaṅ	136	† Pulattiyāṅār (Sans.	
† Porunarāṅṅappaḍai ...	107, 126, 123	Pulastya).	108, 109
† Poruṅḍil Iḷaṅkiranār ...	133	† Puṅṅarpāvai	117
† Poygaittalaiyāṅaicouḷa-		† Pūṅkaṅṅanār (Pūḍaṅ-	
śīriyār	116	kaṅṅanār ?)	136
† Poygaiyālvār	113	† Pūṅkaṅṅuttiraiyār	136
† Poygaiyār	113, 116, 138	Puṅṅānandanātha	90
† Poygaiyārnūl	117, 310	† Puṅṅāṅṅūru	108, 111, 113,
Prabhākara	62	117, 125, 126, 128, 132, 269,	
<u>Prabōdhacandrōḍayam</u> ...	67, 211, 212,	272, 273, 274, 275, 276, 277, 278,	
	214	279, 280, 281, 282, 283, 284, 285,	
Pradyōta	81	286, 287, 288, 289, 290, 291, 292	
Prajāpati	2	† Purāṅpaśāgaram	117
Prakriyāsaṅgraha	11	† Puṅṅapporuḷveṅbāmālai	127
Prākṛtasaptati	36	† Pūrikkō	131, 134, 333
Prāṅakara	42, 43	Pūṅnacandra	28, 36
Prāṅēśvara	28	Pūṅnacandrakṛt	27
Prapañcasāra	92, 252	Puruṣasūkta	162

	PAGE		PAGE
Puruṣōttama	28, 41, 187	Raṅgakṣitipati	80
Puruṣōttamabhārati ...	100, 256	Raṅgarāja	37, 81
Pustakēndram	245	Rantidēva	43
Pūsupāṭi	58	Rasakālika	64
† Puṭṭkaraṅgār	117	Rasanāsaṅgraha	21
		Rasikajanamanōbhira-	
Rabhasa	30, 37, 43	mamu	16
Rācamalla... ..	83	Raṣṭrakūṭa	23
Rāgavivēka	64	Ratijanaka	68
Rāghukāra	37	Ratikañcuka	37
Rāghunātha	87, 242, 244	Ratirahasya	64
Rāghupati	80	Ratnākara	66
Rāghuvaṁśa	18, 29, 37, 49, 51	Ratnakōśa	29, 37
Rāhasyāgama	90, 91	Ratnamāla	29, 43
Rāhasyāmūṇya	90	Ratnaparāyana	29
Rāhasyōpaniṣat	91	Rāvaṇa	108, 109
Rāhula	30	Rāya	83, 231
Rājasekhara	30	Rāyamakūṭa	24
Rājatarāṅgiṇi	64	Ṛgveda	3, 9
Rākkasa Gaṅga	83	Rukmi	50, 51
Rakṣādyam	245	Rudra	43, 37, 30
Rakṣita	29	Rudrabhaṭṭa	231
Rāma	62	Rudrābhidhāna	37
Rāmābhīṣeka	37	Rudrakumāra	13, 171
Rāmābhyudaya	37	Rudrayamāla	88, 245
Rāmacandra	20, 21, 102	Rūparatnākara	30
Rāmacandrabhārati ...	100, 257	Śābarabhāṣya	39
Rāmādāsa	30	Śābarasvāmi	31
Rāmadayālu	87, 241, 242, 244	Śābdabhēdaprakāśa ...	39
Rāmādēviya	64	Śābdakalpadruma	87
Rāmākṛṣṇa	84, 238	Śābdānuśāsana	11, 12, 31, 170
Rāmānanda	67, 211	Śābdaprakāśa	39
Rāmānandāśrama	210	Śābdārṇava	31, 41, 43
Rāmānātha Sāhasāṅka ...	80	Saccidānanda	257
† Rāmāṅḍār	149	Saccidānandabhārati ...	100
† Rāmānuja	111	Śādadhvaśāmbhava	91
Rāmānujācārya	5, 11	Śāḍbhāṣācandrikā	63, 203
Rāmavarma	223	Sāhasāṅka	46
Rāmāyaṇa	30, 37, 175, 109, 116	Sāhasāṅkacarita	45, 46
Rāmeśvarakathā... ..	258	Sahasranāmabhāṣya ...	40
Raṇahita	245	Sāhityaciūtāmaṇi	64
Raṇāyanīya	55	Sāhityakalpataru	32
Raṅganātha	80		

	PAGE		PAGE
Sahityavidyā	40	Sārasvata	143
† Śakāloccanār	133	Sarasvati	47, 48
Śakalyam	7	Sārasvatikaṇṭhabharaṇa	32
Śakāṭayana 11, 12, 31, 39,	170	Śārirakasūtra	47, 86
Śakāṭayanasūtra	31	Śārngadharapaddhati ...	54, 55, 59, 79
Śakuntalam	8, 9	Sarvadarśanasāṅgraha.	13, 17
Śakuntalavyākhyā	8	Śārvadhara	39
Śākya	31	Sarvāmbā	63
Śālihōtra	31	Sarvāmbika 203,	205, 209
† Śāliyanukumarānār	138	Sarvānanda. 23, 24, 32, 40,	56, 184, 185.
Sama Veda	3, 5, 9	Śāsilekha	63
Sambandha	99	Śāsvata	31, 43
Sambapurāṇa	32	Śāsvatakōśa	39
Śāmbhaviyam	7	Śātadhvaṇa	51
Śāntihita Upaniṣad	2	Satsampradāyapravartinī	92
Sāmsārāvarta 32,	41, 43	Satsampradāyasarvasva .	252
Samudrāṅga	50	Śatśatagathākōśa	43
Sāmudrika	64	† Śāttan 135,	315, 324
Sanātana	32	† Śāttandaiyār 128,	138, 330
Sanatkumāriya 92,	252	† Śāttandaiyārmaganār	
† Saṅgams 110,	111, 124	Kāṇṇasēndanār	330
Saṅgama	75	† Śāttinādanār	135
Saṅgamarāja	79	Satyāśādham	7
† Saṅgayāppu	117	Saubhāgyahṛdaya	90
† Saṅgayāppudaiyār	116	Saubhāgyavardhinī	99
Saṅgitaōḍḍamaṇi	64	Saunakiyam	7
Saṅgitaratnākara	64	Saundaryalaharī. 92, 95,	97, 98, 255
Saṅgitasāra	40	Saundaryalaharivyākhyā	99
Saṅkalpastūryōdaya	67	Sauvalka	50
Śāṅkara 86,	102, 258	Sāyaṇa 4,	75, 219, 221
Śāṅkarabhāṣya	39	Sāyaṇācārya	79
Śāṅkarācārya. 47, 48, 92,	95, 97, 98,	† Śāyandaṁ 117,	126, 310
99, 100, 101, 252, 256,	259	† Śēmpulappēynnirār	135
Śāṅkarācāryacaritam	101, 257	† Śēmpūṭcēy	117
Śāṅkarānanda 237,	84	† Śēṇāvaraiyar 105,	108, 264, 266
† Śāṅkhapālan	117	† Śēndan	117
Saṅkhyasāstra	32	† Śēndanāṅganār	138
Saṅkhyāyanaśākhā	90	† Śēndan Kīraṇ	135
Saṅkṣēparamāyāna	40	† Śēndan Pūdan (Pūdanār)	135, 138
Saṅkṣiptabhārata	32	† Śēnguttuvan 119,	120, 323, 324
Saptaśati	43	† Śēngunra	119
Śāradātīlaka 92,	252	† Śēṅkōrkilli (Manumu- raikaṇḍa Śōlan ?)	117
Śāraṇa	59		

	PAGE		PAGE
† Śeramānendai ...	135	Skānda Purāṇa ...	32
† Śeramān Iṅguṭṭuvan.	133	Skandayāmala ...	88, 245
Śeṣa ...	39	Smṛtimuktāphala ...	7
Śeṣakāra ...	40	† Sōḷaṅ Perunkilji ...	317
† Śeyanmurai ...	117	† Śollagattiyam ...	124
† Śeydivaḷḷuvan Peruū-		† Śollūr Korraṅ ...	135
cāttan ...	135	Sōma ...	2
† Śeyilūr Iḷamponśāttan-		Sōmagiri ...	57, 58, 59
Korraṅ ...	133	Sōmanandi ...	32
† Śeyilūr Kilārmagan		Śrībrahma ...	45, 46
Perumpūdan Korra-		Śrīharṣa ...	200
nar ...	133	Śrīkaṅṭhasōma ...	32
† Śeyilūr Kōccenkaṅṅan.	133	Śrīkarṇa ...	80
† Śeyiriyam ...	117, 126, 310	Śrīkrāṇa ...	45, 46
† Śeyiriyam ...	125	Śrīmalhaṇa ...	45
† Śeyyuḷiyaluḍaiyar ...	116	Śrīnarasiṁhabhārati ...	100
Siddhanandi ...	11	Śrīnivāsa ...	6, 8, 150, 151, 154
Siddhāntakamudi ...	11, 12	Śrī Rāmanātha Vidyāva-	
Siddhāntasāmhita ...	246	caspati ...	44
† Śīlappadhikāram. 106, 108, 111, 120,		Śrī Saccidānandabhārati .	100, 257
122, 123, 124, 125, 272, 276, 314, 316		Śrī Sadbhāvatantra-	
† Śīlappadhikāram Arum-		krōdhabhaṭṭāraka ...	90
padavurai ...	323, 325	Śrī Sāhasāṅka ...	44
Śīlavihāra ...	68	Śrīvardhamāna ...	169
Śimhagirīśvarācārya ...	100, 256	Śrīṅgagiriguruparamparā.	99
† Śīdam ...	117	Śrīṅgārāḍīpikā ...	48, 193
† Śīṅgapuram ...	316	Śrīṅgāramūjari ...	83, 231, 232, 234
† Śīraikkudi Āndaiyar ...	135	Śrīṅgāraprakāśa ...	32
† Śīrakakkaipāṭiniyam...	116	Śrūtadhara ...	59
† Śīrupāṇaruppāḍai ...	107, 126	Śrūtakevalidēśyācārya ...	11, 170
† Śīruttoṭṭanāyanār ...	93, 98	Śrūtiraṅjani ...	63, 65, 202, 203, 205
Śīśupālavadhā ...	49, 51	Subāhu ...	51
† Śīttalaiccāttanār (Śāt-		Subālōpaniṣad ...	90
tanār) ...	119, 120, 122, 124	Subhagōdayāvāsānā ...	91
Śīvabhujāṅga ...	92, 95, 98, 253	Subhāṅga ...	43, 46
Śīvadharmā ...	39	Subhāṣitasudhānidhi. 75, 79, 218, 219	
Śīvaliṅgacōla ...	15	Subhāṣitatriṣāti... ..	102
Śīvānanda ...	91	Subhāṣitāvali ...	24, 26, 49, 54, 55, 79
Śīvānandalahari ...	92, 95, 98, 254	Subhūticandra ...	40
Śīvānandasvāmi ...	90	Subōdhini ...	5, 40, 150, 151, 154
Sīvarābhāsyā ...	13, 14, 90	Subōdhinikāra ...	40
Śīvasvāmi ...	11, 55, 163	Subrahmaṇya ...	80, 224
Skānda ...	40	Sudarśana ...	13, 14, 15, 16

	PAGE		PAGE
Sudarśanaċārya ...	5	† Tāṅgal Puṭkōvanār ...	133
Śuka	100, 102, 256	† Taṇṇimaganaṇar ...	138
Sukaṅṭha	68	Tantumatīdēvi ...	208, 65
Sukētu	50	Tapantya	90
Sūktimāla	17	Tārapāla	27, 43
Sūktimuktāvali ...	18	Taṭṭai	96
Śulbasūtra	4	† Tāyaṅkaṅṅaṇ (nār) ...	133, 135, 138
Sumitra	68	† Teṅganāḍu	106
Sundarānadacarita ...	32	† Tēsiṅgamālai	117
† Sundara Pāṇḍya ...	80	† Tēyurippalaṅkayirṅṅinār	138
Supratka	14, 15	<u>Tikāsarvasva</u> , 12, 23, 24, 25, 26, 27, 28,	
Surajātakamāla ...	32	29, 30, 31, 32, 56, 184, 185	
Surāṣṭra	50	Tikkabhūpati	80
Surōśvara	101, 258	Tilaka	64
Surēśvarāċārya ...	102	Timmaṅṅa, Kūcimaṅci ...	16
Sūryaśataka	32	Timmayasōmayāji ...	63, 203
Suśarmā	50	† <u>Tiṇaimālainūṅṅaimbadu</u> , 127, 326, 328	
Suśrūta	32	† <u>Tiṇaimēḷiyaimbadu</u> ...	128, 328, 330
Svacchandabhairava ...	40	† Tinamidināḅaṅ ...	135
Svacchandatantra ...	90	Tindubilva	59
Svāmi	40	† Tinṅṅaṅ	96
Svarabhairava	245	† Tipputtōḷar	135, 333
Svaramaṅjari	63, 203	† Tirikaḍugam	108, 277, 286
Svarārṅava	245	† Tiruccirṅṅambalakkō-	
Svarasīṅha	245	vaiyār	126
Svarōḍaya	245	† Tirujūānasambandhar...	95, 98
Svayambhū Brahma ...	2	† Tirukkural, 107, 108, 125, 126, 271,	
Śvētāśvatarōpaṅiṣad ...	90	272, 276, 277, 278, 279, 280, 281,	
		282, 283, 284, 287, 288, 289, 290.	
<u>Taittiriyasambhitā</u> ...	1	† Tirumaḷisaiyāḷvār ...	114
† Talaiyālaṅḅaṅam ...	117	† Tirumurugāṅṅruppaḍai...	107, 108, 125
Tālakalāvilāsa ...	64		126
† Tājavagaiyōttu ...	126	† Tiruvallūvamālai ...	111
† Tāmilāśiriyar Makkāyanār	127	† Tiruvallūvar	128
† Tāmappōḍiyar ...	133	Tiruvenḅāṭṭunaṅgai ...	93
Tāṇḍyamuni	27	Tittiri	2, 144
† Tāṇḍavarāya Mudaliyar	115	Tittiriśakha	143
† Tāṅgal Attiraiyan Ścē-		† Toḍiyōḷ	106
kūṅṅaṅār	138	† Tolkapilaṅ (r)	133, 136, 138
† Tāṅgal Muḍakkorṅṅaṅ ...	133	† <u>Tolgāppiyam</u> , 104, 110, 111, 115, 117,	
† Tāṅgal Muḍakkollaṅār.	135	125, 126, 263, 292, 275, 279, 275	
† Tāṅgal Poṅkollaṅ Venṅā-		† <u>Tolgāppiyar (nār)</u> ...	104, 108, 109,
gāḷār	138	105, 106, 107, 108, 109, 116, 128, 300	

	PAGE		PAGE
† Tonḍaimān Ilantiraiyan	138	† Vaḍamōḍaṅkiḷar ...	134
† Tonḍimāmōr Śattan ...	133	† Vaḍappiramanadan ...	136
Toṭaka	101, 258	Vadhūlam	7
Toṭakacārya	102	† Vaḍuviccai	117
Trikāṇḍa	34	Vāgada	44
Trikāṇḍaśeṣa. 27, 34, 41, 43, 187		Vāgbhaṭa ... 38, 44, 80, 81, 224	
Trikāṇḍaviveka	44	Vāguri	30, 38
Trimśikāśāstra	91	Vāhada	80
Trimuṇḍa	245	Vaiśeṣikakōśa	38
Tripurāri ... 73, 74, 216, 217		Vaidyaka	31
Tripurāsārasindhu	193	Vaidyanātha	82
† Trṇadhūmāgniyar (Tol- gāppiyar)	108, 109	Vaidyanātha Dīkṣita	7
† Tumbippāṭṭu	117	† Vaigai or Vaiyai	108
† Tumbiśōkkrāṇār	136, 138	Vaijayanti	38, 43
Tumburu	27	Vaijayantīsamvāda	38
† Tuṅgal Ōri	136, 133	Vaijayantīvyākhyāna	38
† Turaikkurumāvīrpālāś Korranār	138	Vaikhānasa	7, 8
† Tuvārāpati (Sans. Dvā- raka)	108, 109	<u>Vaikhānasadharmasūtra</u>	10, 163
		Vaikhānāśagrhya	10, 165
		Vaikhānasam	7
		Vaikhānasaprarasūtra	10
		<u>Vaikhānasasūtra</u>	6, 8, 9, 10, 155
† Udayanākumārāṅkadai (Udayanāṅkadai)	116, 126	Vaiśampāyana	2
Udayanaprayōga	33	Vaiśeṣikaparibhāṣā	31
Udbhaṭa	231	Vajraṭa	81
† Ugrapperuvalūdi	131, 132	† Vaḷaiyāpati ... 117, 119, 125, 127	
Ugrasēna	50	Vallabhācārya	38
Ukhā	2	Vallabhadēva ... 24, 49, 54, 55, 79	
Umāpati	59	Vālmiki... ..	258
Uṇādi	25	† Vāma	119
Upādhyāyasarvasva	25	Vāmādevi	59
† Uraiyaṣiriyar (Ilampū- raṇavaḍigal). 107, 108, 264, 266		Vāmakēśvaratantra	90
† Uraiūr	122	Vāmana ... 13, 17, 31, 43, 64	
† Uruttiraṣaṅman	131, 132	Vāmana Purāṇa	7
Utpalini	25, 41, 43	Vāmanasūtra	38
		Vāmanavrata	38
		Vāmanīyalīṅgānuśāsana	38
		† Vānśāsēkhara Pāṇḍya	110
Vābhaṭa	43, 44	Vandighaṭiya	23, 24
Vācāspati	41, 43, 46	Vandhyaghaṭiya	23, 185
† Vaḍamavāṅṅakkāṅ	136	Vandyaghaṭiya	184
† Vaḍamavāṅṅakkāṅ Peri- śattan	134, 136, 139	Vaṅgala Liṅgayasūri	186
		† Vāḷji	324

	PAGE		PAGE
† Vañji Balarāma Varma		† Venbāmālai	108, 117, 272
Kulāsēkhara	80, 222, 223	† Venḍāḷi	127
† Vaṇṇakkāṇḍī Sōrumarṇū-		Vēṇṇisāmhāra	31
kumaraṇār	139	† Vēṇṇakṇaṇḍār	134
† Vaṇṇappukkandaratta-		† Vēṇṇkaṭam	105, 106
ṇār	139	Vēṇṇkaṭādri	81
† Vaṇṇappuraṅkallāḍaṇār—		Vēṇṇkaṭanātha	67
Vaḷḷaiṇṇappurakkandarattaṇār	134	Vēṇṇkaṭapati	82
† Vaṇṇaraṇar	139	† Veṇṇkoṇṇan	137
Varāha	38	† Veṇṇmaṇṇippūdi	137
Vararuci	23, 30, 43, 183	† Veṇṇpūdi	137
Vārarucavārtika	38	† Veṇṇpūgan	137
† Vardhamāna	170	† Veṇṇvetṭiyār	134
Vārtikakāra	38	† Veṇṇpattūr Kaṇṇaṇḍūttan	137
† Varumalaiyāritti	136	† Veṇṇpāḍiya Kāmakkāṇ-	
Varuṇa Upaniṣad	2	ṇiyār	134, 138
† Varuttamānam	117	† Verisattan	137
Vāsanāmaṇjari	31	† Verriṇṇerṇceḷiyan	121, 122, 317
Vasantarājiya	30	† Veṭṭakāṇṇan	137
Vāsavadattā	31	Vibhākara Varma	31
Vāsiṣṭha Purāṇa	7	Vicāraśarma	94
Vāstuprakaraṇa	89, 248	Vidagdhamukhamāṇḍaṇa	31
Vāsudēva	14, 16	Vidāma	50
† Vāsudēvaṇār	116	Vidyāraṇya. 1, 84, 85, 101, 237, 238,	
Vāsudēvēndra	199	241, 256	
Vātsyāyana	31, 71, 73, 74, 75	Vidyāraṇyabhārati	100
Vātsyāyanasūtra	70	Vidyānātha	82, 231
† Vāyilāṇḍī Dēvaṇ	136	Vidyāśāṅkaratīrtha	100, 256
† Vāyil Iḷāṅkaṇṇan	136	† Vijaya	122, 245
† Vāyppiyam	117	Vijānabhairavabhaṭṭa-	
† Vāyppayaṇḍūḍaiyār	116	raka	90
† Vāyppiyaṇār	116	Vijānēśvara	38
Vāyupurāṇa	31	Vikhanas	8, 9, 157, 166
Vēdārthasaṅgraha	111	Vikramāditya	20, 41, 43
† Vēḷir	108, 109	Vikramōrvaśiya	38
† Vēḷḷaikkāṇṇattāṇār	134	† Viḷikkatpēḍaip Peruṅ-	
† Vēḷḷaikkūḍināṇār	139	kāṇṇār	139
† Vēḷḷividiyār	134, 137, 139	† Villakaviraḷiṇār	136
† Vēḷḷiyandiṇāṇār	139	† Viḷakkattāṇār	116
† Vēḷḷūr Kiḷārmagaṇār		Vilvamaṅgala	57
Vēṇṇpūdiyār	137	† Viṇaittoḷiṇcōkiraṇār	139
Vēṇṇabhūpāla	48, 194	Vindarāya	87, 242, 244
† Vēṇṇappūrṅk Kumaraṇār	134	† Virakaviraṇār	97

	PAGE
Vīranārayāna	48, 194
† Virasōḷa	113
† Virasōḷiyam	112, 113
† Vīrṛuṭṭeyinān	137
† Vīrṛuṭṭe Mūdeyinaṅār	134
† Vīrṛuṭṭe Vannaḱkaṅṛat- tanār	139
Vīrūpākṣapañcāśika	90
Viśakhadatta	31
Viṣṇucitta	149
Viṣṇupurāna	31, 38
Viṣṇusukta	162
Viṣṇuyamāla	88, 245
Viśva	44
Viśvanātha	21
<u>Vīsvaprakāśa</u>	31, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 192, 193
Viśvarūpa	43, 46
Viśvarūpācārya	100, 256
Viśvē Dēvas	2
Viśvēśvara	80
Viśvēśvaraśarasvati	92
† Viṭṭakṇḍiraiyar	136
Vōpalita	23, 31, 43, 46, 183
Vṛddhāmarakōśa	31
Vṛttaratnākara	38
Vṛtti	38
Vṛttikāra	38, 90, 173
Vyaḱi	31, 39, 41, 43, 46

	PAGE
Vyākhyāsudhā	12
Vyāsa, 2, 31, 100, 101, 102, 144	256, 258
Vyāsacalam	258
Yādavaprakāśa	37, 47
Yajñavalkya	37, 144
Yajñēśa	58
Yajñēśvara	63, 203, 209
Yajñēśvaradikṣita	65
Yajñika Upaniṣada	2
Yajur Vēda	3, 9, 144
Yajurvedabhāṣya	145, 146
Yakṣa Varma	11
† Yamadagni (Sans. Jama- dagni)	108, 109
Yamakakāvya	37
† <u>Yāpparuṅgalaccūttiram</u>	111
† Yāpparuṅgalakkārigai	115
† Yāpparuṅgalam, 112, 114, 299, 310	
† Yāpparuṅgalavirutti	117, 299, 310
<u>Yāpparuṅgalaccūttira- viruttīyurai</u>	111
Yāska	2, 12
Yayāticaritanāṭaka	37
Yōgayātra	29
Yōginijālaśambaram	245
Yōginijālaśamhāra	88
Yuddhajayāmara	88
Yuddhajayārṇava	245

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Z
6605
S3S4
v.2

Seshagiri Sastri, M.
Report on a search for
Sanskrit and Tamil manuscripts

(41)

